

श्रीसोमप्रभाचार्यविरचितः
कुमारपालप्रतिबोधः ।
KUMÂRAPÂLA-PRATIBODHA
OF
SOMAPRABHÂCHÂRYA

EDITED

WITH ENGLISH INTRODUCTION, SAMSKRIT PRASTÂVANÂ AND PARÍŚISTA

BY

MUNIRÂJA JINAVIJAYA.

(Honorary Member of the Bhandarkar Oriental Research Institute; Editor
"Jaina Sahitya Samsodhaka," Author of "Vijñapti-triveni"
"Kriparasakosha" "Śatrunjaya-tirthoddhâra-prabandha"
"Prachna Jaina Lekha Samgraha." etc. etc.)

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF
HIS HIGHNESS THE MAHARAJA GAEKWAD OF BARODA.

CENTRAL LIBRARY
BARODA.
1920.

**Published by Jansardan Sakharan Kudalkar, M. A., LL. B., Curator of State Libraries,
Baroda, for the Baroda Government, and Printed by Manlal Itoharam Desai, at
The Gujarati Printing Press, No. 8, Sassoon Buildings,
Circle, Fort, Bombay.**

Price Rs. 7-8-0

INTRODUCTION.¹

स्तुमस्त्रिसन्ध्यं प्रमुद्देमसूरेरनन्यतुल्यामुपदेशशक्तिम् ।

अतीन्द्रियज्ञानविबर्जितोऽपि यः क्षोणिमर्तुर्व्यधितप्रबोधम् ॥

सत्त्वानुकम्पा न महीसुजां स्यादित्येष झृप्तो वितयः प्रवादः ।

जिनेन्द्रधर्मं प्रतिपद्य येन श्लाघ्यः स केषां न कुमारपालः ॥—सोमप्रभाचार्यं.

Nature and Title of the Work—The work "*Kumārāpāla-pratibodha*" contains a general description of the teachings in the Jain religion given from time to time by the Jain preceptor Hemācharya to Kumārāpāla, the illustrious Chālukya king of Gujarāt, and also of the manner in which, after getting these lessons, the King gradually got completely converted to Jainism. The author has given the title of "*Jīna-Dharma-pratibodha*" to this work; but we have preferred to retain to it the title of "*Kumārāpāla-pratibodha*," for two reasons; first because that title is found mentioned in the colophon at the end of the work, and secondly because that title by itself carries to the general reader the idea of the subject-matter of the work itself.

The Mss.-material—The present edition of the work has been prepared from a palm-leaf Ms.² found in a Jain Bhandār at Patan, the ancient Capital of Gujarat and now a Taluka town in the Kadi Prānt (District) of the Baroda State ruled by His Highness the Maharaja Gaekwad. The Ms. consists of two hundred and fifty-five leaves. Each leaf is 2 ft. 7 inches long and only 2 inches broad, and on each side of it are written from three to five lines in Devanāgarī script in black ink. Each line contains from 140 to 150 letters and has three divisions separated by spaces one inch long. These spaces have holes (in the middle) through which pass strings to fasten together all the leaves. This Ms. was written at Cambay in Samvat 1458 (A. D. 1402).³

Palm-leaf Mss. of this Age and their Imperfections—As no other palm-leaf Ms. written after this date has been found by me in any of the Jain Bhandars, I am led to infer that this is one of the last palm-leaf Mss. written in Gujarat, and, in fact, in Western and Northern India. From the sources of Jain history it is found that the art of writing on palm-leaf had begun to

1—Rendered into English from the original Gujarati preface written by the editor—J. S. K.

2—This palm-leaf Ms., as also the other mentioned later on, was procured by the late Mr. C. D. Dalal, M. A., Sanskrit Librarian in the Central Library, Baroda, from Sanghavi's Bhandar and Sanghavina Padano Bhandar respectively—J. S. K.

3 This Ms. has been noticed by Prof. P. Peterson in his "A Fifth Report of Operations in Search of Sanskrit Mss. in the Bombay Circle, 1892-95.

decline from almost the beginning of the 14th century A. D. ; and palm-leaf was rapidly giving place to paper as a material of writing. At that time all the palm-leaf works in the vast Ms.-collections located in Patan, Cambay, Jesalmere and other places noted for such collections were being rapidly and simultaneously copied on paper. The oldest paper Mss. available at present all belong to this period. Similarly the latest palm-leaf Mss. to be found at present were written in that period and none written after that time is now available. This indicates that paper must have been introduced in these regions at that very time. At the time when the present manuscript was written, the practice of writing on palm-leaf was getting scarce and the scribes were on the verge of forgetting the art of writing on palm-leaf and also the art of preparing the special ink required for such writing. The calligraphy seen on this palm-leaf MS is of a very inferior kind as compared to that seen on old palm-leaf MSS. The script of the present MS. is not so beautiful as that of the MSS. of the 12th and the 13th centuries, nor is the ink so excellent. The ink used for the present MS is very thin and has now disappeared from several places and lines after lines on several pages have become so obliterated as to make their deciphering all the more difficult. Compared to this the ink used on the palm-leaf MSS. of two to three hundred years before this period appears still to be brilliant and deep black. Nor is the purity of language, to be observed in the old palm-leaf MSS., preserved in this MS. The reason of this is that the scribes of old times were men possessing a general knowledge of Sanskrit and Prakrit languages, and even good many learned men of those times used to write their works themselves. Hence, as a rule, very few mistakes are to be seen in MSS. of those times. But at the time when the present MS. was written, the process of copying palm-leaf MSS. on paper having been commenced on a very large scale, there was not to be found a sufficiently large number of scribes, possessing good literary qualifications, able to cope with this work; hence only scribes of mediocre abilities who could merely do the mechanical work of transcribing letters, were available for copying purposes. On this account these scribes committed good many mistakes in transcribing copies from old MSS, and it is on this very account that quite a large number of mistakes have crept in the present MS. of "*Kumārāpāla-Pratibodha*" An idea of the literary qualifications of the Kāyastha scribe, named Sheta, of this present manuscript can be got from the language of the colophon written by him giving the (Samvat) date, etc. of the MS.

Another MS. of the Text—Besides the above mentioned MS., another palm-leaf MS belonging to the Bhandar of Sanghavi's Pādā in Patan, was also availed of in preparing the text of this work. This palm-leaf Ms. was older than the one mentioned before and was written in a more correct manner, but it was unfortunately very incomplete and broken. It contained


leaves from 51 to 305 (even of these some leaves are wanting here and there) and thus ended abruptly from the middle of the story of Pavananjaya on "*Deshāvākāśikā*" vow given in the 4th chapter of the present work. In size it was 2 ft. 7 inches long and 2 inches broad and contained 3 to 5 lines on each page and each line contained from 105 to 120 letters.

Difficulty in Editing—Thus, since no other complete Ms. was available from any source and none is available as far as I know, I had to depend on the only one complete Ms. mentioned above; and as this was full of mistakes my work of editing this work became all the more difficult.

Account of Somaprabhāchārya, the author of "*Kumārpadā-pratibodha*":—The author, Somaprabhāchārya, is a well-known Jain learned man. He composed the present work in Samvat 1241 (or A. D. 1195), i. e. only 11 years after the death of King Kumārāpāla. From this it is evident that he was a contemporary of King Kumārāpāla and his preceptor Hemachandra. He composed this work while dwelling in the residence of the poet Siddhapāla, son of the poet-king Shree Shreepāla, of Prāgvāt (Porwad) community, for the benefit of Harischandra and Shreedevi, son and daughter respectively of Shet Abhayakumāra, son of Nemināga; and it was heard from the beginning to the end by the three learned disciples of Hemachandra himself, by name, Mahendranuni, Wardhamāna and Guṇichandra. Abhayakumāra was, as is mentioned in this very work, the head of the charitable departments, like alms-houses, etc., opened for the maintenance of helpless and disabled persons (vide pp. 219 to 220). The poet-king Shree Shreepāla was one of the best poets of Gujarat and a greatly honoured and accepted brother of Siddharāja Jayasimhadeva. His son, Siddhapāla, also, was a poet of the first rank and a beloved and bosom friend of King Kumārāpāla. In connection with the family of this poet as I have written at great length elsewhere,¹ I need not reiterate the same in this place. The poet Shreepāla was a disciple of Devasūtri, the most illustrious in the lineage of preceptors of Somaprabhāchārya; hence it was but natural that this poet's family should entertain a special veneration for the circle of disciples of this earliest preceptor and that this circle of sages should regard with affection the poet's family. The preceptors of Somaprabhāchārya and other sages generally made their stay under the roof of the family house of this poet in Anahilpur. His other great work, by name "*Sumatnātha-charita*", was also composed by Somaprabhāchārya while dwelling in this very house.

The following is the genealogical-tree of the lineal succession of the preceptors of Somaprabhāchārya, as found in the *Prashasta* in the *Kumārāpāla-Pratibodha* and some other works of different writers, —

1 See my Introduction to the drama "*Draupadī-Swayamvara*", composed by the poet Vijayapāla, son of Siddhapāla.—Editor.



All the names mentioned in this genealogical-tree are well-known in Jain history, and the various works composed by them have enriched Jain literature.

1. A well-known writer of commentaries and notes on works of Haribhadra-acharya, such as "Upadeshapāda," "Anālānta-Jayapatāla," "Lalitavistāra," "Yogabindu" and others.

2. Author of the great Jain work on logic by name "Syādādaratnāra."

3. Dharmasāgara Gani, in his own 'pattīvali' has called this Vijayasimha as the editor of the commentary—"Vivēkamanjari" a work of Balachandra (cf. "श्रीविजयसिंहविरचिते विवेकमञ्जरीसिद्धिम्"). But this is a mistake. The editor of that commentary is not this Vijayasimhasūri but is one Vijayasena-sūri of Nagendra Gachha. (See Peterson's 3rd Report, page 103). A stone inscription of this Vijayasimha has been discovered in the Jain temple at Ārāsana and is dated Samvat 1206, (See my book "Prāchīna-Jaina-Jāla-Sangraha." (Inscription No. 289).

4. Ratnaprabha has composed the well-known work on logic, entitled "Ratnālaratnālikā, and his other works, like the "Upadeshamālikā-Vritti", are also well-known.

5. Bhadrēsvara was the principal co-adjutor with Vāḍidevasūri, in composing the "Syādādaratnālarā." After his preceptor's death he was appointed the principal Acharya to his seat. Munibhadra-Sūri, the author of *Shāntinātha-Mahā-līrya*, also belonged to his succession of pupils.

6. Gunachandra composed a small work on Grammar entitled "Dharmavibhrama."

7. Mention is made of both this preceptor and his disciple in a stone-inscription at Jalore. (See "Prāchīna-Jaina-Lekha-Sangraha," Artical No. 352).

8. Author of the *Prashast* on Chāchugadeva found on the Sundha Hill (Mārvār).

9. Author of the commentary on "Vritta-Ratnālarā."

10. Author of the drama, "Prabuddha-Rohanya."

ture. From this one can see of what learned, noble and literary men the poet's company was composed. A brother-disciple of Somaprabhāchārya, by name Hemachandra, composed a *Dvīsandhāna* poem, entitled "*Nābhayanemi*,"¹ and it was edited by the poet-king Shree Shreepāla himself. Somaprabhāchārya was succeeded to his religious seat by the famous Jagatchandrasātri, who is considered to be the founder of the ascetic assembly known by the name of Tapāgachha. According to the *Pattāvahs* Somaprabhāchārya ranks 43rd² in the lineal succession from Mahāvīra.

Other Works written by the Author—(1) Sumatinātha-Charitra. Besides the "*Kumārāpāla-Pratibodha*", three other works of Somaprabhāchārya are available. One of these is the "*Sumatinātha-charitra*". It describes the life of Sumatinātha, the 5th Tirthankara of the Jain Religion. Like *Kumārāpāla-Pratibodha*, it is also written mainly in the Prākṛit language and, like it, it also contains legends and stories explaining the tenets of Jainism. It consists of verses numbering over nine thousand and a half. Mss. of this work were seen by me in the Jain Bhandars at Pātan.³

1—The following are some of the verses given in the *Prashasti* at the end of this poem:—

भक्तः श्रीसुनिचन्द्रसूरिद्युरोः श्रीमानदेवस्य च
 श्रीमान् सोऽजितदेवसूरिरभवत् षट्कर्तुगुणाम्बुधिः ।
 सद्यःसङ्कतगणपथलहरीपूरेण यस्याप्रभ-
 क्षिता वादिपरम्परा तृणतुलां घत्ते स्म वृषीकृता ॥
 श्रीमान्मृद्विलयसूरिरमुष्यशिष्यो
 येन × × × स्मस्य शरान् ग्रहीत्वा ।
 क्लृप्तं चतुर्भिरनघ शरयन्त्रमग्रे
 विश्वं तदेकविधिखेन वशं च निन्ये ॥
 श्रीहेमचन्द्रसूरिर्बभूव शिष्यस्तथापरस्तस्य ।
 भवद्दत्तये तेन कृतो द्विःसन्धानप्रबन्धोऽयम् ॥
 एकाहनिष्पन्नमहाप्रबन्धः श्रीसिद्धराजप्रतिपन्नबन्धुः ।
 श्रीपालनामा कविचक्रवर्ती सुधीरिम शोभितवान्प्रबन्धम् ॥

2 Vide J. Klatt's Extracts from the "Historical Records of the Jains" Ind. Ant., Vol. XI, p. 254.

3 The *Prashasti* at the end of this Charitra is to a great extent like the one given in the present work —

चन्द्रार्को गुणवृद्धगच्छनमसः कर्णावतसौ क्षिते-
 सुर्वी धर्मरथस्य सर्वजगत्तत्त्वावलोकने दृशौ ।
 निर्वाणावसथस्य तोरणमहास्तम्भावभूतासुमा-
 धेकः श्रीसुनिचन्द्रसूरिरपरः श्रीमानदेवप्रभुः ॥

(2) *Sūktimuktāvalī*—Another work by this author is known as “*Sūkti-muktāvalī*.” It consists of hundred verses of a miscellaneous nature. It is sometimes known as “*Sandūraprakāra*” because its first verse begins with the words: “सिन्दुरमक” and very often it is also called by the name “*Soma-shataka*”, because it consists of ‘hundred’ verses composed by Somaprabhāchārya. This work is well-known among the Jains and is repeated by heart by many a man and woman of the Jain community. It is written after the style of Bhartrihari’s “*Nish-Shataka* and contains short but pithy disquisitions on such subjects as, non-slaughter, truthfulness, non-stealing, purity, goodness etc. Its composition is very simple, interesting and easy of understanding. Some of the verses from this work are found quoted in the present work of “*Kumārāphāla-pratibodha*.”

शिष्यस्तयोरजितदेव इति प्रसिद्ध-

सूरिः समस्तगुणरत्ननिधिर्विभूष ।

श्रीति यदङ्गिकमळे मुनिशुभ्रराजि-

रास्त्वादितस्तुतरसा तरसा बबन्ध ॥

श्रीदेवसूरिप्रसुद्धा बभूवरन्येऽपि तत्तादप्रगोहसाः ।

शेषामवाचारचितस्थितीना नालीकमैत्रीमुदमाततान् ॥

विद्यारदकिरोमणेरजितदेवसूरिप्रभो-

विनेयातिलकोऽप्रवद्विजयचिह्नसूरिर्गुरु ।

जगन्नयविनेतृभिर्विमल्यीलवर्मावृत

व्यभेदि न कदाचन स्मरशरीरदीय मनः ॥

शुणेस्तस्य पदान्मोगप्रसाधान्मन्दधीरापि ।

श्रीमान्तोमप्रभाचार्यश्चरिन् सुमतेर्न्यथात् ॥

प्रान्नाटान्वयसामरेन्दुरसमग्रह कृत्स्न. क्षमी

वाम्नी सूक्तिस्रधानिधानमजनि श्रीपाठनामा पुमान् ।

यं लोकोत्तरकाल्वरचितमतिः साहित्यविद्यारतिः

श्रीसिद्धाधिपतिः कवीन्द्र इति च प्रादेति च व्याहरत् ॥

सूक्तस्तस्य कुमारपालनृपतिप्रीति. पद धीमता-

सुत्तरः कविचक्रमस्तकमणि श्रीसिद्धपालोऽभवत् ।

य व्यालोचय परोपकारकक्षणासौजन्यसत्यक्षमा-

दाक्षिण्यैः कलित कलौ कृतयुगारम्भो जनो मन्यते ॥

तस्य पौषधवाक्यानां पुरेऽणहिलपाठके ।

निष्कल्युद्धमिद् श्रोतां पदार्थान्तं (?)..... ॥

अनामोगार्किञ्चित्किमपि मतिवैकल्यवशत

विमलसौख्येन स्मृतिविरहदोषेण किमपि ।

मयोत्सृष्टं शाळे यदिह किमपि प्रोक्तमस्त्रिळ

क्षमन्ता धीमन्तस्तत्त्वसमव्यापार्णहृदया. ॥

(3) *Shatārtha-Kāvya*—Somprabhaśāstra's third work is known by the name of "*Shatārtha-Kāvya*". It gives full evidence of his unequalled command over the Saurastri language.¹

This work consists of only one verse in the *anta-stōtrā* metric, while it is explained in a hundred different ways. From this work the author was given the nickname of "Shatārtha" and is referred to by that appellation by many subsequent writers.² The author has, by himself commenting on this concise work, given its hundred explanations. At the beginning of its commentary he has written five verses, in which he has given an index to the hundred explanations intended by him. In the beginning he has given the meanings of the 21 Tirthankaras of the Jain religion, then in the middle he has given the explanations of the Vedāntic terms, like Brahmi, Nārādā, Vāsanadevatā, and at the end he has brought out references to his contemporaries, like Vasudeva and Hemachandraśāstra, the great religious preceptors of Jainism, Jyotiṣhadeva, Kurāṅgaśāstra, Ajayadeva and Śāstrik, the four great Cāhākyā Kings of Gujarat, poet Siddhanta, best citizen of the time, and Anandadeva and Vijayambhā, his two preceptors. After this, at the extreme end he has elucidated reference to himself and in the final conclusion he has quoted a short *prastāva* in five verses written on himself by the disciples of him. (See Appendix II)

According to this *prastāva* Somprabha in his ordinary life was a Vaishya of Prāgāṭhā (Porbandar) section. His father's name was Saradeva and that of his grandfather was Jureva. Jureva was a prime-minister to some prince and was greatly respected in his own time. Somprabha had taken the initiation into Jain religion quite in his boyhood, and being exceptionally intelligent he had mastered all the lore and thus attained to the position of an "Acharya" (Preceptor). He was wonderfully adept in logic, deeply learned in poetics and especially clever in delivering religious sermons.

Chronological order of these Works:—Thus including the "*Kumārāṅgā-pāla-pratīkṛtī*," our author wrote four works. Among these chronologically his "*Samatnāth-Cherita*" came first and "*Shatārtha-Kāvya*" second. In the "*Bṛhat-Tippa-mūlā*," an old list to Jain works, it is mentioned that the "*Samatnāth-Cherita*" was composed in the reign of king Kumārāpāla. As this work is also found mentioned at the end of the commentary on "*Shatārtha-Kāvya*," it is plain that it was composed prior to the "*Shatārtha-*

1 See verses on pages 146, 197, 322

2 "मोममोमुनितितिदिश. कणाधी" ।-मुनिमुदगुरिष्टतमुर्वावन्दी; also

"ततः कणाधिश्च शतः श्रीमोमप्रभापुरिषः ।"—पुनस्तन्पूरिष्टतदितियारत्नसमुच्चय

3 The original verse is as follows:—

क-याणस्यामपितानदीरक्षमोहहान्तरवारणसमानजयापये ।

धर्माधिहामदमहोदयरीभीरुमयाभावात्पामामभिद्वन्द्वे ॥

Kāvya.' It appears that the "*Shatārtha-Kāvya*" was composed between A. D. 1177 to 1179, because it refers to king Mūlarāja, who succeeded king Ajayadeva to the throne of Gujarat, and this Mūlarāja, known in history as "Bāla Mūlarāja, reigned only for two years from A. D. 1177 to 1179. The "*Kumārāpāla-pratibodha*" seems to be the last work of our author.

Other unknown Works:—Besides these four works, it is inferred that our author must have written some others, for in the work "*Shatārtha-Kāvya*", while giving explanation about the king Kumārāpāla in the commentary, he gives two verses, and makes the following remark regarding them—"द्वोचन", that is, ("which we have already given elsewhere.") Now as these two verses are not to be found in any of his known four works, the inference is that they occur in some other work of his, which is not yet known to us.

Composition of Kumārāpāla-pratibodha:—"Kumārāpāla-pratibodha" is mainly written by the author in the Prakrit language, but a few stories in the last chapter are written in Sanskrit and some portions are in Apabhramsha language as well. From this it is evident that our author was equally proficient in these three languages. The composition of the work is very simple and the language is quite plain and unsophisticated. Though the author is, as has been shown above, one of the best learned men and a first-class writer, yet there are no evidences of his special learning to be found in this work.

The Work well-known to subsequent Writers:—"Jina Mandanagani, the author of "*Kumārāpāla-prabandha*", has taken several extracts¹ from the historical portion of this work, and Jayasimha-suri has, in his "*Kumārāpāla-Charitra*", made a faithful imitation of the style of composition of this work. This shows that the writers, posterior to our author, were well aware of this work.

The Work not important from Historical Standpoint:—Looking to the great extent of this work and the time of its composition, it would seem quite natural if readers interested in history felt curious to know from it such facts about the life of Kumārāpāla and Hemachandra as are unknown and unavailable from other sources, and it is with this very idea that the present editor undertook with great pleasure the work of editing this work. But after going through the whole work he was disappointed to find that no new fact was to be discovered in such a big work. On the contrary he has to admit that the history of these two great personages given in the present work is not only as much as, but is even less than, their history given in such smaller and later works, as the "*Hemachandra-prabandha*", a part of

1. See *Kumārāpāla-Prabandha* edited by Muni Chaturvijayaji, pp. 10, 17, 58, 80, 90, 94, 95, 97, 106, 107, 111, etc.

the "*Prabhāvaka-Chārītra*" and the "*Kumārāpāla-Prabandha*", included in the "*Prabandha-Chintāmaṇi*". It would therefore not be improper to remark that from the historical point of view the present work has no special importance to us.

Importance of the Work as a Prākṛit Work—But we have to admit its importance from the point of view of the necessity of publishing Prākṛit literature on a larger scale. In the first place Prākṛit literature, that is published up to now, is of a very limited extent, and, in the second place, as the Bombay University has now added a special course of the Prākṛit language, like that of the Pāli, to its curricula of studies, the necessity of publishing works in the Prākṛit language is felt all the greater. Students therefore of this language would undoubtedly welcome the publication of such a great work at this time.

Writing History not the Author's Object—Though it is quite natural that we should feel disappointed at not being able to find any special historical information in this work, yet we must remember that the author does not deserve any blame on that account. Because in the very commencement of the work the author clearly disavows any intention of writing a full life-story of Hemachandra and Kumārāpāla. The author's object in composing this work is really not to write the history of Kumārāpāla and others, but to write a narrative, embodying the teachings of Jain religion with reference to these historical personages. In this connection he makes the following remarks — "Although the life-story of Kumārāpāla and Hemachandrāchārya is very interesting from other points of view, I am only desirous of telling something in connection with the instruction in Jain religion alone. Does any person, who, out of a tray full of various delicacies, eats only one particular thing that gratifies his special taste, deserve blame from any body?"¹

Summary of the Historical Portion in the Work—Whatever portion in this entire work has connection with history is summarised for the facilities of readers, in a separate Appendix, entitled "*Kumārāpāla-Pratibodha-Sankshepa*." On reading the Appendix, the reader will understand clearly the entire gist of this work.

The short historical summary is as follows:—

King Kumārāpāla's Succession to the Throne:—In Anahilpura Pātan there formerly reigned King Mūlarāja of Chālukya dynasty. He was succeeded successively by Chāmundarāja, Vallabharāja, known as "Jagaj-Zampana" ("World-Raider"), Durlabharāja, Bhīmarāja, Karṇadeva, and Jayasimhdeva. This Jayasimhdeva was succeeded by Kumārāpāla, the great-great-grandson of Bhīmarāja. (Bhimaraja had a son Kshemarāja, who had a son Devaprasāda, who again had a son Tribhuvanapāla, who was father of Kumārāpāla). King

1. See page 8, Gatha 30, 31.

Kumárapála was very bráve and valorous; patient and self-abnegating, very clever and liberal. He made conquests everywhere and established his reputation as a great and ideal ruler.

King's Longing to know the True Religion—Once king Kumárapála called an assembly of his learned men and asked their advice regarding the best religion to be followed which would make one's life the most happy. These learned men being Brahmins naturally extolled the merits of the Vedic religion which consisted of sacrifices and ceremonial rituals. The King, knowing that sacrifices involved slaughter of animals, could not be convinced of the merits of this religion. This made him dissatisfied and increased his desire to know the true religion. Thereupon on one occasion one of his ministers, Báhada, by name, approached the king and requested him to listen to what he would tell him if the King really desired to know what the true religion was. The Minister Báhada then gave him the following information about Hemachandra-sûri, the Jain preceptor.

Account of Hemachandra's Early Life:—There was formerly a preceptor, by name Shri Datta-suri, belonging to the Gachhcha, called "Párunatalla." Once while travelling he came to a place, called Rayanapura, in Wágada country, where ruled at that time a king by name Yashobhadra. This king began to listen to religious discourses of Shri Datta-sûri. Datta-sûri after some time left that place and went elsewhere. Afterwards King Yashobhadra lost all attachment for worldly life, renounced the kingdom, and went in search of Datta-sûri. Datta-sûri was at that time in a place, called "Dinduanápura*." The king built there a large Jain temple by name "Chauvisa-Jinálaya," and himself took holy orders and became a disciple of Datta-suri. Then he performed various austerities and made a deep study of the Shástras and finally attained the position of an "Áchárya", or preceptor, under the name of "Yashobhadra-sûri". Yashobhadra-suri went on touring in various places preaching religion to people. At last having become old in age and decrepit in body he went to the "Ujjayanta-Tirtha" (i. e. Girnár), and there after observing a fasting-vow gave up his body. He had a disciple by name Pradyumna-sûri, who wrote a work entitled "*Thánaya-Pagarana*" (or "*Sihánaka-Prakarana*"). He again had a disciple Guñasena-sûri by name and the latter had Devchandra-suri as his disciple, who wrote a commentary on "*Thánaya-Pagarana*" of Pradyumna-sûri and also wrote the work "*Shánti-Jina-Charitra*."

This Devachandra, while travelling, once came to a place by name Dhandhuká. There a young brilliant boy named Changadeva, son of the parents Chachch and Cháhní of the Modha Bama community, began to

* The author, Somaprabháhárya, at this place remarks that that "Chauvisa-Jinálaya" exists even to-day i. e. in his time at Dinduanápura.

come and listen to the preaching of Devachandra. Having become attached to Devachandra through his teachings the boy Changadeva became inclined to become the former's disciple and began to live and wander with Devachandra. Devachandra while wandering went to Cambay and there, through the maternal uncle of Changadev, by name Nemi, he persuaded the parents of Changadeva and initiated Changadeva into Jain religion and gave him the name of Somachand.

Hemachandra as an Âchârya:—This boy-ascetic, who possessed almost a superhuman intellect, became master of all Shâstras within a short time, and, as a reward of his learning his preceptor gave him the name of "Hemachandra" and raised him to the position of an "Âchârya" (preceptor). Struck dumb with admiration for Hemachandra's learning, King Siddharâja Jayasimha became his great devotee and consulted him in each and every Shâstric matter and was thoroughly satisfied. Under the influence of his teaching, Siddharâja began to feel an attachment for Jain religion and in appreciation of the same he constructed a Jain temple, by name "Râyavihâra", in Pâtan and another, by name "Siddhavihâra", at Siddhapur. At Siddharâja's request Hemachandra wrote a work, called "Siddha-Haima-Vyâkarana", a perfect masterpiece on grammar. The King's attachment for Hemachandra grew so strong that he never felt happy until he listened to the nectar-like teaching of Hemachandra.

Hemachandra and Kumârapâla:—Having related the story of Hemachandra so far, the minister Bâhada advised King Kumârapâla that if he too desired to get the knowledge of true religion, he should approach Hemachandra with devotion. Following his minister's advice Kumârapâla began to listen to the preachings of Hemachandra.

Hemachandra first began to preach to the King, by means of parables and legends, on the evil effects of animal-slaughter, gambling, meat-eating drinking, prostitution, plundering, etc., and persuaded him to prohibit these in his kingdom by issuing royal decrees. Then he gave him instruction regarding true God, true Guru and true religion as propounded in Jain religion and showed him the evils of accepting false gods, false gurus and false religion. In this way King Kumârapâla became gradually devoted to Jain religion and as a mark of his devotion he began to build Jain temples in various places. First he built a grand temple, called "Kumâra-Vihâra" in Pâtan under the supervision of the minister Bâhada and the two sons of Garga Sheth of Vâyada family, by name, Sarva-deva and Sâmba Sheth. In the central temple of this Vihâra he placed a large image of Pârshvanâth in white marble and in the adjoining 24 temples, he placed images of the 24 Tirthankaras in gold, silver and brass metals. After this Kumârapâla built another temple, called "Tribhuvana-Vihâra"¹, still grander and very much higher, with 72

1. So called because it was built in memory of his father, King Tribhuvanapâla,

smaller temples round it for the different Tirthankaras. The large cushion-shaped stone-caps on the spires and the vase-like finials that surmounted them were all built of gold, and in the central temple a very gigantic image in sapphire of the Tirthankara Neminátha was placed, with 72 images in brass of other Tirthankaras located in the smaller temples. Besides these, in Pátan alone Kumárapála built 24 Jain temples for 24 Tirthankaras, of which the temple of "Tri-Vihára" was prominent. Outside Pátan, in other places in his kingdom, he built so many Jain temples that their exact number cannot be ascertained. Of these, however, the great temple of Ajitanátha on the Tárangá Hill, built under the supervision of the Subedar Abhaya, son of Jasadeva, is worthy of mention.

King Kumárapála did not rest satisfied in showing his devotion to the Jain religion by thus building Jain temples alone, but like a devout follower of that religion he used to visit in person the Jain temples and worship the images therein. Further, in order to impress upon the people the greatness of that religion he used to celebrate with great éclat Jain festivals like "*ashúánhika*".

Kumárapála's Celebration of Jain Festivals:—These festivals he used to celebrate every year in the famous temple of "Kumára-vihára" at Pátan in the months of Cháitra and Áshvina in the latter 8 days of the bright fortnight. On the last day of the festival, i. e. on the full-moon day, in the evening, a large chariot drawn by elephants, containing the image of Párvhanátha, used to go in procession through the town to the royal palace, accompanied by the King's officers and leading citizens. The King, having personally worshipped the image amidst dances and prayers of the people, the chariot rested for the night in the palace and departed next morning to a grand pavilion erected outside the palace-gate, attended by the King in person. After being again worshipped by the King, the chariot passed through the various lanes of the city resting at intervals in the special pavilions erected on the route and then returned to its own place. The King in this way not only himself celebrated the greatness of the Jain religion but issued orders to his tributary princes to celebrate it in a similar manner. The subordinate princes also built Viháras in their own cities.

Kumárapála's Pilgrimage to Saurashtra Temples:—Once a group of Jain pilgrims, set out on a visit to Sauráshtra (Káthiawád) temples, halted on their way at Pátan. Seeing them the King also thought of going on the same pilgrimage and, accompanied by Hemachandra and a large army and a large Jain congregation, he travelled to Sauráshtra and halted at Gurinagar (Junágadh) situated at the foot of the hill Raivata (Girnar). But owing to bodily infirmity he could not ascend the hill, so he sent up his ministers to perform the worship. From there the whole party of pilgrims, including the King, proceeded to visit the temple of Rishabhadeva on the

Shatrunjaya hill. This temple was before this visit kept in proper repairs by the minister Bábada by the orders of the King. After this pilgrimage the King returned to his capital.

Kumárapála Builds Steps over Girnár Hill:—After his return the King, feeling sorry for not being able to ascend the Girnár hill, issued orders for constructing a flight of steps for ascending the hill, and at the suggestion of Siddhapála, the son of the poet-king Shripála, he appointed Ámra, son of Raṅiga, as the subedar of Sauráshtra and entrusted this work to him.

Kumárapála builds Charitable Institutions:—Thereafter the King built an alms-house (सन्नगर) for giving food and clothing to helpless and decrepit Jain devotees; and, in its vicinity, also built a monastery (पोषकाला) for enabling religious-minded persons to pass their time peacefully while performing their devotions. The management of these charitable institutions was entrusted to sheth Abhaya-kumára, son of Neminága. For this proper choice of the person the king got praise from the poet Siddhapála.

Kumárapála's Full Conversion to Jainism:—Later on Hemachandra gave to the King detailed instruction regarding the Twelve Vows to be observed according to the Jain religion and placed before him the examples of Ánand and Kámadeva, the great Jains of ancient times, and also the example of his contemporary Chhaddua, a richest Jain living in Pátan. The King accepted the initiation of these vows with great devotion and thus became fully converted to Jainism.

Kumárapála's Daily Time-Table:—After the King accepted the Jain religion he began to pass his daily life like a regular Jain devotee. The following description of his daily time-table will be found interesting.

Leaving his bed very early in the morning the king recited the sacred Jain Mantra of "Panchá Namaskára" (five salutations) and meditated on the adorable gods and gurus. Thereafter, finishing his bath, etc. he worshipped the Jina images in the household temple, and, if time permitted, proceeded on elephant to the Kumára-vihára temple in company of his ministers. After performing eight-fold worship there he used to go to Hemachandra. Having worshipped him and listened to his religious teaching he returned at midday to his palace. Then he gave food and alms to mendicants and after sending food-offerings to the Jain idols of his temple, he took his meal. Meal over, he attended an assembly of learned men and discoursed with them on religious and philosophical topics. Among these the poet Siddhapála was the principal party who always pleased the King by narrating a number of stories and episodes. In the fourth *prahara* of the day (i. e. after three o'clock) the King took his seat on the throne in the royal court and attended to business of the State, heard appeals from people and passed judgments on

the same. Sometimes purely as a part of the royal duty, he attended wrestling matches, elephant-fights and such other pastimes.

After this he took his evening meals about 48 minutes before sun-set but ate only once on the 8th and 14th days of every fortnight. After dinner he worshipped with flowers in the household temples and made dancing girls wave lights before the deities. Worship over, he listened to musical concerts and to recitations sung by *chāranas*, etc. Passing the day in this way he retired for rest with a mind filled with renunciation.

Kumárapála's Great Faith in the "Namaskāra-Mantra":—The King always recited with great devotion the well-known Jain Mantra of "Namaskāra" and he had so great a faith in its efficacy that he used to say that what he could not achieve by means of his army, he achieved through the mere recitation of that mantra. Through it even his enemies remained subdued to a Bania officer like Ambad; and not only civil wars and foreign invasions but even famines did not affect his kingdom through the power of this mantra-recitation.

Other Authorities on Kumárapála's Life:—In this way the work *Kumárapála-Pratibodha* describes in brief the gist of the religious life of Kumárapála. More detailed information about King Kumárapála and his contemporaries, who are referred to in this work can be obtained from such older works as "*Prabhāwaka-Charitra*," "*Prabandha-Chintāmani*," "*Kumárapála-Charitra*" of Jayasimha-sūri, "*Kumárapála-Charitra*" of Chāntra-sundara, "*Kumárapála-prabandha*" of Jinamandana, so also from such modern works as Forbe's *Rāsa-mālā* and the "*Bombay Gazetteer*". It is therefore unnecessary to give those details here.

Historical Portion of this Work thoroughly Reliable:—Although, as we have said before, a very limited historical information is to be obtained from this work, still we must admit that that limited information is thoroughly reliable and trustworthy. Because the author of this work was not only a contemporary of King Kumárapála but, as we know definitely from the account of the author given above, he also possessed a special intimate knowledge of his private life.

Three Writers Contemporary to Kumárapála:—Information about the religious life of King Kumárapála is to be obtained from the writings of three contemporary writers. Among them the first is the King's own religious preceptor Hemachandra himself. He has given some brief account in this connection in his "*Kumárapála-charitra*" (*Prākṛit Dvyaśhraya*) and in his "*Mahāvīra-charita*." The description given in "*Kumárapála-charitra*" and that given in the present work, especially the description of the King's daily life agree completely. Second contemporary

writer is the poet Yasahpála, who has written a drama, entitled "*Moha-parájaya*"¹ in which he writes about the spiritual life of the King. This poet describes himself as a servant of King Ajayadeva, the successor of King Kumárapála, and is therefore evidently the contemporary of Kumárapála. In "*Moha-parájaya*" the poet has given us a beautiful description of the prohibition ordered by Kumárapála in his kingdom of such acts as animal-slaughter, meat-eating, gambling, prostitution and the like. The third contemporary writer is the present author, Somaprabhácharya himself. As all these three writers are responsible and authoritative writers, there is very little room for doubts regarding what they have said. From the definite information supplied by these writers we understand that Kumárapála was a very religious Jain ruler; and that, having full faith in that religion, he did his best to carry out the doctrines and rules of conduct prescribed in it. He made every endeavour to spread that religion and completely identified himself with the work of establishing its greatness. He was upright by nature and liberal in thought; and although fully attached to Jain religion he never showed his displeasure towards other religions. As an ideal ruler of his subjects, he paid equal respect to each religion. Being personally of a noble character, he always loved virtue in others. Under his rule people were perfectly happy and contented.

प्रस्तावना ।

स्तुमस्त्रिसन्ध्यं प्रमुहेमसुरेरनन्यतुल्यासुपदेशशक्तिम् ।

अतीन्द्रियज्ञानविवर्जितोऽपि यः क्षोणिभर्तुर्व्यधित प्रबोधम् ॥

सत्त्वानुकम्पा न महीमुजां स्यादित्येव क्लृप्तो वितथः प्रवादः ।

जिनेन्द्रधर्म प्रतिपद्य येन, श्लाघ्यः स केषां न कुमारपालः ॥

—सोमप्रभाचार्यः ।

अस्मिन् खलु प्रस्तूयमाने कुमारपालप्रतिबोधनामके ग्रन्थसन्दर्भे, सुविश्रुतनामधेयेन जैनश्वेताम्बराचार्येण हेमचन्द्रेण, गुर्जरदेशीयचौलुक्यवंशोद्भवस्य कुमारपालनाम्नः सुप्रसिद्धनृपस्य जैनधर्मतत्त्वावबोधनाय, समये समये विविधाख्यानकद्वारेण यः सद्वोधः समुपदिष्टः, तथा यं च सद्वोधं श्रुत्वा, येन क्रमेण कुमारपालनृपेण शनैः शनैः सम्पूर्णतया जैनधर्मः स्वीकृतः; तद्विषयकं कियद्दर्शनं ग्रथितमस्ति ।

यद्यपि ग्रन्थकारेणास्य ग्रन्थस्य 'जिनधर्मप्रतिबोधः' इत्येवंरूपं नाम सर्वत्र समुल्लिखितं सन्दृश्यते; परन्तु, ग्रन्थान्तस्थिते पुष्पिकालेखे 'कुमारपालप्रतिबोधः' एतादृशो नाम्नः समुपलब्धत्वात्, तथा ग्रन्थग्रथितविषयस्य नामनिर्देशेनैव वाचकजनानां परिचयप्रापणहेतोः 'कुमारपालप्रतिबोध' स्वरूपेण सार्थकेन नाम्नावास्य ग्रन्थस्याङ्गनमुचितमवधारितमस्माभिः ।

अस्य ग्रन्थस्य संशोधनं संपादनं च, गुर्जराष्ट्रस्य प्राचीनराजधानीतया सुप्रसिद्धस्याणहिलपुरनाम्नः पत्तनस्थैकस्मिन् जैनचिन्तकोशे संप्राप्यमाणस्य मुख्यतथैकस्थैव ताडपत्रात्मकादर्शस्याधारेण कृतमस्ति । तदादर्शे २५५ संख्याकानि पत्राणि, प्रतिपृष्ठं १० संख्याकाः पङ्क्तयः, प्रतिपंक्ति १४०-१५० परिमिता वर्णा विद्यन्ते । अयमादर्शः यथा च प्रान्तलिखितपुष्पिकालेखानुसारेण स्पष्टं ज्ञायते—“संवत् १४५८ वर्षे द्वितीयमाद्रपदशुदि ४ तिथौ शुक्रदिने श्रीस्तंभतीर्थे दृढपौषघणालयां महारकश्रीजयतिलकसूरीणामुपदेशेन “कायस्थज्ञातीय महं. मंडलिकसुतपेता”-नामधेयेन लिपिकृतः । प्रायस्ताडपत्रात्मकेषु पुस्तकसमूहेषु, इदं पुस्तकमपथिभ्रं प्रतिभात्यस्माकम् । यतः, एतस्मात् पुस्तकाद-र्वाचीनं नान्यत्पुस्तकमस्माकं दृष्टिपथमायातम् कर्णगोचरीभूतं वा कुत्रापि जैनग्रन्थागारे ।

एकमपरमपि ताडपत्रमस्य ग्रन्थस्य, पत्तनस्थादपरस्माद् ग्रन्थागारादासादितमस्माभिः, परन्तु तदतीव त्रुटितमाद्यन्तरहितं च । अतोऽत्र तन्नोल्लेखयोग्यां विशेषतामाव-

१ 'जिणधम्मप्रतिबोधे समस्थिभो पढमपत्यावो ।' पृष्ठ ११९. 'जिनधर्मप्रतिबोधः क्लृप्तोऽयं गुर्जेन्द्रपुरे ।' पृ. ४७८.

हति । तथापीदं निवेदनीयं, यत् तदुपरिष्ठात्ताडपत्राद् विशेषशुद्धं प्राचीनतरं च । यावदस्मा-
भिर्ज्ञातुं शक्यते, अस्य ग्रन्थस्य संपूर्णरूपेण स एक एवोपरि निर्दिष्ट आदर्शः संप्राप्यते
साम्रतं सर्वसंसार । तस्य ह्यशुद्धबहुलत्वात्, क्वापि क्वापि नष्टप्रष्टपाठत्वाच्च सविशेष आयास-
सञ्जातोऽस्माकमस्मिन् संस्करणकरणे । अतो यत्र क्वचन या काचित् संशोधनाशुद्धिर्वि-
दुषा नयनपथमवतरेत्, सा संशोधनीया सहृदयैर्विद्वद्भैरिति ।

ग्रन्थस्यास्य विधाता त्रयोदशशताब्दीवर्ती सोमप्रभसूरिनामैकः सुप्रसिद्धजैनाचार्यः ।
तेनार्यं ग्रन्थो वैक्रमे १२४१ वर्षे—अर्थात् यशस्वोषे कुमारपालनरेश एकादशवर्षानन्तरमेव
विनिर्मितः । एतेनेदं स्पष्टमेव यदयं ग्रन्थकारः आचार्यहेमचन्द्र—कुमारपालनृपयोः कियन्तं
कालं यावत् समसमयवर्तित्वेन विद्यमान आसीत् ।


ग्रन्थकारेणार्यं ग्रन्थो मुख्यतया श्रेष्ठिमुख्य-श्रावक-अभयकुमारतनूजानां हरिश्चन्द्रादि-
श्रीदेवी-प्रभृतीनां प्रीत्यर्थं निरमायि । तौहिं अस्य ग्रन्थस्य भूयिष्ठानि पुस्तकानि लेखयित्वा
नैकेषु ग्रन्थागारेषु, विद्वद्भयतिवर्गेषु, उपदीकृतानि । अयमभयकुमारश्रेष्ठी, अस्यैव ग्रन्थ-
स्योल्लेखानुसारेण (पृ. २१९-२०) कुमारपालस्थापितस्यानाथासमर्थजनपोषकस्य सत्रा-
गारस्य, अन्येषां च ताडश्रां धर्मादायजीविनां कार्यविभागानामधिष्ठाताऽऽसीत् ।

यस्य शृङ्खलस्य वसतौ (जैनमन्दिरे, उपाश्रये वा) उषित्वा ग्रन्थकारेणार्यं ग्रन्थः
समाप्तिं नीतः, स कविसिद्धपालः कुमारपालनृपस्य परमप्रीतिपार्त्रं मित्रमासीत् । तत्पिता
कविचक्रवर्ती श्रीपालो गुर्जरराष्ट्रस्य तत्कालीनो महाकविः श्रेष्ठनागरिकश्चाभूत् । चौलुक्य-
चक्रवर्ती जयसिंहदेवस्तं 'कवीन्द्रः' इत्येवंरूपां राजमानोपलक्षिकां महतीं पदवीं प्रदत्तवान्,
तथा 'भ्राता' सदृशेन सौहार्दपूर्णेन सम्बोधनेन च सम्बोधितवान् । अयं हि कविवरः
सोमप्रभाचार्यस्य गुरुद्वानां वादिदेवसूरिप्रभृतीनां परमभक्त आसीत्; ततस्तदीयं निखिलं
कुटुम्बं तस्मिन् देवसूरिसाधुसमुदाये भक्तिप्रवर्णं भवेत्, स च समुदायोऽपि तस्मिन् कवि-
कुटुम्बे धर्मस्नेहस्निग्धः स्यात्, इति स्वाभाविकमेव । अनेनैव कारणेन सोमप्रभाचार्याद्य
एतत्समुदायवर्तियतयोऽणहिलपुरे बहुलतयाऽस्यैव कविकुटुम्बस्य वसतिगृहे निवासं कुर्वन्तो
विहायन्ते स्म । प्रकृतग्रन्थकारः स्वनिर्मितं सुमतिनाथचरित्राभिधमपरमपि विशालं ग्रन्थं तत्रैव
स्थाने संस्याय समाप्तिं नीतवान् । तथैव हेमचन्द्राभिधानेन सोमप्रभाचार्यगुरुसहोदरेण
कविवरेण स्वकृतं नाभेयनेमिद्विसन्धाननामकं काव्यमपि प्रायस्तत्रैव सम्पूर्णतां प्रापितं स्यात् ।
यतस्तस्य संशोधनं कविचक्रवर्तिश्रीपालेन स्वयमकारि, इत्युल्लेखस्तत्काव्यप्रान्ते^१ स्पष्टं प्राप्यते ।

१ एतत्काव्यप्रान्तगतता प्रयत्तिवर्षा—

अन्तःश्रीकविचक्रवर्तिरिच्छुरो. श्रीमान्देवस्य च श्रीमान् सोऽजितदेवसूरिभक्त पदार्कदुग्धाम्यधि. ।

प्रस्तुतग्रन्थकारलेखानाम्, इतरग्रन्थकृत्रेखानां चानुसन्धानेन सोमप्रभाचार्यस्य गुर्वा-
दिपरंपरासम्बन्धज्ञापको वंशवृक्ष एतादृशः—



[एतद्वृक्षगतानां कतिपयपण्डितानां संक्षिप्तः परिचयो यथा—

१ 'मुनिचन्द्रसूरिः—स च भगवान् यावज्जीवं सौवीरपायी, प्रत्याख्यात्सर्वविकृतिकः श्रीह-
रिभद्रसूरिकृतानेकान्तजयपताकाद्यनेकग्रन्थानां पञ्जिकादिविधानेन तार्किकशिरोमणितया ख्याति-
भाक् । अनेन चाऽऽनन्दसूरिप्रभृतयोऽनेके निजवान्धवाः प्रभाष्य सूरीकृताः । अयं च सूरिः श्रीनेमि-
चन्द्रसूरिगुरुभ्रातृवृत्तिविनयचन्द्रोपाध्यायस्य शिष्यः श्रीनेमिचन्द्रसूरिभिरेव गणनायकतया स्थापितः ।
अस्य विक्रमकालाद् ११७८ मितेऽब्दे स्वर्गमनमभूत् ।'

२ वादिदेवसूरिभिः श्रीमदणहिल्लपुरपत्तने जयसिंहदेवराजस्य राजसभायां दिगम्बरचक्रवर्तिनं
कुमुदचन्द्राचार्यं वादे निर्जित्य श्रीपत्तने दिगम्बरप्रवेशो निवारितः । तथा वि. १२०४ वर्षे

सर्व संस्कृतगद्यपद्यलहरीपुरेण यस्य प्रभाऽऽक्षिप्ता वादिपरंपरा वृणत्तुर्जां धत्ते स्म दूरीकृता ॥

श्रीमानभूद् विजयधरिरष्टय्य शिष्यो येन x x x स्वरस्य शरान् गृहीत्वा ।

कूर्मं चतुर्भिरनयं शरयन्मये विश्वं तदेकविशिखेन वशं च निन्द्ये ॥

श्रीहिमचन्द्रधरिर्वैश्व शिष्यस्तथापरस्तस्य । भवदत्तये तेन कृतो द्विसन्धानप्रबन्धोऽयम् ॥

एकाहनिष्पन्नमहाप्रबन्धः श्रीसिद्धराजप्रतिपत्तबन्धुः ।

श्रीपालनामा कविचक्रवर्ती सुधीरिमं शोधितवान् प्रबन्धम् ॥

फलवर्द्धिग्रामे चैत्य-विम्बयोः प्रतिष्ठा कृता । तथा आरासणे च श्रीनेमिनाथप्रतिष्ठा कृता । चतुर-
शीतिसहस्रप्रमाणः स्याद्वाद्द्वाराकरनामा प्रमाणग्रन्थः कृतः ।

३ विजयसिंहसम्बन्धी वैक्रमीयः १२०६ वर्षीय एकः शिलालेख आरासणतीर्थस्थजैनमन्दिरे
सन्तिष्ठते (—द्रष्टव्यो मत्संगृहीतः प्राचीनजैनलेखसंग्रहः; लेखाङ्कः २८९) ।—धर्मसागराणी निज-
पट्टावध्यामिमं विजयसिंहसूरिं षालचन्द्ररचित—विवेकमन्थरिनाम्नो ग्रन्थस्य शोधकत्वेन निर्दिदेश ।
तश्चिन्त्यम् । यतो नायं विजयसिंहः तद्ग्रन्थसंशोधकः, किन्तु नागेन्द्रगच्छीयो विजयसेननामा अपरः
कश्चित्सूरिः तत्संशोधनं कृतवान् ।—द्रष्टव्यः पिटर्सनपण्डितविरचितः तुतीयरिपोर्टनामकः
ग्रन्थः, पृ. १०३ ।

४ भद्रेश्वरसूरिणा स्वगुरुश्रीवादिदेवसूरीणां स्याद्वाद्द्वाराकरविरचनासमये प्रभूतं साहाय्यं
समर्पितम् । तथा तेषां गुरुणां स्वर्गमनानन्तरमनेनैव विदुषा तत्पट्टोऽलंकृतः । श्रीशान्तिनाथमहाका-
व्यप्रणेता मुनिभद्रसूरिरपि अस्मैव सूत्रेः सन्तानीयोऽभवत् ।

५ रत्नप्रभसूरिणा रत्नाकरावतारिकानामा सुज्ञातस्तर्कग्रन्थः प्रणीतः । उपदेशमालावृत्तिप्रभृ-
योऽपरेऽपि प्रसिद्धा ग्रन्थास्तत्तन्गीता उपलभ्यन्ते ।

६ गुणचन्द्रेण हैमविभ्रमनामैको व्याकरणविषयो लघुरपि सोपयोगी ग्रन्थः प्राणाधि ।

७ पूर्णदेव—रामचन्द्रनामानौ शुरुशिष्यौ जावाल्लिपुर (जाळोर) समीपस्थसुवर्णगिरिपर्वतव-
र्तिजैनमन्दिरगत एकस्मिन् शिलालेखे व्यावर्णितौ स्तः । इ० प्राचीनजैनलेखसंग्रहः, ले. ३५२ ।

८ जयमङ्गलसूरिणा भरुदेशस्थसुंधानामकपर्वतवर्तिनी चाचिगदेवसत्का प्रशस्तिर्निर्मिता ।

९ सोमचन्द्रसूरिः वृत्तरत्नाकरनामकसुभसिद्धच्छन्दोप्रन्थस्य सुशोधिनीं वृत्तिं विहितवान् ।

१० रामभद्रविदुषा प्रबुद्धरौहिणेयाभिधानं विविधक्षिग्वरसवैदग्ध्यनिधानं नाटकं विरचितमस्ति ।

११ जगच्चन्द्रसूरिः—क्रियाशिथिलमुनिसमुदायं ज्ञात्वा गुर्वाज्ञया वैराग्यरसैकसमुद्रं चैत्रवाली-
यदेवभद्रोपाध्यायं सहायमादाय क्रियोद्धारमकार्षीत् । ततश्च तस्य क्रियायामौघ्याद् 'हीरला जग-
चन्द्रसूरिः' इति ख्यातिर्बभूव । तथा यो यावज्जीवं आचाम्लतपोऽभिभवात् द्वादशवर्षैस्तपाविरुद-
मासवान् ।]

अयं हि सोमप्रभाचार्यस्तपागणनाम्नः सुभसिद्धगच्छस्य मूलपट्टपरंपरायामेकः पट्टधर
आचार्यो बभूव । तेनास्य सुगृहीतं नामधेयं सर्वेषु तपागच्छीयगुर्वावलिप्रबन्धेषु नियमेन
संप्राप्यते । अत एतदुक्तं भवति—जैन साहित्याभिज्ञानां पण्डितानामयं सूरिर्नि सुज्ञातनामेति
न । गुर्वाचल्यादिप्रबन्धानामुल्लेखानुसारेण श्रीमहावीरपट्टपरंपरायां चत्वारिंशे पट्टे प्रतिष्ठित
एषः सूरिरिति ।

सोमप्रभाचार्यकृता ग्रन्थाः ।

प्रस्तुतकुमारपालप्रतिबोधग्रन्थव्यतिरिक्ताः सोमप्रभाचार्यकृता अन्ये त्रयो ग्रन्थाः
संप्राप्यन्ते सांप्रतम् । तेषु सुमतिनाथचरित्रनामकः प्रथमोल्लेखयोग्यः । अस्मिन्चरित्रे सुमति-
नाथनाम्नः पञ्चमजिनवरस्य पौराणिकं चरितं निर्बर्णितमस्ति । चरित्रं चेदं प्रायः सार्द्धेन-

वसहस्रश्लोकप्रमाणं प्राकृतभाषामयम् । अस्मिन्नपि ग्रन्थे कुमारपालप्रतिबोधसमाना जैनधर्मतत्त्वप्रबोधनप्रधाना बहुव्यः पुराणकथाः कल्पिताः सन्ति । अस्य ग्रन्थस्य रचनाऽपि कुमारपालप्रतिबोधवत्—यथा चाधस्ताद्विज्ञापितमस्माभिः—अणहिलपुरपत्तनस्थश्रीसिद्धपालक-विवसतावेव समाप्तिं प्रापत् । ग्रन्थान्ते यद्यपि रचनासमयो नोपलभ्यते स्पष्टोऽखितस्तथापि पूर्वापरानुसन्धानेन ज्ञायते यत् सा हि प्रथमा कृतिरस्य सूरिवरस्य । पत्तनस्थे कस्मिंश्चित्कोशे दृष्टचरोऽस्माकमेको हस्तलेखोऽस्य चरित्रस्येति ।

द्वितीयो ग्रन्थ एकशतपद्यप्रमाणं सूक्तिसुवतावलिप्रकरणम् । अस्य प्रकरण-ग्रन्थस्य प्रथमपद्यस्य 'सिन्दूरप्रकर' इत्येवंशब्दैः प्रारब्धत्वात् 'सिन्दूरप्रकर' इति नाम्ना, तथैव सोमप्रभाचार्यकृतत्वेन शतपद्यप्रमाणत्वेन च 'सोमशतक' इति नाम्नाऽप्ययं प्रबन्धः प्रसिद्धः प्रतिभाति । अस्मिन् प्रबन्धे भर्तृहरिनिर्मितवैराग्यशतकशैल्या अहिंसा-सत्य-अस्तेय-शील-सौजन्य-क्षमा-त्याग-वैराग्यादयो विविध विषयाः संक्षेपेण किन्तु सरलेन सरसेन च बन्धेन निबद्धा आसते । हृदयङ्गमभावभरितत्वेन कोमलपदावलिपूरितत्वेन चार्यं प्रबन्धो न केवलं श्वेताम्बरजैनसंप्रदाय एव जनप्रियो जातोऽस्ति, अपि तु दिगम्बरजैनसंप्रदायेऽपि तथैव प्राप्तस्तकारः प्रतीतोऽस्ति । अनयोरुभयोर्जैनसम्प्रदाययोर्मध्येऽनेकेषां विदुषामितरेषां च कण्ठे कण्ठालङ्कारवद् विराजतेऽद्याप्ययं प्रबन्धः । प्रस्तुत-कुमारपालप्रतिबोधेऽपि प्रसङ्ग-

१ एतद्ग्रन्थप्रवृत्तिरपि प्रायः कुमारपालप्रतिबोधप्रवृत्तिसमानैव । तथा हि—

चन्द्रार्कौ गुरुदहनपतः कर्णावतंसौ कितेधुयौ धर्मरथस्य सर्वजगतस्तत्त्वावलोके दृशौ ।

निर्वाणवसथस्य तोरणमहास्तम्भावभूताञ्जभावेकः श्रीसुनिचन्द्रसूरिपरः श्रीमानदेवप्रभुः ॥

शिष्यस्तयोरजितदेव इति प्रसिद्धः सूरिः समग्रगुणरत्ननिधिर्विश्व ।

प्रीतिं यदङ्घ्रिकमले छनिभृङ्गराजिरास्वादितश्रुतरसा तरसा षषन्ध ॥

श्रीदेवसूरिप्रसूता षषुदुरन्येऽपि तत्पादपयोजहंसा ।

येपामबाधारचित्स्थितीनां नाळीकमैत्री छदमाततान ॥

विशारदशिरोमणेरजितदेवसूरिप्रभोर्विनेयतिलकोऽभवद् विजयसिंहसूरिगुरुः ।

जगन्नयविकेदुभिर्विमलशीलवमाहृतं व्यभेदि न कदाचन स्मरशरैर्यदीयं मन ॥

गुरोस्तस्य पदान्भोजप्रसादान्मन्दीरपि । श्रीमान् सोमप्रभाचार्यश्चरित्रं छमतेर्व्ययात् ॥

प्राग्वाटान्वयसागरेन्दुरसमप्रभः कृतज्ञ क्षमी चाग्मी छकिछयानिषानमजनि श्रीपालनामा पुमान् ।

यं लोकोत्तरकाव्यरञ्जितमतिः साहित्यविद्यारतिः श्रीसिद्धाधिपतिः कवीन्द्र इति च भातेति च व्याहरत् ॥

स्रजस्तस्य कुमारपालनृपतिप्रीतेः पदं धीमताञ्जलः कविचक्रमस्त-रुमणि श्रीसिद्धपालोऽभवत् ।

यं व्यालोच्य परोपकार-करुणा-सौजन्य-सत्य-क्षमादाक्षिण्यै कलितं कलौ कृतशुगारम्भो जनैर्मन्यते ॥

तस्य पौषशालायां पुरेऽणहिलपाटके । निष्प्रसृद्धमिदं प्रोक्तं परार्थान्तं ॥

अनाभोगाद् किञ्चिद् किमपि मतित्वैकस्थवद्यत किमप्यौत्सुक्येन स्मृतिविरहदोषेण किमपि ।

मयोत्स्रं शाले यदिह किमपि प्रोक्तमखिलं क्षमन्तां धीमन्तस्तदसमदार्पणहृदया ॥

वशादनेकेषु स्थलेषु प्राप्यन्ते ग्रन्थकारेणास्य ग्रथितानि कतिपयानि पद्यजातान्यस्य जनप्रियस्य प्रबन्धस्येति ।

तृतीयो ग्रन्थः शतार्थकाव्यं नाम । अयं ग्रन्थः सोमप्रभाचार्यस्य संस्कृतभाषाज्ञान-विषयकमनुपमं पाण्डित्यं प्रकटयति । इदं काव्यं केवलं

‘कल्याणसारसचितानहरेक्षमोह कान्तारवारणसमानजयाद्यदेव ।
घर्मार्थकामदमहोदयवीरधीर सोमप्रभावपरमागमसिद्धसूरे ॥’

इत्येवंरूपमेकपद्यात्मकमेवास्ति । परन्तु, अस्यैकस्यैव वसन्ततिलकावृत्तस्य शतसंख्याकै-भिर्भिन्नैरैर्विलक्षणं विवरणं कृत्वा, इममेकं पद्यात्मकं क्षुद्रकाव्यमपि शतपद्यप्रमाणस्वरूपां स्रष्टकाव्ययोग्यमतिष्ठान् प्रापितवान् स महामतिः सूरिसुकृती । अनेनैव प्रगल्भेन कविकर्मणाज्यं सूरिर्विद्वत्समाजे ‘शतार्थिकः’ इत्येतेन पाण्डित्यसूचकेन विरुदेन प्रसिद्धो जातः । यथा च—

‘सोमप्रभो मुनिपतिर्विदितः शतार्थी ।’

—सुविमुन्दरसूरिरचितगुर्भावल्याम् ।

‘ततः शतार्थिकः ख्यातः श्रीसोमप्रभसूरिराह ।’

—गुणरत्नसूरिकृतक्रियारत्नसमुच्चये ।

एतत्काव्यान्तर्गतान् स्वविवक्षितान् शतमर्थान् प्रकटीकर्तुं स्वयमेव ग्रन्थकारेणैका स्पष्टा व्याख्या विहिता । अस्यां व्याख्यायामादौ पञ्चभिः श्लोकैर्वैश्यमाणार्थजातस्यानुक्रमणिका आवेदिता अस्ति, अन्ते च शिष्यमुखव्याजमालम्ब्य पञ्चभिः पद्यैः स्वीया प्रशस्तिरपि संसूचिताऽस्ति । एतत्प्रशस्त्यनुसारेण विज्ञायते यत् ग्रन्थकारो ग्रहस्थावस्यायां प्राग्वाटजातीयो वैश्योऽभूत् । तस्य पितुर्नाम ‘सर्वदेवः,’ पितामहस्य च ‘जिनदेवः’ आसीत् । जिनदेवः स्वसमय एको लब्धप्रतिष्ठः श्रावकः, कस्यचिद् राज्ञो महामात्यश्चास्ति स्म । सोमप्रभेण कौमार एव जैनी दीक्षा स्वीकृता । असाधारणबुद्धिवलात् स्वल्पेनैव कालेन सर्वशास्त्रे निपुणत्वं समासाद्य प्रायः सुमध्यम एव वयसि स आचार्यपदसदृशं सर्वोत्तमं पदं संप्राप्तवान् । अस्मिन् शतार्थवृत्तव्याख्यान आदिभागे चतुर्विंशतिजिन-सिद्ध-सूरि-उपाध्याय-मुनि-पुण्डरीक-गौतम-सुधर्म-पञ्चव्रती-समय-श्रुतदेवी-पुरुषार्थ-विधि-नारद-देवविष्णु-वलभद्र-श्रीप्रद्युम्न-गंस-शिव-गिरिसुता-स्कन्दादीनां जैन-त्रैदिकादिमतपूज्यव्यक्तीनां क्रमशः व्याख्या-नानि विशदीकृत्य, मध्ये च हैरम्बर-कैलास-ग्रह-दिवपाल-जयन्त-घन-भदिरा-कनक-अग्नि-सिंह-हय-करि-सरोज-सुजगादिसचेतनाचेतनप्रसिद्धपदार्थानामर्थाख्यानमुद्घाट्य, अन्ते वादि-

देवसूरि-हेमचन्द्राचार्यसदृशाः जैनधर्मप्रभावकपुरुषाः, जयसिंहदेव-कुमारपाल-अजयदेव-मूल-राज-नामधेयाः क्रमोत्पन्नाश्वत्वारश्चौलुक्यनरवराः, कविसिद्धपालसमो नागरिकप्रवरः, अजि-तदेव-विजयसिंहनामकं स्वीयगुरुद्वयम्, इत्येवंरूपाणां स्वसमानकालवर्तिनामैतिहासिकपुरुषा-णामपि अर्था आलिखिताः सन्ति । (द्रष्टव्यं परिशिष्टम् ।)

एवं कुमारपालप्रतिबोधसहिताः प्रस्तुतग्रन्थकारकृता एते चत्वार एव ग्रन्थाः दृष्टी-गोचरमायाता अस्माकमद्यावधि । परन्तु, शतार्थवृत्तव्याख्यायां कुमारपालविषयके अर्था-ख्याने ' यद्बोचाम ' इत्येवं कृत्वा यत् पद्यद्वयं समुद्धृतं सन्दृश्यते तत्र कापि उपर्युक्तासु अस्म-द्वृष्टासु कृतिषु नयनपथमवतीर्णमस्मदीयम् । अतो ज्ञायत एतद्वातिरिक्ता ज्या ऽपि काचित् कृतिरवश्यंभाविनी प्रस्तुतसूरेरिति ।

प्रकृतप्रतिबोधस्य रचना मुख्यतया प्राकृतभाषामाश्रित्यैव कृता ग्रन्थकृता, तथापि, अन्तिमे प्रस्तावे कतिचित् कथाः संस्कृतभाषाम्, कियत्यश्च अपभ्रंशभाषामपि आश्रित्य विरचिता उपलभ्यन्ते । तेनास्य ग्रन्थकारस्यैतासां तिसृणां हि भाषाणां मध्ये समानं पाण्डित्यं प्रकटीभवति, इत्यत्र नाशंका अस्माकम् । यद्यपि, एवमुक्तप्रकारेण, अर्थं सोमप्रभसूरिः समर्थप्रतिभावान् विद्वान् आसीत्,—तत्र विषये नास्ति कश्चित्सन्देहोऽस्माकम्—तथापि प्रस्तुतग्रन्थे तस्य तादृश्याः प्रतिभायाः प्राञ्जलं प्रमाणं न किमपि समुपलब्धमस्माभिः । अस्ति खल्वस्य रचनाशैली सुबोधा, सरला, साधारणजनहृदयङ्गमा च, किन्तु विदग्धजनचेतश्च-मत्कारिणी तु नास्तीत्येवमस्मदाभिप्रायः । इति ।

अपि च, अस्य ग्रन्थस्य रचनासमयम्, कर्तुः पाण्डित्यम्, महत् प्रमाणं च भुत्वा, ज्ञात्वा वा प्रथमक्षणे तु, पुरादृत्तजिज्ञासुजनानां मनसि, इयमेव महती आशा समुत्पद्येत यत्—एतस्मिन् विशाले ग्रन्थे कुमारपाल-हेमचन्द्रसम्बन्धिग्रन्थस्तत्कालमाविन्यश्चान्यान्या अनेका अन्यत्राप्राप्ता इतिवृत्तसंसूचकवार्ताः सन्दृश्याः भवेयुः । परन्तु, अस्य ग्रन्थस्य साद्यन्तावलोकने कृते साऽऽशा निराशाभात्रमेव प्रतिभास्यति विदुषामिति निवेदयतामस्मा-कमप्यत्र वाढं निराशा आविर्भवति । यतः, अन्यत्रानुपलब्धानां केषांचिन्नवीनवृत्तान्तानां संप्राप्तिस्तु आस्तां दूरे; किन्तु, प्रभावकचरित्र-प्रबन्धचिन्तामणि-कुमारपालप्रवन्वसदृशेषु एतस्माद्ग्रन्थादर्वाचीनेषु संक्षिप्तग्रन्थेषु अपि उक्तवृत्त-सूरिवरविषयको यावान् वृत्तान्तः संप्राप्यते तावानपि प्रस्तुतप्रतिबोधे नोपलभ्यते । इत्यत ऐतिहासिकदृष्ट्या न कश्चिद् वि-शेषोल्लेखयोग्यो वृत्तान्तो विज्ञायतेऽस्माकमत्र प्रवन्धे ।

परन्तु, तत्र विषये ग्रन्थकारः स्वल्पमपि उपाळम्भयोग्यो नास्ति । यतः, तस्य प्रस्तु-तग्रन्थप्रणयनप्रयासो न प्रबन्धनायकस्य समस्तजीवनचरितवर्णनमुद्दिश्य, किन्तु केवलं

यत्प्रकारं धर्मोपदेशं श्रुत्वा कुमारपालस्य जैनधर्मे सुश्रद्धा समुत्पन्ना, तादृशमुपदेशं विदधत एककथाग्रन्थस्य विरचनमेव ग्रन्थकारस्य प्रधान उद्देशः, इति विश्लेष्यम् । एतद्भावसूचकः स्पष्टोल्लेखः प्रबन्धकारेण स्वयं ग्रन्थारम्भे निम्नोद्धृतेन गाथायुगलेन कृतोऽस्ति । यथा—

जइ वि चरियं इमाणं मनोहरं अत्थि बहुयमलं पि ।

तह वि जिणधम्मपड्ढिबोहवंपुरं किंपि जंपेमि ॥

बहुभक्खजुयाइ वि रसवईए मज्जाओ किंचि मुंजंतो ।

नियइच्छअणुरूवं पुरिसो किं होइ वयणिज्जो ॥

(छष्ट— ३, गाथा ३०-३१)

यद्यपि, उक्तरीत्या नास्त्यत्र ग्रन्थ ऐतिहासिकवृत्तान्ताधिक्यम्, तथापि यावदस्ति तावत्तु सकलमेव पूर्णतया विश्वसनीयमिति स्पष्टं स्वीकारार्हमेव । यतोऽयं ग्रन्थकारः केवलं कुमारपालस्य समानकालीन एव नासीत्, किन्तु तस्य सविशेषपरिचितः अत एव तदन्तरङ्गजीवनवृत्तान्तज्ञाताऽपि समभवत् ।

कुमारपालस्य जैनधार्मिकजीवनवृत्तमुल्लिखन्तस्तत्समसमयवर्तिनस्त्रयो लेखका अभूवन् । तत्राद्यस्तु तस्य धर्मशुरुः साक्षात् श्रीहेमचन्द्रसूरिरेव । तेन प्राकृतद्वयाश्रयापरनामनि कुमारपालचरिते, तथा श्रीवीरचरित्रेऽपि तद्विषयकः क्रियान् संक्षिप्तः किन्तु सार-गर्भितः समुल्लेखोऽकारि । द्वितीयो लेखको मंत्रियशःपालनामा श्रावकः कविवर आसीत् । तेन कुमारपालस्याध्यात्मिकं जीवनमुद्दिश्य 'मोहराजपराजय' नामकं पञ्चाङ्कं नाटकं व्यरचि । अयं च कविः स्वात्मानं कुमारपालोत्तराधिकारिवृत्त-अजयदेवचक्रवर्तिचरणसे-वित्त्वेन निर्दिशति स्म । अतोऽयमपि प्रायः कुमारपालसमकालीन एवेति निर्निवादम् । अनेन कविना, कुमारपालद्वारा तत्समग्रराज्यात् प्राणिवध-मांसाशन-असत्यभाषण-द्यूत-रमण-वेद्यागमन-परधनापहरण-इत्यादीनि जनसमाजावनतिकराणि दुष्टव्यसनानि यथा सर्वथा बहिष्कृतानि जातानि तत्सर्वं वृत्तान्तं मनोहरया काव्यवर्णनपद्धत्या 'मोहरा-जपराजय' नाटके निर्वाणितमस्ति । तृतीयो लेखकः प्रस्तुतप्रतिबोधकर्ता सोमप्रभमूरिः । एते त्रयोऽपि विद्वांसः प्रमाणभूता लब्धप्रतिष्ठाश्च, अत एतत्कृते वर्णने स्वल्पमपि सन्देहा-स्पदं मिथ्यामूर्तं वा कथनं भवेत्; इति न मत्स्येतुं शक्यतेऽस्माभिः ।

एतेषां त्रयाणामपि लेखकानां विश्वस्तात् कथनात् प्रतीयते यत् कुमारपाल एकः परमधार्मिकः परमार्हतो जैननृपोऽभूत् । तेन संपूर्णतया जैनधर्मः स्वीकृतः, जैनधर्मप्रतिपादि-तान् आचारान् विचारान्श्च सम्यग्वीत्या परिपालनार्थं यथाशक्ति प्रयत्न आचरितः, तथैव तच्चप्रचाराय प्रभावसंस्थापनाय च सर्वत्र यथायोग्यमुदारा उद्योगा आरब्धाः सन्ति

स्म । स स्वभावेन सरलः, विचारैर्दारश्चाभूत् । धर्मेण परमजेनो भूत्वापि, न कदाचिदन्य-
धर्मं प्रति तेन स्वकीयोऽनादरभावः प्रकटीकृतः, न कश्चिद् अन्य धर्मानुयायी तिरस्कृतश्च ।

वर्तमानगुर्जरनेरेशश्रीमत्सयाजीरावमहाराजशासनवत् तत्प्रतिकृतिस्वरूप-तादृशसदा-
चारि-सद्गुणानुरागि-कुमारपालनृपशासनेऽपि सर्वाः प्रजाः स्वस्वयोग्यान् धर्मार्थकाममोक्ष-
रूपान् चतुरः पुरुषार्थान् परस्पराविरोधरूपेण आचरन्त्यः शान्ति-सुख-सन्तोष-स्वास्थ्यला-
भमकार्षुः । इति भद्रम् ।

वीरनि० सं. २४४६, माद्रपदपूर्णिमा ।
पुण्यपत्तने श्रीभारतजैनविद्यालयः ।

मुनिराज-जिनविजयः ।

सूचना—अस्मिन् समग्रेऽपि ग्रन्थे ऐतिहासिकदृष्ट्या यावदुपयोगि वर्णनमुपलभ्यते,
तावत् सर्वमपि, अतः समुद्धृत्य, 'कुमारपालप्रतिबोधसंक्षेप' नामकशिरोलेखस्याधस्तात्-
पृथग् मुद्रितप्रश्नेषु पत्रेषु । अत ऐतिहासिकदृष्टमात्रजिज्ञासुभिर्विद्वद्भिस्तदेव विशेषतो
दृष्टव्यम् । तेन समग्रग्रन्थस्य रहस्यं सुलभतया शीघ्रतया च सुज्ञातं भविष्यतीति ।

परिशिष्टम् ।

—१८३—

कल्याणसारसवितानहरे ! भ्रमोहकान्तारवारण ! समान ! जयाऽऽद्यदेव ! ।
धर्मार्थिकाऽमद ! महोदयवीर ! धीर ! सोमप्रभाव ! परमाऽऽगमसिद्ध ! सूरै ! ॥

अथ पट्टश्रीसंपर्कलम्पटद्विक्पटपाटनप्रकृष्टमतिमितदेवसूरिः श्रीदेवसूरिः । हे सूरै ! आ-
चार्य ! आद्यदेव ! आद्यो देव इति शब्दो यस्य देवसूरैः—इत्यर्थः । भद्राऽम्भोजनवनरवे ! । क्षमः
क्षपणः कुमुदचन्द्रद्विक्पटः, तस्य ऊहस्तर्कः स्त्रीनिर्वाणनिषेधरूपः, स एव कान्तारम्, तद्भ्रजने वारण !
गज !, अत एव समान ! श्रीसिद्धराजपर्वदि प्राप्तसत्कार!—जय त्वम् । धर्मार्थक ! वादजयतुष्टन्यपतेः
स्वापतेयप्राप्तावपि निरीहत्वात् धर्ममेव अर्धयते । अमद ! राजपूज्यत्वेऽपि निरहंकार !, महः तेजः,
दया कृपा, समाहारत्वाद् महोदयम्, तद् विशेषेण ईर्ष्यं गच्छति, कृपा—तेजसी युगपदेकत्राऽसंभविनी
अपि स्वयि अवस्थिते, अतस्त्वं लोकोत्तरोऽसि—इति ध्वन्यते । धीर ! अक्षोभ्य !, सोमसकौर्ते !,
परम ! प्रकृष्ट !, आगमसिद्ध ! युगप्रधानागम ! ॥ ९२ ॥

कल्याण ! सार ! सवितानहरे-क्ष ! योहकान्तारवारण ! समान ! जयाऽऽद्यदेव ! ।
धर्मा-ऽर्थ-कामद ! महोदयवीरधीर ! सोम ! प्रभावपरमाऽऽगमसिद्धसूरै ! ॥

अथ श्रीहेमाचार्यः । हे कल्याण ! मिथ्यात्वविषयात्तनाद्यष्टगुणोत्कृष्टत्वेन हेम !, सोम !
सरुल्लोकलोकचक्रोरचक्रीढकान्तिवता चन्द्र !, सूरै ! आचार्य !, ततः श्रीहेमचन्द्रसूरै ! इत्यर्थः ।
सार ! सर्वश्रेष्ठ ! । सवो यद्भः, स विद्यते येषां ते सविन्नो याज्ञिकाः, तेषां तानः पशुवित्रासनस्य
यद्भविस्वारः, तं हरति प्रवर्तितसर्वसत्त्वाऽभयदानपट्टहत्वात् । ईक्ष ! समस्तशास्त्रार्थरहस्यवीक्षक ! ।
मोहो यथार्थवस्तुनि संशय-त्रिपर्यासरूपमज्ञानम्, तदेव काननम्, तद्भ्रजने वारण ! कुञ्जर ! ।
तथाहि—

कृष्टं व्याकरणं नवं विरचितं छन्दो नवं द्वयाभ्रया-
ऽलंकारौ प्रथितौ नवौ प्रकटितौ श्रीयोगशास्त्रं नवम् ।
तर्कः संजनितो नवो जिनवरादीनां चरित्र नवं
बद्धं येन न के विधिना मोहः कृतो दूरतः ॥

समान ! समस्तराजाऽमात्यादिलोकैः कनककमलवृत्तचरणपूज ! जय त्वम् । आद्या
मुल्याः, देवा वीतरागा यस्मान्, स्थाने स्थाने जिनायवनानां तेन कारितत्वात् । धर्मा-ऽर्थ-कामद !
भक्तानां तस्मैकमेव त्रिवर्गप्राप्तेः । महान् करि-सुरग-रथ-पदातिप्राचुर्येण गुरुः, उदयः साम्राज्यं
यस्य, स चासौ वीरः—चतुर्दिगन्तवृत्पतीनाम्—अणोराजादीनां पराजये शूरः—अर्थात् चक्रवर्ति-
श्रीकुमारपालदेवः, तस्य धियं [अपत्यरहिता स्त्री निर्वारा उच्छिन्नवंशा] निर्वाराघनमुक्त्वा—मद्य-
भृगया—तृतादिव्यसनवारण—सर्वसत्त्वाऽभयदान—सर्वस्थानजिनमवनप्रधानां धर्मबुद्धिं राति । प्रभाव-
परम ! प्रभावः सरुलपरतीर्थिकावर्जनमाहात्म्यम्, तेन प्रकृष्ट ! सैद्धान्तिकशिरोमणे ! ॥ ९३ ॥

कल्याणसार ! सवितान ! हरे-ऽक्षमोह ! कान्ताऽऽरवारण ! समान ! जयाद्य ! देव ! !
धर्मार्थकामद ! महोदय ! वीर ! वीर ! सोमप्रभाञ्च पर-मागम ! सिद्धसूरे ! !

अथ श्रीविक्रमतुलितनरसिंहदेवः श्रीजयसिंहदेवः । हे हरे ! अरिकरिशिरःकपाटपाटन-
पट्टतया सिंह !, जयाद्य ! जयशङ्खपूर्व-जयसिंह !, दिव्यरूपरम्यतया देव !, कल्याणसार ! सुवर्ण-
सिद्धिप्रधान !, सवितान ! वयः कुक्कुटाः पक्षिणः-तेषां तानो विस्तारस्तेन सह वर्तते-युद्धार्थं
कुक्कुटान् दधौ इत्यर्थः ।

यदुक्तं श्रीकविराजेन—

रे भूप्याः! कविराज एष भवतो जल्पत्युदञ्चद्भुजः

पूज्या वश्वरणाशुधा परममी युष्मत्कुले देवताः ।

यद्युद्धोत्सवदर्शनैकरसिकः श्रीताम्रचूडध्वजो

देवः पश्यत नाधुना परि... यत्येकातपत्रां महीम् ॥

अक्षैः पाशकैर्मोहयति द्यूतक्रीडापरान् पराजयते इत्यर्थः-दुर्वोधद्यूतवैशद्येन सकलकलाकुशल
इति लक्ष्ये । कान्तं कमनीयम्, आरम्-अरिसमूहः, तद्धारण ! साहंकारधाराधिपयशोवर्माधरिसमूहं
शुभिक्षिप्तं निर्गच्छन्तं निवारयतीत्यर्थः । त्रिवर्गप्रद ! महस्य रसोत्सवलक्षणस्य उदय-उन्नतिर्यस्मात्,
अद्यापि तत्प्रवर्तितस्य कनकदानप्रधानस्य रसोत्सवस्य प्रवर्तमानत्वात् । वीर ! एकाङ्गवीर ! । वीर !
साहसिकप्रकाण्ड ! दर्पान्धवर्वरकजिष्णु अवन्तिनाथ इत्यूर्जितैर्जयति नामभिरेव देवः ।

यदुवाच श्रीकविराजः—

एकाङ्गवीरतिलको भुवनैकमलः सिद्धाधिपः परमसाहसिकप्रकाण्डः ।

दर्पान्धवर्वरकजिष्णुरवन्तिनाथ इत्यूर्जितैर्जयति नामभिरेव देवः ॥

सोमप्रभः सोमवंशाऽऽद्यपुरूपः, तस्येव प्रभा यस्य । अत्र रक्ष जगत्-इति गम्यम् । परेषां
शत्रूणां मां लक्ष्मीमागमयति धैरि-रिपुराजश्रियमानीतवान् इत्यर्थः । सिद्ध-साधितविविधसिद्धितया
सिद्धराज ! ॥ ९४ ॥

कल्याणसार ! सवितानहरे-क्ष ! मोहकान्ताऽऽरवारण ! समानऽजयाऽऽद्य ! देव ! !

धर्मार्थ ! कामदमहो-दय ! वीर ! वीर ! सोमप्रभाञ्च परमागमसिद्धसूरे ! !

अथ श्रीकुमारपालः । हे सवितानहर ! ससंतानः हरः शंकरो यस्मात् स सवितानहरः
कुमारः, कुमारैणैव हरस्य ससंतानत्वात्, ततः कुमारदेव !-देवशब्दस्य नृपपर्यायत्वात् कुमारनृपते ! ।
अजयः अजयदेवः क्षमापतिः, तस्य आद्य ! प्रथम ! । अत्र रक्ष, कान् ? सर्वान् “सम-सिमौ
सर्वार्थौ” इति पाठात् । कल्याणानि जिनानां च्यवन-जन्म-दीक्षा-निर्वाणदिनोत्सवाः, तेषु
पूजादिनिमित्तवित्तव्ययकरणेन श्रेष्ठ ! ।

यदवोचाम—

चौलुक्येन्द्रेण चैत्ये कुचकलशभरैर्वन्धुराः सिन्धुरस्त्री-
स्कन्धारूढा विधातुं जिनजननमहे स्तुतिकर्मप्रपञ्चम् ।

षट्पञ्चाशत् समीरमसुखनिजनिजाचारचातुर्यवर्याः
 स्फूर्जन्माणिक्यहेमाभरणकवचिताश्चक्रिरे दिक्कुमार्यः ॥
 द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपा वृषगृहचैत्ये द्विषाध्यासिताः
 कल्याणाभरणाभिरामवपुषः कल्याणकाद्युत्सवे ।
 स्नात्रं कर्तुममर्त्यवैलशिरसि स्वर्गादिवाऽभ्याययु-
 स्तन्मध्ये च कुमारपालनृपतिर्भेजेऽच्युतेन्द्रश्रियम् ॥

ईश्व ! यथावस्थितदेव-गुरु-जर्मतत्त्ववीक्षक ! । मोहाय विपर्यासाय यः कान्तासु स्त्रीषु, आरः
 अभिगम, तस्य वारण । निषेधक !—प्रतिवर्षं वर्षाकालमासचतुष्टयम्, शेषकालेऽपि अष्टमी-चतुर्द-
 श्यादिपर्वसु त्रिविधं त्रिविधेन ब्रह्मचर्यं चकार इत्यर्थः । धर्महेतो ! द्यूताद्यधर्मनिषेधेन सर्वत्र प्रासा-
 दान् कृतवान् इत्यर्थः । वाञ्छितप्रदं महस्तोत्रो, दया च यस्य-तेजसो दुष्टानुत्थानात्, कृपया
 सर्वसत्त्वरक्षणार्थं जगतोऽपि वाञ्छितार्थान् व्यधात् इत्यर्थः । वीर ! चतुर्दिगन्तपरिवृढपरज-
 यैकशूर । धीर ! साहसिकचूडामणे ! । उभया सहिता सोमा सोमा सकीर्तिः प्रभा यस्य ।
 स्व-परसिद्धान्ताभिगमसिद्धसूरिः श्रीहेमचन्द्र-नामा धर्माचार्यो यस्य ॥ ९५ ॥

कल्याणसारसवितानहरे-क्षमोह ! कान्तारवा ! रणसमानऽजयाद्य ! देव ! ।
 धर्मार्थे ! कामद ! महोदयवीरधीर ! सोमप्रभाज्व परमा गमसिद्धसूरे ! ॥

श्रीअजयदेवः । हे देव ! अजयाद्य ! अजयः 'अजय' इति शब्दो आद्यो यस्य ततः-अज-
 यदेव ! । कलिः करि-महा-ऽङ्ग-युद्धम्, तस्य आण. कोलाहलः, तेन सारः श्रेष्ठः, सवितानः सवि-
 स्वारः, हरः शंक्रो यस्मात्-परमार्हतश्रीकुमारपालदेवप्रतिषिद्धं पृथिव्यां शिवधर्मं प्रवर्तितवान्
 इत्यर्थः । ईशो दर्शनम्, तस्माद् मोहो रागो यस्य-यां यां राजकन्या वदशे तां ता पर्यैषीद्
 इत्यर्थः । कान्त ! कमनीय ! । आरवाः ! आरम्-अरिसमूहं वारयति क्विप्, णिलोपः । रणो युद्धं
 तत्र समानः सदर्पः, तमाचष्टे णिच्, क्विप्, णिलोप-यो यो युद्धाभिमानी भटस्तं तं सप्रसादमवा-
 दीद् इत्यर्थः । धर्मस्य अहिंसादेरर्थो निवृत्तिर्यस्मात्-अहिंसां निषेध्य पापधिप्रवर्तनेन हिंसा च-
 कार इत्यर्थः । प्रणतप्रार्थितार्थप्रद ! । महोदया अभ्युदयवन्तो ये वीराः शाकम्भरोभूय-सोमेन्द्र-
 प्रभृतयो विक्रान्ताः, तेषां धियं ईरयति कम्पयति-स्वस्थानस्याऽप्यऽस्य काश्चनमण्डपिकादिप्रेषणात्
 तैः । सकीर्तिकान्ते ! । अव रक्ष । काः ? परमाः परेषा लक्ष्मीः । "सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः"
 इति गमो ज्ञानं तेन सिद्धा 'ज्ञानवन्तः' इति ख्यातिं गताः, सूरयः पण्डिता यस्मात् ॥ ९६ ॥

कल्याणसार ! सवितानहरे ! क्षमोह ! कान्ताऽऽरवारण ! समानऽजयाद्य ! देव ! ।
 धर्मार्थिकामद ! महोदय ! वीर ! धीर ! सोमप्रभाव ! परमाऽगमसिद्धसूरे ! ॥

अथ मूलराजः । हे आद्यदेव ! आद्यशब्दो मूलपर्यायः, देवशब्दो राजपर्यायश्च इति मूल-
 राज ! । अजय ! न जीयते इत्यजयः, यदि वा अजयाद्य ! अजयदेवद्वारापतिः आद्यपितृत्वेन प्रथमो
 यस्य । देव ! राजन् ! अव रक्ष । कान् ? समान् अविवमान् साधून् इत्यर्थः । कल्याणसार ! मङ्गल-

श्रेष्ठ ! । सविताना विस्तारवन्तो हरयस्तुरंगा यस्य । क्षमां पृथ्वीं स्वकीयां पालयितुम्, परकीयां प्रही-
तुम्—ऊहते वितर्कयति । कान्ताऽऽराः—चारुचङ्कमणाः वारणाः करिणो यस्य । त्रिवर्गपालक ! ।
महान् उदयो यस्य । वीर ! विकान्त ! । धीर ! साहसिक ! । प्रत्यहं कलोपचीयमानतया सोमस्य
इव चन्द्रस्य इव प्रभावो यस्य । परेषां शत्रूणां मा लक्ष्मीः, तस्या आगमे न्यपगमे च सिद्धसूरे !
मन्त्रसिद्धाचार्य ! ॥ ९७ ॥

कल्याऽऽणसाऽरसवितानहरे-क्षमोह ! कान्तारवाऽरण ! समान ! जयाऽद्य देव ! ।

धर्मार्थकामद ! महोदयवीर ! धीर ! सोम ! प्रभाव ! परमाऽऽगम ! सिद्ध ! सूरे ! ॥

सिद्धराजश्रीजयसिंहदेवस्य, परमार्हतश्रीकुमारपालस्य, श्रीमूलराजस्य च कलितसकलशा-
स्त्रोपनिषदि र्पदि प्राप्तप्रसिद्धिः कविराजश्रीपालकीर्तिलवालवालः श्रीसिद्धपालः ।

हे सिद्ध ! सिद्धपाल ! “ भीमो भीमसेन. ” इति न्यायात् । “ कल्याणः कल्याणवाचि
स्या ” इति पाठान् कल्या कल्याणी वाक् संस्कृतादिपद्भाषानुगतकाव्यरूपा इत्यर्थः । तस्या
आणो भगनम्, स एव श्रीर्यस्य । अत एव अरसा नीरसा ये कत्रयस्तेषां वितानमवसरः, तत् हरति-
कल्याणीवाचं वितन्वति सति सिद्धपालनृपसदसि नीरसानामन्येषां कवीनां नावसर इत्यर्थः । इक्ष्मा ल-
क्ष्मीसंपादनसमथां ऊहा वितर्का यस्य—न केवलं कविः, किंतिर्हि ? लक्ष्मीसंपादकव्यापारचिन्ताचतुरो-
ऽपीत्यर्थः । कान्तः कमनीयः, आरवः शब्दो यस्य । अरण ! अरुह ! आत्मप्रशंसा—परतिन्दादिवोप-
रहितत्वात् । समान ! सकललोकपूज्य ! । जय त्वम् । अद्य । देव ! ज्ञातसर्वव्यवहार ! ।
त्रिवर्गपालक ! । महोदयं विशेषेण इतं गच्छति । धीर ! धिया बुद्ध्या राजते, धियं वा ददाति ।
सोम ! सकर्त ! । प्रभाव ! प्रकृष्टाभिप्राय ! । परः प्रकृष्टः, माऽऽगमः लक्ष्मीसमागतिर्यस्य ।
सूरे ! सकलशास्त्रविशारद ! । अनेन विशेषणद्वयेन सिद्धपालस्य लोकोत्तरत्वमुक्तम् । सहवास-
विरुद्धयोरपि लक्ष्मी—प्राहयोरस्मिन् दर्शनात् ॥ १८ ॥

कल्याणसार ! स वितानहरे ! क्षमोह ! कान्ताऽऽरवारण ! समान ! जयाऽद्य देव ! ।

धर्मार्थकामदमहोदय ! वीरधीर ! सोमप्रभाव ! परमागमसिद्ध ! सूरे ! ॥

अथ श्रीअजितदेवसुरिः ।

यः शास्त्रार्थसुगताऽऽगमकाव्यतर्क—संपर्ककर्मशमतिप्रसरैः प्रबुद्धैः ।

भावारिभिः स्मरमदप्रभुस्रैर्बुधुक्षा—गुरुभ्यैः परीषहगणैश्च न जीयते स्म ॥

सोऽर्थाद् अजितः, स चासौ मनोहराकारतया देवश्च । सूरे ! आचार्य ! अजितदेवसूरे !
इत्यर्थः । कनककमलवत् कपिशकान्ते ! । क्षमः प्रतिवादिविद्यामदच्छेदे समर्थः ऊहस्तर्को यस्य ।
कान्तः कमनीयः, आरश्चक्रमणं तेन वारण इव गज इव—सलिलगमन इत्यर्थः । समान ! सकललो-
कपूज्य ! । धर्ममेव अर्थं वस्तु कायति विच्—धर्मार्थकास्तं धर्मार्थकाम् । अथ रक्ष रागाद्यन्तरङ्ग-
रिपुष्वंसनेन । अदममहोदय । अदमः अनुपशमः, तं हन्ति अदमहा उदयो यस्य । वीरधीर ! अवनम्
कः सर्वरक्षा, तस्याम् ईरवीर्गमनबुद्धिः, तां राति ददाति । सोमप्रभाव ! आल्हादक ! । परमागम-
सिद्ध ! जिनसिद्धान्तेन ख्यात ! ॥ ९९ ॥

कल्याऽऽणसारस ! वितान ! हरे ! क्षमोह ! कान्ताऽऽरवारण ! समान ! जयाद्य ! देव !
धर्मार्थ ! कामद ! महोदयवीर ! धीर ! सोम ! प्रभावपरमाऽऽगमसिद्धसूरे ! ॥

अथ श्रीविजयसिंहसूरिः । हे हरे ! सिंह !, जयाद्य ! जयशब्दपूर्व !-जयसिंह ! । सवितान !
वेः विशब्दात् तानो विस्तारः, सह वितानेन वर्तते विजयसिंह इत्यर्थः । सूरे ! आचार्यकल्प ! ।
कलिकालेऽपि दुष्करक्रियाकलापकरणसज्ज आणः शब्दस्तेन सारस ! जलधर ! -गन्मीरया गिरा
धर्मदेशना करोति इत्यर्थः । क्षमा कान्तिम्, ऊहते-महापराधेऽपि न कुप्यतीत्यर्थः । कान्तासु स्त्रीषु
भारोऽभिगमः, तं धारयति स्वयं निरुपमब्रह्मचर्यपरः परेभ्यो ब्रह्मचर्येषुपविशतीत्यर्थः । समान !
समस्तजनजनितपूज ! । 'देव' इति क्रिया-अस्पृष्टापवादभूमितया देववदाचर । धर्मार्थ !
धर्महेतो ! । कामद ! स्मरणहृक ! । (महोदयवीर !) भोक्षगमनप्रगल्भ ! । सोम ! चारित्रिषु
प्रथमप्रथितकीर्ति ! । प्रभावः-परैरनभिभवनीयोऽनुभवस्तेन परम ! प्रकृष्ट ! । स्व-पराऽऽगमप्रख्यात ! १००
इत्यमर्थशतं श्रुत्वा समुल्लसितगतप्रकर्षः कोऽपि शिष्यः शतार्थवृत्तस्य कर्तारं स्वगुरुमनेनैव स्तौति-

कल्याऽऽणसारसवितानहरेऽक्षमोहकान्तारवारण ! समान ! जयाऽऽद्य ! देव ! ।
धर्मार्थकामद ! महोद ! यवीर ! धीर ! सोमप्रभाऽऽवपरमाऽऽगमसिद्धसूरे ! ॥

हे सोमप्रभसुरे ! कल्या विवक्षितार्थप्रतिपादनदक्षा, आणाः शब्दाः, ते एव सारसानि
पद्मानि, तेषां वितानो विस्तारस्तत्र हरे ! सूर्य ! । अनेनास्य अनेकार्यशब्दसंदर्भगर्भ शतार्थवृत्तं व्यधात्
प्रसुरित्युक्तम् । अक्षो ज्ञानम्, तत्र यो मोहो भ्रान्तिः, स एव कान्तारम्, तद्गच्छने गजतुल्य ! ।
अनेन यथार्थबोधभ्रमनिवृत्तये शतार्थवृत्तस्य वृत्तिं प्रमुञ्चकारेत्युक्तम् । जय ! त्वम् । आद्य ! एकत्रैव
वृत्तेऽर्थशताऽऽविर्भावनेन श्रेष्ठ ! । देव ! चतुर्विंशतिवर्हदादिस्तुतिर्यस्मात् । धर्मार्थक ! धर्मार्थः पुण्यहेतुः
क आत्मा यस्य । अमद ! निरहंकार ! । महस्तेजो ददाति सकलसंघस्य तेजःप्रद इत्यर्थः । यवीर !
इः कामः, अवीरः अविकान्तो यस्य । धीर ! धियं राति, धिया वा राजते । अवनं आवः सत्त्वरक्षा,
तेन प्रकृष्ट ! । आगमेन सिद्धान्तेन सिद्ध ! ॥ १ ॥ x x x x x x x x x

स एव शिष्यः स्वकृतैः कवित्वै-गुरोर्गेरिष्णा जितकाञ्चनाद्रेः ।

शुद्धस्यभावान्वयकीर्तनेन व्यनक्ति भक्तिं पुनरुक्तमेताम् ॥

प्राग्वादान्वयनीरराशिरजनीजानिर्जिनार्चापरः

संजातो जिनदेव इत्यभिधया चूडामणिर्षेन्निष्णाम् ।

यस्यौदार्य-विवेक-विक्रम-दया-दाक्षिण्यपुण्यैर्गुणैः

साम्यं लब्धुमहर्निशं जगदपि क्लिश्यन् न विश्राम्यति ॥

तस्याऽऽत्मजः मुजनमण्डलमौलिरत्न-

मुञ्जृम्भितेन्द्रियजयोऽजनि सर्वदेवः ।

एकस्यसर्वगुणनिर्मितकौतुकेन

धात्रा कृतोऽपमिति यः प्रथितः पृथिव्याम् ॥

सुनुस्तस्य प्रथमकमलादर्पणः पुण्यकामः

कौमारेऽपि स्मरमदजयी जैनदीक्षां प्रपन्नः ।

विश्वस्यापि श्रुतजलनिधेः पारमासाद्य जज्ञे


श्रीमान् सोमप्रभ इति लसत्कीर्तिराचार्यवर्यः ॥

यो गृह्णाति समश्रुतं वहति यस्तर्केऽद्भुतं पाटवं

काव्यं यस्त्वरितं करोति तनुते यः पावर्नी देशनाम् ।

योज्वधनात् सुमतेश्चरित्र × × भ × सूक्तिपङ्क्तिपरां

श्रीसोमप्रभमूरिरेप [निखिले] वृत्ते शतार्थं व्यधात् ॥



ऐतिहासिकनाम्नामनुक्रमः ।

नाम—	पृष्ठ	नाम—	पृष्ठ
अणहिल्लपाटकपुरम्	३	देवप्रसादः	४
अभयो दण्डाधिपः (यशोदेवतनयः)	४४३	बधुक्कयपुरम्	(क्षेमराजपुत्रः)
अभयकुमारश्रेष्ठी (नेमिनागपुत्रः)	४७१	नागहस्ती	(बधुका-हेमचन्द्र जन्म-स्थानम्)
अम्बडादयो दण्डेशाः	१८०	नेमिः	(पादलितसुरिगुरुः)
आन्नः सुराश्रेष्ठाः (राणिगपुत्रः)	१८	पादलितसुरिः	(हेमचन्द्रमातुलः)
उज्जयन्तगिरिः (गिरनारपर्वतः)	४	पालिषाणम्	१७८-१७९
कर्णदेवः (मीमदेवपुत्रः)	४	प्रद्युम्नसुरिः	(नागार्जुनकृतमेत-ज्ञान-पाळीतापुं)
कुमारपालः (कथानायकः)	४	वाहडः	(यशोभद्रसुरिशिष्यः स्थान-कप्रकरणकर्ता)
क्षेमराजः (मीमदेवसुतः)	२१	भीमदेवः	(अमाल्यो महत्तमो चाण्डः)
खम-तीर्थम् (खमातनगरम्)	१९	मूलराजः	(दुर्लभराजपुत्रः)
गुणसेनसुरिः (प्रद्युम्नसुरिशिष्यः)	२०	मोढकुलम्	(चौकुव्यवंशोद्भवः)
चक्षुः (हेमचन्द्रसुरिजनकः)	२०	यशोभद्रसुरिः	(हेमचन्द्रकुलम्)
चाहिणी (हेमचन्द्रसुरिजननी)	२०	रैवतगिरिः	(प्रद्युम्नसुरिगुरुः)
चङ्गदेवः (हेमचन्द्रस्य बाल्यका-लिर्कं नाम)	२०	वल्लभराजः	(गिरनारपर्वतः)
चाण्डः (मूलराजपुत्रः)	४	चाण्डदेशः	(चामुण्डराजपुत्रः)
छद्म-श्रेष्ठी (कुमारपालकालीनः श्रेष्ठी)	३९६	शत्रुजयगिरिः	६
जयसिंहदेवः (सिद्धराजापरनामा कर्णदेवतनयः)	४	सिद्धपालकविः	१७६
डिङ्गुयाणपुरम् (डिङ्गवाणाग्रामम्)	१८	सिद्धहेमव्याकरणम्	(प्राण्वाटवंशीय-श्रीपाल-पुत्रः)
तारापुरम् (तारगास्थानम्)	४४२	सिद्धिपुरम्	१७९
त्रिभुवनपालः (कुमारपालपिता)	४	सोमचन्द्रः	२२
त्रिभुवनविहारः	१४४	सोमप्रभः	(दीक्षितस्य चङ्गदेवस्य नाम)
दत्तसुरिः (यशोभद्रसुरिगुरुः)	६	हेमचन्द्रः	२०
दिगम्बराः	४४३		(अन्यकारः) प्रतिप्रस्ताव-प्रान्तम्
दुर्लभराजः (बल्लभराजपुत्रः)	४		(घुरिपदस्थितस्य सोमच-न्द्रस्य नाम)
देवचन्द्रसुरिः (हेमचन्द्रसुरिगुरुः, शान्ति-नाथचरित्र-स्थानक-प्रकरणविवृति-कर्ता)	१९		२१

कुमारपालप्रतिबोध-संक्षेपः ।

अन्यकारस्य
प्रस्तावना ।

चञ्चु विसासु पसरियं मोह-वलं निजिदं पयट्टो व्व ।
 पयडिय-धम्म-चचको चढ-देहो जयइ जिण-नाहो ॥
 तं नमह रिसह-नाहं नाण-निहाणस्स जस्स अंसेसु ।
 अलि-कसिणो केस-भरो रेइइ रुक्खे भुयंगो व ॥
 तं सरह संतिनाहं पवन्न-चरणं पि जं चरण-लगा ।
 तियस-कय-फणय-पंकय-मिसेण सेवंति नव निहिणो ॥
 कज्जल-समाण-वन्नं सिवंग-भूयं निसिद्ध-मय-मारं ।
 परिहरिय-रायमइयं दुहा नमंसाभि नेमिजिणं ॥
 मज्झ पसीयउ पासो पासे जस्सोरगिद-फण-मणिणो ।
 दिप्पंति सत्त-दीव व सत्त तत्ताइं पायडिउं ॥
 सो जयइ महावीरो सरीर-दुग्गाओ भाव-रिउ-वग्गो ।
 चिरमन्न-पाण-रोहं काउं निव्वासिओ जेण ॥
 वित्थारिय-परमत्थं अणगघ-रयणासथं सुवन्न-पथं ।
 दोगच्च-दलण-निउणं नमह निहाणं व जिण-वयणं ॥
 जेसिं तुट्ठिं लट्ठिं व लहिउ मंदो वि अखलिय-पयहिं ।
 विसमे वि कच्च-मग्गे संचरइ जयंतु ते गुरुणो ॥
 कइणो जयंतु ते जलहिणो व्व उवजीविउण जाण पयं ।
 अन्ने वि घणा भुवणे कुणंति घन्नाण उक्करिसं ॥
 जलहि-जल-गलिय-रयणं व दुल्लहं माणुसत्तणं लहिउं ।
 जिणधम्मंभि पयत्तो कायव्वो सुद्धिमतेण ॥
 सग्गो ताण धरंगणं सहयरा सव्वा सुहा संपया
 सोहग्गाइ-गुणावल्ली विरयए सव्वंगमालिणं ।
 संसारो न दुरुत्तरो सिव-सुहं पत्तं करंभोरुहे
 जे सम्मं जिणधम्म-कम्म-करणे वट्ठंति उद्धारया ॥
 सप्पुरिस-चरित्तानं सरणेण पयंपणेण सवणेण ।
 अणुमोयणेण य फुडं जिणधम्मो लहइ उक्करिसं ॥
 पुव्वं जिणा गणहरा चउवस-दस-पुव्विणो चरिम-त्तणो ।
 चारित्त-धरा व्हवो जाया अन्ने वि सप्पुरिसा ॥
 तह भरहेसर-सेणिय-संपइनिव-पभिइणो समुप्पन्ना ।

पृष्ठ १.

पृष्ठ २.

पवयण-पभावणा-गुण-निहिणो गिह्णिणो वि सप्पुरिसा ॥
 तेसिं नाम-गहणं पि जणइ जंतूण पुञ्ज-पव्मारं ।
 सग्गाऽपवग-सुह-संपयाउ संपाढइ क्रमेण ॥
 संपइ पुण सप्पुरिसो एक्को सिरि-हेमचंद-सुणि-णाहो ।
 फुरियं दूसम-समए वि जत्स लोउत्तरं चरियं ॥
 दुइओ य दलिय-रिउ-चक्क-विकको कुमरवाळ-भूपाळो ।
 जेण दढं पडिवन्नो जिण-धम्मो दूसमाए वि ॥
 केवल-नाण-पलोइअ-तइलोक्काणं जिणाण वयणेहिं ।
 पुव्व-निवा पडिवुद्धा जिणधम्मे जं न तं चुज्जं ॥
 चुज्जमिणं जं राया कुमारवाळो परूढ-मिच्छत्तो ।
 छउमत्थेण वि पडुणा जिणधम्म-परायणो विहिओ ॥
 तुलिय-तवणिज्ज-कंती सयवत्त-सवत्त-नयण-रमणिज्जा ।
 पडविय-ल्लोय-ल्लोयण-हरिस-प्पसरा सरीर-सिरी ॥
 आवाळत्तणओ वि हु चारित्तं जणिय-जण-चमक्कारं ।
 थावीस-परीसह-सहण-दुद्धरं तिव्व-तव-पवरं ॥
 सुणिय-विसमत्थ-सत्या निम्मिय-चायरण-पसुह-गंथ-गणा ।
 परवाइ-पराजय-जाय-कित्ती मई जय-पसिद्धा ॥
 धम्म-पडिवत्ति-जणणं अतुच्छ-मिच्छत्त-मुच्छिआणं पि ।
 महु-खीर-पसुह-भहुरत्त-निम्मियं धम्म-वागरणं ॥
 इआइ-गुणोहं हेमसूरिणो पेच्छिऊण छेय-जणो ।
 सहइ अदिट्ठे वि हु तित्थंकर-गणहर-प्पसुहे ॥
 जिणधम्मो पडिवत्ति कुमरनरिदस्स लोइवं लोओ ।
 पत्तियइ व्व चिरंतण-भूमिवईणं पि अविअप्पं ॥
 सिव-पह-कहणे वि सयं वीरजिणे सेणिएण नरवइणा ।
 जीव-दयं फारविदं न सक्किओ कालसोयरिओ ॥
 दूसम-समए वि हु हेमसूरिणो निसुणिऊण वयणाइं ।
 सज्ज-जणो जीव-दयं कराविओ कुमरवाळेण ॥
 तत्तो दुवे-वि एए इमंमि समए असंभव-चरित्ता ।
 कय-कयजुथा-ववारा जिणधम्म-पभावण-पहाणा ॥
 दुण्ह वि इमाण चरियं भणिज्जमाणं मए निसामेह ।
 वित्थरइ जेण सुकयं थिरत्तणं होइ जिणधम्मो ॥
 जइ वि चरियं इमाणं सणोहरं अत्थि चडुयमज्जं पि ।
 तह वि जिणधम्म-पडिवोह-वंधुरं किं पि जंपेमि ॥

अणहिल्लपुर पाट-
कवर्णनम् ।

बहु-भक्त्स्व-जुयाइ वि रसवईए मञ्जाओ किंचि भुंजंतो ।
निय-इच्छा-अणुरुवं पुरिसो किं होइ वयणिण्णो ॥

अत्थि महीं-महिलाए सुहं महंतं मयंक-पडिविन्व ।

जवुदीव-छलेणं नहलच्छि दद्दुमुत्तमियं ॥

तुंगो नासा-वंसो व्व सोहए तियस-पव्वओ जत्थ ।

सीया-सीओयाओ वीहा विट्ठीओ व सहंति ॥

तत्थारोविय-गुण-घणु-निमं नलाडं व भारहं अत्थि ।

जत्थ विरायइ विउलो वेयड्ढो रयय-पट्टो व्व ॥

अं गंग-सिंधु-सरिया-मुत्तिय-सरियाहिसंगयं सहइ ।

तीर-वण-पंति-कुंतल-कलाव-रेहंत-पेरंतं ॥

तत्थत्थि तिलय-तुळं अणहिल्लवाडय-पुरं घण-सुवन्नं ।

पेरंत-मुत्तियावलि-समो सहइ जत्थ सिय-सालो ॥

गरुओ गुळ्जर-देसो नगरागर-गाम-गोउलाइन्नो ।

सुर-ल्लोय-रिद्धि-मय-विजय-पडिओ मंडिओ जेण ॥

जन्मि निरंतर-सुर-भवण-पडिम-ण्हवणंतु-पूर-सित्त व्व ।

सहला मणोरह-दुमा धम्मिय-ल्लोयस्स जायंति ॥

पृष्ठ ४.

जत्थ सहंति सुवन्ना कंचण-कलसा य सुर-धर-सिरेसु ।

गयण-व्वम-खिन्न-निसण्ण-खयर-तरुणीण पीण-थणा ॥

अव्वंलिह-सुर-मंदिर-सिर-विलसिर-कणय-केयण-मुएहिं ।

नवइ व जत्थ लच्छी सुट्टाण-निवेस-हरिस-वसा ॥

जत्थ मणि-भवण-भित्तीसु पेच्छिळं अत्तणो वि पडिविं व्व ।

पडिजुवइ-संकिरीओ कुप्पंति पिप्पु सुट्टाओ ॥

जन्मि महा-पुरिसाणं घण-दाणं निरुवमं निएऊण ।

अजहत्थ-नामओ लज्जिओ व्व दूरं गओ घणओ ॥

जत्थिस समच्छरमणा जलासया न षण धम्मिय-समूहा ।

कमलोवकारया सूर-रत्थिणो न षण सप्पुरिसा ॥

जत्थ रमणीण रुवं रमणिज्जं पेच्छिऊण अमरीओ ।

लज्जंतीओ व चिताइ कह वि निहं न पावंति ॥

चौल्लव्यवशीयत्त-
पवर्णनम् ।

तत्थासि मूलराओ राया चोल्लुक कुल-नह-मयंको ।

जणिया जणाणुकुला मूलेण व जेण नीइ-ल्लया ॥

जस-पुंढरीय-मण्डल-मंडिय-वंमंड-मंडवो तत्तो ।

खंडिय-विपक्ख-मुंडो चंडो चासुंढराय-निवो ॥

तत्तो वल्लहराओ राया रइवल्लहो व्व रमणिज्जो ।

जेण तुरपहिं जगहंपणु त्ति किच्ची जय पत्ता ॥
 तत्तो दुद्धहराओ राया समरंगणंमि जत्स करे ।
 करवालो छब्बइ जय-सिरीइ मयणाहि-विलओ व्व ॥
 तत्तो भीमनरिंदो भीमो व्व पर्यंड-वाहु-वल-भीमो ।
 अरि-चक्रं अक्कमिचं पायडिओ जेण पंडु-जसो ॥
 तो कण्णदेव-निवई जत्सासि-जलंमि विलसिया सुहरं ।
 जत्स-रायहंस-साहिया जय-रुच्छी रायहंसी व्व ॥
 तयणु जयसिहदेवो पर्यंड-मुय-दंड-मंडवे जत्स ।
 किच्चि-पथाव-मिसेणं चिर-कालं कीलियं मिहुणं ॥
 तम्मि गए सुर-लोयं कांडं व सुरेसरेण सह मित्ति ।
 कमल-वणं व दिग्गिदे अत्थमिप मवल्लियं सुवणं ॥
 तत्तो पहाण-पुरिसा निच-मइ-माहप्प-विजिय-सुर-गुरुणो ।
 रत्तमणाहं दहुं जंपंति परुप्परं एवं ॥

पृष्ठ ५.

कुमारपालवंश-
वर्णनम् ।

आसि सिरि-भीमदेवत्स नंदणो जणिय-जण-मणाणंदो ।
 कय-सयल-खोणि-खेमो नामेणं खेमराज त्ति ॥
 तत्स तणओ तिणीकय-कंदणो देह-सुंदरत्तेण ।
 देवप्पसाय-नामो देव-पसायण-पहाण-मणो ॥
 तत्संगरुहो गरुओ पर-रमणि-परंसुहो महासुरो ।
 वियस-सरि-सरिस-किच्ची तिहुयणपालो त्ति नामेण ॥
 तत्स सुओ तेयस्सी पसन्न-वयणो सुरिंद-सम-रुओ ।
 देव-गुरु-पूयण-परो परोवयारुत्तओ धीरो ॥
 दक्खो दक्खिन्न-निही नयवंतो सव्व-सत्त-संजुत्तो ।
 सुरो चाई पडिवन्न-बच्छलो कुमरवालो त्ति ॥
 एसो जुणो रत्तत्स रत्तलक्खण-सणाह-सव्वंगो ।
 ता झत्ति ठविल्लज निरगुणेहिं पज्जत्तमन्नेहिं ॥
 एवं परुप्परं मंतिऊण तह गिण्हिऊण संवायं ।
 सामुदिय-भोहुत्तिय-सावणिय-नेमित्तिय-नराणं ॥
 रत्तंमि परिट्टविओ कुमारवालो पहाण-पुरिसेहिं ।
 तत्तो सुवणामसेसं परिओस-परं व संजायं ॥
 सुट्ट-दार-वंतुरिय-अरंगण लक्खिय-चारु-खिल्लास-पणंगण ।
 निम्भर-सह-अरिय-मुवणंतर वज्जिय-मंगल-नूर-निरंतर ॥
 साहिय-दिसा-चवक्को चव-ब्बिहोवाय-अरिय-चव-वन्नो ।
 चव-वमा-सेवण-परो कुमर-नरिंदो कुणइ रत्तं ॥

कुमारपालस्य
धर्मस्वरूप-
जिज्ञासा ।

अह अन्नया वियहे बहुणो बहु-धम्म-सत्य-नाणहे !
विप्पपहाणे ह्कारिऊण रत्ता मणियमेवं ॥
करि-तुरय-रह-समिद्धं नरिंद-सिरि-कुसुम-लीढ-पयवीढं ।
लंघिय-वसण-सहस्सो संपत्तो जं अहं रज्जं ॥
तं पुव्व-भवे धम्मो सुदेक्क-देऊ कओ मए को वि ।
कज्जस्स दंसणाओ जाणंति हि कारणं निउणा ॥
ता धम्मस्स सरुवं कहेहि परिभाविऊण सत्यत्थं ।
जेण तमायरिऊणं करेमि मणुयत्तणं सहलं ॥
मणुयत्तणे वि लद्धे कुणंति धम्मं न जे विमूढ-मणा ।
ते रोहणं पि पत्ता महग्घ-रयणं न गिण्हंति ॥
तो बुद्ध-धम्मणेहिं निवस्स वेयाइ-सत्य-पन्नत्तो ।
पसु-वह-पहाण-जागाइ-ल्लभ्खणो अविस्सओ धम्मो ॥
तं सोऊण निवेणं फुरिय-विवेएण चित्थियं चित्ते ।
अहह दिय-पुंगवेहिं न सोहणो साहिओ धम्मो ॥
पंचिदिय-जीव-वहो निक्करुण-मणेहिं कीरए जत्थ ।
जइ सो वि होज्ज धम्मो नत्थि अहम्मो तओ को वि ॥
ता धम्मस्स सरुवं जहट्ठियं किं इमे न जाणंति ? ।
किं वा जाणंता वि हु मं विप्पा विप्पयारंति ॥
इय चिताए निहं अलहंतो निसि-भरम्मि नरनाहो ।
नमिऊण अमचेणं बाहडदेवेण विन्नत्तो ॥
धम्माधम्म-सरुवं नरिंद ! जइ जाणिलं तुमं महसि ।
खणमेक्कमेगचित्तो निसुणसु जं किं पि जंपेमि ॥
आसि भम-रहिओ पुन्नतल्ल-गुरु-गच्छ-दुम-कुसुम-गुच्छो ।
समय-मयरंद-सारो सिरिदत्तगुरु सुरहि-सालो ॥
सो विहिणा विहरंतो गामागर-नगर-भूसिथं वसुहं ।
वागड-विसय-वर्यसे रयणपुरे पुर-वरे पत्तो ॥
तत्थ निवो जसभहो भइ-गयंदो व्व दाण-लद्ध-जसो ।
वेरि-करि-दलण-सूरो उन्नय-वंसो विसाल-करो ॥
तम्मि नरिंद-मंदिर-अदूर-देसम्मि गिण्हिहं वसहिं ।
चंदो व्व तारय-जुओ मुणि-परियरिओ ठिओ एसो ॥
तस्स सुहा-रस-सारणि-सहोयरं धम्म-देसणं सोढं ।
संवेग-वासिथ-मणा के वि पवज्जंति पवज्जं ॥
अन्ने गिहत्थ-धम्मोचिआइं वारस-वयाइं गिण्हंति ।

वागमटदेवेन कु-
मारपालस्य हेम-
चन्द्ररूपिपरिच-
योत्पादनम् ।
हेमचन्द्रस्य गुह-
परम्परावर्णनम् ।

पृष्ठ ६.

मोक्ष-तरु-श्रीय-भूयं सम्मत्तं आयरंति परे ॥
 अह् अन्नया निसाप सञ्ज्ञाय-श्रुणि मुणीण सोऽरुण ।
 जसभह्-निबो सवेग-परिगओ चित्तए चित्ते ॥
 धन्ना एए मुणिणो काचं जे सच्च-संग-परिहारं ।
 पर-लोय-मगमेकं मुक्क-भवासा पर्यंपत्ति ॥
 ता एयाण मुणीणं पय-पडम-नमंसणेण अप्पाणं ।
 परिगलिय-पाव-पकं पहाय-समए करिस्सामि ॥
 एवं धम्म-मणोरह-कलिय-मणो पस्थिबो लहइ निदं ।
 मंगल-तूर-रवेणं पडिबुद्धो पच्छिमे जामे ॥
 कय-सयल-गोस-किञ्चो समत्त-सामंत-मंति-परियरिओ ।
 करि-तुरय-रह-समेओ पत्तो सिरिदत्त-गुरु-पासे ॥
 भूमि-निहिउत्तमंगो भत्ति-समगो गुहं पणमिऊण ।
 पुरओ निबो निविट्ठो कयंजली भणिउमाडत्तो ॥
 भयवं ! धन्ना तुब्भे संसारासारयं मणे धरिउं ।
 जे चत्त सच्च-संगा पर-लोयाराहणं कुणह ॥
 अन्हारिसा अह्जा परलोय-परंमुहा महारंभा ।
 अनियत्त-विसय-तण्हा जे इह-भव-मेत्त-पडिवद्धा ॥
 अह् जंपिउं पवत्तो सिरिदत्तगुरु नहंगणं सयलं ।
 तव-सिरि-मुत्ता-पंतीहिं दंत-कंतीहिं धवलंतो ॥
 शुह-ससि-पवेस-सुविणोवभाइ दुल्लहं नरत्तणं लहिउं ।
 खणमेकं पि पमाओ बुहेण धम्मे न कायव्वो ॥

(मूलदेवकथानकमत्रानुसन्धेयम् ।)

इय धम्म-देसणाऽभय-रसेण सेत्तम्मि भूमिणाहस्त ।
 हिययम्मि ससुल्लसिओ जिणिंद-धम्माणुराय-दुमो ॥
 मणियं निवेण भयवं ! कहियमिणं उभय-भव-हियं तुमए ।
 अन्नो पिओ वि सच्चो जंपह इह-भव-हियं चैव ॥
 ता समयम्मि विसुत्तुं तणं व रज्जं विवेय-गारि-वज्जं ।
 पडिवज्जिऊण धम्मं सहलं काहं मणुय-जम्मं ॥
 ता वंदिउं शुणिदं निय-मंदिर-मागओ महीनाहो ।
 धम्मोवएस-विसरं सुमरंतो गमइ दियहाइ ॥
 अह् पावसो पयट्ठो संपाडिय-पहिय-हियय-संघट्ठो ।
 समरट्ठ-मारजट्ठो कयंव-संदट्ठ-अलिवट्ठो ॥
 जत्थ विरह्गि-डब्बंत-विरहिणी-हियय-लद्ध-पसरण ।

धूम-भरेण घण-मंडलेण मलिणी-कयं गगणं ॥
 नव-मेह-पियथमेणं समप्पियं जत्थ तडि-लया-लोयं ।
 कणयमयाभरणं पिव पयडंति दिसा-पुरंघीओ ॥
 नव-पाउस-नरवइ-रज्ज-धोसणा-डिडिमो व्व सव्वत्थ ।
 जग्गविय-विसम-वाणो विर्यंभिओ मेह-गज्जिरवो ॥
 निवडंति माणिणी-माण-खंडणे विलसमाण-सत्तीओ ।
 जत्तिस जल धाराओ अणंग-सर-धोरणीउ व्व ॥
 तत्तिस चरि-खित्तुं नरवइणा वावियाइं घनाइं ।
 तेत्तिस दंसण-हेवं कयावि राया विणिक्खंतो ॥
 तम्मि समए करिसगेहिं धन्न-मब्झाओ पुव्वमुक्खणिळं ।
 पुंजी-कएसु निप्फल-तणेसु पज्जालिओ जलणो ॥
 तत्थ जलणेण डब्झंत-विग्गहं गन्ध-निम्भरं भुयगिं ।
 दट्टं संविग्गेणं रत्ता परिभावियं एयं ॥
 अहह इमो धरवासो परिहरणिज्जो विवेयवंताणं ।
 वहु-जीव-विणास-करा आरंभा जत्थ कीरंति ॥

पृष्ठ १७.

× × × × ×

पृष्ठ १८.

एवं संविग्ग-मणो राया निय-मंदिरम्मि संपत्तो ।
 हक्कारिऊण पुच्छइ एणंते सावयं एणं ॥
 संपइ सिरि-दत्तगुरु गुणवंतो कत्थ विहरइ पएसे ।
 सो कहइ डिड्डुयाणय-पुरम्मि सुणिपुंगवो अत्थि ॥
 तो राया रयणीए कस्स वि अनिवेइऊण निक्खंतो ।
 तुरयंमि समारुहिऊण डिड्डुयाणय-पुरे पत्तो ॥
 सिरि-दत्तगुरुं नमिऊण तस्स कहिऊण नियय-वुत्तंतं ।
 जंपइ संपइ कावं अणुग्गहं देहिं मह दिक्खं ॥
 शुरुणा वुत्तं वुत्तं उत्तम-सत्तस्स तुज्झ नर-नाह ! ।
 रज्जं तणं व मुत्तुं करेसि जं संजम-ग्गहणं ॥
 नहिं संजमाउ अन्नो संसारुच्छेय-कारणं अत्थि ।
 नव-जलहरं विणा किं निव्वडइ दधानलं को वि ॥
 रत्ता अणप्पमुल्लं एक्कं एक्कावल्लिं समप्पेवं ।
 जिणधम्म-त्तिम्मल-मणा पर्यपिवा सावथा एवं ॥
 कारवह जिणाययणं इमीए एक्कावलीइ मुल्लेण ।
 तेहिं वि तह त्ति पडिवज्जिऊण तं झत्ति कारवियं ॥
 तं अत्थि तत्थ अज्ज वि चउवीस-जिणालयं जिणाययणं ।

पुञ्जं व मुक्तिमंतं जसमद्-निवत्स जं सहइ ॥
 रत्ना पुण पडिवन्ना सिरि-दत्त-गुरुत्स चलण-मूलम्मि ।
 अंतर-रिउ-वह-दक्खा दिक्खा निसियाऽसि-थार व्व ॥
 फांतरोववासे जा जीवं अंधिलं च पारणए ।
 काहं ति तेण विहिया वय-गहण-दिणे धिय पइत्ता ॥
 सुय-सागर-पारगओ सूरि-पथं पाविऊण जसमदो ।
 मुवणे चिरं विहरिओ पडिबोहंतो भविय-वग्गं ॥
 ससमय-परसमय-विऊ समए तेणावि निय पए ठविओ ।
 निब्बिय-पञ्जुन्न-भट्टो पञ्जुन्नो नाम वर-सूरि ॥
 अह जसमदो सूरी तिव्व-त्तववरण-सोसिय-सरीरो ।
 निय-परिवार-समेओ आरूढो उच्चयंत-गिरिं ॥
 रेवयगिरिंद-मच्छं व सुकय-लच्छी-विलास-कमळं व ।
 भव-जलहि-जाणवत्तं व जिण-हरं गणहरो पत्ते ॥
 नभिऊण नेमिनाहं पमज्जिउं निवसिऊण तत्स पुरो ।
 पञ्जुन्नसूरि-पमुहं निय-परिवारं भणइ एवं ॥
 राग-होस-विमुक्को चिर-सेविय-नाण-दंसण-चरित्तो ।
 निच्छय-नएण तित्थं अप्प धिय दुघए जइ वि ॥
 तह वि हु ववहार-नयेण जो पएसो पणट्ट-पावाण ।
 तित्थंकराण पयहिं फरिसिओ सो परं तित्थं ॥
 इह दिक्खा-पडिबत्ती नाणुप्पत्ती विमुत्ति-संपत्ती ।
 नेमिस्स जेण जाया तेणसो तित्थमुज्जितो ॥
 अन्नत्थ वि मेळित्थं निस्संदेहं दुहावहं वेहं ।
 तत्तो वरं पसत्थे तित्थे इत्थे वि मेळेमि ॥
 इय भणियं पच्चक्खइ जिण-पच्चक्खं चउच्चिहाहारं ।
 वारंतस्स वि पञ्जुन्नसूरिणो सपरिवारत्स ॥
 पत्तमासणोवविट्ठो परिचत्त-समत्त-गत्त परिकम्मो ।
 सिरि-नेमिनाह-पडिमा-मुहपंकथ-निहिय-नयण-जुओ ॥
 सब्बत्थ वि राग-होस-वज्जिओ परम-तत्त-लीण-मणो ।
 मुणिपुंगव-मुणियागम-सवण-समुल्लसिय-संवेगो ॥
 पुक्क-महारिसि-भग्गो दूसम-समये वि सेविओ सम्भं ।
 तेरस-दिणावसाणे पत्तो तियसालयं सूरी ॥
 तत्तो पञ्जुन्नगुरु वियरंतो सत्थल-संघ-परिओ स ।
 सुत्तत्थ-पयहण-परो परोवयारं चिरं कुणइ ॥

सत्त-सुहो सुह-सुहो वाइज्जंतो समग-लोपण ।
 ठाणय-पगरण-रुवो जस्सऽज्ज वि पुरइ जस-पडहो ॥
 तस्स गुणसेणसूरी सीसो वर-संजमुज्जवो जावो ।
 जस्स गुणधिय वाणा अंतररिउ-वग्ग-निग्गहणे ॥
 सीसो खम-ग्ग-लग्गो तस्सासी देवचंदसूरि त्ति ।
 चंदेण व दिय-राएण जेण आणंदियं भुवणं ॥
 कय-सुकय-कुमुय-योहा चउर-उठर-पमोय-संजणणी ।
 संतिजिण-चरित्त-कहा जुण्ह व्व विरंभिआ जत्तो ॥
 जे ठाणएसु ठविया पञ्जुन्न-मुणीसरेण धम्म-दुमा ।
 काऊण ताण विवइं ते जेण लहाविआ बुद्धिं ॥
 जस्स चलणारविंदं चरित्त-लच्छी-विलास-वासहरं ।
 मुणि-भमरेहिं अमुकं जिणमय-मयरंद-लुद्धेहिं ॥
 सो विहरंतो मही-मंडलम्मि खंडिय-पयंड-भावरिऊ ।
 सयल-भुवणे-क-चंधू धंधुकयं पुरवरं पत्तो ॥
 सो तत्थ पणमण-रथं समागयाणं जणाण पउरारणं ।
 संसारा-सारत्तण-पयासणिं देसणं कुणइ ॥
 तं सोउं संविग्गो सरीर-सुंदेर-विजिय-सुरकुमरो ।
 एक्को वणिय-कुमारो करयंजली भणित्ताहत्तो ॥
 भयवं ! भवणवाओ जम्म-जरा-मरण-लहरि-हीरंतं ।
 मं नित्थारसु सुचारित्त-जाणवत्त-पयाणेण ॥
 गुरुणा वुत्तं वालय ! कि नामो कस्स वा सुओ तं सि ।
 तो तस्स माउलेणं परंपिअं नेमिनामेण ॥
 भयवं ! इह-त्थि हत्थि व्व मोढकुल-विश-संभवो भइो ।
 कय-देव-गुरु-जणवो चओ नामा पहाण-वणी ॥
 निम्मल-कुल-संभूया भूरि-गुणाभरण-भूसिय-सरीरा ।
 तस्स-त्थि गेहिणी चाहिणि त्ति सा होइ मह बहिणी ॥
 जीए विमलं सीलं दृष्टुं लज्जाए चंदमा निव्वं ।
 चरम-जलहिम्मि मज्जइ कलंक-पक्खालणत्थं व ॥
 ताणं तणवो एत्तो निरुवम-रुवो पगिहु-मइ-विहवो ।
 सुवणु-द्धरण-मणोहर-चिचइओ चंगदेवो त्ति ॥
 गव्भा-वथार-समए इमस्स जणणीए सुविणए दिट्ठो ।
 निय-नेहे सहयारो समुग्गवो बुद्धिमणुपत्तो ॥
 जा पुप्फ-फला-रंभो तत्तो मुत्तूण मंदिरं मज्ज ।

पृष्ठ २०.

हेमचन्द्रस्य
वृत्तान्तः ।

अन्नत्य महारामे मणाभिरामे इमो पत्तो ॥
 छायाए पल्लवैहिं कुसुमेहिं फलेहिं तत्य पवरेहिं ।
 बहुय-जणाणं एसो उवयारं काउमाढत्तो ॥
 गन्भगए वि इमस्सिं इह देसे नट्टमसिक्क-न्नामं पि ।
 तह अणभिन्नो जाओ लोओ दुब्बिक्क-दुक्खस्स ॥
 परचक्क-चरड-चौराइ-विहवा दूरमुवगया सज्जे ।
 न फुरंति घूय-पसुहा मेह-च्छभे वि दिणनाहे ॥
 इय तस्स जम्म-दियहे जायाइं दिसा-मुहाइं विमलाइं ।
 देव-गुरु-चंदणेण धम्मत्थीणं मणाइं व ॥
 हरिस-जणणो जणाणं सुयणो व्व समीरणो समुल्लसिओ ।
 रय-पसमणं निवडियं गुरुण वयणं व गंधजलं ॥
 भवणम्मि कुसुम-बुद्धी सुसामि-तुट्ठि व्व सेवए जाया ।
 कव्व-गुणो व्व सहियए फुरिओ गयणंमि तूर-रवो ॥
 एसो परिओस-फरो वालत्तणओ वि अमय-धडिओ व्व ।
 रयणं व कराओ करं संचरिओ सयल-लोयस्स ॥
 संपह इमस्स चित्तं न रमह अन्नत्य वज्जिचं धम्मं ।
 माणस-सरंमि सुत्तुं हंसस्स व पल्ल-जलेसु ॥
 गुरुणा बुत्तं जुत्तं अं कुणइ इमो चरित्त-पडिर्वित्ति ।
 जेण सो परमत्थो जणणी-दिट्ठस्स सुविणस्स ॥
 गहिऊण वयं अबगाहिऊण नीसेस-सत्थ-परमत्थं ।
 तित्थकरो व्व एसो जणस्स उवयारओ होही ॥
 तत्तो इमस्स जणयं चबं नामेण भणह तो तुब्बे ।
 जह चंगदेवमेयं वय-गहणत्थं विसज्जेइ ॥
 सो बहु-सिणेह-जुत्तो बहुं पि भणिओ विसज्जेइ न पुत्तं ।
 तत्तो पुत्तो वि व्हं कवज्जमो संजम-ग्गहणे ॥
 माउल्लय-अणुमयं गिण्हिऊण ठाणंतरम्मि संचलिओ ।
 गुण-गुरुणा सह गुरुणा संपत्तो खंभतित्थम्मि ॥
 तत्य पवओ दिक्खं कुणमाणो सयल-संध-परिओसं ।
 सो सोम-सुहो सोमो व्व सोमचंदो त्ति कयनामो ॥
 थेवेण वि कालेण काऊण तवं जिणागसुद्धिं ।
 गंभीरस्स वि सुय-सागरस्स पारंगओ एसो ॥
 दूस्स-समय-असंभव-गुणोह-कलिओ विभावित्तं हिश्य ।
 सिरिदेवचंद-गुरुणा एसो गणहर-पए ठविओ ॥

हेम-समच्छवि देहो चंदो व्व जणाण जणित्य-आणंदो ।
 तत्तो इमो पसिद्धो नामेणं हेमचंदो त्ति ॥
 निबं सहावउ धिय समग्ग-लोओवयार-अय-चित्तो ।
 सो देवयाइ तुत्तो विहरंतो विविह-देसेसु ॥
 गुज्जर-विसयं मुत्तुं मा कुणसु विहारमन्न-देसेसु ।
 काहिसि परोवयारं जेणित्य ठिओ तुमं गरुयं ॥
 तो तीए वयणेणं देसंतर-विहरणाउ त्रिणित्तो ।
 चिट्ठइ इहेव एसो पडिबोहंतो भविय-वग्गं ॥
 बुह-यण-चूडामणिणो भुवण पसिद्धस्स सिद्धरायस्स ।
 संसय-पएसु सव्वेसु पुच्छणिज्जो इमो जाओ ॥
 एअस्स देसणं निसुणिऊण मिच्छत्त-भोहिय-मई वि ।
 जयसिहो निवो जाओ जिणिद-धम्माणुरत्त-मणो ॥
 तत्तो तेणित्य पुरे राय-विहारो कराविओ रम्मो ।
 चउ-जिणपडिम-समिद्धो सिद्धविहारो य सिद्धिपुरे ॥
 जयसिंहदेव-वयणा निम्मियं सिद्धहेम-वागरणं ।
 नीसेस-सइ-लक्खण-निहाणमिमिणा सुणिदेण ॥
 अमओ-वमेय-वाणी-विसालमेयं अपिच्छमाणस्स ।
 आसि खणं पि न तित्ती चित्ते जयसिंहदेवस्स ॥
 तो जइ तुमं पि वंछसि धम्म-सरूवं जहट्टियं नाउं ।
 तो सुणिपुंगव-मेयं पुच्छसु होऊण भत्ति-परो ॥
 इय सन्नं धम्म-सरूव-साहगो साहिओ अमवैणं ।
 तो हेमचंदसूरिं कुमर-नरिंदो नमइ निबं ॥
 सन्नं धम्म-सरूवं तस्स समीवंमि पुच्छए राया ।
 सुणिय-सयलागमत्थो सुणि-नाहो जंपए एवं ॥
 भव-सिघु-तरि-तुळं महल्ल-कल्लाण-वड्ढि-जलकुळं ।
 कय-सयल-सुह-समुदयं जीवदयं चिय सुणसु धम्मं ॥
 आउं वीहसरोगमंगमसमं रूवं परिट्टं वलं, .
 सोहग्गं तिजगुत्तमं निरुवमो भोगो जसो निम्मलो ।
 आप्पेक्क-परायणो परियणो लच्छी अविच्छेइणी,
 होज्जा तस्स भवंतरे कुणइ जो जीवाणुकंपं नरो ॥
 नरयपुर-सरल-सरणी अवाय-संघाय-वग्ग-वण-धरणी ।
 नीसेस-दुक्ख-जणणी हिंसा जीवाण सुह-हणणी ॥
 जो कुणइ परस्स दुहं पावइ तं चैव अणंतगुणं ।

पृष्ठ २२.

कुमारपालस्य
 हेमचन्द्रपरि-
 पार्श्वे गमनम् ।
 हेमचन्द्रसूरेः
 कुमारपालं प्रति
 सद्बोधः ।

पृष्ठ २३.

लब्धमिति अंबयाई नहि निवतरंमि ववियंमि ॥
 जो जीव-वहं काठं करेइ खण-मित्तमत्तणो तिच्छि ।
 छेयण-भेयण-पसुहं नरय-दुहं सो चिरं लहइ ॥
 जं दोहगमुदगं जं जण-ल्लोयण-दुहावहं रुवं ।
 जं अरस-मूल-खय-खास-सास-कुहाइणो रोगा ॥
 जं कण्ण-नास-कर-चलण-कत्तणं जं च जीवियं तुच्छं ।
 तं पुव्वारोविय-जीव-दुक्ख-रुक्खत्स फुरइ फळं ॥
 जो जीव-दयं जीवो नर-सुर-सिव-सोक्ख-कारणं कुणइ ।
 सो गय-पावो पावेइ अमरसीहो ष कल्लाणं ॥

(अमरसिंहादिककथानकान्यत्रानुसन्धेयानि)

कुमारपालस्य
 जीवदयामि-
 श्चिः ।

इय जीव-दया-रुवं धम्मं सोऊण सुट्ट-चित्तेण ।
 रत्ता भणियं मुणि-नाह ! साहिओ सोहणो धम्मो ॥
 एसो मे अभिरइओ एसो चित्तंमि मञ्ज विणिविट्ठो ।
 एसो चिय परमत्थेण घट्टए जुत्तीहिं न हु सेसो ॥

पृष्ठ ४०.

जयो—

मन्नंति इमं सव्वे जं उत्तम-असण-वसण-पसुहेसु ।
 दिन्नेसु उत्तमाइं इमाइं लब्धमिति पर-लोए ॥
 एवं सुह-दुक्खेसुं कीरंतेसुं परत्स इह लोए ।
 ताइं चिय पर-लोए लब्धमिति अणंत-गुणियाइं ॥
 जो कुणइ नरो हिंसं परत्स जो जणइ जीविय-विणासं ।
 विरएइ सोक्ख-विरहं संपाडइ संपया-भंसं ॥
 सो एवं कुणमाणो पर-लोए पावए परेहिंतो ।
 बहुसो जीविय-नासं सुह-विगमं संपओच्छेयं ॥
 जं उप्पइ तं लब्धमि पभूयतरमित्थ नत्थि संदेहो ।
 वविणसु क्रोद्वेसुं लब्धमिति हि क्रोद्व च्चेय ॥
 जो षण न हणइ जीवे जो तेसिं जीवियं सुहं विभवं ।
 न हणइ तत्तो तत्स वि तं हणइ को वि पर-लोए ॥
 ता भहेण व नूणं कयाणुकंपा मए वि पुव्व-भवे ।
 जं लंघिऊण वसणाइं रत्त-लच्छी इमा लद्धा ॥
 ता संपइ जीव-दया जाव जीवं मए विदेयव्वा ।
 भंसं न भविस्सयव्वं परिहरियव्वा य पारद्धी ॥
 जो देवयाण पुरओ कीरइ आरुग्ग-संति-अम्म-कए ।

पृष्ठ ४१.

पसु-महिसाण विणासो निवारियव्वो मए सो वि ॥
 जीव-वह-दुक्कएण वि जइ आरुग्गाइ जायए कह वि ।
 तत्तो दवानलेणं दुमाण कुसुमोगगमो होज्जा ॥
 जो जन्नेसु पसु-वहो विहिओ सग्गाइ-साहण-निमित्तं ।
 दिय-पुंगव ! सेयं चिय विवेइणो तं न काहिंति ॥
 बालो वि मुणइ एवं जं जीव-वहेण लब्भइ न सग्गो ।
 किं पन्नग-मुह-कुहराव्वो होइ पीऊस-रस-बुद्धी ? ॥
 तो गुरुणा वागरियं नरिदं ! तुह धम्म-त्रंधुरा बुद्धी ।
 सच्चुत्तमो विवेगो अणुत्तरं तत्त-दंसित्तं ॥
 जं जीव-दया-रस्से धम्मो कल्लाण-जणण-कय-कस्से ।
 सग्गापवग्ग-पुर-मग्ग-दंसणे तुह मणं लीणं ॥

कुमारपालस्य तवो रत्ना रायाएस-पेसणेण सच्च-नाम-नगरेसु धमारि-
 सर्वग्रामनगरेपु धोसणा-पडह-वायण-पुच्चं पवत्तिया जीव-दया ।
 राजादेशप्रेषणेन गुरुणा भणित्थो राया—महाराय ! दुप्परिक्खया
 जीवदया प्रवर्तना । पाएण मंस-गिद्धी । धन्नो तुमं भायणं सकल-कल्लाणाणं
 जेण कया मंस-निवित्ती ।

राज्ञो मांसपरि- ता संमं पालेज्जसु मंस-निवित्तिं नरिदं ! जा-जीवं ।
 त्यागः । संमं अपालयंतो कुंदो ध दुहं लहइ जीवो ॥

पृष्ठ ४२.

(कुन्दकथानकमत्रानुसन्धेयम्)

जो पुण नियममखंडं पालिज्ज अवज्ज-वज्जणुज्जुत्तो ।
 सो पुरिसो पर-लोए सोक्खमखंडं लहइ नूर्णं ॥
 जो य न करेज्ज नियमं निद्धम्मो जो कयं च मंजिजा ।
 सो मंस-भोग-गिद्धो नरयाइ-कथत्थणं लहइ ॥

पृष्ठ ४७.

ता महाराय ! जुत्तं तुमए कयं जं सत्तण्हं महा-
 वसणाणं दुवे पारद्धी मंसं च परिचत्ताणि । सेसाणि
 वि सव्वाणत्थ-निबंधणाणि परिहरियव्वाणि । तत्थ—
 जं कुल-कलंक-भूलं गुरु-लज्जा-सच्च-सोय-पडिक्कूलं ।
 धम्मत्थ-काम-चुक्कं दाण-दया-भोग-परिसुक्कं ॥
 पिय-माय-भाय-सुय-भज्ज-भोसणं सोसणं सुह-जलाणं ।
 सुगइ-पडिक्ख-भूर्यं तं जूर्यं राय ! परिहरसु ॥
 जूर्य-पसत्तो सत्तो समत्त-वित्तस्स कुणइ विद्धंसं ।
 हारिय-असेस-रज्जो इह विद्धंतो नलो राया ॥

(द्यूतविषये नलचरितमत्रानुसन्धेयम्)

राज्ञो द्यूतपरि-
त्यागः । राज्येऽपि
राजादेशेन
तन्निषेधः ।

एयं सोऽङ्ग भणियं रत्ना—भयवं ! न मए
अक्खाइ-जूएण कीलामेत्तं पि कायव्वं । गुरुणा
बुत्तं—महाराय ! जुत्तं तुम्हारिसाणं विणिञ्जिय-
अक्खाणं अक्ख-जूय-वज्जणं । मंतीहिं विञ्जत्तो
राया—देव ! देवेण ताव सयं परिचत्तं एवं, अओ
सव्वत्थ रज्जे निवारिज्जत्तं ति । रत्ना बुत्तं—
एवं करेह । 'आयसो पमाणं' ति मणत्तेहिं तेहिं
तदेव कयं । गुरुणा भणियं—सव्वाणत्थनिवंबण
परि-हरसु पर-रमणि-सेवणं ।

पृष्ठ ७६.

जयो—

कुल्ल कल्लकिच्च मल्लिच्च माहप्पु,
मल्लिणीकय सयण-सुह,
दिन्नु हत्थु नियगुण-कहप्पह,
जगु झंभिओ अवजसिण,
वसण-विहिय सन्निहिय अप्पह ।

दूरह वारिच्च भट्ट तिणि ढक्किच्च सुगइ-दुवारु ।
उभय-भवुच्चमह-दुक्ख-करु कामिच्च जिण परदारु ॥
सरहस-नमिर-नरेसर-चूडा-धुंभिज्जमाण-चलणो वि ।
पर-महिच्चमहिच्चसंतो पज्जोओ बंधणं पत्तो ॥

(पारदार्ये प्रद्योतकथाऽत्रानुसन्धेया)

वेद्या-परदार-
गमन-परित्यागः ।

रत्ना बुत्तं—भयवं ! मूलाओ धिय मए परित्थीओ ।
दूरं भयं करीओ भुयंगमीओ व्व चत्ताओ ॥
पर रमणि-पसत्त-मणो पाएण जणो न को वि मह रज्जे ।
गुरुणा भणियं—धनो सि जो परित्थी-नियत्तो सि ॥
कमल्लाण सरं रयणाण रोहणं तारयाण जहा गयणं ।
परदार-निविस्सि-वयं वज्जंति गुणाण तह ठाणं ॥
अह गुरुणा वागरियं—वेसा-वसणं नरिंद ! मुत्तव्वं ।
द्विणास्स विणासयरं जं कमल वणस्स तुहिणं व ॥
जं नीर-रासि-महणं व कालकूढं जणेइ खयरोगं ।
कवलेइ कुल्लं सयलं जं राहु-सुहं व ससि-विवं ॥
धूमो व्व चित्त-कम्मं जं गुण-गणमुज्जलं पि मल्लिणेइ ।
अं दोसाण निवासो वम्मिय-विवरं व सुयगाणं ॥

पृष्ठ ८३.

पृष्ठ ८४.

वेसा-व्रसणासक्तो तिवगा-मूलं विणासिचं अत्यं ।

पच्छा पच्छायावेण लहइ सोयं असोओ व्व ॥

(अशोककथानकमत्रानुसन्धेयम्)

रत्ना भणियं—भववं ! वेसासु मणं अहं पि न करिस्सं ।

श्ल ९२.

गुरुणा भणियं—भवउ उच्चम-पुरिसस्स जुत्तमिणं ॥

संपयं मज्ज-व्रसण-दोसे सुणसु—

मद्यपानवर्ज-
नम् ।

नच्चइ गायइ पहसइ पणमइ परिभमइ मुयइ वत्थं पि ।

तूसइ रुसइ निक्कारणं पि मइरा-मउम्मत्तो ॥

जणणि पि पिययमं पिययमं पि जणणि जणो विभावतो ।

मइरा-मएण मत्तो गम्मागम्मं न याणेइ ॥

न हु अप्प-पर-विसेसं वियाणए मज्ज-पाण-मूढ-मणो ।

वहु मन्नइ अप्पाणं पहुं पि निउभत्यए जेण ॥

वयणे पसारिए साणया विवरउभमेण मुत्तंति ।

पइ-पडिय-सवस्स व दुरप्पणो मज्ज-मत्तस्स ॥

धम्मत्य-काम-विद्यं विहणिय-मइ-कित्ति-कंति-मज्जायं ।

मज्जं सज्जेसिं पि हु भवणं दोसाण किं बहुणा ? ॥

जं जायवा स-सयणा स-परियाणा स-विहवा स-नयरा य ।

निच्चं सुरा-पसत्ता खयं गया तं जए पयडं ॥

(यादवकथानकमत्रानुसन्धेयम्)

एवं नरिंद ! जाओ मज्जाओ जायवाण सव्व-व्वखओ ।

श्ल १०५.

ता रत्ना नितरज्जे मज्जपवित्ती वि पडिसिद्धा ॥

इण्हि नरिंद ! निमुणसु कहिज्जमाणं मए समासेणं ।

वसणाण सिरो-रयणं व सत्तमं चोरियावसणं ॥

पर-दव्व-हरण-पाव-दुमस्स धण-हरण-मारणाईणि ।

वसणाइं कुसुम-नियरो नारय-दुक्खाइं फलरिद्धी ॥

जगंतो सुत्तो वा न लहइ सुक्खं दिणे निसाए वा ।

श्ल १०६.

संका-छुरियाए छिज्जमाण-हियओ धुवं चोरो ॥

जं चोरियाए दुक्खं उच्चयण-सूलरोवण-प्पमुहं ।

एत्थ वि लहेइ जीवो तं सव्व-जणस्स पक्खं ॥

दोहग्गमंगच्छेयं पराभवं विभव-भंसमन्नं पि ।

जं पुण परत्थ पावइ पाणी तं केत्तियं कहिमो ॥

हरिउण परस्स धणं कयाणुत्तावो समप्पए जइ वि ।

तह वि हु लहेइ दुक्खं जीवो वरुणो व्व परलीए ॥

(वरुणकथानकमत्रातुसन्धेयम्)

चौर्य-मृतघना-
पहरणनिषेधः ।

रत्ना मणियं—भयवं ! पुत्र पि मप अदिन्नसन्नघणं ।
 न कयावि इ गहियञ्चं निय-रत्ने इय कबो नियमो ॥
 जो उण कयाइ कस्स वि कयावराहस्स कीरए दंडो ।
 सो लोच-पालण-निमित्तमन्ववत्था हवइ इहरा ॥
 जं च रुयंतीण धणं महंत-पीडा-निबंधणत्तेण ।
 बहु-पाव-बंध-हेउं अबो परं तं पि वल्लिस्सं ॥

पृष्ठ ११४.

गुरुणोक्तं—

न यन्स्युक्तं पूर्वं रघु-नयुष-नाभाग-भरत-
 प्रमृत्युर्वीनाथैः कृतयुगकृतोत्पत्तिभिरपि ।
 विमुञ्चन् संतोषात्तदपि रुदतीवित्तमधुना
 कुमार-क्षमापाल ! त्वमसि महता मस्तकमणिः ॥
 इय सोमप्पह-कहिए कुमारनिव- हेमचंद-पडिबद्धे ।
 जिण-बन्म-प्पडिबोहे समत्थिओ पढम-पत्थावो ॥

इत्याचार्यश्रीसोमप्रभिरचिते कुमारपालप्रतिबोधे प्रथम- प्रस्तावः ॥



अथ द्वितीयः प्रस्तावः ।

राज्ञो देवपूजो- अन्नं च सुणसु पत्थिव ! जीव-दया-लज्जलणो इमो धम्मो । पृष्ठ ११६.
 पाठिसिषयको- जेण सयं अणुचिन्नो कहिओ अ जणस्स द्विअ-हेउं ।
 पदेशः । सो अरहंतो देवो असेस-रागाइ-दोस-परिचत्तो ।
 सव्वन्नू अवितह-सयल-भाव-पडिवायण-पहाणो ॥
 रागाइ-जुओ रागाइ-परवसं रक्खिउं परं न खमो ।
 नहि अप्पणा पलित्तो परं पलित्तं निवारैइ ॥
 धम्मा-धम्मसरूवं सफइ कहिउं फहं असव्वन्नू ।
 रूव-विसेसं वोत्तुं अत्थि किमंधस्स अहिगारो ॥
 परमत्थं अकहंतो वि होइ देवो त्ति जुत्तिरित्तमिणं ।
 गयणस्स वि देवत्तं अणुमन्नइ अन्नहा किं न ॥
 जो अरहंतं देवं पणमइ झाएइ निच्चमधेइ ।
 सो गयपावो पावेइ देवपालो व्व कल्लाणं ॥

(अत्र देवपालकथानकादिकान्यनुसन्धेयानि)

कुमारपालकारित- जंपइ कुमर-नरिंदो—मुणिइ ! तुह देसणामयरसेण । पृष्ठ १४३.
 कुमारविहारादि- संसित्त-सव-तणुणो मह नट्टा मोह-विस-मुच्छा ॥
 जैनमन्दिर- मुणियं मए इयारिणं जं देवा जिणवरा चउव्वीसं ।
 वर्णनम् । जे राग-दोस-मय-मोह-कोह-लोहेहिं परिचत्ता ॥
 नवरं पुव्वं पि मए भद्दग-भाव-प्पहाण-चित्तेण ।
 पडिहय-पाव-पवेसं लद्धं तुम्हाण उवएसं ॥
 सिरिमाल वंस-अवयंस-मंति-उदयण-समुद्-चंदस्स ।
 मइ-निज्जिय-सुरगरुणो धम्म-हुम-आलवालस्स ॥
 नयवंत-सिरो-मणिणो विवेय-भाणिक्क-रोहणगिरिस्स ।
 सच्चरिय-कुसुम-त्तरुणो ब्राह्मदेवस्स मंतिस्स ॥
 जय-पायड-नायड-कुल-भायणालंकार-चंद-सूराणं ।
 गग्ग-तणयाण सह सव्वदेव-संवाण-सेट्ठीण ॥
 दाऊण य आपसं 'कुमरविहारो' कराविओ पत्थ । पृष्ठ १४४.
 अट्टावओ व्व रम्मो चउव्वीस-जिणालओ तुंगो ॥
 कणयामलसार-पहाहिं पिंजरे जम्भि मेरुसारिच्छे ।
 रेहंति केउदंढा कणय-मया कप्प-रुक्ख व्व ॥
 स्तम्मैः कन्दलितेव काश्चनमयैरुत्कृष्टपट्टांशुको-

ह्येवैः पल्लवितेव तैः कुसुमितेवोच्चूलमुक्ताफलैः ।
 सौवर्णैः फलितैव यत्र कलशैरामाति सिक्ता सती
 श्रीपार्श्वस्थ शरीरकान्तिलहरीलक्षणेण लक्ष्मीलता ॥
 पासस्स मूलपडिमा निम्नविया जत्थ चंदकंतमई ।
 जण-नयण-कुवलवहास-कारिणी चंद-मुत्ति व्व ॥
 अन्नाओ वि बहुयाओ चामीयर-रुप्प-पित्तलमईओ ।
 लोयस्स कत्स न कुणंति विम्हयं जत्थ पडिमाओ ॥
 संपइ देव-सरुवं मुणिरुण समुल्लसंत-सुह-भावो ।
 तित्थयर-मंदिराई सव्वत्थ वि कारविस्सामि ॥
 तत्तो इहेव नयरे कारविओ कुमरवाल-देवेण ।
 गरुओ ' तिहुण-विहारो' गयण-तल्लुत्तंभण-अस्वंभो ॥
 कंचणमय-आमलसार-कलस-केउप्पहाहिं पिंजरिओ ।
 जो भन्नइ सच्चं चिय जणेण मेरु त्ति पासाओ ॥
 जत्तिं महप्पमाणा सव्वुत्तम-नीळरथण-निम्माया ।
 मूल-पडिमा निवेणं निवेसिया नेमिनाहस्स ॥
 कुसुमोह-अधिया जा जणाण काळं पवित्तयं पत्ता ।
 गंगा-तरंग-रंगंत-चंगिमा सहइ जउण व्व ॥
 चट्ठाण जिणाणं रिसह-प्पमुहाण जत्थ चउवीसा ।
 पित्तलमय-पडिमाओ काराविया देवउलियासु ॥
 पवमइकंताणं तह आवीणं जिणाण पडिमाओ ।
 चउवीसा चउवीसा निवेसिया देवउलियासु ॥
 इय पयडिय-अय-जसडंबराहिं वाहत्तरीइ जो तुंगो ।
 सप्पुरिसो व्व कलाहिं अलंकिओ देवकुलियाहिं ॥
 अत्तेवि चउवीसा चउवीसाए जिणाण पासाया ।
 कारविया तिविहार-प्पमुहा अवरे वि इह बहवो ॥
 जे उण अत्ते अत्तेसु नगर-गामाइयसु कारविया ।
 तेसिं कुमर-विहाराण को वि जाणइ न संखं पि ॥
 अह गुरुणा वागरियं देव-सरुवं जहट्टियं तुमए ।
 मुणियं, नरिंइ ! संपइ गुरु-त्तं तुज्ज अक्खेमि ॥
 अत्थमिएसु जिणेसुं सुरेसु व हरिय-मोह-त्तिमिरेसु ।
 जीवाइ-पयत्थे दीवओ व्व पयउइ गुरु खेय ॥
 गुरु-देसणा-वरत्त वर-गुण-गुच्छं विणा गहीराओ ।
 संसार-इव-अहाराव जिग्गामो नत्थि जीवाणं ॥

गुप्ततोपदेशः ।

गुरुणो कारुण्य-घणस्स देसणा-पय-भरेण सित्ताण ।
 भविय-दुमाणं विञ्जाइ ज्झत्ति मिच्छत्त-दावग्गी ॥
 जो चत्त-सव्व-संगो जिइंदिओ जिय-परीसह-कसाओ ।
 निम्मल-सील-गुणहो सो षेय गुरु न उण अन्नो ॥
 नरय-गइ-गमण-जुग्गे कए वि पावे पएसिणा रत्ता ।
 जं अमरत्तं पत्तं तं गुरु-पाय-प्पसाय-फलं ॥

(अत्र प्रदेशिराजादीनां कथा अनुसन्धेयाः)

गुरुसेवाफले सम्प्र- चितामणि-कप्पहुम-कामदुहाईणि दिव्व-वत्थुणि ।
 तित्तपोदाहरणम् । जण-अंछियत्थ-करणे न गुरुणि गुरु-प्पसायाओ ॥
 जो पेच्छिऊण पावंति पाणिणो मणुय-तियस-सिद्धि-सुहं ।
 करुणा-कुल-भवणाणं ताण गुरुणं कुणह सेवं ॥
 दमगो वि पुव्व-जम्मे जं महिवइ-निवह-नमिय-पय-रुमलो ।
 जाओ संपइ-राओ तं गुरु-चलणाण माहप्पं ॥

पृष्ठ १६६.

(अत्र सम्प्रतिकथाऽनुसन्धेया)

सम्प्रतिनृपतेरिव इय संपइ-निव-चरियं निसामियं हेमसूरि-पहु-पासे ।
 कुमारपालस्य राया कुमारवालो तहेव कारवइ रहजत्तं ॥
 रययात्रोत्सव- तं जहा—
 करणम् । नचंत-रमणि-चकं विसाल-वलि-थाल-संकुलं राया ।

पृष्ठ १७४.

कुणइ कुमार-विहारे सासय-अट्टाहिया-महिमं ॥
 नट्टट्ट-कम्ममट्ट वि दिणाइं सयमेव जिणवरं ण्हविदं ।
 गुरु-हेमचंद-पुरओ कयंजली चिट्ठइ नरिंदो ॥
 अट्टम-दिणम्मि चित्तस्स पुणिणमाए चउत्थ-पहरम्मि ।
 नीहरइ जिण-रहो रवि-रहो व्व आसाओ पयडंतो ॥
 ण्हविय-विलित्तं कुसुमोह-अच्चियं तत्थ पासजिण-पडिमं ।
 कुमर-विहार-दुवारे महायणो ठवइ रिद्धीए ॥
 तूर-रव-भरिय-भवणो सरहस-नचंत-चारु-तरुणि-गणो ।
 सामंत-मंति-सहिओ वचइ निव-मंदिरम्मि रहो ॥
 राया रहत्थ-पडिमं पट्टंसुय-करणय-भूसणार्इहिं ।
 सयमेव अच्चियं कारवेइ विविहाइं नट्टाइं ॥
 तत्थ गमिऊण रयणिं नीहरिओ सीह-वार-वाहिंमि ।
 ठाइ पवंचिय-धय-तंढवम्मि पढ-मंडवम्मि रहो ॥
 तत्थ पहाए राया रह-जिण-पडिमाइ विरइउं पूयं ।

पृष्ठ १७५.

चउविह-संघ-समन्तं सयमेवारत्तियं कुणइ ॥
 तत्तो नयरम्मि रहो परिसक्कइ कुंजरेहिं जुत्तेहिं ।
 ठाणे ठाणे पह-महंवेसु विडलेसु चिट्ठो ॥

किञ्च—

प्रेहन्मण्डपमुल्लसदध्वजपटं नृत्यद्वधूमण्डलं
 चञ्चन्मध्वसुवध्वदुषकरलीस्तम्भं स्फुरत्तोरणम् ।
 त्रिध्वजैरथोत्सवे पुरमिदं व्यालोकितुं कौतुका-
 ष्टोका नेत्रसहस्रनिर्मितिकृते चञ्चुर्विधेः प्रार्थनाम् ॥
 एवं अट्ट-दिणाइं रह-जत्तं जणिय-जण-चमक्कारं ।
 कुणइ जहा कुमर-निवो तद्देव आसोय-मासे वि ॥
 जंपइ निय-मंडलिय एवं तुब्भे वि कुणइ जिणधम्मं ।
 ते निय-निय-नपरैसुं कुमर-विहारे फरावंति ॥
 विरयंति वित्थरेणं जिण-रह-जत्तं कुमांति सुणि-भत्ति ।
 तत्तो समगमेयं जिणधम्म-मयं जयं जायं ॥
 अन्न-दिणम्मि सुणिदो कुमर-विहारे कुमारवाल्सस ।
 चउ-विह-संघ-समेओ चिट्ठइ धम्मं पयासंतो ॥
 बहु-विह-वेसेहिंदो धणवंतो तत्थ आगओ लोओ ।
 पट्टंसुव-कणय-विभूसणेहिं कारुण जिणपूयं ॥
 कणय-कमल्लेहिं गुरुणो चळण-जुयं अच्चिऊण पणमेइ ।
 तत्तो कयंजळि-उडो नरवइणो कुणइ पणिवायं ॥
 तो पत्थिवेण भणियं—किमत्थमेत्याऽऽगओ इमो लोओ ? ।
 एक्केण सावएणं भणियमिणं सुण महाराय ! ॥
 पूर्वं वीरजिनेश्वरेऽपि भगवत्याख्याति धर्म स्वयं
 प्रह्लादत्यमयेऽपि मन्त्रिणि न या कर्तुं क्षमः श्रेणिकः ।
 अक्केसेन कुमारपालनृपतिस्तां जीवरक्षां व्यधा-
 ल्लब्धा यस्य वचःसुधां स परमः श्रीहेमचन्द्रो गुरुः ॥
 तत्पादान्बुजपांशुभिः प्रथयितुं शुक्तिं परमात्मन-
 स्तद्वचन्नेन्दुविलोकनेन सफलीकर्तुं निजे लोचने ।
 तद्वाक्यामृतपानतः श्रवणयोराधातुमस्त्युत्सवं
 भक्त्युत्कर्षं कुतूहलाकुलमना लोकोऽयमत्रागतः ॥
 ता नरनाह ! कयत्था अन्हे, अन्हाण जीवियं सइलं ।
 अहिं नमिओ सुणिदो पक्कलो गोयमो व्व इमो ॥
 जिणधम्मे पडिबत्ती वूसम-समए असंमवा लुब्धा ।

देसंतर-द्विर्दहि सोउं दिट्ठा य पच्चक्खं ॥

संपइ वच्चिस्सामो सुरद्ध-दैसम्मि तित्थ-नमणत्थं ।

अन्न- समयम्मि होही मग्गोसु किमेरिसं सुत्थं ? ॥

कुमारपालस्य
तीर्थयात्रा-
करणम् ।

रत्ना भणियं—भयवं ! सुरद्ध-विसयम्मि अत्थि किं तित्थं ? ।

तो गुरुणा वागरियं—पत्थिव ! द्दो तत्थ तित्थाइं ॥

जत्थ सिरि-उसभसेणो पढम-जिणिदस्स गणहरो पढमो ।

सिद्धिं गओ तमेकं सत्तुंजय-पव्वओ तित्थं ॥

वीयं तु उज्जयंतो नेमिजिणिदस्स जंमि जायाइं ।

कङ्गाणाइं निक्खमण-नाण-निव्वाण-गमणाइं ॥

रत्ना भणियं—भयवं ! अहं पि तित्थाण ताण नमणत्थं ।

वच्चिस्सामि अवत्सं, गुरुणा भणियं इमं जुत्तं ॥

जं तित्थ-वंदणेणं सम्मत्त-थिरत्तमत्तणो होइ ।

तप्पूयणेण जायइ अथिरत्स धणत्स सहलत्तं ॥

अन्नेसिं पि जणाणं सद्धा-वुड्डी कया ह्वइ वाढं ।

सेवंति परे वि धुवं उत्तम-जण-सेवियं मग्गं ॥

इय गुरु-वयणं सोउं राया पसरिय-अतुच्छ-उच्छाहो ।

सम्माणिउं विसज्जइ देसंतर-संतियं लोयं ॥

सोहण-दिणे सयं पुण चलिओ चउरंग-सेन्न-परियरिओ ।

चउ-विह-संघ-जुएणं गुरुणा सह हेमच्चदेण ॥

ठाणे ठाणे पट्टंसुएहि पूयं जिणाण सो कुणइ ।

किं तत्थ होइ थेवं जत्थ सयं कारओ राया ॥

तत्तो कस्सेण रेवय-यव्वय-हिट्ठे ठियस्स नयरत्स ।

गिरिनयरत्सासन्ने गंतुं आवासिओ राया ॥

तत्थ नरिंदेण दसार-मंडवो भुवण-मंडणो दिट्ठो ।

तह अक्खाडय-सहिओ आवासो उग्गसेणत्स ॥

गिरिनगर-
वर्णनम् ।

विम्बिय-मणेण रत्ना सुणि-नाहो पुच्छिओ किमेयं ति ।

भणइ गुरू गिरिनयरं ठाणमिणं उग्गसेणत्स ॥

वारवईए पुरीए ससुइविजयाइणो दस दसारा ।

आसि असि-भिन्न-अरिणो जायव-कुळ-विज्ञ-गिरि-करिणो ॥

तत्थ दसमो दसारो वसुदेवो तत्स नंदणो कण्हो ।

सो आसि तत्थ राया ति-खंड-महि-मंडलत्स पट्ट ॥

पुत्तो ससुइविजयत्स आसि कुमरो अरिट्ठेनेमि ति ।

वावीसइमो तित्थं करो ति चारित्त-कय-चित्तो ॥

अविसय-त्तहो कण्होवरोहओ उग्गसेण-राय-सुयं ।

राइमई परिणेलं सो बलिओ रहवरारुढो ॥
 करि-नुरय-रहारुढेहिं कण्ह-पसुहेहिं पवर-सयणेहिं ।
 सहिओ समागओ उगासेण-निव-मंदिरासजं ॥
 सोऊण करुण-सहं जा दिट्ठिं देइ तत्य ता नियइ ।
 रुद्धे पसु-सस-सूअर-उरउभ-हरिणाइणो जीवे ॥
 तत्सह-जगिअ-इओ किमिमे रुद्ध त्ति पुच्छए कुमरो ।
 तो सारहिणा भणियं—कुमार ! सुण कारणं एत्थ ॥
 हणिलं इमे वराए इमाण मंसेण भोयणं दाही ।
 तुब्ब विवादे वेवाहियाण सिरि-उगासेण-निवो ॥
 तो भणियं कुमरेणं धिद्धी ! परिणयणमेरिसं जत्थ ।
 भव-कारागार-पवेस-कारणं कीरए पावं ॥
 भोगे भुयंग-भोगे व्व भीसणे वूरओ लहुं सुत्तुं ।
 संसार-सागरुत्तरण-संकमं संजमं काहं ॥
 तो बल्लरियं इमिणा इत्तो सारहि ! रहं नियत्तेसु ।
 चालेसु मंदिरं पइ तेणावि तहेव तं विहियं ॥
 वुट्ठं कुमरसुवित्तं रवि व नलिणी विसट्ट-सुह-कमला ।
 जा आसि पुब्बमिहिं तु पिच्छिउं तं नियत्तं सा ॥
 राइमई खेय-परा परसु-नियत्त व्व कप्प-रुक्ख-लया ।
 सुच्छा-निमीलियच्छी सहस त्ति महीयले पडिया ॥
 सत्थी-क्या सहीहिं वाह-जलाविल-विलोयणा भणइ ।
 हा ! नाह ! किमवरद्धं मए जमेवं नियत्तो सि
 जइ वि सुमए विसुक्का अहं अइत्ता सहा वि मह नाह ! । पृष्ठ १७८
 तुह चलण किय सरणं ति निच्छिउं सा ठिया दाळा ॥
 दाळण वच्छरं दाणसुल्लयंते पवन्न-चारित्तो ।
 वच-पत्रास-दिणंते लहइ पहू केवलं नाणं ॥
 तो नगरागर-गामाइएसुं पडिवोहिउण भविय-जणं ।
 सो वास-सहस्साऊ इहेव अयले गवो सुक्खं ॥
 रत्ता भणियं भयवं ! अळा वि तक्काल-संभवं किमिमं ।
 चिट्ठइ दसार-मंडव-पसुइं तो जंपियं गुरुणा ॥
 तक्काल-संभवं जं तं न इमं किं तु थेव-काल-भवं ।
 तमिमं पुण जेण कयं कहेमि तं तुब्ब नर-नाह ! ॥
 गुरु-नागाहत्थि-सीसो वालो वि अ-वाल-मइ-गुणो सुकई ।
 कइया वि कंसियं वेत्तु-भागओ कइइ गुरु-पुरओ ॥

अत्र (?) तत्रच्छीए अपुष्पिअं पुष्पदंत-भंतीए ।
 नव-सालि-कंजियं नव-वहइ कुडगण मे दिअं ॥
 गुरुणा भणिवो सीसो वच्छ ! पलित्तोसि जं पढमि एवं ।
 सीसो भणइ पसारं कुरु मह आचार-दाणेण ।
 एवं ति भणइ सूरी तो पालित्तो जणेण सो तुत्तो ।
 जाओ य सुय-समुदो आयरिओ विविह-सिद्धि-जुओ ॥
 कारुण पाय-लेवं गयणे सो भमइ नमइ तित्थाइं ।

नागार्जुनभिक्षु-
 वर्णनम् ।

सुणइ सुरद्व-निवासी भिक्खू नागज्जुणो एवं ॥
 सो पत्यइ पालित्तं पयच्छ ! निय-पाय-लेव-सिद्धि मे ।
 गिण्ह मह कणय-सिद्धि, तत्तो पालित्तओ भणइ ॥
 निक्किचणस्स किं कंचणेण किं चत्थि मे कणय-सिद्धी ।
 तुह पाय-लेव-सिद्धि च पाव-हेउ त्ति न कहेमि ॥
 तो कय-सावय-रूवेण भिक्खुणा आगयस्स गिरिनयरे ।
 गुरुणो गुरु-भत्तीए जलेण पक्खालिया चंलणा ॥
 पय-पक्खालण-सलिलस्स गंधओ ओसहीण नाऊग ।
 सत्तुत्तरं सयं तेण पाय-लेवो सयं विहिओ ॥
 तवसओ गयणे कुक्कुडो व्व उप्पडड पडइ पुण भिक्खू ।
 तो कहइ जहावित्तं गुरुणो तेणावि तुद्वेण ॥
 भणिवो भिक्खू तंदुल-जलेण कुरु पाय-लेवमेयं ति ।
 कुणइ तह श्विय भिक्खू जाया नह-नामण-लद्धी से ॥
 पालित्तयस्स सीसो व्व कुणइ नागज्जुणो तवो भत्ति ।
 नेमि-चरियाणुगरणं सव्वं पि कयं इमं तेण ॥
 तं सोउं भत्ति-परो नरेसरो नेमिनाह-नमणत्वं ।
 गिरिमारुहिउं बंछइ तो भणिवो हेमसूरीहिं ॥
 नर-नर ! विसमा पत्ता अओ तुमं चिट्ट चडउ सेन-जणो ।
 लहहिसि पुअं संवो व्व भावओ इह ठिओ वि तुमं ॥
 तो रत्ता पट्टविचा पहुणो पूया पहाण-जण-रुत्वं ।
 तत्य ठिएणावि सयं गुरु-भत्तीए जिणो नमिओ ॥
 अह जिण-महिमं काउं अवयरिइ रेवयाओ सयल-जणं ।

पृष्ठ १७९.

कुमारपालस्य शत्रु-
 श्रयतीर्थयात्रा-
 वर्णनम् ।

चलित्तो कुमारवालो सत्तजय-तित्थ-नमणत्वं ॥
 पत्तो तत्य कमेगं पालित्तान्णमि कुणः आवामं ।
 अह कुमरनरिंदो हेमसूरिणा जंभिओ एवं ॥
 पालित्तान्णं मामो एमो पालित्तयस्स नामेण ।

नागञ्जुषेण ठविओ इमस्स तित्थस्स पुज्जत्थं ॥
 पुद्द-पद्दुण-भरुयच्छ-मन्नखेदाइ-निवइणो जं च ।
 धम्मं ठविया पालित्तएण तं कित्तिर्यं कहिमो ॥
 सजुजयमारुढो राया रिसहस्स छुणइ गुरु-भत्ति ।
 सो पासायं ददूण विन्दिओ जंपिओ गुरुणा ॥
 बाहउ-महत्तमेण उद्धरिओ एस तुह पसाएण ।
 तिहुयण-भरणुवरिउ व्व पुंजिओ सहइ तुज्ज जसो ॥
 तो उत्तरिउं सजुंजयाओ निय-नयरमागओ राया ।
 उज्जिते नेमिजिणो न मए नमिओ त्ति झूरेइ ॥
 अणइ सहा-निसओ सुगमं पज्जं गिरिम्मि उज्जिते ।
 को कारविउं सक्को ?, तो भणिओ सिद्धवालेण ॥
 प्रष्टा वाचि प्रतिष्ठा जिन्गुरुचरणाम्भोजभक्तिर्गारिष्ठा
 श्रेष्ठानुष्ठाननिष्ठा विषयसुखरसास्वादसक्तिस्त्वनिष्ठा ।
 वंदिष्ठा त्यागलीला स्वमतपरभतालोचने यस्य काष्ठा
 धीमानाम्नः स पथां रचयितुमचिरादुज्जयन्ते नदीणः ॥
 युक्तं त्वयोक्तमित्युक्त्वा पथां कारयितुं नृपः ।
 पुत्रं श्रीराणिस्यान्नं सुराष्ट्राधिपतिं व्यधात् ॥
 यां सोपानपरम्परापरिगतां विभ्रामभूमीयुता
 स्रष्टुं विष्टपसृष्टिपुष्टमहिमा प्रह्लापि जिह्वायितः ।
 मन्दुलीस्यविरामकादिसुगमां निर्वाणमागोपमां
 पथामात्रचमूपतिर्भतिनिधिर्निर्मापयामास ताम् ॥
 इय सोमप्यह-कहिप कुमारनिव-हेमचंद-पडिवद्धे ।
 जिणधम्म-प्यडिबोहे समत्थिओ वीय-पत्थावो ॥

४४ १८०.

इत्याचार्यभ्रीसोमप्रभविरचिते कुमारपालप्रतिबोधे द्वितीयः प्रस्तावः ॥

अथ तृतीयः प्रस्तावः ।

कुमारपालत्य अह जंपइ सुणि-नाहो जीव-दया-लक्खणस्स धम्मस्स ।
दानोपदेशः । कारण-भूअं भणियं दाणं पर-दुक्ख-द्वलणं ति ॥
नो तेसिं कुवियं व दुक्खमखिलं आलोयए सम्मुहं
नो मिह्हेइ घरं कम्मकवडिया दासि व्व तेसिं सिरी ।
सोहग्गाइ-गुणा चर्यति न गुणाऽऽवद्ध व्व तेसिं तणुं
जे दाणंमि समीहियत्य-जणणे कुञ्चंति जत्तं जणा ॥
दाणं पुण नाणा-ऽभय-धम्मोवट्टंम-भेयजो त्तिविहं ।
रयण-त्तयं व सग्गा-पवग्ग-सुह-साहणं भणियं ॥
नाणं तत्थ दु-भेयं मिच्छा-नाणं च सम्म-नाणं च ।
जं पाव-पवित्ति-करं मिच्छा-नाणं तमक्खायं ॥
तं च इमं वेज्जय-जोइसत्थ-रस-धाउवाय-कामाणं ।
तह नट्ट-सत्थ-विग्गह-भिगयाण परूवगं सत्थं ॥
अं जीव-दया-मूलं समग्ग-संसार-मग्ग-पडिक्खलं ।
भाव-रिउ-द्वियय-सूलं तं सम्मं नाणमुद्दिट्ठं ॥
तं पुण दुवालसंगं नेयं सव्वज्जणा पणीयं ति ।
मोक्ख-तरु-वीय-भूजो धम्मो च्चिय बुचए जत्थ ॥

किञ्च—

सम्मत्त-परिग्गाहियं सम्म-सुयं लोइयं तु मिच्छ-सुयं ।
आसज्जउ सोआरं लोइय-लोउत्तरे भयणा ॥
नाणं पि तं न नाणं पाव-मई होइ जत्थ जीवाणं ।
न कयावि फुरइ रयणी सूरंमि समुग्गए संते ॥
नाणं मोह-महंथयार-लहरी-संहार-सूरुग्गामो
नाणं दिट्ठ-अदिट्ठ-इट्ठ-घडणा-संकप्प-कप्प-हुमो ।
नाणं दुज्जय-रम्म-कुंजर-घडा-पंचत्त-पंचाणणो
नाणं जीव-अजीव-वत्थु-विसरस्सालोयणे लोअणं ॥
नाणेण पुत्र-पावाइं जाणितं ताण कारणाइं च ।
जीवो कुणइ पवित्ति पुत्रे पावाओ विणियत्ति ॥
पुत्रे पवत्तमाणो पावइ सग्गा-पवग्ग-सोक्खाइं ।
नारय-तिरिय-दुहाण य सुचइ पावाओ विणियत्तो ॥
जो पढइ अउव्वं सो लहेइ तित्थंकरत्तमन्न-भवे ।
जो पुण पढावइ परं सम्म-सुयं तस्स किं भणिमो ॥

पृष्ठ १८१.

पृष्ठ १८२.

जो लण साहेजं भक्त-पाण-वर-वत्थ-पुत्थयाईहिं ।
 कुणइ पढंताणं सो वि नाण-दाणं पयइइ ॥
 नाणमिणं दिंताणं गिण्हंताणं च मुक्ख-परदारं ।
 केवल्ल-सिरी सयं चिय नराण वच्छत्थले लुढइ ॥
 सम्मं नाणेण वियाणिकुण परिदियाइए जीवे ।
 तेसिं तिविहं तिविहेण रक्खणं अमय-दाणमिणं ॥
 जीवाणममय-दाणं जो देइ दया-वरो नरो निच्चं ।
 तस्सेह जीवलोए कत्तो वि मयं न संभवइ ॥
 जं नव-क्रीडी-सुद्धं दिज्जइ धम्मिय-जणस्स अविरुद्धं ।
 धम्मोवगगह-हेउं धम्मोवट्टुंम-दाणमिणं ॥
 तं असण-पाण-ओसह-सयणा-SSसण-वसहि-वत्थ-पत्ताई ।
 दायव्वं बुद्धि-मथा भवन्नवं तारिउकामेण ॥
 तं दायग-गाहग-काल-भाव-सुद्धीहिं चउहि संजुत्तं ।
 निव्वाण-मुक्ख-कारणमणंत-नाणीहिं पन्नत्तं ॥
 जो देइ निव्वरत्थी नाणी सद्धा-जुओ निरासंसो ।
 मय-मुक्को जुगं जइ-जणस्स सो दायगो सुद्धो ॥
 जो देइ धण-खेत्ताई जइ-जणाणुचियमेअ-विबरीओ ।
 सो अप्पाणं तह गाहगं च पाळेइ संसारे ॥
 जो चत्त-सव्व-संगो गुत्तो विजिहंविओ जिय-कसाओ ।
 सद्धाय-व्वाण-निरओ साहू सो गाहगो सुद्धो ॥
 कम्म-लडुत्तणेण सो अप्पाणं परं च तारेइ ।
 कम्म-गुरु अतरंतो सयं पि कह तारए अन्नं ॥
 पुब्बुत्त-गुण-विवत्ताण जं धणं दिज्जए कु-पत्ताण ।
 तं खल्लु घुव्वइ वत्थं रहिरेणं चिय बहिर-लित्तं ॥
 दिन्नं सुहं पि दाणं होइ कु-पत्तमि असुह-फलमेव ।
 सण्यस्स जहा दिन्नं खीरं पि विसत्तणमुवेइ ॥
 तुच्छं पि सु-पत्तमि उ दाणं नियमेण सुह-फलं होइ ।
 जह गानीए दिन्नं तिणं पि खीरत्तणमुवेइ ॥
 दिन्नेण जेण जइया जइ-जण-देहस्स होइ उवयारो ।
 भत्तीए तम्मि काले जं दिज्जइ काल-सुद्धं तं ॥
 अप्पाणं मन्नंतो कयत्थमेगंत-निज्जरा-हेउं ।
 जं दाणमणासंसं देइ नरो भाव-सुद्धं तं ॥
 महया वि इ जत्तेण भाणो आसन्न-लखमहिगिष ।

मुक्तो न जाइ दूरं इय आसंसाए दाणं पि ॥
मोक्खत्थं जं दाणं तं पइ एसो विही मुणेयव्वो ।
अणुक्कंपा-दाणं पुण जिणेहिं कत्थ वि न पढिसिद्धं ॥
पत्तंमि भत्ति-जुत्तो जीवो समयंमि थोयमवि दिंतो ।
पावेइ पावचत्तो चंदणवाल व्व कल्लाणं ॥

(दानविषये चन्दनवालादीनां कथानकान्यत्राऽनुसंधेयानि)

कुमारपालस्य हेम- एवं सोऽं मुणि-दाण-धम्म-माहप्पमुल्लवइ राया । पृष्ठ २११.
चन्द्रसूरिं प्रति स्व- भयवं ! गिण्हइ मह वत्थ-पत्त-भत्ताइयं भिक्खं ॥
एहे भिक्षाकरणमा- तो वज्जरइ मुणिंदो इमं महाराय ! राय-पिंडो त्ति ।
र्थना, राजपिण्ड- भरहत्स व तुइ भिक्खा न गिण्हइं कपइ जईणं ॥
ग्रहणे सूरेनिषेधश्च ।

(राजपिण्डे भरतचक्रिकथाऽत्राऽनुसन्धेया)

इय गुरु-त्रागरियं भरह-चरियमायज्जिउं कुणइ राया । पृष्ठ २१९.
जइ मह भिक्खा न मुणीण कप्पाइ राय-पिंडो त्ति ॥
तत्तो भरहो व्व अहं पि भोयणं सावगाण वियरेमि ।
गुरुणा वुत्तं जुत्तं अणुसरिउं उत्तम-चरित्तं ॥
कुमारपालस्य सत्रा- अह कारावइ राया कण-फोट्टागार-घय-वरोवेयं ।
गार-पौषशालादि सत्तागारं गरुयाइ भूसियं भोयण-सहाए ॥
करणम् । तस्सासन्ने रत्ता कारविया वियड-तुंग-वरसाला ।
जिण-धम्म-इत्थि-साला पोसह-साला अइविसाला ॥
तत्थ सिरिमाल-कुल्ल-नह-निसि-नाहो नेमिणाग-अंगरुहो ।
अभयकुमारो सेट्ठी कओ अहिट्ठायगो रत्ता ॥
इत्थंतंरंमि कवि-चक्खट्टि-सिरिवाल-रोहण-भवेण ।
बुहयण-चूडामणिणा पर्यपियं सिद्धवालेण ॥
देव-गुरु-पूयण-परो परोवयारुल्लओ दया-पवरो ।
दक्खो इत्थिखन्न-निही सओ सरलासओ एसो ॥

किञ्च—

क्षिप्त्वा तोयनिधिस्तले मणिगणं रत्नोत्करं रोहणो
रेण्णाऽऽवृत्य सुवर्णमात्मनि दहं बद्ध्वा सुवर्णाचलः । पृष्ठ २२०.
क्षमामध्ये च धनं निधाय धनदो विभ्यत्परेभ्यः स्थितः
किं स्यात्तैः कृपणैः समोऽयमखिलाथिरेभ्यः स्वमर्थं ददत् ॥

जो सण साहेज्जं भत्त-पाण-वर-वत्थ-पुत्थयाईहिं ।
 कुणइ पढंताणं सो वि नाण-दाणं पयट्टेइ ॥
 नाणमिणं दिंताणं गिण्हंताणं च सुक्ख-परदारं ।
 केवल-सिरी सयं चिय नराण वच्छत्थले छुडइ ॥
 सम्मं नाणेण विद्याणिऊण एगिदियाइए जीवे ।
 तेसि तिविहं तिविहेण रक्खणं अमय-दाणमिणं ॥
 जीवाणममय-दाणं जो देइ दया-वरो नरो निच्चं ।
 तस्सेह जीवलोए कत्तो वि भयं न संभवइ ॥
 जं नव-कौडी-सुद्धं विज्जइ धम्मिय-जणस्स अविस्सं ।
 धम्मोवग्गह-हेहं धम्मोवट्ठंम-दाणमिणं ॥
 तं असण-पाण-ओसह-सयणा-ऽऽसण-वसहि-वत्थ-पत्ताई ।
 दायव्वं बुद्धि-मया भवन्नवं तरिउक्कामेण ॥
 तं दायग-गाहग-काल-भाव-सुद्धीहि चउहि संजुत्तं ।
 निव्वाण-सुक्ख-कारणमणंत-नाणीहिं पन्नत्तं ॥
 जो देइ निज्जरत्थी नाणी सद्धा-जुओ निरासंसो ।
 मय-सुक्को जुगं जइ-जणस्स सो दायगो सुद्धो ॥
 जो देइ धण-खेत्ताई जइ-जणाणुचियमेअ-विवरीओ ।
 सो अप्पाणं तह गाहगं च पाडेइ संसारे ॥
 जो चत्त-सव्व-संगो गुत्तो विजिहंविओ जिय-कसाओ ।
 सज्झाय-ज्झाण-निरओ साहू सो गाहगो सुद्धो ॥
 कम्म-लहुत्तणेण सो अप्पाणं परं च तारेइ ।
 कम्म-गुरु अतरंतो सयं पि कइ तारए अन्नं ॥
 पुव्वुत्त-गुण-विउत्ताण जं धणं दिज्जए कु-पत्ताण ।
 तं खल्ल धुव्वइ वत्थं रुद्धिरेणं चिय रुद्धि-लित्तं ॥
 दिन्नं सुहं पि दाणं होइ कु-पत्तंमि असुह-फलमेव ।
 सप्पस्स जहा दिन्नं खीरं पि विसत्तणमुवेइ ॥
 तुच्छं पि सु-पत्तंमि उ दाणं नियमेण सुह-फलं होइ ।
 जइ गावीए दिन्नं तिणं पि खीरत्तणमुवेइ ॥
 दिन्नेण जेण जइया जइ-जण-देहस्स होइ उवयारो ।
 भत्तीए तम्मि काले जं दिज्जइ काल-सुद्धं तं ॥
 अप्पाणं मन्नंतो कयत्थमेगंत-निज्जरा-हेहं ।
 जं दाणमणासंसं देइ नरो भाव-सुद्धं तं ॥
 महया वि इ जत्तेण पाणो आसन्न-ल-स्समहिणिच्च ।

मुक्तो न जाइ दूरं इय आसंसाए दाणं पि ॥
मोक्खत्थं जं दाणं तं पइ एसो विही मुणेयच्चो ।
अणुर्कंपा-दाणं पुण जिणेहिं कत्थ वि न पडिसिद्धं ॥
पत्तंमि भत्ति-जुत्तो जीवो समयंमि थोयमवि दितो ।
पावेइ पावचत्तो चंदणवाल व्व कल्लणं ॥

(दानविषये चन्दनवालादीनां कथानकान्यत्राऽनुसंधेयानि)

कुमारपालस्य हेम- एवं सोउं मुणि-दाण-धम्म-माहप्पमुल्लवइ राया । पृष्ठ २११.
चन्द्रसूरिं प्रति स्व- भयवं ! गिण्हइ मह वत्थ-पत्त-भत्ताइयं भिक्खं ॥
यहे भिक्षाकरणप्रा- तो वज्जरइ मुणिदो इमं महाराय ! राय-पिंडो त्ति ।
र्थना, राजपिण्ड- भरहस्स व तुह भिक्खा न गिण्हइ कप्पइ जईणं ॥
महणे सूरेनिषेचश्च ।

(राजपिण्डे भरतचक्रिकथाऽत्राऽनुसन्धेया)

इय गुरु-त्रागरियं भरह-चरियमायन्निउं कुणइ राया । पृष्ठ २१९.
जइ मह भिक्खा न मुणीण कप्पए राय-पिंडो त्ति ॥
तत्तो भरहो व्व अहं पि भोयणं सावगाण विथरेमि ।
गुरुणा वुत्तं जुत्तं अणुसरिउं उत्तम-चरित्तं ॥
कुमारपालस्य सत्रा- अहं कारावइ राया कण-कोट्टागार-वय-धरोवेयं ।
गार-पौषशालादि सत्तागारं गरुयाइ भूसियं भोयण-सहाए ॥
करणम् । तस्सासन्ने रत्ता कारविया वियड-सुंग-वरसाला ।
जिण-धम्म-हत्थि-साला पोसह-साला अइविसाला ॥
तत्थ सिरिमाल-कुल-नह-निसि-नाहो नेमिणाग-अंगरुहो ।
अभयकुमारो सेट्ठी कथो अहिट्ठायगो रत्ता ॥
इत्थंतरंमि कवि-चक्कवट्ठि-सिरिवाल-रोहण-भवेण ।
बुह्यण-चूडामणिणा पर्यपियं सिद्धवालेण ॥
देव-गुरु-पूयण-परो परोवयारुज्जमो दया-पवरो ।
दक्खो दक्खिन्न-निही सच्चो सरलासच्चो एसो ॥

किञ्च—

क्षित्वा तोयनिबिस्तले मणिगणं रत्नोत्करं रोहणो
रेष्वाऽऽनृत्य सुवर्णमात्मनि दृढं बद्धा सुवर्णाचलः । पृष्ठ २२०.
इमामध्ये च धनं निघाय धनदो विभ्यत्परेभ्यः स्थितः
किं स्यात्तैः कृपणैः समोऽयमखिलार्थिभ्यः स्वमर्थं ददत् ॥

ता जुत्तं देव ! कथं तुमए जं इत्थ धम्म-ठाणमि ।
 अमयकुमारो सेट्ठी एसो सव्वेसरो विहिओ ॥
 धय-दूर-सुग्ग-भंडग-वंजण-वडयाइ-कय-चमकारं ।
 सकार-पुज्जगं सावयाण सो भोयणं देइ ॥
 वत्थाइं पसत्थाइं कुळुवं-नित्थारणत्थमत्थं च ।
 एवं सत्तागारं कथं नरिंदेण जिण-धम्मो ॥
 इय जीव-दया-इएं संसार-समुह-संतरण-सेउं ।
 दार्ण मोक्ख-निदानं कहिऊण गुरु भणइ एवं ॥

शीलव्रतोपदेशः ।

जीव-दयं काठमणो मणुओ सीलं नरिंद ! पालिज्ज ।
 जम्हा जिणेहिं मणिओ मेहुण-सन्नाइ जीव-वहो ॥
 रमणीण संतामे होइ मेहुणं तं धणं विणा न इवे ।
 होइ धणं थारंभावो तत्थ पुण नदिथ जीव-दया ॥
 अगणिय-कज्जा-उकज्जा निरगला गलिय-उमय-लोय-भया ।
 मेहुण-पसत्त-चिच्चा किं पावं जं न कुळ्वंति ॥
 जलणो वि जल जलही वि गोपर्यं पच्चओ वि सम-भूमी ।
 भुयगो वि होइ माला विसं पि अमयं सुसीलाण ॥
 आणं ताण कुणंति जोडिय-करा दास व्व सव्वे सुरा
 मायंगाहि-जलमि-सीह-पमुहा वट्टंति ताणं वसे ।
 हुज्जा ताण कुओ वि नो परिभवो सग्गा-उपवग्ग-सिरी
 ताणं पाणि-तलं उवेइ विमलं सीलं न लुंपंति जे ॥
 विप्फुरइ ताण कित्ती लईति ते सग्ग-मोक्ख-सुक्खाइं ।
 सीलं ससंक्र-धिमलं जे सीलवइ व्व पालंति ॥

(अत्र शीलव्रते शीलवत्यादिकथानकान्यनुसन्धेयानि)

इय सील-धम्ममायज्जिऊण भव-जलहि-तारण-तरंडं ।
 संविग्ग-मणो राया गिण्हइ नियमं गुरु-समीवे ॥
 अट्टमि-चलइसी-पमुह-पच्च-दियहे सुनिवमेव मए ।
 कायव्वं वंमवयं भयवं । मण-वयण-कापहिं ॥

पृष्ठ २५३.

तपोव्रतोपदेशः ।

अह वागारियं गुरुणा—जीव-इया-कारणं तवं कुज्जा ।
 छज्जीव-निकाय-वहो न होइ जम्हा कए तम्मि ॥
 जह कंचणस्स जलणो कुणइ विसुद्धिं मळावहरणेणं ।
 जीवस्स तदेव तवो कम्म-ससुच्छेय-ऊरणेण ॥
 कम्ममाइं भवंतर-संचियाइं तुट्टंति किं तवेण विणा ।
 उट्टंति दवानलमंतरेण किं केण वि वणाइं ॥

अगणिय-तणु-पीडेहिं तित्थयरोहिं तवो सयं विहिओ ।
 कहिओ तह तेहिं चिय तित्थयरत्तण-निमित्तमिमो ॥
 कुसुम-समाओ तियसिद-चक्खवट्टित्तणाइ-रिद्धीओ ।
 जाणसुं तव-कप्प-महीरुहस्स सिव-सुक्ख-फल्यस्स ॥
 वारस वरिसाइं तवो पुच्च-भवे रुप्पिणीइ जह विहिओ ।
 तह कायव्वो नीसेस-दुक्ख-खवणत्थमन्नेहिं ॥

(अत्र तपोव्रते शक्तिमण्यादीनां कथा अनुसन्धेयाः)

एवं तव-माहप्यं मुणिकण तवो नरिंद ! कायव्वो ।
 सो वज्झो छब्भेओ अट्ठिभतरओ य छब्भेओ ॥

शृष्ठ २८४.

तं जहा—

अणसणमूणोयरिया विच्ची-संखेवणं रस-चाओ ।
 काय-किल्लेसो संलीणया य वज्झो तवो होइ ॥
 पायच्छित्तं विणओ वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
 ब्राणं च उस्सगो वि य अट्ठिभतरओ तवो होइ ॥
 रत्ता भणियं अट्टमि-चउहसी-पसुह-पच्च-दियहेसु ।
 जिण-कल्लाण-तिहीसु य सत्तीइ तवं करिस्सामि ॥
 एवं वारस-भेयं तव-धम्मं अक्खिखळं गुरु भणइ ।
 वारसविहं नराहिव ! सुण संपइ भावणा-धम्मं ॥

शुभभावनो-
 पदेशः ।

सुह-भावणा-परिगओ जीव-दुयं पालिउं खमइ जीवो ।
 सो असुह-भावणाए गहिओ पावं न किं कुणइ ॥
 वंझं विंति अहित्थ सत्य-पढणं अत्थावचोहं विणा
 सोहग्गेण विणा महप्प-करणं दाणं विणा संभमं ।

सवभावेण विणा पुरंधि-रमणं नेहं विणा भोअणं
 एवं धम्म-समुज्जमं पि चिवुहा ! सुद्धं विणा भावणं ॥
 सत्तम-नरथ-निमित्तं कम्मं वद्धं पसन्नचंदेण ।
 असुहाइ भावणाए सुहाइ पुण केवलं पत्तं ।

(भावनाविषयेऽत्र प्रसन्नचन्द्रादीनां कथानकान्यनुसन्धेयानि)

अह पुच्छइ कुमर-नराहिराउ, मण-मक्कड-नियमण-संकलाउ । शृष्ठ ३११.
 कह कीरहि वारह भावणाउ, तो अक्खइ गुरु धण-गाहिर-नाउ ॥

तं जहा—

भावना-स्वरूप-
 वर्णनम् ।

चलु जीविइ जुव्वणु धणु सरीरु, जिम्ब कमल-दल्लगा-विलगु नीरु ।
 अहवा इहत्थि जं किं पि वत्थु, तं सव्वु अणिच्चु हहा बिरत्थु ॥

पिह माय भाय सुकलत्तु पुत्तु, पट्ट परियणु मित्तु सिणेह-जुत्तु ।
 पट्टवंतु न रक्खइ कोवि मरणु, विणु धम्मह अणु न अत्थि सरणु ॥
 राया वि रंळु सयणो वि सत्तु, जणओ वि तणउ जणणि वि कळत्तु ।
 इह होइ नडु व्व कूकम्मवंतु, संसार-रंगि बहु रूतु जंतु ॥
 एकल्लउ पावइ जीवु जम्मु, एकल्लउ मरइ विदत्त-कम्मु ।
 एकल्लउ परमवि सइइ दुक्खु, एकल्लउ धम्मिण लइइ सुक्खु ॥
 जहिं जीवह एउ वि अणु देह, तहिं किं न अणु धणु सयणु गेह ।
 जं पुण अणुत्तु तं एक-चित्तु, अज्जेसु नाणु वंसणु चरित्तु ॥
 वस-मंस-रुहिर-चम्मडट्टि-वद्ध, नव-छिह-झरंत-मलावणद्ध ।
 असुइ-स्सरुव-नर-थी-सरीर, सुइ बुद्धि कहवि मा कुणसु धीर ॥
 मिच्छन्त-जोग-अविरइ-पमाय, मय-कोह-लोह-भाया-कसाय ।
 पावासव सज्जि इमे सुणेहि, जइ महसि मोक्खु ता संवरेहि ॥
 जइ मंदिरि रेणु तलाइ वारि, पविसइ न किंचि ढक्किय दुवारि ।
 पिहियासवि जीवि तहा न पावु, इय जिणिहि कहिउ संवरु पहावु ॥
 परवसु अजाणु जं दुह सइइ, तं जीवु कम्मु तणु निज्जेइ ।
 जो सइइ सवसु पुण नाणवंतु, निज्जेइ जिइंदिउ सो अणंतु ॥
 जहिं जम्मणु मरणु न जीवि पत्तु, तं नत्थि ठाणु चालग-भसु ।
 उद्धा-उहो-चउदस-रज्ज-लोगि, इय चित्तसु निरुचु सुखोवओगि ॥
 सुइ-कम्म-निओगिण कहवि लद्ध, बहु पावु करेविणु पुण विरुद्ध ।
 जलनिहि-चुय-रयणु व दुल्लह बोहि, इय सुणिवि पमत्तु म जीव होहि ॥
 धम्मो त्ति कहंति जि पावु पाव, ते कुरुरु सुणसु निहय-सहाव ।
 पइ पुत्तिहि दुल्लहु सुगुरु-पत्तु, तं वज्जसु मा तुह विसय-सत्तु ॥
 इय बारह भावण सुणिवि राउ, मणमच्चि वियंभिय भव- विराउ ।
 रज्जु वि कुणंतु चित्तइ इमाउ, परिहरिवि कुाह-कारणु पमाउ ॥
 इय सोमप्पह-कहिय कुमार-निव-झेमचंद-पडिबद्धे ।
 जिणधम्म-प्पडिबोहे पत्थावो वण्णिओ तइओ ॥
 इत्याचार्यश्रीसोमप्रभविरचिते कुमारपालप्रतिबोधे तृतीय. प्रस्तावः ॥

अथ चतुर्थः प्रस्तावः ।

द्वादशत्रतो-
पदेशः ।

अहं वागिरियं गुरुणा जीव-दयं धम्ममिच्छमाणेण । पृष्ठ ३१६.
सिख-मंदिर-निस्सेणी विरई पुरिसेण फायव्वा ॥
सन्वेदिय-असगाणं समत्त-पावासवाऽनियत्ताणं ।
जं अविरयाण जीवाणं कहवि न वट्टइ जीव-दया ॥
(जं अविरयाणं कहमवि वट्टइ सम्मं न जीव-दया ॥ पाठान्तरम् ।)
जइ कहवि सव्व-विरइं मुणि-धम्म-सरुवमक्खमो काउं ।
ता देसओवि विरइं गिहत्थ-धम्मोचियं कुज्जा ॥
पुव्व-परिक्कम्मिय-चित्त-कम्म-जुग्गा जहा भवे भित्ती ।
तह विहिय-देस-विरइं काचमलं सव्व-विरइं पि ॥

भणियं च—

एसा वि देस-विरइं सेविज्जइ सव्व-विरइ-कज्जेण ।
पायमिमीए परिक्कम्मियाण इयरा थिरा होइ ॥
पंच उ अणु-अय्याइं गुण-व्वयाइं हवंति तिन्नेव ।
सिक्खि-वयाइं चत्तारि देस-विरइं दुवाल्लसहा ॥

तत्र—

१ प्राणातिपात- संकप्प-पुव्वयं जं तसाण जीवाण निरवराहाण ।
विरत्युप- दुविह-तिविद्देण रक्खणमणुव्वयं विति तं पढमं ॥
देशः । चिर-जीवी वर-रुवो नीरोगो सयल-लोग-मण-इट्ठो ।
सो होइ सुगइ-गामी सिवो व्व जो रक्खए जीवे ॥

(अत्र शिवकथानकमनुसन्धेयम्)

२ मृषावादविर-
त्युपदेशः ।

जं गो-भू-कन्ना-कूढसक्खि-नासापहार-अलियस्स । पृष्ठ ३२१.
दुविह-तिविद्देण-वज्जणमणुव्वयं विति तं वीयं ॥
भुयगो व्व अलियवाई होइ अवीसास-भायणं भुवणे ।
पावइ अकित्ति-पसरं जणयाण वि जणइ संतावं ॥
सच्चेण फुरइ कित्ती सच्चेण जणम्मि होइ वीसासो ।
सग्गा-ऽपवग्ग-सुह-संपयाउ जायंति सच्चेण ॥
क्खुते यो मृषावादविरतिं सत्यवाग्व्रतः ।
मकरध्वजवद्भद्रसुभयत्रापि सोऽश्नुते ॥

(अत्र मकरध्वजद्वयान्तोऽनुसन्धेयः)

३ अदत्तादान-
विरत्युपदेशः ।

जं चौरंकारकरस्स खत्त-खणणाइणा पर-धणस्स ।
 दुविह-विहिण्ण-वज्जणमणुञ्चयं वित्ति तं तइयं ॥
 जो न हरइ पर-दब्बं इहावि सो लहइ न वह-त्रंघाठं ।
 पर-सोए पुण पावइ सुर-नर-रिद्धीओ विउळाओ ॥
 एकस्स चैव दुक्खं मारिज्जंतस्स होइ खणमेकं ।
 जावज्जीवं सकुहुंघयस्स पुरिसस्स धण-हरणे ॥
 दब्बं परस्स धज्जं जीयं जो हरइ तेण सो हणिओ ।
 दब्ब-विगमे जओ जीयमंतरंगं पि जाइ खयं ॥
 जं रत्त-खणण-वंद-ग्गाहाइ-विहिणा परस्स धण-हरणं ।
 पक्कख-दिट्ठ-दोसं तं चिट्ठउ दूरओ ताव ॥
 पर-वंचणेण घंत्तुं दित्तस्स वि पर-धणं पर-भवम्मि ।
 पर-गेहे चिय वक्कइ दत्तस्स व वणिय-पुत्तस्स ॥

पृष्ठ ३२८.

(अत्र दत्तकथाऽनुसन्धेया)

४ परदारविरत्यु-
पदेशः ।

जं निय-निय-भंगेहिं दिव्वाणं माणुसाण तिरियाण ।
 परदारणं विरमणमणुञ्चयं वित्ति तं तुरियं ॥
 चउ-विह-कसाय-मुक्को चउ-गइ-संसार-भमण-निट्ठिण्णो ।
 जो धरइ चउत्थ-घयं सो लहइ चउत्थ-पुरिसत्थं ॥
 निव्वडिय-सुहइ-भावाण ताण को वहउ एत्थ समसीसिं ।
 पर-रमणि-संफटे निवडिया वि न सुयंति जे मेरं ॥
 इणमेव धम्म-वीथं इणमेव विवेय-ऊणय-कसवट्ठो ।
 इणमेव दुक्करं जं कीरइ परदार-विग्गइ वयं ॥
 यः पालयति निव्व्याजं परस्त्रीविरतिव्रतम् ।
 परत्रेह च स श्रेयः पुरंदर इवाश्नुते ॥

पृष्ठ ३३४.

(अत्र पुरन्दरकथाऽनुसन्धेया)

५ परिग्रहविरत्यु-
पदेशः ।

दुपय-चउपय-धण-धन्न-खेत्त-घर-रुण-ऊणय-कुम्माण ।
 जं परिमाणं तं पुण अणुञ्चयं पंचमं वित्ति ॥
 जीवो भये अपारे गह्य-परिगह-भरणं/अक्कंतो ।
 दुह-लहरि-परिक्खित्तो वुद्धइ पोओ व्व जलहिम्मि ॥
 धम्मागाम-खयं रत्ता-क्रमलिणी-संघाय-निग्घायणं
 मत्ताया-त्तडि-पाटणं सुह-मणो-हंसम्म निव्वासणं ।
 बुद्धि लोह-महण्णवस्स खण्णं सत्ताणुंका-सुवो
 संपाटं परिगहो गिरिज्ज-भूरो च वत्तओ ॥

पृष्ठ ३४३.

पृष्ठ ३४४.

लोह-परिचत्त-चित्तो जो कुणइ परिगाहस्स परिमाणं ।
सो परभवे परिगाहमपरिमियं लहइ नागो व्व ॥

(अत्र नागकथानकमनुसन्धेयम्)

६ दिग्गतोपदेशः । दससु दिसासुं जं सयल-सत्त-संताण-ताण-फय-मङ्गो । पृष्ठ ३५०.

गमण-परिमाण-करणं गुणञ्चयं विति तं पढमं ॥
जीवो धणलोभ-ग्गह-गाहिय-मणो जत्थ जत्थ संचरइ ।
विइवइ पाणिणो तत्थ तत्थ तत्तायपिंडो व्व ॥
संतोस-पहाण-मणो दिसासु जो कुणइ गमण-परिमाणं ।
सो पावइ कल्लणं इत्थवि जम्मे सुवंधु व्व ॥

(अत्र सुबन्धुकथानकमनुसन्धेयम्)

७ भोगोपभोग- वीयं गुण-ञ्चयं पुण भोयणओ कम्मओ य होइ दुहा । पृष्ठ ३५५.

त्रतोपदेशः । तं भोयणओ भोगोवभोग-माणं विहेयञ्चं ॥
सइ भुज्जइ च्चि भोगो सो पुण आहार-पुप्फमाईओ ।
उवभोगो य पुणो पुण उवभुज्जइ भुवण-विलयाई ॥
असणस्स खाइमस्स य विरइं कुज्जा निसाइ जा जीव ।
महु-मज्ज-मंस-मक्खण-पमुहाण य सक्कहा नियमं ॥
पनरस-कम्मादाणाईं कोट्टवालाइणो नियोगा य ।
तं कम्मओ पणीयं तत्थ करिज्जा बुहो जयणं ॥
पुरुष. पालयन् भोगोपभोगव्रतमादृतः ।
अयद्वथ इवाभीष्टं लभतेऽत्रापि जन्मनि ॥

(अत्र जयद्वथकथानकमनुसन्धेयम्)

८ अनर्थ-दण्डविर- दोस-भुयंग-करंडो अणत्थ-दंडो अणत्थ-दुमसंडो । पृष्ठ ३६५.

त्युपदेशः । जं तस्स विरमणत्थं तं वज्जति गुण-ञ्चयं-तडयं ॥
तणु-सयण-घराईणं अत्थे जं जंतु-पीडणं दंडो ।
सो होइ अत्थ-दंडो अणत्थ-दंडो उ विवरीओ ॥
पावोवएस-अवज्झाण-हिंस-दाण-प्पमाय-मेएहिं ।
अडहा अणत्थ-दंडो अणंत-नाणीहिं निहिट्टो ॥
करिसण-वणिज्ज-हय-बसण-छेय-गोदमण-पसुह पावाण ।
जो उवएसो कीरइ परस्स पावोवएसो सो ॥
चरिसंतु वणा मा वा, मरंतु रिडणो, अहं निवो हीज्ज ।
सो जिणड; परो मज्जड, एवं चित्तणमववज्जाणं ॥

हल-मुसलु-वखल-सगड-गिग-खग-धणु-वाण-परसु-पमुहाणं ।
 हिंसा-निबंधणाणं समप्पणं हिंसदाणमिणं ॥
 जं मज्ज-विसय-विकहाइ-सेवणं पंचहा पमाओ सो ।
 अह व घय-नुद्ध-तेहाइ-भायण-च्छायणाऽऽल्स्सं ॥
 कय-परपीडमसंबद्ध-भासणं वज्जरंति मोहरिअं ।
 तं पुण अणत्थ-दंडस्स पढममंगं ति मोत्तव्वं ॥
 होइ वयणं सुयंथं महुरो सहो तह त्ति जं भणियं ।
 आणं कुणंति तियसा वि तस्स जो चयइ सुहरत्तं ॥
 वज्जिअ-अणत्थ-दंडो खंदो जाओ निवो पुरिस-चंदो ।
 मोहरियं काळं किंचि रुह-जीवो दुहं पत्तो ॥

(अत्र रुद्रजीवदृष्टान्तोऽनुसन्धेयः)

९ सामायिकंत्रतो-
पदेशः ।

जं समणस्स व सावज्ज-जोग-वज्जणमरत्त-दुद्धस्स ।
 तं सम-भाव-सरुवं पढमं सिक्खा-वयं वित्ति ॥
 जो राग-दोस-रहिओ गहिअं सामाअयं न खंडेइ ।
 सो सावओ वि साहइ सागरचंदो व पर-लोयं ॥

पृष्ठ ३७१.

(अत्र सागरचन्द्रदृष्टान्तोऽनुसन्धेयः)

१० देशवकाशिक-
त्रतोपदेशः ।

जं पुव्व-गहिय-सयल-ज्वयाण संखेव-करणमणुदियहं ।
 देसावगासियं तं भणंति सिक्खावयं वीयं ॥
 जीवो पमाय-बहुलो पमाय-परिवग्गणे हवइ धम्मो ।
 ता कीरइ पइदियहं संखेवस्साऽवि संखेवो ॥
 सच्छंद-पयाराइं जहा अणत्थे पडंति डिंभाइं ।
 अनिजंतिय-वावारा जीवा निवडंति तह निरए ॥
 तेणाऽत्राय-परंपर-विसम-विस-प्पसर-हंमण-निमित्तं ।
 निहिट्टं रक्खा-कंडयं व सिक्खावयं एयं ॥
 अणुविचीए वि हु ओसहं व जो कुणइ वयमिणं मणुओ ।
 पवणंजठ व्व पावइ सो इह लोए वि कट्टाणं ॥

पृष्ठ ३७७.

(अत्र पवनजयकथानकमनुसन्धातव्यम्)

११ पौषधत्रतो-
पदेशः ।

आहार-वेह-भूसण-अवंम-वावार-चाय-रुवं जं ।
 पव्वेसु पोसहं तं तइयं सिक्खा-वयं वित्ति ॥
 अट्टमि-वउइसी-पयुह-पव्व-दियहेसु जो कुणइ एयं ।
 पावइ उभय-भवेसुं सो रणसरु व्व कट्टाणं ॥

पृष्ठ ३८३.

(अत्र रणशूरकथानकमनुसन्धेयम्)

१२ अतिथिसंवि-
भागव्रतोप-
देशः ।

साहूण संविभागो जो कीरइ भक्त-पाण-पगुदेहिं ।
तं अतिहि-संविभागं तुरियं सिक्खावयं विंति ॥
जो अतिहि-संविभागं परिपालइ पवर-सत्त-संजुत्तो ।
नरदेवो व्व सउन्नो इहाऽवि सो लहइ कट्टाणं ॥

पृष्ठ ३९०.

(अत्र नरदेवकथानकमनुसन्धेयम्)

एवं नरिंद ! तुह अक्खियाइं एयाइं वारस-वयाइं ।
रत्ता भणियं भयवं ! अणुगहो मे कळो तुमए ॥
पंच-मह-व्वय-भारो धुवं गिरिंदो व्व दुव्वहो ताव ।
तं जे व्हंति सम्भं ते दुक्कर-कारए व्रंदे ॥
ते वि ह्नु सलाहणिज्जा न कत्स परिमिय-परिगहा-ऽऽरंभा ।
सफंति पालिउं जे इमाइं वारस-वयाइं पि ॥
शुरूणा भणियं आणंद-कामदेवाइणो पुरा जाया ।
जेहिं परिपालियाइं इमाइं सावय-वयाइं दढं ॥
इण्हि तु वर-गिहत्थो इहत्थि नामेण छड्डो सेट्ठी ।
परिमिय-परिगहो विहिय-पाव-वावार-परिहारो ॥
जो अहिगय-नव-त्तो संतोस-परो विवेय-रयण-निही ।
देव-शुरू-धम्म-कज्जेसु दिन्न-निय-मुय-विढत्त-धणो ॥
सो अम्ह पाय-मूले पुव्वं पडिबज्जिऊण भावेण ।
वारस-वयाइं एयाइं पालए निरइयाराइं ॥
रत्ता भणियं एसो आसि धण्डो त्ति मज्झ गोरव्वो ।
साहम्मिउ त्ति संपइ वंधु व्व विसेसओ जाओ ॥
भयवं ! अहं पि काइं सावय-धम्मस वारस-विहत्स ।
परिपालणे पयत्तं वसुहा-साभित्त-अणुत्वं ॥
तो शुरुणा वंगेरियं नरिंद ! तुममेव पुज्जवंतो सि ।
जो एरिसो वि सावय-वयाण परिपालणं कुणसि ॥
इय सोमप्पह-कहिए कुमार-निव-हेमचंद-पडिबद्धे ।
जिण-धम्म-प्पडिबोहे पत्थानो वणिओ तुरिओ ॥
इत्याचार्यश्रीसोमप्रभविरचिते कुमारपालप्रतिषेधे चतुर्थः प्रस्तावः ॥

पृष्ठ ३९६.

अथ पञ्चमः प्रस्तावः ।

कपायज्ञयो-
पदेशः ।

अहं गुरुणा वागर्थिं जो जीवदयं समीहय काचं ।
तेण कसाथाण पराजयम्मि जत्तो विहेयव्वो ॥
जम्हा कसाथ-विवसो किच्चमकिच्चं च किं पि असुणंती ।
निहय-मणो पयट्टइ जीवो जीवाण पीढासु ॥
तो कोह-माण-माया-लोभा चउरो चउव्विहा हुंति ।
एकिकसो अणंताणुवंधि-पसुहेहिं मेएहि ॥
कज्जाकज्ज-विचारण-चेयन्न-हरस्स विसहरस्सेव ।

पृष्ठ ३९८-

क्रोधजयो-
पदेशः ।

कोवस्स कोऽन्नगासं मइमं मण-मंदिरे दिज्जा ? ॥
सुट्टु जलणो जलंतो वि व्हइ तं चेव जत्थ संलमो ।
कोह-जलणाउ जल्लिओ सठाणमन्नं परमवं च ॥
जिण-पवयण-मेह-समुत्तवेण पसमामएण कोव-द्वं ।
विज्जवइ जो नरो होइ सिव-फलं तस्स धम्म-चणं ॥
कोवेण कुणइ-दुक्खं जीवा पावति सिंह-वग्ग व्व ।
होवं खमा-परा पुण ल्हंति सग्गा-ऽपवग्ग-सुहं ॥

(अत्र सिंहव्याघ्रकथानकमनुसन्धेयम्)

मानजयोपदेशः ।

अट्ट-मय-ट्टाणेहिं मत्तो अंतो-निविट्ट-संक्रु व्व ।
कस्स वि अनमंतो तिहुयणं पि मन्नइ तणं व नरो ॥
मय-वट्टो उट्टु-मुहो गयणम्मि गणंतओ रिक्खाइं ।
अनिरिक्खिय-सुह-मगो भवावडे पडइ किं चोच्चं ॥
राया-ऽमच्चारिणं पि सेवओ माणवज्जिओ चेव ।
लहइ मण-संछियत्थं पुरिस्सो माणी पुण अणत्थं ॥
माणी उच्चैय-ऊरो न पावए कामिणीण काम-सुहं ।
इत्थीण काम-सत्थेसु कम्मणं महवं जम्हा ॥
मोक्ख-तरु-श्रीय-भूओ माण-त्थड्डस्स नत्थि धम्मो वि ।
धम्मस्स जओ समए विणउ धिय वज्जिओ मूलं ॥
त्राइ-कुलाइ-मएहिं नडिओ जीवो वि विइवंणं लहइ ।
तेहिं पुण वज्जिओ गोयणो व्व सुह-भायणं होइ ॥

पृष्ठ ४०२.

(अत्र गोधनकथानकमनुसन्धेयम्)

मायाजयोपदेशः ।

धम्म-वण-जलण-जाला मोह-महा-मयगलण [जा] साला ।
कुणइ-वट्ट-वर-माला माया सुह-मइ-हरण-हाला ॥

पृष्ठ ४०७.

येन-कए कवड-परो निविडं निवडंतमावया-लक्खं ।
लक्खइ न जणो ल्हुडं परं पियंतो बिडालो व्व ॥
माया-वसेण कवड-प्पभोग-कुसला अकिच्चमायरिडं ।
पत्ता इहेव सयमेव लज्जिडं नाइणी निहणं ॥

(अत्र नागिनीकथाऽनुसन्धेया)

लोभजयो- जो कोह-माण-माया-परिहार-परो वि वज्जइ न लोहं । पृष्ठ ४१५.
पवेशः । पोओ व्व सागरे सो भवन्मि दुइइ कु-क्कम्म-गुरु ॥
ससि-कर-धवला वि गुणा निय-आसय-वाह-कारए लोदे ।
आवट्टंति जल-कणा लोहम्मि व जलण-संसत्ते ॥
इह लोयम्मि किलेसे लहियं लोभाउ सागरो गरुए ।
पर-लोए संपत्तो दुगइ-दुक्खाइं तिक्खाइं ॥

(अत्र सागरदृष्टान्तोऽनुसन्धेयः)

इय हेमसूरि-सुणि-पुंगवस्स सुणिऊण देसणं राया । पृष्ठ ४२२.
जाणिय-समत्त-तत्तो जिण-धम्म-परायणो जाओ ॥
कुमारपालदिन- तो पंच-नसुक्कारं सुमरंतो जगाए रयणि-सेसे ।
चर्यावर्णनम् । चितइ अय दो वि हिय(?)*देव-गुरु-धम्म-पडिवत्ति ॥
काऊण काय-सुद्धिं कुसुमामिस-थोत्त-विविह-पूयाए । पृष्ठ ४२३.
पुज्जइ जिण-पडिमाओ पंचहिं दंहेहिं वंदेइ ॥
निच्चं पक्खत्थाणं कुणइ जहासत्ति सत्त-गुण-निलओ ।
सयल-जय-लच्छि-तिलओ तिलथावसरम्मि उवविसइ ॥
करि-कंधराधिरुढो समत्त-सामंत-मंति-परियरिओ ।
वच्चइ जिणिंद-भवणं विहि-पुव्वं तत्थ पविसेइ ॥
अट्ट-प्पयार-पूयाइ पूहवं बीयराय-पडिमाओ ।
पणमइ महि-निहिय-सिरो धुणइ पवित्तेहिं थोत्तेहिं ॥
गुरु-हेमचंद-चलणे चंदण-कप्पूर-कणय-कमलेहिं ।
संपूइऊण पणमइ पक्खत्थाणं पयासेइ ॥
गुरु-पुरओ उवविसिडं पर-लोय-सुहावहं सुणइ धम्मं ।
गंतूण गिहं वियरइ जणस्स विञ्जित्तियावसरं ॥
विहियग्ग-कूर-थालो पुणो वि घर-चेइयाइं अक्खेइ ।
कय-उचिय-संविभागो भुंजेइ पवित्तमाहारं ॥

* अस्पष्टार्थोऽयं पाठः । जिनमण्डनगणिविरचित-कुमारपालध्रुवने तु 'चितइ व दोवि हियए (पृ०

भुजुत्तरं सहाय वियारय सह जुदेहिं सत्यतथं ।
 तो राया बुहवगं विसञ्जितं दिवस-चरम-जामग्नि ।
 अत्थाणी-मंडव-मंडणग्नि सिहासणे ठाइ ॥
 सामंत-मंति-मंडलिय-सेट्टिपमुहाण दंसणं देइ ।
 विन्नत्तीओ तेसिं मुणइ कुणइ तह पढीयारं ॥
 कय-निविवेय-जण-विन्हियाइं करि-अंक-मल्ल-जुद्धाईं ।
 रज्जट्टिइ चि कइया वि पेच्छए छिन्नवंछो वि ॥
 अट्टमि-चउदसि-वज्जं पुणो वि मुंजइ दिणट्टमे माप ।
 कुमुमाइएहिं घर-वेइयाइं अथेइ संश्याए ॥
 तिसिं निविसिऊण पट्टे आरत्तिय-मंगलाइं कारवइ ।
 वारवह-निवहेणं मागह-गण-गिज्जमाण-गुणो ॥
 तो निहं काउमणो भयण-मुयंगम-विस-प्पसम-मंतं ।
 संशुणइ थूलभइ-प्पमुह-महामुणि-चरियमेवं ॥

पृष्ठ ४४९.

(अत्र स्थूलभद्रकथाऽनुसन्धेया)

(नमस्कारमाहात्म्ये नन्दनकथा वाच्या ।)

परमेष्ठिनमस्कारं स्मरन् भूपतिरभ्यधात् ।
 नमस्कारस्य माहात्म्यं दृष्टप्रत्ययमेव मे ॥

पृष्ठ ४७९.

तथाहि—

स्वयं सकलसैन्येन दिग्गान्त्राः कुर्वतोऽपि मे ।
 असिध्यत [यतो] नार्योऽनर्थः प्रत्युत कोऽप्यभूत् ॥
 अधुना तन्नमस्कारं स्मरतो मम शत्रवः ।
 वणिजैरपि जीयन्ते दण्डेशैरम्बडादिभिः ॥
 स्वचक्रं परचक्रं वा नानर्यं कुरुते क्वचित् ।
 दुर्मिक्षस्य न नामापि श्रूयते वसुधातले ॥
 ततस्तं संस्मरन्नेवं निद्रां भजति पार्थिवः ।
 रात्रिशेषे तु जागर्ति मागधोक्तैर्जिनस्तवैः ॥
 ततः पञ्चनमस्कारधर्मस्मरणपूर्वकम् ।
 वन्दित्वा पार्थिवो देवान् भवोद्विग्नोऽभ्यधादिदम् ॥
 हहा ! विषयपद्मौघममस्तिष्ठति मादृशः ।
 धन्यो दशार्णभद्रः स राज्यं तत्याज यः क्षणात् ॥


पृष्ठ ४७२-३.

(अत्र दशार्णभद्रकथानकमनुसन्धेयम्)

एवं कुर्वन्नहोरात्रकृत्यानि परमार्हतः ।
 कुमारपालदेवोऽयं राज्यं पालयति क्षितौ ॥

पृष्ठ ४७५.

नृपस्य जीवाभयदानडिण्डिमै-
 र्महीतले नृत्यति क्रीर्तिनर्तकी ।
 समं मनोभिस्तिमि-क्रेकि-तित्तिरि-
 स्तुभो-रण-क्रोड-मृगादिदेहिनाम् ॥
 शूतासवादीनि नृणां न्यपेधी-
 दिहैव सप्तव्यसनानि भूपः ।
 दुष्कर्मतो दुर्गतिसंभवानि
 परत्र तेषां त्वमितानि तानि ॥
 पदे पदे भूमिभुजा निवेशितै-
 र्जिनालयैः काञ्चनदण्डमण्डितैः ।
 निवारिता वेत्रधरैरिवोद्धतैः
 स्फुरन्ति कुत्रापि न केऽप्युपद्रवाः ॥
 स्तुमखिसन्ध्यं प्रमुहेमसूरे-
 रनन्यतुल्यामुपदेशशक्तिम् ।
 अतीन्द्रियज्ञानविवर्जितोऽपि
 यः क्षोणिभर्तुर्व्यधित प्रबोधम् ॥
 सत्त्वानुकम्पा न महीभुजां स्या-
 दित्येष ह्यसौ वितथः प्रवादः ।
 जिनेन्द्रधर्मं प्रतिपद्य येन
 श्लाघ्यः स केषां न कुमारपालः ॥
 विचित्रवृत्तान्तसमेतमेतयो-
 श्चरित्रमुत्कीर्तयितुं क्षमेत कः ।
 तथापि तस्यैव.....तार्थिना
 समुद्धृतो बिन्दुरिवाभ्युधेर्मया ॥
 इति सोमप्रभकथिते कुमारनृपहेमचन्द्रसम्बद्धे ।
 जिनधर्मप्रतिबोधे प्रस्तावः पञ्चमः प्रोक्तः ॥
 इत्याचार्यश्रीसोमप्रभचरिते कुमारपालप्रतिबोधे पञ्चमः प्रस्तावः ॥



इति
आचार्यसोमप्रभाचार्यकृतस्य
कुमारपालप्रतिबोधस्य
संक्षेपः समाप्तः ॥

विषयानुक्रमः ।

विषयः	पृ०	विषयः	पृ०
Introduction	i-XV	सोम-भीमकथा	१२२-१२९
प्रस्तावना	१-९	पञ्चोत्तरकथा	१२९-१३६
परिक्षिप्त	१०-१५	दीपशिल्प-कथा	१३६-१४३
पेतिहासिकनाम्नामनुक्रमः	१६	कुमारपालकारित जिनमन्दिरादिघर्णनम्	
कुमारपालप्रतिबोध-संक्षेपः	१-४०		
प्रथम प्रस्तावे—		गुरुसेवायाम्—	
देव-गुरुस्तुतिः,	१	प्रदेशीनृपकथा	१४३-१५१
ग्रन्थप्रस्तावना,	२-३	लक्ष्मीकथा,	१५१-१६८
अणहिल्लपाटकपुरवर्णनम्,	३-४	गुरुविराधनायाम् कूलवालकथा	१५८-१६६
कुमारपालवशावर्णनम्,	४-५	गुरुभक्त-संप्रतिनृपकथा,	१६६-१७४
कुमारपालस्य धर्मस्वरूपविज्ञासा	५-६	कुमारपालरथ-तीर्थ-यात्रा वर्णनम् ..	१७४-१८०
दत्तसुरिकृत-यशोभद्रनृपप्रतिबोधः, ..	६-७	तृतीय प्रस्तावे—	
मूलदेवकथानकम्,	७-१६	सुपात्रदाने चन्दनबालकथा	१८१-१९०
दत्तसुरिशिष्य-यशोभद्रसुरिः,	१६-१८	धन्यकथानकम्	१९०-१९७
प्रद्युम्नसुरि-गुणसेनसुरि-देवचन्द्रसुरि-वर्णनम्,	१८-१९	कुरुचन्द्रकथानकम्	१९७-२०४
हेमचन्द्रसुरेलेन्मादिकथनम्,	१९-२२	कृतपुण्यकथा	२०४-२११
हेमचन्द्रसुरिकृत-कुमारपालप्रतिबोधः	२२-२३	सत्रविधाने भरतचक्रिकथा,	२११-२२०
अहिंसायाम्—		शीलव्रते शीलवतीकथा	२२०-२२९
अमरसिंहकथा	२३-२८	मृगावतीकथा	२३०-२३६
दामनककथा	२८-३३	ताराकथा	२३७-२४४
अभयसिंहकथामासनिष्ठौ	३३-४२	जयसुन्दरीकथा,	२४३-२५३
कुन्दकथा,	४२-४७	तपसि क्विमणीकथा,	२५३-२५९
द्यूते नलकथा,	४७-७६	शाम्भ-प्रद्युम्नकथा	२५९-२६८
पारदारिके प्रद्योतकथा,	७६-८२	धर्मयशो-धर्मवोधकथा,	२६८-२७६
वेश्याव्यसने असोककथा,	८२-९२	तपोजन्यलब्धिप्रस्तावे विष्णुकुमारकथा, २७६-२८४	
मद्यपाने द्वारिकादाह-यादवकथा ..	९२-१०५	भावनायाम् प्रसन्नचन्द्रकथा	२८४-२९२
चौर्वै वरुणकथा,	१०५-११४	शाल-महाशालकथा	२९२-२९८
प्रथमः प्रस्तावः समाप्तः	११४-११५	इलापुत्रकथा	२९८-३०४
द्वितीय प्रस्तावे—		जय विजयकथा	३०४-३११
देवपूजायाम्—		द्वादशभावनास्वरूपम्,	३११-३१२
देवपालकथा	११६-१२२	चतुर्थ प्रस्तावे—	
		प्राणातिपातविरतौ नाथकुमारकथा, ३१३-३२०	

विषयः	पृ०	विषयः	पृ०
मृपावादविरतौ मरुत्खनकथा. . .	३२१-३२८	माने गोघनकथा. . .	४०२-४०७
अस्त्रेयव्रते दत्त-साख्यायनकथा. . .	३२८-३३४	मायाया नागिनीकथा. . .	४०७-४१५
परस्त्रीविरतौ पुरन्दरकथा. . .	३३४-३४३	लोमे सागरश्रेष्ठिकथा. . .	४१५-४२२
परिग्रहपरिमाणे हरिविक्रमकथा.	३४३-३४९	कुमारपालचर्या. . .	४२२-४२३
दिग्ब्रते सुवन्धुऋया. . .	३५०-३५६	कविसिद्धपालकथितो जीवमन इन्द्र-	
भोगोपभोगव्रते जयद्रथकथा . .	३५६-३६४	यसंलाप', . . .	४२३-४३७
तृतीयगुणव्रते पुरुपञ्चन्द्रकथा. . .	३६५-३७१	विक्रमादित्यऋया. . .	४३७-४४०
सामाधिके सागरचन्द्रकथा. . .	३७१-३७७	आर्यसप्तपुटाचार्यकथा. . .	४४०-४४३
देशावकाशिके पवनजयकथा. . .	३७६-३८३	द्यूलिभद्रकथा. . .	४४३-४६१
पौपथे रणसूद्रकथा . . .	३८३-३८९	नमस्कारे नन्दनकथा. . .	४६१-४७०
अतिथिसविभागे नरदेवकथा . .	३९०-३९५	दशार्णभद्रनृनकथा. . .	४७०-४७५
कुमारपालकृत-द्वादशव्रतस्वीकार'	३९६	कुमारपालनृनवर्गना. . .	४७५-४७६
पञ्चम प्रस्तावे—		ग्रन्थकारवृत्तप्रशस्तिः . . .	४७७-४७८
कोणे सिंह-न्यायकथा. . .	३९७-४०२	शुद्धिपत्रम् . . .	१-७



श्रीसोमप्रभाचार्यविरचितः

कुमारपालप्रतिबोधः ।

ॐ नमो वीतरागाय ।

प्रथमः प्रस्तावः ।

चउसु दिसासु पसरियं मोह-बलं निज्जिडं पयट्टो व्व ।
पयडिय-धम्म-चउक्को चउ-देहो जयइ जिण-नाहो ॥ १ ॥
तं नमह रिसहनाहं नाण-निहाणस्स जस्स अंसेसु ।
अलि-कसिणो केस-भरो रेहइ रुक्खे भुयंगो व्व ॥ २ ॥
तं सरह संतिनाहं पवन्न-चरणं पि जं चरण-लुग्गा ।
तियस-कय-कणय-पंकय-मिसेण सेवंति नव निहिणो ॥ ३ ॥
कज्जल-समाण-वन्नं सिवंग-भूयं निसिद्ध-मय-मारं ।
परिहरिय-रायमइयं दुहा नमंसाभि नेमिजिणं ॥ ४ ॥
मज्झ पसीयउ पासो पासे जस्सोरगिंद-फण-मणिणो ।
दिप्पंति सत्त-दीव व्व सत्त तत्ताहं पायडिडं ॥ ५ ॥
सो जयइ महावीरो सरीर-दुग्गाओ भाव-रिउ-वग्गो ।
चिरमन्न-पाण-रोहं काउं निव्वासिओ जेण ॥ ६ ॥
वित्थारिय-परमत्थं अणग्घ-रयणासयं सुवन्न-पयं ।
दोगच्च-दलण-निउणं नमह निहाणं व जिण-वयणं ॥ ७ ॥
जेसिं तुट्ठिं लट्ठिं व लहिउ मंदो वि अखलिय-पएहिं ।
विसमे वि कव्व-मग्गे संचरइ जयंतु ते गुरुणो ॥ ८ ॥
कइणो जयंतु ते जलहिणो व्व उवजीविऊण जाण पयं ।
अन्ने वि घणा भुवणे कुणंति घन्नाण उक्करिस्सं ॥ ९ ॥
जलहि-जल-गलिय-रयणं व दुल्लहं माणुसत्तणं लहिउं ।

जिणधम्ममि पयत्तो कायव्वो बुद्धिमंतेण ॥ १० ॥
 सग्गो ताण धरंगणं सहयरा सव्वा सुहा संपया
 सोहग्गाइ-गुणावली विरयए सव्वंगमालिंगणं ।
 संसारो न दुरुत्तरो सिव-सुहं पत्तं करंभोरुहे
 जे सम्मं जिणधम्म-कम्म-करणे वटंति उद्वारया ॥ ११ ॥
 सप्पुरिस-चरित्ताणं सरणेण पर्यंपणेण सवणेण ।
 अणुमोयणेण य फुडं जिणधम्मो लहइ उक्करिसं ॥ १२ ॥
 पुव्वं जिणा गणहरा चउदस-दस-पुव्विणो चरिम-तणुणो ।
 चारित्त-धरा बहवो जाया अन्ने वि सप्पुरिसा ॥ १३ ॥
 तह भरहेसर-सेणिय-संपइनिव-पभिइणो समुप्पन्ना ।
 पवयण-पभावणा-गुण-निहिणो गिहिणो वि सप्पुरिसा ॥ १४ ॥
 तेसिं नाम-ग्गहणं पि जणइ जंतूण पुन्न-पव्वभारं ।
 सग्गा-पव्वग्ग-सुह-संपयाउ संपाडइ कमेण ॥ १५ ॥
 संपइ पुण सप्पुरिसो एक्को सिरि-हेमचंद-मुणि-णाहो ।
 फुरियं दूसम-समए वि जस्स लोउत्तरं चरियं ॥ १६ ॥
 दुइओ वि दलिय-रिव-वक्क-विक्कमो कुमरवाल-भूपालो ।
 जेण दहं पडिवन्नो जिण धम्मो दूसमाए वि ॥ १७ ॥
 केवल-नाण-पलोइअ-तइलोक्काणं जिणाण वयणेहिं ।
 पुव्वनिवा पडिबुद्धा जिणधम्मो जं न तं भुज्जं ॥ १८ ॥
 भुज्जमिणं जं राया कुमारवालो परूढ-मिच्छत्तो ।
 छउमत्थेण वि पहुणा जिणधम्म-परायणो विहिओ ॥ १९ ॥
 तुलिय-तवणिज्ज-कैती सयवत्त-सवत्त-नयण-रमणिज्जा ।
 पल्लविय-लोय-लोयण-हरिस-प्पसरा सरीर-सिरी ॥ २० ॥
 आबालत्तणओ वि हु चारित्तं जणिय-जण-वमक्कारं ।
 बावीस-परीसह-सहण-दुद्धरं तिच्च-तव-पवरं ॥ २१ ॥
 मुणिय-विसमत्थ-सत्था निम्मिय-वायरण-पमुह-गंध-गणा ।
 परवाइ-पराजय-जाय-कित्ती मई जय-पसिद्धा ॥ २२ ॥
 धम्म-पडिवत्ति-जणणं अतुच्छ-मिच्छत्त-मुच्छिआणं पि ।
 महु-खीर-पमुह-महुरत्त-निम्मियं धम्म-वागरणं ॥ २३ ॥
 इच्चाइ-गुणोहं हेमसुरिणो पेच्छिऊण छेय-जणो ।

सहहह अदिद्वे वि हु तित्थंकर-गणहर-प्पसुहे ॥ २४ ॥
 जिणघम्मे पडिवत्ति कुमरनरिंदस्स लोहं लोओ ।
 पत्तियइ व्व चिरंतण-भूमिवईणं पि अविअप्पं ॥ २५ ॥
 सिव-पह-कहगेऽवि सयं वीरजिणे सेणिएण नरवइणा ।
 जीव-दयं कारविडं न सक्किओ कालसोयरिओ ॥ २६ ॥
 दूसम-समएऽवि हु हेमसूरिणो निसुणिऊण वयणाहं ।
 सब्ब-जणो जीव-दयं कराविओ कुमरवालेण ॥ २७ ॥
 तत्तो दुवेऽवि एए इमंमि समए असंभव-चरित्ता ।
 कय-कयजुया-वयारा जिणघम्म-पभावण-पहाणा ॥ २८ ॥
 दुण्ह वि इमाण चरियं भणिज्जमाणं मए निसामेह ।
 वित्थरइ जेण सुकर्यं थिरत्तणं होइ जिणघम्मे ॥ २९ ॥
 जइ वि चरियं इमाणं मणोहरं अत्थि बह्हुयमन्नं पि ।
 तह वि जिणघम्म-पडिबोह-बंधुरं किं पि जंपेमि ॥ ३० ॥
 बहु-भक्ख-जुयाइ वि रसवईएँ मज्झाओ किंचि मुंजंतो ।
 निय-इच्छा-अणुरूवं पुरिसो किं होइ वयणिज्जो ॥ ३१ ॥

अणहिल्लपाटकपुरवर्णनम्

अत्थि मही-महिलाए सुहं महंतं मयंक-पडिबिम्बं ।
 जंबुदीव-छलेणं नहलच्छि दहुसुन्नमियं ॥ ३२ ॥
 तुंगो नासा-वंसो व्व सोहए तियस-पव्वओ जत्थ ।
 सीया-सीओयाओ दीहा दिट्ठीओ व सहंति ॥ ३३ ॥
 तत्थारोविय-गुण-घणु-निभं नलाडं व भारहं अत्थि ।
 जत्थ विरायइ विउलो वेयड्ढो रयय-पट्टो व्व ॥ ३४ ॥
 जं गंग-सिंधु-सरिया-मुत्तिय-सरियाहि संगयं सहइ ।
 तीर-वण-पंति-कुंतल-कलाव-रेहंत-पेरंतं ॥ ३५ ॥
 तत्थत्थि तिलय-तुल्लं अणहिलवाडय-पुरं घण-सुवन्नं ।
 पेरंत-मुत्तियाबलि-समो सहइ जत्थ सिय-सालो ॥ ३६ ॥
 गरुओ गुज्जर-देसो नगरागर-गाम-गोउलाइन्नो ।
 सुर-लोय-रिद्धि-मय-विजय-पंडिओ मंडिओ जेण ॥ ३७ ॥
 जंमि निरंतर-सुर-भवण-पडिम-ण्हवणंबु-पूर-सित्त व्व ।

सहला मणोरह-डुमा धम्मिय-लोयस्स जायंति ॥ ३८ ॥
 जत्थ सहंति सुवन्ना कंचण-कलसा य सुर-धर-सिरेसु ।
 गयण-अम्म-खिन्न-निसण्ण-खयर-तरुणीण पीण-थणा ॥ ३९ ॥
 अम्मंलिह-सुर-मंदिर-सिर-विलसिर-कणय-केयण-सुएहि ।
 नच्चइ व जत्थ लच्छी सुट्टाण-निवेस-हरिस-वसा ॥ ४० ॥
 जत्थ मणि-भवण-भित्तीसु पेच्छिउं अत्तणो वि पडिबिंबं ।
 पडिज्जुवइ-संकिरीओ कुप्पंति पिएसु सुद्धाओ ॥ ४१ ॥
 जम्मि महा-पुरिसाणं घण-दाणं निरुवमं निएऊण ।
 अजहत्य-नामओ लज्जिओ व्व दूरं गओ घणओ ॥ ४२ ॥
 जस्सि समच्छरमणा जलासया न उण धम्मिय-समूहा ।
 कमलोवकारया सूर-रस्सिणो न उण सप्पुरिसा ॥ ४३ ॥
 जत्थ रमणीण रूवं रमणिज्जं पेच्छिऊण अमरीओ ।
 लज्जंतीओ चिंताइ कह वि निदं न पावंति ॥ ४४ ॥

नरेन्द्रवंशवर्णनम्

तत्थासि मूलराओ राया चोलुक्क-कुल-नह-मयंको ।
 जणिया जणाणुकूला मूलेण व जेण नीह-लया ॥ ४५ ॥
 जस-पुंडरीय-मण्डल-मंडिय-वंमंड-मंडवो तत्तो ।
 खंडिय-विपक्ख-मुंडो चंडो चामुंडराय-निवो ॥ ४६ ॥
 तत्तो वल्लहराओ राया रइवल्लहो व्व रमणिज्जो ।
 जेण तुरएहिं जगझंणु त्ति कित्ती जए पत्ता ॥ ४७ ॥
 तत्तो डुल्लहराओ राया समरंगणंमि जस्स करे ।
 कारवालो छज्जइ जय-सिरीइ मय-णाहि-तिलओ व्व ॥ ४८ ॥
 तत्तो भीमनरिंदो भीमो व्व पयंड-बाहु-बल-भीमो ।
 अरि-चक्कं अक्कमिडं पायडिओ जेण पंडु-जसो ॥ ४९ ॥
 तो कन्नएव-निवई जस्सासि-जलंमि विलसिया सुइरं ।
 जस-रायहंस-सहिया जय-लच्छी रायहंसी व्व ॥ ५० ॥
 तयणु जयसिहदेवो पयंड-भुय-दंड-मंडवे जस्स ।
 कित्ति-पयाव-मित्सेणं चिर-कालं कीलियं मिट्ठुणं ॥ ५१ ॥
 तम्मि गए सुर-लोयं काउं व सुरेसरेण सह मित्तिं ।

कमल-वर्णं व दिर्णिदे अत्यमिए मउलियं भुवणं ॥ ५२ ॥
 तत्तो पहाण-पुरिसा निय-मइ-माहप्प-विजिय-सुर-गुरुणो ।
 रज्जमणाहं दट्ठं जंपंति परुप्परं एवं ॥ ५३ ॥
 आसि सिरि-भीमएवस्स नंदणो जणिय-जण-मणाणंदो ।
 कय-सयल-खोणि-खेमो नामेणं खेमराउ त्ति ॥ ५४ ॥
 तस्स तणओ तिणीकय-कंदप्पो देह-सुंदरत्तेण ।
 देवप्पसाय-नामो देव-पसायण-पहाण-मणो ॥ ५५ ॥
 तस्संगरुहो गरुओ पर-रमणि-परंसुहो महा-सूरो ।
 तियस-सरि-सरिस-कित्ती तिहुयणपालो त्ति नामेण ॥ ५६ ॥
 तस्स सुओ तेयस्सी पसन्न-वयणो सुरिंद-सम-रुवो ।
 देव-गुरु-पूयण-परो परोवयारुज्जओ धीरो ॥ ५७ ॥
 दक्खो दक्खिन्न-निही नयवंतो सच्च-सत्त-संजुत्तो ।
 सूरो चाई पडिवन्न-वच्छलो कुमरवालो त्ति ॥ ५८ ॥
 एसो जुग्गो रज्जस्स रज्जलक्खण-सणाह-सच्चंगो ।
 ता झत्ति ठविज्जउ निग्गुणेहिं पज्जत्तमत्तेहिं ॥ ५९ ॥
 एवं परुप्परं मंतिज्जण तह गिण्हिज्जण संवायं ।
 सामुद्धिय-मोद्धत्तिय-साउणिय-नेमित्तिय-नराण ॥ ६० ॥
 रज्जंमि परिट्ठविओ कुमारवालो पहाण-पुरिसेहिं ।
 तत्तो भुवणमसेसं परिओस-परं व्व संजायं ॥ ६१ ॥
 तुट्ट-हार-दंतुरिय-घरंगण नच्चिय-चारु-विलास-पणंगण ।
 निम्भर-सइ-भरिय-भुवणंतर वज्जिय-मंगल-तूर-निरंतर ॥ ६२ ॥
 साहिय-दिसा-चउक्को चउ-व्विहोवाय-धरिय-चउ-वन्नो ।
 चउ-वग्ग-सेवण-परो कुमर-नरिंदो कुणइ रज्जं ॥ ६३ ॥

कुमारपालस्य धर्मस्वरूपजिज्ञासा

अह अन्नया वियड्ढे बहुणो बहु-धम्म-सत्थ-नाणड्ढे ।
 विप्पपहाणे हक्कारिज्जण रत्ता भणियमेवं ॥ ६४ ॥
 करि-त्तरय-रह-समिद्धं नरिंद-सिरि-कुसुम-लीढ-पय-वीढं ।
 लंघिय-वसण-सहस्सो संपत्तो जं अहं रज्जं ॥ ६५ ॥
 तं पुव्व-भवे धम्मो सुहेक्क-हेज्ज कओ मए को वि ।

कञ्जस्स दंसणाओ जाणंति हि कारणं निउणा ॥ ६६ ॥
 ता धम्मस्स सख्वं क्वहेहि परिभाविउण सत्थत्थं ।
 जेण तमायरिउणं करेमि मणुयत्तणं सहलं ॥ ६७ ॥
 मणुयत्तणे वि लद्धे कुणंति धम्मं न जे विमूढमणा ।
 ते रोहणं पि पत्ता महग्घरयणं न गिण्हंति ॥ ६८ ॥
 तो बुद्धु-वंमणेहिं निवस्स वेयाइ-सत्थ-पन्नत्तो ।
 पसु-बह-पहाण-जागाइ-लक्खणो अक्खिओ धम्मो ॥ ६९ ॥
 तं सोऊण निवेणं फुरिय-विवेएण च्चितियं चित्ते ।
 अहह दिय-पुंगवेहिं न सोहणो साहिओ धम्मो ॥ ७० ॥
 पंच्चिदिय-जीव-बहो निक्करुण-मणेहिं कीरए जत्थ ।
 जइ सो वि होज्ज धम्मो नत्थि अहम्मो तओ को वि ॥ ७१ ॥
 ता धम्मस्स सख्वं जहद्धियं किं इमे न जाणंति ? ।
 किं वा जाणंता वि हु मं विप्पा विप्पयारंति ॥ ७२ ॥
 इय च्चिताए निइं अलहंतो निसि-भरंमि नरनाहो ।
 नमिउण अमच्चेणं वाहडदेवेण विन्नत्तो ॥ ७३ ॥
 धम्माधम्म-सख्वं नरिंद ! जइ जाणिउं तुमं महसि ।
 खणमेक्कमेगचित्तो निसुणसु जं किं पि जंपेमि ॥ ७४ ॥

श्रीदत्तगुरोः यशोभद्रनृपप्रतिबोधः

आसि भम-रहिओ पुन्नतल्ल-गुरु-गच्छ-दुम-कुसुम-गुच्छो ।
 समय-भयरंद-सारो सिरिदत्तगुरू सुरहि-सालो ॥ ७५ ॥
 सो विहिणा विहरंतो गामागर-नगर-भूसियं वसुहं ।
 वागड-विसय-वयंसे रयणपुरे पुर-चरे पत्तो ॥ ७६ ॥
 तत्थ निवो जसभहो भह-नार्यंदो व्व दाण-लद्ध-जसो ।
 वेरि-करि-दलण-सूरो उन्नय-वंसो विसाल-करो ॥ ७७ ॥
 तम्मि नरिंद-मंदिर-अदूर-वेसंमि गिण्हिउं वसहिं ।
 चंदो व्व तारय-जुओ मुणि-परियरिओ ठिओ एसो ॥ ७८ ॥
 तत्स सुहा-रस-सारणि-सहोयरं धम्म-देसणं सोउं ।
 संवेय-वासिय-मणा के वि पवज्जंति पवज्जं ॥ ७९ ॥
 अत्ते गिहत्थ-धम्मोच्चिआइं वारसवयाइं गिण्हंति ।

मोक्त्र-तरु-वीय-भूयं सम्मत्तं आचरन्ति परे ॥ ८० ॥
 अह अन्नया निसाए सज्झाय-झुणिं मुणीण सोऊण ।
 जसमह-निवो संवेग-परिगओ चितए चित्ते ॥ ८१ ॥
 धन्ना एए मुणिणो काउं जे सब्ब-संग-परिहारं ।
 पर-लोय-मग्गमेकं मुक्क-भवासा पयंपंति ॥ ८२ ॥
 ता एयाण मुणीणं पय-पउम-नमंसणेण अप्पाणं ।
 परिगलिय-पाव-पंकं पहाय-समए करिस्सामि ॥ ८३ ॥
 एवं धम्म-मणोरह-कलिय-मणो पत्थिवो लहइ निदं ।
 मंगल-तूर-रवेणं पडिबुद्धो पच्छिमे जामे ॥ ८४ ॥
 कय-सयल-गोस-किच्चो समत्त-सामंत-मंति-परियरिओ ।
 करि-तुरय-रह-समेओ पत्तो सिरिदत्त-गुरु-पासे ॥ ८५ ॥
 भूमि-निहिउत्तमंगो भत्ति-समग्गो गुरुं पणमिऊण ।
 पुरओ निवो निविट्ठो कयंजली भणिउमाहत्तो ॥ ८६ ॥
 भयवं ! धन्ना तुब्भे संसारासारयं मणे धरिउं ।
 जे चत्त-सब्ब-संगा पर-लोयाराहणं कुणह ॥ ८७ ॥
 अम्हारिसा अहन्ना परलोय-परंमुहा महारंभा ।
 अनियत्त-विसय-तण्हा जे इहभव-मेत्त-पडिबद्धा ॥ ८८ ॥
 अह जंपिउं पवत्तो सिरिदत्तगुरु नहंगणं सयलं ।
 तव-सिरि-मुत्ता-पंतीहिं[॥] दंत-कंतीहिं[॥] धवलंतो ॥ ८९ ॥
 मुह-ससि-पवेस-सुविणोवमाइ दुलहं नरत्तणं लहिउं ।
 खणमेकं पि पमाओ बुहेण धम्मे न कायव्वो ॥ ९० ॥
 रन्ना भणियं, भयवं ! का सा सुविणोवम त्ति ? मे कहसु ।
 गुरुणा भणियं नरवर ! कहेमि जं पुच्छिअं तुमए ॥ ९१ ॥

मूलदेवकथानकम्

अत्थि पुरी उज्जेणी अवंती-विसयावयंस-सारिच्छा ।
 सरकूववावि-पमुहा जलासया न उण जत्थ जणा ॥ ९२ ॥
 तत्थ-त्थि मूलदेवो राय-सुओ पवर-ख्व-लावन्नो ।
 नीसेस-कला-कुसलो विन्नाण-निही गुण-समग्गो ॥ ९३ ॥

सो पादलिपुत्ताओ जूय-पसत्तोऽवमाणो पिडणा ।
 नीहरिओ पुहवीए भममाणो आगओ तत्थ ॥ ९४ ॥
 गुलिया-पओग-निम्मिय-वामण-रूवेण विविह-कुहगेहि ।
 गंधच्चाइ-कलाहि य तेण जणो विम्हयं नीओ ॥ ९५ ॥
 तत्थ-त्थि देवदत्ता गणिया रूवाइ-गुण-गरुय-गच्चा ।
 सा पुरिस्सेण न केण वि रंजिज्जइ सुयमिणं तेण ॥ ९६ ॥
 सो तीए खोहणत्थं गोसे सविहमि विविह-भंगीहिं ।
 बहुमन्न-वेह-मणहरमादत्तो गाइउं गीयं ॥ ९७ ॥
 तं सुणिय देवदत्ता चितइ वाणी अहो असा मन्ना ।
 ता को इमो ? त्ति जाणण-निमित्तमह पेसए चेडी ॥ ९८ ॥
 दडुं तमागया य चेडी विन्नवइ देवदत्ताए ।
 गाएइ वामणो को वि एस देहेण न गुणेहिं ॥ ९९ ॥
 सा तस्साणयणत्थं चेडिं पट्टवइ माहविं खुज्जं ।
 गंतूण मूलदेवं सा जंपइ सामिणी अम्ह ॥ १०० ॥
 विन्नवइ देवदत्ता अणुगगहं कुणह एह अम्ह घरं ।
 तेण भणियं निसिद्धो वेसासंगो विसिद्धाण ॥ १०१ ॥
 खुज्जाए तह एसो पन्नविओ विविह-भणिइ-निउणाए ।
 जह चलिओ तीए सह न हुक्करं किं पि कुसलारणं ॥ १०२ ॥
 विज्जा-कलासु कुसलेण तेण अप्फालिज्जण सा खुज्जा ।
 पवणीकया पहिद्धा तीए नीओ घरं एसो ॥ १०३ ॥
 दिट्ठो य देवदत्ताइ वामणो एस अउच्च-लावणो ।
 विम्हिय-मणाइ तीए तस्स कया उचिय-पडिवत्ती ॥ १०४ ॥
 खुज्जा अणेण पवणीकय त्ति सुणिज्जण विम्हिया बाढं ।
 सा रंजिया य इमिणा महुरालावं कुणंतेण ॥ १०५ ॥

जओ—

अणुणय-कुसलं परिहास-पेसलं लडह-वाणिदुल्ललियं ।
 आलवणं पि हु छेयाण कम्मणं किमिह मूलीहिं ॥ १०६ ॥
 पत्तो वीणागारे तत्थेक्का तेण वाइया वीणा ।
 तो भणइ देवदत्ता भइ ! कला अविकला तुज्जइ ॥ १०७ ॥
 जंपेइ मूलदेवो उज्जेणीए जणो अहो निउणो ।
 सुणइ गुणा-गुण-बुत्तं तो भणियं देवदत्ताए ॥ १०८ ॥

भो किमेत्थ खूणं ? । तेण भणियं—वंसो असुद्धो, सगग्भा य तंती, अप्पह वीणं दंसेमि । समप्पिया वीणा मूलदेवस्स । कड्डिओ तेण वंसाओ कक्करो, तंतीए वालो समारइंऊण वाइया वीणा, कया परवस-मणा स-परियणा देवदत्ता । चित्तियं तीए—अहो पच्छन्न-रूवो विस्सकम्मा, एसो विस्सज्जिओ वीणा-त्रायगो । आगया भोयण-वेला । भणियं देवदत्ताए—वाहरह अंगमइयं, जेण दो वि अम्हे मज्जामो । मूलदेवेण भणियं—अणुमन्नह अहं चेव करोमि तुम्ह अब्भंगणं । तीए भणियं किमेयं पि जाणसि । सो भणह—न जाणामि सम्मं, परं ठिओ जाणग-सयासे । आणीयं चंपग-तेल्लं । आदत्तो सो अब्भंगिउं । विस्सिय-मणाए चित्तितमेयाए अहो असमाणं विन्नाणं, अहो कय-मणुक्करिसो कर-कमल-फरिसो, ता होयव्वं इमिणा केणावि पच्छन्न-रूवेण सिद्ध-पुरिसेणं । तओ पणय-पत्थणा-पुव्वं परंपिओ सो—भो महासत्त ! गुणेहिं विन्नाओ मए तुमं उत्तमपुरिसो त्ति ।

जम्हा—

अभिहाणमभणंतो वि होइ पयडो गुणेहिं सप्पुरिसो ॥

छन्नो वि चंदण-दुमो किं न कहिज्जइ परिमलेणं ।

ता दंसेहि अत्ताणयं, उक्कठियं तुह दंसणस्स मे हिययं । एवं निव्वंधे कए ईसि हसिऊण अबणीया मुहाओ मूलदेवेण गुलिया । जाओ सहावत्थो एसो । मयणं व मणहर-रूव-लावन्न-तारुन्न-पुन्न-देहं तं दद्वुण विस्सिय-मुहीए महा-पसाओ त्ति भणिय तीए अब्भंगिओ सहत्थेहिं । तो कयं मज्जणं दोहिं पि । परिहाविओ सो देवहूसाइं । तेण समं जिमिया महा-विभूर्हए सा । कया कला-वियार-गुट्टी इमेहिं । भणिओ सो तीए—महाभाग ! तुमं विना न अत्तेणं रंजियं मे मणं, तो सच्चमेयं,

नयणेहिं को न दीसह केण समाणं न हुंति उल्लावा ।

जं पुण हिययाणंदं जणेइ तं माणुसं विरलं ॥

ता निच्चमेव मे गिहागमणेण अणुग्गहो कायव्वो । मूलदेवेण भणियं—
गुणरागिणि ! अन्न-देसिएसु निच्चणेसु य अम्हारिसेसु न रेह्माए सिणेहो । तीए
भणियं—विदेसं गया वि गुणिणो गच्छंति गोरवं ।

जओ—

जलहि-विसंघट्टिएण वि निवसिज्जइ हरि-सिरम्मि चंदेण ।

जत्थ गया तत्थ गया गुणिणो सीसेण पुज्झंति ॥

तहा निद्धणत्तं न सिणेहस्स अनिमित्तं ।

जओ—

रत्ताओ तणं रत्ताओ पाणियं रत्ताओ सयं गहणं ।

तहवि मयाण मईण थ आमरणं ताइँ पेम्माइँ ॥

ता पडिवज्ज मे पत्थणं । पडिवज्जं तेण । जाओ तेसिं नेह-निब्भरो
संजोगो । अन्नया रायपुरओ पणच्चिया देवदत्ता, वाइओ मूलदेवेण पडहो,
तुहेण रत्ता दिन्नो तीए वरो । नासीकओ तीए ।

जूय-व्वसण-पसत्तो निच्चं सो निवसणं पि हारेइ ।

अह तीए साणुणयं कोमल-वयणेहिँ वज्जरिओ ॥

नीसेस-दोस-भवणं जूय-पसंगो समग्ग-गुण-निहिणो ।

तुह नाह ! कलंको चिय चंदस्स व हरिण-संबंधो ॥

ता सब्वहा परिच्चय इमं । अहरसेण न सक्कए मूलदेवो परिहरिउं ।
अत्थि य तत्थ सत्थवाहो अयलनामो । सो देवदत्ताए गाढानुरत्तो देइ जं
मग्गियं । वहइ मूलदेवोवरि पओसं, मग्गए छिहाणि । तस्स संकाए अवसरं
विणा मूलदेवो न गच्छइ तीए घरं । भणिया थ देवदत्ता अक्काए । पुत्ति !
परिच्चय मूलदेवं, किं अणेण निद्धणेणं । अयलो पुण महाधणो देइ मणोरहाइ-
रित्तं वित्तं । ता तत्थेव रमसु सब्वप्पणा । न एक्कमि कोसे विसंति दुत्ति ख-
ग्गा, नय अलोणियं सिलं को वि चट्टेइ, ता मुंच जुयारसेयं । तीए भणियं—
नाहं अंब ! एगंतेण घणाणुरागिणी, किंतु गुणाणुरागिणी । अक्काए भणियं—
केरिसा तस्स जूयारस्स गुणा ? तीए भणियं—अम्ब ! केवल-गुणमओ सो ।

जओ—

दक्खो दक्खिन्न-निही सरो चाई पियंवओ धीरो ।

नीसेस-कला-निउण त्ति मूलदेवं न मिल्लिहस्सं ॥

तओ अक्का अणेगेहिँ दिट्ठंतेहिँ पडिबोहेउं पवत्ता ।

अप्पेइ नीब-खण्डं सा तीए मग्गियंमि सिरि-खंडे ।

उच्छंमि सरं सरयंमि वारि मल्लंमि निम्मल्लं ॥

किमिमं ति देवदत्ताइ चोइया तं पर्यंपए अक्का ।

नणु जारिस्सओ जक्खो बली वि किर तारिसो तस्स ॥

किं मूलदेवमो धणं न चयसि कि नाचलं घणसमिद्धं ।

रमसि निविट्ठाणुराया जइ गुणसि गुणागुण-वित्तेसं ॥

देवदत्ताए वुत्तं—अंब ! को सगुणो निग्गुणो व त्ति परिक्वेहि । तओ अक्काए भणिओ अयलो । देवदत्ताए उच्छुइच्छा । तेण उच्छु-भरियं पेसियं सगडं । तीए वुत्तं—किमहं करिणी जं सपत्त-डाला उच्छु पेसिया । इण्हि मूलदेवं मग्गेसु उच्छुं जेण जाणिज्जइ विवेगे तेसिं विसेसो । अक्काए कहावियं मूलदेवस्स उच्छु पेसेहि त्ति । तेणावि गहिगओ लद्धाओ उच्छु-गट्ठीओ निच्छल्लिज्जण कयाओ दु-अंगुल-प्पमाणओ रस-कुंडियाओ गंडियाओ चाउज्जायाव्वगुंडियाओ कप्पूर-पराय-मंडियाओ मूल्ल भिन्नाओ सराव-संपुडे खिविज्जण पेसियाओ ।

दट्ठूण देवदत्ता ताओ वज्जरई पेच्छसे अम्ब ! ।

धुत्ताहिव-अचलाणं सुवन्न-रीरीण व विसेसं ॥

अक्काए चित्तियं—अचंत-मूढा एसा, न मेल्लेइ मूलदेवं । तओ अयलेण सह मंतिओ तन्निग्गमोवाओ । अयलेण भणिया देवदत्ता—अहं गामं गमिस्सामि त्ति । निग्गओ सो । पवेसिओ इमीए मूलदेवो । जाणाविओ जणणीए अयलो आगओ सामग्गीए । दिट्ठो देवदत्ताए । पत्त-करंडो व्व पल्लं-क-हिट्ठा ठाविओ मूलदेवो । लक्खिओ । अयलेण । निविसिज्जण पल्लंके भणिया सा ' करेइ ण्हाण-सामग्गि ' । तीए वुत्तं—एवं, ता उट्ठेइ, नियंसह पुत्तिं, जेण अब्भंगेमि । अयलेण भणियं—

अज्ज सुविणम्मि ण्हाओ पल्लंकत्थो नियत्थ-वत्थोहं ।

तो सच्चमिणं काहं जेण न होज्जा अणत्थ-फलं ॥

तो भणइ देवदत्ता तूली धूली हवैज्ज तणु एसा ।

अयलो जंपइ किं ते किविणत्तं एरिसं सुयणु ! ॥

अयले पइमि अन्नाओ किं न तूलीओ तुज्ज होहिं ति ।

सीएज्ज सो न लवणेण जस्स रयणायरो मित्तो ॥

सा अक्काए वुत्ता पडिवज्जसु पुत्ति ! जं भणइ अचलो ।

तो अब्भंगु-व्वट्ठण-ण्हाणाइं कयाइं पल्लंके ॥

गहियाउहा पविट्ठा पुरिसा अक्काइ संनिओ अयलो ।

खलि-सलिल-भरिय-गत्तं धुत्तं हेट्ठाओ कट्ठेइ ॥

गहिडं केसेसु इमो भणिओ नयपंडिओ ऽसि मे कहसु ।

को होइ निग्गहो ते इमस्स कम्मस्स अणुरूवो ॥

धण-विवसाओ वेसाओ हुंति ता जइ इमीए तुह कज्जं ।

ता गाम-पट्ठयं पिव गिण्हेसि न किं बह्व-धणेण ॥

धुत्तवई वि न विक्कम-कालो एसो त्ति चित्तिवं जाओ ।
 दीवि व्व विहल-फालो निप्फंदो मउलिअच्छिपुडो ॥
 एसो महाणुभावो दिव्व-वसा एरिसं दसं पत्तो ।
 न वहारिहो त्ति परिभाविऊण अयलेण सो मुक्को ॥
 भणिओ य विहि-वसेणं वसणं पत्तो अहं पि मुत्तव्वो ।
 तुमए एवं जम्हा लोयंमि न दुल्लहं वसणं ॥
 एसो य समर-भग्गो गउ व्व गेहाओ निग्गओ सिग्घं ।
 गंतुं पुरी-परिसरे सरंमि निम्मल-जले ण्हाओ ॥
 “ माणि पणइइ जइ न तणु तो देसडा चइज्ज ।
 मा दुज्जण-कर-पल्लविहि दंसिज्जंतु भमिज्ज ॥ ”
 इय चित्तंतो चलिओ नयरे विन्नायडंमि वचंचंतो ।
 पत्तो कमेण अडवि सो वारस-जोयणायामं ॥

तं लंघियकामो वायासहिज्जं दुइज्जं वि मग्गन्तो जाव चिट्ठइ ताव झत्ति
 भागओ गयणाओ व्व पडिओ संबल-थइया-सणाहो टक्को वंभणो । भणिओ
 इमिणा-भट्ट ! के दूरं गंतव्वं ? । तेण वुत्तं—अडवीए पुरओ वीरनिहाणं नाम
 ट्ठाणं, तं गमिस्सामि । तुमं पुण कत्थ पत्थिओ ? । धुत्तेण वुत्तं—विन्नायडं ।
 भट्टेण भणियं—ता एह गच्छामो । पयट्ठ दो वि गंतुं । मज्झण्ह-समए सरोवरं
 दट्ठूण टक्केण भणियं—भो एत्थ वीसमामो खणं ति । गया तत्थ, घोया हत्थ-
 पाया । गओ मूलदेवो तरुतलं । टक्केण संबल-थइयाओ गहिया सत्तुगा । जलेण
 उल्लिऊण रंको व्व एकलओ भक्खिउं पवत्तो । धुत्तेण चित्तियं—छुहा-पहाणा
 हुंति वंभणा अओ मे पच्छा दाही । भट्टो भुत्तूण बद्ध-थइया-मुहो प-
 त्थिओ । कल्लं क्कहि त्ति चित्तंतो धुत्तो वि चलिओ ।

वीय-दिवसे वि भुत्तो तहेव सो इइ दिण-त्तरं गमिअं ।

धुत्तेण तयासाए, आसा खलु रक्खए जीयं ॥ १ ॥

अडवी-निग्गएणं भणियं भट्टेण, एसो मे मग्गो तुज्झ पुण इमो, ता वच्च तुमं ।
 मूलदेवेण वुत्तं—तुह साहजेण लंघिया मए अडवी, अहं खु मूलदेवो नाम,
 जइ कयाइ किं पि कज्जं होइ ता आगच्छिज्ज विन्नायडे । किं च ते नाम ? । टक्केण
 वुत्तं—सद्धओ त्ति एकं, जणकथं निग्घण-सम्मो त्ति वीयं । पत्थिया दो वि
 निय-निय-मग्गेहिं । वचंचंतो मूलदेवो पत्तो गाममेक्कं । पविट्ठो तत्थ भिक्खत्थं ।

लद्धा कुम्भासा । निगच्छतेण तेण दिट्ठो तिब्ब-तव-सुसिय-गतो महा-सत्तो
मासक्खमण-पारणत्थं तत्थ पविसभाणो समणो ॥

तं दट्ठं सो चित्तइ जाओ पुण्णोदओ अहो मज्झ ।

भव-जलहि-जाणवत्तं पत्तमिणं जं मए पत्तं ॥ १ ॥

ता दाउं कुम्भासे एयस्स करेमि जीवियं सहलं ।

तत्तो दिन्ना सुणिणो कुम्भासा हुंति तेण पढियं च ॥ २ ॥

धन्नाणं खु नराणं कुम्भासा साहुपारणए ।

एत्थंतरम्मि तव्वत्ति-रंजिया देवया भणइ गयणे ॥ ३ ॥

ओ मूलदेव पुत्तय ! सुंदरमणुचिट्ठियं इमं तुमए ।

तत्तो मगगसु गाहाइ पच्छिमद्वेण रुच्चए जं भे ॥ ४ ॥

हरिस-परव्वस-हियएण जंपियं मूलदेवेण ।

मह देहि देवदत्तं दंतिसहस्सं च रज्जं च ॥ ५ ॥

एवं होहि त्ति भणेइ देवया तो सुणिं नमइ धुत्तो ।

गामंमि मग्गिउं सो पुणो वि भिक्खं सयं मुंजे ॥ ६ ॥

पत्तो कमेण विन्नायडंमि रयणीए पहियसालाए ।

सुत्तो धुत्तो पेच्छइ पच्छिम-जामे सुविणमेयं ॥ ७ ॥

मह पडिपुत्तो चंदो मुहे पविट्ठो त्ति अह तहिं को वि ।

कप्पडिओ एयं चिय सुविणं दट्ठूण जग्गेइ ॥ ८ ॥

अत्तेसिं कप्पडियाण कहइ एक्केण तत्थ वागरियं ।

लहिहिसि तुमं अखंडं सखंड-घयमंडगं अज्ज ॥ ९ ॥

तं सोउं कप्पडिओ एवं होउ त्ति जंपए तुट्ठो ।

वयरहिं पि सियालस्स ऊसवो जायए जम्हा ॥ १० ॥

तेसिं विवेग-वज्जिय-मणाण धुत्ताण भक्खणं सुविणं ।

रयणं पि दंसियं खलु भणंति मुक्खा उवल-खण्डं ॥ ११ ॥

कप्पडिएण जहुत्तो घरछाइणियाइ मंडओ लद्धो ।

पाएण जओ सुविणो फलइ वियाराणुसारेण ॥ १२ ॥

मूलदेवो गोसे गओ आरामं । तोसिओ तत्थ कुसुमुच्चय-साहिज्जेण मालागा-
रो । दिन्नाइं तेण पुप्फफलाइं । ताइं धेत्तूण सुईभूओ गओ सुविण-सत्थ-पाढगस्स
गेहं । पुप्फ-फल-समप्पण-पुव्वं पणमिऊण तं पुच्छए सुविणत्थं । उवज्जाओ सह-
रिसो भणइ-सुमुहुत्ते कहिस्सामि सुविण-फलं । अज्ज ताव अतिही होसु अम्हाणां

पहविऊण भुंजाविऊण य सगोरवं परिणाविओ निय-कन्नं मूलदेवो उचज्झाएण ।
सत्त-दिण-मज्झे तुमं राया होहिसि त्ति सिट्ठो तस्स सुविणात्थो । लड्ड-[हिट्ठ]मणो
मूलदेवो तत्थ वसमाणो गओ पंचम-दिणे नयर-वाहि, पसुत्तो य चंपय-तले ।
तया य तत्थ पत्थिवो अपुत्तो पत्तो पंचत्तं । अहिवासियाणि पंच दिव्वाणि, भ-
मिऊण मग्गे [ज्झे] नयरीए निग्गयाणि वाहिं, पत्ताणि मूलदेव-पासं । अपरिच-
त्तमाण-त्तरुच्छायाए हेट्ठओ तं दट्ठण गज्जिअं गएण । हेसियं हएण । भिगारेण
कओ अग्घो । चामरेहिं वीहओ एसो । ठियं सिरोवरि सियायवत्तं, आरोविओ
सो खंधि सिंधुरेणं । विविह-तूर-रवाऊरिय-दियंतरो पविट्ठो नयरं । अहिसित्तो
मंति-सामंतेहिं । भणियं गयण-यल-गयाए देवयाए-भो एस असेस-कला-पार-
ओ पयंड-विक्रमो विक्रमराओ नाम राया, ता एयस्स सासणे जो न वट्टिस्सइ तं
निग्गहिस्सामि त्ति । तओ सव्वे सामंताइणो आणा-परा जाया । सो उदारं
रज्ज-सुहं अणुहवंतो चिट्ठइ । जाया तस्स उज्जेणिसामिणा जियसत्तुणा सह
परोप्पर-पाहुड-पेसणेण पीई । इओ य देवदत्ता तारिसं विडंढणं दट्ठण विरत्ता
य अयलोवरि । निम्मच्छिओ तीए अयलो, भो दव्व-दप्पंध ! कि ते अहं कुल-
घरिणी जमेवं मे गिहे ववहरसि, ता मज्झ गेहे अओ परं नागंतव्वं ति भ-
णिऊण गधा रत्तो पासं । नमिऊण विन्नत्तो राया-देव ! देहि मे वरं । रत्ता
वुत्तं—मग्गसु जहिच्छं, जेण तं पयच्छामि । तीए बुत्तं—मूलदेवं विणा न
अन्नो पुरिसो आणवेयव्वो, एसो य अयलो मम घरं आगच्छंतो निवारियव्वो ।
रत्ता बुत्तं—एवं, परं कहेहि को एत्थ हेऊ । तओ कहिओ माहवीए । रुट्ठेण
रत्ता हक्कारिऊण भणिओ अयलो । भो ! मम नयरीए एयाइं दुज्जि रयणाइं, ताइं
तुमं खलीकरेसि, ता पाण-विणासं विणा नत्थि ते दंडो । देवदत्ताए निवारिओ ।
रत्ता बुत्तं—इमीए वयणेण मुक्को तुमं, किंतु तं आणिऊण एत्थ वसिज्जसु ।
तओ नमिऊण रायाणं निग्गओ अयलो । नट्ट-रयणं व सव्वत्थ तं गवेसिदं
पवत्तो, तहावि न लड्डो म्पो । तओ तीए चेव ऊणिमाए भरिऊण भंडस्स
वहणाइं गओ पारस-कुलं ।

अह मूलदेव-राओ चिंतइ मह भोयणं अलवणं व ।

न कुणइ हरिसं रज्जं पि वज्जियं देवदत्ताए ॥

तओ तेण पहाण-पाहुड-परिगओ पेसिओ दूओ, गओ सो उज्जेणीए,
विन्नत्तो तेण राया—देव ! देवया-दिन्न-रज्जो देवदत्ताणुरत्तो मूलदेवो जंपइ “जइ
इमीए तुमं च रुद्धए ता पेसिज्जए एस” त्ति । रत्ता बुत्तं—कित्थियमिणं मग्गियं

मूलदेवेण । जओ मम तस्स य रज्जे वि नत्थि भेओ । तओ हक्कारिआ देवदत्ता ।
कहिऊण वुत्तंतं भणिया सा । पुन्ना ते मणोरहा, तो गच्छ तत्थ तुमं । तीए
वुत्तं—महा-पसाओ त्ति । रत्ता संपूइऊण पेसिया सा पत्ता विचायडं ।

तो हरिस-निवभरेणं विक्कमराएण गुरु-विभूईए ।
निय-हिययम्मि व विउले भवणंमि पवेसिया एसा ॥
जणिय-जिण-पडिम-पूओ नएण सो रज्ज-पालणुज्जुत्तो ।
परिमुत्त-देवदत्तो तिवग्ग-लग्गो गमइ कालं ॥
अह पारस-कूलाओ विढविअ-द्ववो समागओ तत्थ ।
अयलो पहाण-पाहुड-हत्थो पत्तो निवं दहुं ॥
उवलक्खिओ निवेणं सो तेण उ नोवलक्खिओ राया ।
रत्ता वुत्तं कत्तो तुमं ति अयलेण विन्नत्तं ॥
पारस-कूलाओ समागओ म्हि पड्वह कं पि जो भंडं ।
मज्झ निरुवइ रत्ता वुत्तं सयमागमिस्सामि ॥
तो पंच-उल-समेओ अयलावासंमि पत्थिवो पत्तो ।
दंसियमिसेण भंडं मंजिद्दा-पट्ट-सुत्ताई ॥
भंडं किमित्थियं चिय कहेसु सच्चं ति जंपए राया ।
अयलो भासइ देवस्स किं पुरो वुच्चए अलियं ॥
तो रत्ता वज्जरियं इयस्स खेट्ठिस्स सच्चवाहरस ।
कारेह अद्ध-दाणं सम्मं भंडं च जोएह ॥
तो वंसवेह-पायप्पहार-भारेहिं पंच-उलिएहिं ।
मुणियं महग्गभंडं मंजिद्दाईण मज्झ-गयं ॥
भिन्नाई भंडठाणाई राय-पुरिसेहिं तेसु वरभंडं ।
तं दहुं रुद्धेणं रत्ता वंधाविओ अयलो ॥
नेयाविऊण गेहं छोट्टिय-बंधो पयंपिओ रत्ता ।
जाणसि मं भणइ इमो को न मुणइ दिणयरं व तुमं ॥

रत्ता वुत्तं अलं उवचार-वयणेहिं, फुडं साहसु जइ जाणसि । अयलेण
भणियं—देव न जाणामि सम्मं । रत्ता वाहराविद्या देवदत्ता । आगया वरच्छर
व्व सव्वंग-भूसण-धरा । तं दट्टण लज्जिओ अयलो । भणिओ देवदत्ताए—भो
एस सो मूलदेवो, जो तुमए तथा वुत्तो, अहं पि तुमए वसण-पत्तो मोत्तव्वो त्ति
सुक्को य साणुक्कोसेण देवेण सरीर-संदेह-कारण-वसणं पत्तो तुमं । तओ विल-

क्व-चित्तेण तेण पणमिऊण विन्नत्तं—खमसु मे सव्वावराहं, तेणावराहेण रूढो जिअसत्तू न देइ उल्लेणीए मे पवेसं, तुम्ह वयणेण दाही । रत्ता भणियं—खमियं चेव मए, जस्स तुह देवीए कओ पसाओ । तओ संमाणिऊण दूय-सहिओ सो पेसिओ उल्लेणि ।

खमिउं अवराहं मूलदेव-वयणेहिं तस्स जियसत्तू ।
 देइ पुरीइ पवेसं तम्मूलो जेण से कोवो ॥
 अह मूलदेव-रज्जं सोउं सो सद्धडो तहि पत्तो ।
 रत्ता दिन्नो सो चिय अदिट्ठ-सेवाए से गामो ॥
 अह कप्पडिओ केण वि भणिओ जह जारिसो तए दिट्ठो ।
 सुविणो तारिसओ चिय दिट्ठो केणावि अत्रेण ॥
 नवरं आएस-फलेणं सो सउणो नराहिवो जाओ ।
 पुन्न-रहिओ तुमं पुण भमडसि भिक्खं तह च्वेव ॥
 कप्पडिओ सुविणत्थी पुण पुण भोत्तूण गोरसं सुत्तो ।
 अवि सो लहिज्ज सुविणं तहवि नरत्तं पुणवि टुलहं ॥

यशोभद्रनृपवैराग्योत्पत्तिः ।

इय धम्म-देसणा-भय-रसेण सेत्तमि भूमिणाहस्स ।
 हिययम्मि सञ्जुल्लसिओ जिणिंद-धम्माणुराय-डुमो ॥
 भणियं निवेण भयवं ! कहियमिणं उध्य-भव-हियं तुमए ।
 अन्नो पिओ वि सव्वो जंपइ इहभव-हियं चेव ॥
 ता समयम्मि वि सुत्तुं तणं व रज्जं विवेय-गिरि-वज्जं ।
 पडिवज्जिऊण धम्मं सहलं काहं मणुय-जम्मं ॥
 ता वंदिउं सुणिंदं निय-मंदिरमागओ महीनाहो ।
 धम्मोवएस-विसरं सुमरंतो गमइ दियहाइं ॥
 अह पावसो पयट्ठो संपाडिय-पहिय-हियय-संघट्ठो ।
 समरट्ठ-मारनट्ठो कयंवं-संदट्ठ-अलिवट्ठो ॥
 जत्थ विरहग्गि-डज्जंत-विरहिणी-हियय-लद्ध-पसरेण ।
 धूम-भरेण घण-मंडलेण मलिणी-कयं गगणं ॥
 नवमेह-पिययमेणं समप्पियं जत्थ तडि-लया-लोयं ।
 कणयमयाभरणं पिव पयडंति दिसा-पुरंघीओ ॥
 नव-पाउस-नरवह-रज्ज-घोसणा-डिडिमो व्व सव्वत्थ ।

जग्गविय विसम-बाणो वियंभिओ मेह-गज्जिरवो ॥
 निवडंति माणिणी-माण-खंडणे विलसमाण-सत्तीओ ।
 जस्सि जल-धाराओ अणंग-सर-धोरणीळ व्व ॥
 तस्सि चरि(?) खित्तेसु नरवइणा वावियाइं वघ्नाइं ।
 तेस्सि दंसण-हेउं कयावि राया विणिक्खंतो ॥
 तम्मि समए करिसगेहिँ धम्मज्झाओँ पुच्चसुवखणिउं ।
 पुंजी-कएसु निप्फल-तणेसु पज्जालिओ जलणो ॥
 तत्थ जलणेण डड्ढंत-विग्गहं गवभ-निवभरं भुयगिं ।
 दंहुं संविग्गेणं रत्ता परिभावियं एयं ॥
 अहह इमो घरवासो परिहरणिज्जो विवेयवंताणं ।
 बह्व-जीव-विणास-करा आरंभा जत्थ कीरंति ॥

तहा—

पावाइँ दोगच्च-निबंधणाइं भोगत्थिणो जस्स कए कुणंति ।
 अभिक्खणं तं पि असारमंगं रोगा विलुंपंति घुण व्व कट्टं ॥
 विमोहिया जेण जणा मणंमि हियाहियं कं पि न चिंतयंति ।
 तं जोव्वणं झत्ति जराकराला दवग्गि-जाल व्व वणं दहेइ ॥
 रसायणाईणि कुणंति जस्स थिरत्तणं काउमणा मणुस्सा ।
 मयं व वघ्णेण गसिज्जमाणं तं मच्चुणा रक्खइ जीवियं को ॥
 जीए कए भूरि-किलेस-जालं कुणंति मिल्हंति तणं व पाणे ।
 पणस्स एसा सहसा पर्यंड-वाया-हय-दीव-सिहि व्व लच्छी ॥
 जेणावलित्तो विसइक्क-चित्तो परित्थि-संगं पि करेइ मूढो ।
 खणेण तक्खिज्जइ घाउ खोहे हिमागमे पंकरुहं व जीव ॥
 किलिस्सए जस्स कए कुणंगे विचित्त चाट्टुणि परस्स जीवो ।
 लहूण थेवं पि विलीय वणिह विलिज्जए तं मयणं व पेम्मं ॥
 किच्चं अकिच्चं च न जंमि पत्ते पलोयए पीय-सुरो व्व जीवो ।
 पहुत्तणं तुट्टइ तं पणट्टे पुत्ते घणे सेलनई-रख व्व ॥
 एयत्थ रुक्खे व्व कुडुंब-वासे कालं कियंतं पि खणु व्व बंधू ।
 ठाऊण वच्चंति चउ-ग्गइसुं चउ-दिसासुं च स-कम्म-बद्धा ॥
 एवं अणिच्चं सयलं पि वत्थुं वियाणमाणस्स दुहेक्क-गेहे ।
 गेहे पलित्ते व्व भवंमि मज्झे जुत्तो पमाओ न खणं पि काळं ॥

एवं संविग्ग-मणो राया निय-मंदिरम्मि संपत्तो ।
 हक्कारिऊण पुच्छइ एगंते सावयं एगं ॥
 संपइ सिरि-दत्तगुरु गुणवंतो कत्थ विहरइ पएसे ।
 सो कहइ डिंडुयाणयपुरंभि मुणिपुंगवो अत्थि ॥
 तो राया रयणीए कस्स वि अनिवेइऊण निक्खंतो ।
 तुरयंमि समारुहिऊण डिंडुयाणयपुरे पत्तो ॥
 सिरिदत्तगुरुं नमिऊण तस्स कहिऊण नियय-वुत्तंतं ।
 जंपइ संपइ काउं अणुग्गहं देहि मह् दिक्खं ॥
 गुरुणा वुत्तं जुत्तं उत्तम-सत्तस्स तुज्झ नर-नाह ।
 रज्जं तणं व मुत्तुं करेसि जं संजम-ग्गहणं ॥
 नहि संजमाउ अन्नो संसारुच्छेय-कारणं अत्थि ।
 नव-जलहरं विणा किं निव्वडइ दवानलं को वि ॥
 रत्ता अणप्पमुल्लं एक्कं एक्कावलं समप्पेउं ।
 जिणाधम्म-निम्मल-मणा पर्यंपिआ सावया एवं ॥
 कारवह् जिणाययणं इमीए एक्कावलीइ मुल्लेण ।
 तेहि वि तह् ति पडिवज्जिऊण तं झत्ति कारवियं ॥
 तं अत्थि तत्थ अज्ज वि चउवीस-जिणालयं जिणाययणं ।
 पुत्तं व मुत्तिमंतं जसभइ-निवस्स जं सहइ ॥
 रत्ता पुण पडिवत्ता सिरि-दत्तगुरुस्स चलण-मूलम्मि ।
 अंतर-रिउ-वह-दक्खा दिक्खा निसियाऽसि-धार व्व ॥
 एगंतरोववासे जा जीवं अंबिलं च पारणए ।
 काहं ति तेण विहिया वय-गहण-दिणे चिय पइत्ता ॥
 सुय-सागर-पारगओ सूरि-पर्यं पाविऊण जसभइो ।
 सुवणे चिरं विहरिओ पडिबोहंतो भविय-वग्गं ॥
 ससमय-परसमय-विऊ समए तेणावि निय-पए ठविओ ।
 निज्जिय-पज्जुन्न-भइो पज्जुन्नो नाम वर-सूरि ॥
 अह् जसभइो सूरि तिव्व-तवच्चरण-सोसिय-सरीरो ।
 निय-परिवार-समेओ आरुढो उज्जयंत-गिरिं ॥
 रेवयगिरिंद-भउहं व सुकय-लच्छी-विलास-कमलं व ।
 भव-जलहि-जाणवत्तं व जिण-हरं गणहरो पत्तो ॥

नभिरुज्ज नैमिनातं पमञ्जितं निवमिज्जण तरुम पुरो ।
 पञ्चुल्लसुरि-पमुतं निय-परिचारं भणह पयं ॥
 राग-दोम-विमुक्तो चिर-मेत्रिय-नाण-दंस्वण-परिचां ।
 निचरय-नपण तित्थं अप्पणिय चुत्त जह वि ॥
 तह वि हृ चयहार-नयेण जो पणसो पणह-पायाण ।
 गित्थंकराण पण्णिं करिस्सिओ सो परं तित्थं ॥
 हह दिग्गा-परिचर्यां नागुप्पणी विमुत्ति-संपणी ।
 नैमित्तं जेण जाया तेणसो तित्थमुत्तिस्सो ॥
 अत्तथ वि मेत्तिम्मं निम्संहें दुत्तावां हेतं ।
 ततो परं पसन्थे तित्थे इत्थे वि मेत्तिमि ॥
 इय भणियं पदात्तह जिण-पसम्मं पउज्जिहापरं ।
 पारंत्तन्म वि पञ्चुल्लसुरिणो मपरिचारम्म ॥
 पउमात्तणो-वधिहो परिचल-भमल-गल-परिकम्मो ।
 मिरि-नैमिनाह-परिमा-मुत्तपंकय-निहित-नयण-मुत्तो ॥
 मत्तन्थ वि राग-दोम-परिओं परम-मत्त-त्तण-भणो ।
 मुणिरुग्गव-मुणियागम-नयण-मत्तुत्तिय-पंणेणो ॥
 पुत्त-महाविमि-मग्गो वृत्त-सम्मं वि नेचिओ मम्मं ।
 नेग्ग-दिणा-पसाणे पत्तो नियत्तात्तयं मूरी ॥
 ततो पञ्चुल्लगुरु वियरंतो मग्ग-संघ-परिओत्तं ।
 सुत्त-न्ध-यय-उण-परो परापयारं चिरं कुणह ॥
 मत्त-सुहो सुह-सुहओ याह-जंतो मसग्ग-त्तोण ।
 टाणय-पसरण-त्तो जसत्त वि पुरह जस-पत्तो ॥
 तस्स गुणवेणारि सोसो घर-संजमुत्तओ जाओ ।
 जस्स गुणक्षिय पाणा अंतरदिउ-यग्ग निग्गहणे ॥
 मीसो पम-ग्ग-त्तग्गो तमसासी हेयचंदस्सरि त्ति ।
 चंदेण य दिय-राण जेण आणंदियं भुवणं ॥
 कय-सुकय-कुमुय-चोता चउर-चउर-प्पसांय-संजणणी ।
 संनिजिण-चरित्त-रुहा जुणह न्ध विरंभिआ जत्तो ॥
 जे टाणपसु ठविया पञ्चुल्ल-मुणात्तरेण धम्म-दुमा ।
 काउण ताण चिवहं ते जेण लत्ताविओ चुत्ति ॥

जस्स चलणारविंदं चरित्त-लच्छी-विलास-वासहरं ।
मुणि-भमरेहिं अमुक्कं जिणमय-मयरंद-ल्लुद्धेहिं ॥
सो विहरंतो मही-मंडलस्मि खंडिय-पर्यंड-भावरिज्ज ।
सयल-भुवणे-क्क-बंधू धंभुक्कयं पुरचरे पत्तो ॥
सो तत्थ पणमण-त्थं समागयाणं जणाण पउराणं ।
संसारा-सारत्तण-पयासणिं देसणं कुणह् ॥
तं सोडं संविग्गो सररीर-सुंदेर-विजिय-सुरकुमरो ।
एक्को वणिय-कुमारो कयंजली भणित्तमाहत्तो ॥
भयवं ! भवणवाओ जस्म-जरा-मरण-लहरि-हीरंतं ।
मं नित्थारसु सुचारित्त-जाणवत्त-पयाणेण ॥
गुरुणा वुत्तं वालय ! किं नामो कस्स वा सुओ तंसि ।
तो तस्स माउलेणं पर्यपिअं नेमिनामेण ॥
भयवं ! इह-त्थि हत्थि व्व मोढकुल-विंझ-संभवो भद्दो ।
कय-देव-गुरु-जणओ चओ नामा पहाण-वणी ॥
निम्मल-कुल-संभूया भूरि-गुणाभरण-भूसिय-सररीरा ।
तस्स-त्थि गेहिणी चाहिणि त्ति सा होइ मह बहिणी ॥
जीए विमलं सीलं दहु लज्जाए चंदमा निच्चं ।
चरम-जलहिम्मि मज्झइ कलंक-पक्खालणत्थं व ॥
ताणं तणओ एसो निरुवम-रूचो पगिट्ठ-मह-विहवो ।
भुवण-द्धरण-मणोहर-चिचहओ चंगदेवो त्ति ॥
गवभा-वयार-समए इमस्स जणणीए सुविणए दिट्ठो ।
निय-गेहे सहयारो समुग्गओ बुद्धिमणुपत्तो ॥
जा पुप्फ-फला-रंभो तत्तो सुत्तूण मंदिरं मज्झ ।
अन्नत्थ महारामे मणाभिरामे इमो पत्तो ॥
छायाए पल्लवेहिं कुसुमेहिं फलेहिं तत्थ पवरेहिं ।
बहुय-जणाणं एसो उवयारं काउमाहत्तो ॥
गवभगए वि इमिस्सि इह देसे नट्टमसिव-नामं पि ।
तह अणभिल्लो जाओ लोओ दुब्बिमक्ख-दुक्खस्स ॥
परचक्क-चरड-चोराह-विइवा दूरभुवगया सव्वे ।
न फुरंति घूय-पमुहा मेह-च्छे वि दिणनाहे ॥

इय तस्स जम्म-दियहे जायाइं दिसा-सुहाइं विमलाइं ।
 देव-गुरू-वंदणेण धम्मत्थीणं मणाइं व ॥
 हरिस-जणाणो जणाणं सुयणो व्व समीरणो समुल्लसिओ ।
 रय-पसमणं निवडियं गुरूण वयणं व गंधजलं ॥
 भवणम्मि कुसुम-बुट्ठी सुसामि-तुट्ठी व्व सेवए जाया ।
 कव्व-गुणो व्व सहियए फुरिओ गयणंमि तूर-रवो ॥
 एसो परिओस-करो बालत्तणओ वि अमय-घडिओ व्व ।
 रयणं व कराओ करं संचरिओ सयल-लोयस्स ॥
 संपइ इमस्स चित्तं न रमइ अन्नत्थ वज्जिडं धम्मं ।
 माणस-सरंमि सुतुं हंसस्स व पल्ल-जलेसु ॥
 गुरूणा वुत्तं जुत्तं जं कुणइ इमो चरित्त-पडिवत्तिं ।
 जेण सो परमत्थो जणणी-दिट्ठस्स सुविणस्स ॥
 गहिऊण वयं अयगाहिऊण नीसेस-सत्थ-परमत्थं ।
 तित्थकरो व्व एसो जणस्स उवयारओ होही ॥
 तत्तो इमस्स जणयं चच्चं नामेण भणह तो तुब्भे ।
 जह चंगदेवमेयं वय-गहणत्थं विसज्जेइ ॥
 सो बहु-सिणेह-जुत्तो बहुं पि भणिओ विसज्जइ न पुत्तं ।
 तत्तो पुत्तो वि दढं कउज्जमो संजम-गहणे ॥
 माउलय-अणुमयं गिण्हऊण ठाणंतरम्मि संचलिओ ।
 गुण-गुरूणा सह गुरूणा संपत्तो खंभतित्थम्मि ॥
 तत्थ पवन्नो दिक्खं कुणमाणो सयल-संघ-परिओसं ।
 सो सोम-मुहो सोमो व्व सोमचंदो त्ति कयनामो ॥
 थेवेण वि कालेण काऊण तवं जिणागमुद्धिं ।
 गंभीरस्स वि सुय-सागरस्स पारंगओ एसो ॥
 दूसम-समय-असंभव-गुणोह-कलिओ विभाविडं हियए ।
 सिरिदेवचंद-गुरूणा एसो गणहर-पए ठविओ ॥
 हेम-समच्छवि-देहो चंदो व्व जणाण जणिय-आणंदो ।
 तत्तो इमो पसिद्धो नामेणं हेमचंदो त्ति ॥
 निचं सहाव-उच्चिय-समग्ग-लोओवयार कय-चित्तो ।
 सो देवयाइ वुत्तो विहरंतो विविह-देसेसु ॥

शुद्धर-विसयं मुत्तुं मा कुणसु विहारमन्न-देसेसु ।
 काहिसि परोवयारं जेणित्थ ठिओ तुमं गरुयं ॥
 तो तीए वयणेणं देसंतर-विहरणाउ विणियत्तो ।
 चिट्ठइ इहेव एसो पडिबोहंतो भविय-वग्गं ॥
 बुह-यण-चूडाभणिणो भुवण-पसिद्धस्स सिद्धरायस्स ।
 संसय-पएसु सव्वेसु पुच्छणिज्जो इमो जाओ ॥
 एअस्स देसणं निसुणिऊण मिच्छत्त-मोहिय-मई ।
 विजयसिंहो निवो जाओ जिणिंद-धम्माणुरत्त-मणो ॥
 तत्तो तेणित्थ पुरे राय-विहारो कराविओ रम्मो ।
 चउ-जिणपडिम-समिद्धो सिद्धविहारो य सिद्धिपुरे ॥
 जयसिंहदेव-वयणा निम्मियं सिद्धहेम-वागरणं ।
 नीसेस-सद्-लक्खण-निहाणमिभिणा मुणिंदेण ॥
 अमओ-वमेय-वाणी-विसालमेयं अ पिच्छमाणस्स ।
 आसि खणं पि न तित्ती चित्ते जयसिंहदेवस्स ॥
 तो जइ तुमं पि वंछसि धम्म-सरूवं जहट्ठियं नाउं ।
 तो मुणिपुंगव-मेयं पुच्छसु होऊण भत्ति-परो ॥
 इय सम्मं धम्म-सरूवं-साहगो साहिओ अमचेणं ।
 तो हेमचंदसूरिं कुमर-नरिंदो नमइ निचं ॥
 सम्मं धम्म-सरूवं तस्स समीवंमि पुच्छए राया ।
 मुणिय-सयलागमत्थो मुणि-नाहो जंपए एवं ॥

हेमचन्द्रसूरेः कुमारपालं प्रति सहोद्यः ।

भव-सिधु-तरी-तुल्लं महल्ल-कल्लाण-वलि-जलकुल्लं ।
 कय-सयल-सुह-समुदयं जीवदयं चिय मुणसु धम्मं ॥
 आउं दीहमरोगमंगमसमं रूवं पगिट्ठं बलं,
 सोहग्गं ति जशुत्तमं निरूवमो भोगो जसो निम्मलो ।
 आएसेक्क-परायणो परियणो लच्छी अविच्छेइणी,
 होज्जा तस्स भवंतरे कुणइ जो जीवाणुकंपं नरो ॥
 नरयपुर-सरल-सरणी अवाय-संघाय-वग्घ-वण-धरणी ।
 नीसेस-दुक्ख-जणणी हीसा जीवाण सुह-हणणी ॥

जो कुण्ड परस्स दुहं पावइ तं चैव अणंतगुणं ।
 लभंति अंबयाइं नहि निंबतरंमि ववियंमि ॥
 जो जीव-वहं काउं करेइ खण-मित्तमत्तणो तित्तिं ।
 छेयण-भेयण-पसुहं नरय-दुहं सो चिरं लहइ ॥
 जं दोहग्गमुदग्गं जं जण-लोयण-दुहावहं रूवं ।
 जं अरस-मूल-खय-खास-सास-कुट्टाइणो रोगा ॥
 जं कण्ण-नास-कर-चलण-कत्तणं जं च जीवियं तुच्छं ।
 तं पुव्वारोविय-जीव-दुक्ख-रुक्खस्स फुरइ फलं ॥
 जो जीव-दयं जीवो नर-सुर-सिव-सोक्ख-कारणं कुणइ ।
 सो गय-पावो पावेइ अमरसीहो व्व कल्लाणं ॥

अमरसिंह-कथानकम् ।

तथाहि—

जंबूद्वीवे भरहे दाहिण-भायस्स मज्झिमे खंडे ।
 अमर-नयरं व रम्मं अमरपुरं अत्थि वर-नयरं ॥
 नवरं अणेग-संखं सई-सहस्सेहि पत्तमाहप्पं ।
 भूरि-जयंत-कुमारं फुरंत-हरि-लक्ख-कय-सोहं ॥

तत्थ सुग्गीवो राया ।

जस्स करे करवालो छज्जइ ताविच्छ-गुच्छ-सच्छाओ ।
 समरम्मि ह्दायट्ठिय-जयलच्छी-वेणीदंडो व्व ॥
 तस्स सयलंतैउर-तिलय-तुल्लाओ दुन्नि देवीओ ।
 कमला विमला य, कथाइ कमलादेवीए पाउब्भूवो गब्भो ।

तप्पभावेण जाया समर-मारिज्जमाण-जण-दंसाणिच्छा । तिवग्ग-खग्गभि-
 ज्जंत-भड-संकडं अंक-जुद्धं पयडिऊण पूरिया सा रत्ता । पुणो वि समुप्पन्नं मिग-
 यावलोयण-कोउयं । विविह-पहरण-हणिज्जंत-मिग-गणं मिगया-विणोयं काऊण
 तं पि संपाडियं । कमेण पसूया देवी । जाओ दारओ । कारियं रत्ता वद्धावणयं,
 कयं दोहलाणुसारओ 'समरसीहो' त्ति नामं । विमलादेवी वि संपत्ता आवन्न-
 सत्ता । तप्पभावेण जाओ परेहिं मारिज्जंतं जंतु-गणं रक्खेमि त्ति दोहलो ।
 सव्वत्थ अमारि-पडह-दाण-पुव्व-पूरिओ सो वि रत्ता । एसा वि पसूया सयल-
 जण-मणाणंदणं नंदणं । इमस्स वि कयं 'अमरसिहो' त्ति नामं । वड्डिया देहो-
 वणं, कराविया कला-गहणं, पत्ता जुव्वणं ।

तत्थ रलदो खुदो निद्धम्मो निद्धओ समरसीहो ।
 तत्तो दोसेक्क-पए तंमि पयाओ विरत्ताओ ॥
 सदओ दक्खिन्न-जुओ परोवयारुज्जओ अमरसीहो ।
 तो गुणनिहि त्ति गरुयं वहइ जणो तंमि अणुरायं ॥
 अह पवणु कुमर'.... ' ड(?)तरलत्तणओ समत्त-भावाण ।
 विसमामय-विद्धुरंगो सुग्गीवो मरणमावन्नो ॥
 तो जेट्ठो त्ति निविट्ठो रज्जे सयमेव सो समरसीहो ।
 नहि निग्गुणो वि जाणइ अप्पाणं गुरु-पयाजुग्गं ॥

सो थ निक्करुणो पया-पालण-परंसुहो पारिद्धि-गिट्ठो रज्ज-कज्जाइं अर्चि-
 ततो चिट्ठइ । अमरसीहो उण पाणि-दया-परो परोवयार-निरओ निरय-गमण-
 निब्वंघणं वंघणं पिव पावं परिहरंतो कालं गमेइ । कयाइ तुरय-वाहणत्थं
 निग्गओ नगर-बाहिं कुमारो । बाहिउण विविह-देसु-उभवे वेग-प्पवंघ-वंधुरंगे
 तुरंगे तरुच्छायाए बीसमंतो पेच्छइ छगलं पुरिसेण निज्जंतं । छगलो थ निय-
 भासाए बुब्बुयइ, कुमारेण करुणाए मोयाचिओ । तहावि बुब्बुयंतो न थक्कइ ।

तो उल्लसंत-करुणो कुमरो तं पुरिसमेवमालवइ ।

किं नेसि छगलमेयं ? पुरिसो वि पर्यंपए एवं ॥

जन्नंमि कीरमाणो सग्ग-फलो होइ पसु-वहो जम्हा ।

तो तत्थ हंतुमेयं नेमि अहं; अह भणइ कुमरो ॥

जइ पसु-वहेण सग्गो लब्भइ ता केण गम्मए नरए ।

नहि हिंसाओ अन्नं गरुयं पावं पर्यंपंति ॥

एत्थंतरंमि पत्तो सोमसुणी तत्थ दिव्व-नाण-जुओ ।

चर-अचर-जीव-रक्खण-निमित्त-महि-निहिय-नयण-जुओ ॥

धम्मं च सुत्तिमंतं तं सम-रासिं व जंगमं दट्ठुं ।

कुमरो भणइ विवायं एस सुणी छिदिही अम्ह ॥

नमिउण सुणी भणिओ कुमरेण हरेह संसयं अम्ह ।

पंचिदिय-जीव-वहाओ होइ किं सग्ग-सुह-लाभो ॥

तो सुणिणो वज्जरियं जीव-वहाओ कुमार जीवाण ।

नारय-तिरिय-दुहाइं हवंति न कयावि सग्ग-सुहं ॥

किं बहुणा भणिएणं एत्थत्थे संसयं इमो छगलो ।

छिदिहिइ संपयं चिय तो भणिओ साहुणा छगलो ॥

खड्ग खणाविय सइं छगल सइं आरोविय रुक्ख ।

पइं जि पवत्तिय जन्न सइं किं बुब्बुयहि मुक्खन्न ॥

इमं सोच्चा ठिओ तुण्हिक्को छगलो । विस्व्हिय-मणेण भणियं कुमारेण । भयवं ! एस छगलो किं तुम्ह पढियमित्तेण चेव तुण्हिक्को ठिओ । साहुणा बुत्तं-भइ । रुहसम्मो नाम इमस्स पुरिसस्स पिया आसि । तेण खणावियं इमं तलायं, पालीए आरोविया रुक्खा, पइवरिसं पवत्तिओ जन्नो, जत्थ छगलगा वहिज्जंति । कालेण रुहसम्मो मओ, जाओ छगलगो । हणिओ इमिणा पुरिसेण इत्थेव जन्ने । पुणो वि जाओ छगलो, पुणो वि हओ, एवं पंचसु भवेसु, छट्ठो पुण इमो भवो । संपयं पुण अंकाम-निज्जराए लहु-कय-कम्मो पुत्त-दंसणेण संजाय-जाइसरणो एस छगलो इमं भणइ—पुत्तय ! किं मारेंसि मं, तुह पियाहं रुहसम्मो । जइ न पत्तियसि, ता करेमि अहिन्नाणं, दंसेमि निहाणं, जं मए तह परुक्खं निक्खयं अत्थि । पुरिसेण बुत्तं—भयवं ! जइ सच्चमेयं ता दंसेइ एसो तं । इमं सोऊण चलिओ छगलो, गओ गिह्वभंतरं निहाण-पएसं । पाएहिं पहणिडं पयट्ठो । खणिए लद्धं निहाणं । जाय-पच्चओ मुणि-समीवे धम्मं सोऊण पडिवन्नो सम्मत्तं । पुरिसो(?)कुमारेण भणिवं—भयवं ! जइ सत्थ-वि-हियस्स वि पसु-वहस्स एरिसो परिणामो, ता मए कायम्हा जीव-दया । छगलो साहु-पासे धम्मं सुच्चा भत्त-पच्चक्खाणं करेइ । साहु-दिन्नं पंच-नमुक्कारं सुभरंतो समाहिणा मओ, गओ सुर-लोयं । अवहिनाण-मुणिय-पुञ्जभवो 'उवगारि' त्ति करेइ कुमरस्स सन्नेज्जं । एवं वच्चइ कालो ।

अह जंपइ छगल-सुरो भासुर-मणि-भडड-कुंडलाहरणो ।

रयणीइ रायपुत्तं गयणे होऊण पच्चक्खो ॥

एसो राया गरुय-जणाणुरायं तुममि असइंतो ।

अच्चंत-कूर-चित्तो चित्तइ तुह मारणोवाए ॥

ता मुत्तुं नयरमिणं संपइ देसंतरं तुमं वच्च ।

समए पुण रज्जमिणं तुमए च्चिय उद्धरेयव्वं ॥

इय सुर-वयणं सोडं विमलेण अमच्च-नंदणेण समं ।

नयराओ निक्खंतो परिभमइ महीयलं कुमरो ॥

ठाणे ठाणे लोयाओ वंदणं चंदणं व पावंतो ।

नियय-गुणुक्करिसेणं कमेण कुंडिणपुरं पत्तो ॥

तरुण-जण-हियय-हरणेण हरिण-नयण्ण जत्थ नयणाइं ।

बुद्धंति चोर-सहेण केवलं न उणे नायरया ॥
 तत्थत्थि भाणुनामो निवहं नय-लच्छि-केलि-पंकरुहं ।
 जस्स करे करवालो कालो संहरइ रिउ-वक्कं ॥
 तंमि समए महंतं असिवं संजायमत्थि तत्थ पुरे ।
 तस्सोवसमे हेउं पुच्छइ बंभण-गणं राया ॥
 सो कहइ कुणसु पुर-देवयाइं पूयं पुरो पसु-वहेण ।
 राय-पुरिसा पयद्दा तहेव तो पसु-वहं काउं ॥
 तं पारद्धं दहुं कुमरो करुणाइ हिंसगे भणइ ।
 मा हणइ इमे, ते विंति को तुमं चारगो अम्ह ॥
 निव-वयणेण पसु-वहं कुणिमो निव-वयणओ य चिरमामो ।
 इय भणिऊण पयद्दा काउं तं ददयरं पुरिसा ॥
 तो कुमरेणं भणिओ छगलसुरो रक्ख पसु-वहं एयं ।
 उग्गीरि उग्ग-खग्गे ताण भुए बंभए तियसो ॥
 अच्छरियमिणं दहुं निवस्स पुरओ निवेयए लोओ ।
 तत्तो विम्हिय-चित्तो भाणुनिवो तत्थ संपत्तो ॥
 दिट्ठो कुमरो अमरो व्व तेण रमणीय-ख्व-संपत्तो ।
 सो वि नमिओ नरिंदं जंपइ किमिमे हणिज्जंते ॥
 नहि पसु-वहेण असिवं नियत्तए अवि य वड्डए बाढं ।
 लोए पलीवणं पिव पलाल-पूल-प्पसंगेण ॥
 वज्जरइ भाणुराओ नियत्तिही भइ ! कहमिणं असिवं ।
 कुमरो जंपइ नरनाह ! मज्झ मंत-प्पभावैण ॥
 पत्ते अवयरिऊणं एस द्विय देवया फुडं कहिही ।
 असिवो-वसमो-चार्यं किमित्थ बहुणा पलत्तेण ॥
 आणाविया कुमारी रत्ता कुमरेण मंडले ठविया ।
 सिरिखंड-कुसुम-पसुहेहिं पूइआ जंपए एवं ॥
 “वसइ कमलि कलहंसी जिम्बं जीव-दया जसु चित्ति ।
 तसु पय-पक्खालण-जलिण होसइ असिव-निवित्ति ॥ ”
 अह भाणुनिवो बुल्लइ भइ ! मणे वसइ जस्स जीव-दया ।
 सो कहमिह नायव्वो, अत्थि उवाओ भणइ कुमरो ॥
 दंसणिणो सव्वे वि हु मेलसु; तो मेलिया इमे रत्ता ।

“ पुरो भमंतीह वि अंगणाए
 सकज्जलं दिट्टिजुयं न व त्ति । ”
 पटिउं इमा समस्सा कुमरेण समप्पिया तेसिं ॥
 “ चक्खुं च हुट्ठं थण-मंडलम्मि
 अणुरक्खणं तेण मए न नायं ।
 पुरो भमंतीह वि अंगणाए
 सकज्जलं दिट्टिजुयं न व त्ति ॥ ”
 एवं निय-निय-चित्ताणुसारओ जुवइ-वन्नण-परेहिं ।
 पर-तित्थिएहिं बहुहा कयं समस्साइ पुव्वद्धं ॥
 भवियच्चा-वसेणं सोममुणी छगल-पुव्व-भव-कहगो ।
 तत्थागओ अणेण वि पुव्वद्धं पूरियं एवं ॥
 “ मग्गे तसा-थावरजंतुरक्खा-
 वखित्तचित्तेण मए न नायं ।
 पुरो भमंतीह वि अंगणाए
 सकज्जलं दिट्टि-जुयं न व त्ति ॥ ”
 कुमरो भणइ इमेसुं कस्स मणे फुरइ जीव-दया ।
 राया जंपइ जिण-मुणि-भणं वि मुत्तुं न अत्तेसिं ॥
 अत्तेसिं पि इमस्स व भणंमि जइवि फुरिज्ज जीव-दया ।
 वयणं पि तारिसं होज्ज न उण सिंगार-रस-पवरं ॥
 तो मुणि-पय-पक्खालण-जलेण अब्भुक्खियं नयरमखिलं ।
 तं असिवं उवसंतं राया परिओसमावन्नो ॥
 जंपइ कुमरं तुममुत्तमो त्ति सामन्नओ जइवि नायं ।
 तहवि तुह मुणिउमिच्छइ ठाण-कुल-प्पसुहमेस जणो ॥
 पुर-कुल-पिउ-पसुहं कुमर-संतियं कहइ सव्वमवि विमलौ ।
 निय-धूर्यं कणगवइं रत्ता परिणाविओ कुमरो ॥
 कुमरस्स कुणइ कारि-तुरय-कणय-वत्थाइ-वियरणं राया ।
 इय तत्थ सुहं चिट्ठइ विसयासेवण-परो कुमरो ॥
 अह पुरिसा अमरपुराउ आगया तत्थ तेहिं विन्नत्तो ।
 कुमरो तुमंमि नयराओ निग्गए सो समरसीहो ॥
 पारद्धि-परो रज्जं रक्खइ न परेहिं विद्धिं विज्जं तं ।

कुण्ड अनीइं च सयं पयाड तत्तो विरत्ताओ ॥
 तो मिग-गहण-मिसेणं पारद्धि-परव्वसो पहाणेहिं ।
 सिद्धाइएहिं ह्णिओ नीओ सो झत्ति पंचत्तं ॥
 तो तत्थ तुमं गंतूण नियय-रज्जं अणाहमुद्धरसु ।
 इय सुच्चा संचलिओ कुमरो चउरंग-बल-कलिओ ॥
 संपत्तो अमरपुरे पट्टमि निवेसिओ पहाणेहिं ।
 काऊण चिररज्जं जिण-धम्म-परो गओ सुगइं ॥
 जीव-दया-रहिओ इह भवे वि निहणं गओ समरसीहो ।
 तं कुणमाणो सुह-सयाइं पत्तो अमरसीहो ॥

इत्यहिंसायाममरसिहकथा ।

दामन्नक-दृष्टान्तम् ।

जो जीवदया-परमो परस्स पीडं परिच्चयइ पुरिसो ।
 वसणं पि ऊसवो होइ तस्स दामन्नगस्स जहा ॥
 रत्ता भणियं—भयवं को सो दामन्नगो ? । गुरुणा वुत्तं—महाराय !
 सुण । अत्थि इत्थेव भारइ वासे रायपुरं नगरं ।
 जत्थ सुर-भंदिरेसुं वज्जंताडज्ज-निस्सणं सुणिउं ।
 जाय-धण-गज्जि-संका सिहिणो निव्वं पि नच्चंति ॥
 तत्थ सहावओ दया-परो सुनंदो नाम कुल-पुत्तओ । तस्स जिण-साहु-
 सेवा-समुज्जओ जिणदासो नाम भित्तो । एगया गओ तेण समं समण-समीवे
 सुनंदो, वंदिऊण निससो पुरओ, गुरुणा कया धम्म-देसणा ।
 कल्लाण-कोडि-जणणी दुरंत-दोगच्च-दुक्ख-निहलणी ।
 सग्गा-पवग्ग-हेऊ एक्क चिय होइ जीव-दया ॥
 एवं सोऊण संविग्गेण भणियं सुनंदेण—भयवं ! अओ परं जावज्जीवं मए
 मंसाइ-कळे जीव-वहो न कायव्वो, मंसं च न भक्खियव्वं ति । गुरुणा वुत्तं—
 वच्च ! धन्नो तुमं, सुलद्धो ते मणुय-जम्मो, सहलं ते जीवियं, जेण तुमए जीव-
 वह-नियत्त-चित्तेण कया मंस-भक्खण-निवित्ती । जहुत्त-नियमेण कयत्थमप्पाणं
 मन्नंतस्स[तस्स]वच्चंति दियहा । कयाइ संजायं सुहि-सद्यणेणवेक्खं तिक्खं दुब्भि-
 क्खं । तंमि धन्न-दुहत्तणेण लोगो मच्छ-मंसेण पाणवित्ति काउं पवत्तो । सुनंदो य
 भणिओ भन्नाए—किं न तुमं मच्छएहिं कुडुंब-वत्तणं करेसि ? । तेण भणियं—

अलं पाव-हेजणा कुडुंब-वत्तणेण, जं जीव-वहेण कीरह । भज्जाए वुत्तं—दहं भमा-
डिओ मुंदेण केण वि । न दिट्ठो तुमं धम्मिद्वो, पडिस्सइ ते मत्थए धम्मो,
कुडुंबे छुहाए मरंते कस्स पावं भविस्सइ । मिलिया सालया, तेहिं निव्वच्छिज्जण
नीओ दहं सुनंदो । खिविज्जण जालं गहिया इणेण मच्छा । तडफुडंते ते द-
ट्टूण दयावसेण सुक्का । आगओ गिहं, एवं दुइय-तइय-दियहेसु वि कयं । नवरं
एकस्स मच्छस्स पंगुडिआ खुडिया । भणियं अणेण ।

भो ! भो ! कयत्थह ममं पाण-पणासं पि मे कुणह तुब्भे ।

तहवि न जीव-वहेणं करेमि वित्तिं कुडुंबस्स ॥

जस्स कए कोडीओ जीवाण वहेमि संपयं मूढो ।

नरयं गयस्स सरणं मज्झ कुडुंबं न तं होही ॥

एकं पि पर्यं वच्चइ जं पर-लोयंमि सह न जीवेण ।

तस्स सरीरस्स कए कहं पि काहं न जीव-वहं ॥

इय वोत्तुं दढसत्तेण तेण पडिवन्नमणसणं झत्ति ।

मरिज्जण समुप्पन्नो जत्थ इमो तं निसामेह ॥

मगह-विसया-वयंसं रायगिहं नाम अत्थि वर-नयरं ।

मय-पसर-पर-वसा जत्थ हत्थिणो न जण नायरया ॥

तत्थ समग्ग-रिउ-वग्ग-निग्गहण-कय-कम्मो नरवम्मो राया ।

जस्स ववसाय-साही पसरंत-पयाव-पल्लवु-प्पीलो ।

दिसि बहु-विह्वसणेणं छज्जइ जस-कुसुम-निवहेण ॥

तत्थ सिरिमंत-सिरोमणी मणियारो सेट्ठी । सील-पालणु-ज्जल-जसा सु-
जसा से भज्जा । विसय-सुहमणुभवन्ताण ताण जाओ सुनंद-जीवो पुत्तो । कयं
विच्छेडेण तस्स 'दामन्नगो' त्ति नामं । समीहियत्थ-संपत्तीए पाउवभवन्त-हरिसो
जाओ सो अट्टवरिसो । भवियव्वया-वसेण सेट्ठिणो घरे संजाया मारी । विन्ना-
यमेयं रत्ता । 'मा अन्नघरेसु संचरउ' त्ति तस्स घरवारे कारिया कंटएहिं वाडी ।
मयाणि माइ-पिइ-पसुह-माणुसाणि सव्वाणि । पुव्व-कयाणुकपा-वसेण उव्वरिओ
दामन्नगो । कमेण निग्गओ मयग-भक्खग-साण-प्पवेस-मग्गेण । भिक्खा-नि-
मित्तं भमंतो गओ सागरपोयस्स गेहं ।

पोएण सागरं गाहिज्जण गहिज्जण जेण रयणाहं ।

नूणं तिभि-कुल-संकुल-जल-सेसो सागरं विहिओ ।

एत्थंतरे तत्थागयं मुणियुयलं । दामन्नगं दट्टूण जेट्ठेण साहुणा दिसाव-

लोक्यं काऊण भणिओ दुईओ—भो ! आयन्नह मह वयणु, तणु-लक्खणिहि मुणामि । इहु बालउ एयह घरह कमिण भविस्सइ सामी । कुहुन्तरिएण सु-यमिणं सागरपोएण । चितियं च—

वज्जिय-राग-दोसा सम-मणि-तण-मित्त-सतुणो मुणिणो ।

इयर-नर व्व न जंपंति नूणमविधारियं अत्थं ॥

तो एयं होयव्वं अणेण अत्थेण नत्थि संदेहो ।

अवि चलइ मेरु-चूला न चलइ मुणि-भासियं वयणं ॥

संभवइ य कहमेयं जमहं चिट्ठामि इट्ठ-पुट्ठंगो ।

अत्थि शुणोह-समुदो समुदत्तो य मे पुत्तो ॥

अहवा ह्यविहिणो विलसियाणि दीसंति जं विचित्ताइं ।

तो नड-पेक्खणय-समे संसारे किं न संभवइ ॥

जो मज्झ पिउ-पियामह-पमुहेहिं महंत-पुव्व-पुरिसेहिं ।

परिवालिकुण सुइरं समप्पिओ विहव-संभारो ॥

सो उण विविह-किलेसे काऊण मएवि बुद्धिमुवणीओ ।

हा ! तस्स इमो रंको सामी होही विहि-वत्सेण ॥

ता किं करेमि वच्चामि कत्थ कस्स व कहेमि निग्गमगो ।

एवं विचितयंतो सागरपोओ गओ मोहं ॥

तव्वसओ वीसरिकुण साहु-वयण-मत्थस्स भाव त्ति ।

निहय-मणो पयट्ठो दामन्नग-मारणोवाए ॥

मोयगं दाऊण भणिओ दामन्नगो—वच्छ ! आगच्छ मए समं, जेण ते बहुए मोयगे देमि । 'जं तुमं भणसि तं करेमि' त्ति भणंतेण दामन्नगेण समं गओ चंडालवाढयं । दव्वं दाऊण भणिओ रहसि खंगिलो नाम चंडालो । 'एस बालो पच्छन्नं तुमए इंतव्वो, वहाभिन्नाणं च मे दंसियव्वं' ति । पडि-व-न्नमिणं चंडालेण । नीओ नयरओ दूरं दामन्नगो । चितियं च—बालेण किं इमिणा वराएणावराद्धं ? जं एयं हणिवेइ सागरपोओ, ता किं इमस्स मइमंसो ? धिरत्थु जीवियव्वस्स । जं एरिसं अकज्जं काउमुज्जओऽहं, दद्धिण वि दवेणेव तेण पज्जत्तं, जं इमिणा पावेण पाविज्जइ, ता सब्बहा एयस्स वहत्थं न वहंति हत्था-मे । तओ जम-जीहा-सवत्तियाए कत्तियाए छिन्नं तस्स कणिट्ठंगुलीए खंडं चंडा-लेण । भणिओ इमो, अहं मारिस्सामि तुमं, जइ पुण नयरमिणं मुत्तूणं अन्नत्थ चसि ता मिह्लेमि । खयंतेण तेण बुत्तं—एवं करिस्सं । तओ मुक्को साणुको-

सेण चंडालेण दामन्नगो नासिउमाढत्तो, नियत्तो चंडालो । दंसियं अंगुलि-खंडं सागरपोयस्स । सो य पच्छुज्जीविउव्व परं परिओसभावन्नो । दामन्नगो अरण्णे परिभमंतो दिट्ठो सागरपोयसंतिएण गोउलिएण । सुंदरागारो त्ति पुच्छिओ 'को तुमं' ति । दामन्नगेण वुत्तं—उच्छन्नवंसो वणियपुत्तोऽहं । तओ समुप्पन्न-करणेण नीओ निय-वरं । भणिया निय-वरिणी, अपुत्ताए तुह इमो पुत्तओ, परितुट्ठा एसा ।

विणय-प्पमुह-गुणेहिं ताणं पाण-प्पिओ इमो जाओ ।

सव्वत्थ गुणेहिं पियं जं कीरइ तं किमच्छेरं ॥

अह काम-केलि-भवणं तरुणी-यण-नयण-भसल-कमलवणं ।

सो देह-सुंदरत्तण-गुणव्वणं जोव्वणं पत्तो ॥

अन्नया गो-उल-पलोयणत्थं तत्थागओ सागरपोओ । दहूण दामन्नगं सासंकेण पुच्छिओ अणेण गोउलिओ 'को एसुत्ति । तेण वुत्तं—अणाहो त्ति इहागओ एसो, मए अपुत्तेण पुत्तो पडिवन्नो । तओ तक्कहणाओ खंडियंगुलि-दंसणाओ य चित्तियमिणं सागरपोएणं । जो मए माराविओ-बालो सो चेव एसो, नूणं न वावाइओ चंडालेण । अहह संजाओ ताव बाहिर-घणस्स सामी इमो, किमन्नहा होइ मुणि-वयणं, तहावि पुरिसयारो न मुत्तव्वो त्ति । तओ भणिओ गोउलिओ, संपयं गमिस्सामो गेहं । तेण वुत्तं—चिरकाला तुब्भे आगया, अज्जवि न गो-उलं निरुवियं । सागरपोएण भणियं—अत्थि महंतं कज्जं । गोउलिएण वुत्तं—जइ एवं, ता अप्पेह लेहं, जेण मे पुत्तो वुच्चइ । सागरपोएण स-हत्थ-लिहियं लेहं अप्पिऊण पेसिओ दामन्नगो । गओ सो रायगिहं, परिस्संतो वीसमिओ मयण-देव-उले । आगया तस्स निदा ।

अह तत्थ विसा नामेण मयण-पूया-निमित्तमणुपत्ता ।

तिय-लुक्क-तिलय-भूया सागरपोयस्स वरधूया ॥

तीए य मयण-पूर्यं कुणमाणी एस विम्हय-रसेहिं ।

नव-नीलुप्पल-दल-दीहरेहिं नयणेहिं सो दिट्ठो ॥

जच्च-सुवन्न-सवन्नो विसाल-वच्छत्थलो पलंब-मुओ ।

कमलारुण-कर-चलणो को एसो काम-सम-रुवो ॥

एयं विभावयन्ती लेहं पिउ-मुह-मुदियं दिट्ठं ।

तस्संक-लट्ठि-संठियमेसा छोडूण वाएइ ॥

“ स्वस्ति गोकुलात् श्रेष्ठिसागरपोतः समुद्रदत्तं सस्नेहमालिङ्गय कुशल-वार्त्तयति । कार्यं च—अस्य पुरुषस्याधौतपादस्य विषं दीयताम्, इत्यर्थे न विकल्पः कार्यः ।”

तओ तीए चितियं—नृणं तायेण मह जुग्गो एस लद्धो वरो, दिवसं च सुंदरं दिट्ठं, तेण एसो सिग्घं पेसिओ । जं च विसंमि अणुस्सारो तं भमो त्ति । तओ अणुस्सारं फुसिऊण नयणंजणेण आघार-रेहा कया, पुणोवि लेहो मुद्दिऊण तहेव मुक्को, परितुट्टमाणसा गया गेहं । थोव-वेलाए य उट्टीऊण दामन्नगो पत्तो सागरपोय-गेहं । समप्पिओ समुद्दत्तस्स । लेहे वाइऊण अवधारिओ ऽणेण लेहत्थो । 'तायाएसो मे पमाणं' ति मन्नंतेण कया विवाह-सामग्गी, समग्गो वि मेलिओ सयण-वग्गो । संवच्छरिय विणिच्छिय तक्काल-लग्गे विसाए कर-ग्गहणं काराविओ दामन्नगो । पारद्धं वद्धावणं ।

आभरण-किरण-दिप्पंत-वेह अहरीकय-सुरवहू-ख्वरेह ।

घण-कुंकुम-कहम घर-दुवारि खुप्पंत-चलण नच्चंति नारि ॥

एत्थंतरे पत्तो नगरं सागरपोओ । मग्गि मिलिएण संलत्तो लोएण । सुंदरो तुमए जामाडगो पेसिओ । सागरपोएण चितियं—नृणं तेण दुरप्पणा परिणीया मे धूया । गिहागएण दिट्ठो विवाह-कंकणालंकिय-करो दामन्नगो । हा ! अहं अन्नहा चित्तेमि, कज्जं अन्नहा परिणमइ विहिवसेण । संपयं संपन्नो घर-माणुसाणं सामी एसो । जओ गिहत्थाणं गिहेसु महिलाओ पमाणं, महिलाणं पुण पाण-प्पिओ जामाडगो ।

भणियं च—

तीयह तिन्नि पियाराइं कलि-कज्जलु-सिंदूरु ।

अन्नइ तिन्नि पियाराइं दुडु जम्वाह उ तूरु ॥

इमं च अणुचियं न चएमि दट्ठं, वरं धूयाए वि वेहव्वं ति चित्तंतेण गंतूण भणिओ चंडालो । अरे खंगिला ! न तए वावाइओ सो । तेण वुत्तं—किं गयं ? दंसेसु तं । संपयं पि वावाइस्सं । सागरपोएण वुत्तं—जइ एवं ता नयर-देवया-पूयणत्थं तं पट्टविस्सं । तओ गेहमागंतूण सागरपोएण भणियं वहु-वरं—वच्चह देवकुलाचारो त्ति नगरदेवियं पुएडं । चलियं तं वच्चंतं दिट्ठं हट्टनिविट्ठेण समुद्दत्तेण । संपयं अत्यमिए वासरे सरे परिफुरंते तिमिर-विसरे एवं चिय चोरप्पसरे नयर-परिसरे अणवसरो गंतुं वहु-वरस्स त्ति भणंतेण ठवियं हट्टे वहु-वरं । पूओ-वगरणं वेत्तूण गओ समुद्दत्तो देवयायणं, पविसंतो पुव्व-पविट्ठेण वावाइओ खंगिलेण । सुयमिणं सागरपोएण । सोय-सागर-निमग्गो ' हा देव ! दुव्वारो ते वावारो, जं चितियं तए तं कयं' ति जंपमाणो पयट्ट-हियय-संघट्ठो मुक्को पाणेहिं । विनाय वुत्तंतेण रत्ता दामन्नगो घर-सामी कओ । अन्नया तस्स पुरओ पदियं मंगल पाहगेहिं—

अणुपुंखभावडंतावि आवया तस्स ऊसवा हुंति ।

सुह-दुक्खह कत्थ फुडओ जस्स कयंतो वहइ पक्खं ॥

इमं सोच्चा दामन्नगो तेसिं तिमि सय-सहस्साइं देह । 'अणुचियं दाणं' ति
हक्कारिऊण पुच्छिओ रत्ता दामन्नगो 'किमेयं' ति । तेण सिट्ठो निय-वुत्ततो । तुट्ठेण
रत्ता सो ठाविओ सेट्ठी । विउल-भोए भुंजंतस्स तस्स वच्चए कालो ।

अह अन्नया निसाए पच्छिम-जामंमि सुह-विउद्धस्स ।

जाया इमस्स चिंता, पुव्व-भवे किं मए विहियं ॥

जं मह वसणाइं पि ह्हु ऊसव-रूवेण परिणयाइं दढं ।

तो गोसे विन्नत्तो घम्म-निउत्तेण पुरिसेण ॥

अइसय-नाण-समग्गो समागओ विमलबोह-आयरिओ ।

दामन्नगो पहट्ठो विणिग्गओ तस्स नमणत्थं ॥

तं वंदिउं निसन्नो पुरओ पुच्छइ मणो-गयं भावं ।

कहइ गुरु पुव्व-भवे जीव-दया जं कया तुमए ॥

तं पत्तो सि विभूइं मरण-दसं जं च पाविया मच्छा ।

वेत्तूण तिमि वारे तं तुममवि हंतुमारद्धो ॥

जं तइया छिन्ना मच्छगस्स पंखुडिया, तक्कम्म-वसेण तवावि अंगुली
छिन्ना, तं सोऊणं पडिबुद्धो ।

तो सम्मत्तं गिण्हइ जिण-मुणि-भत्तो पवन्न-जीव-दओ ।

दामन्नगो कमेणं पत्तो सग्गं च मोक्खं च ॥

अभयसिंहकथानकम् ।

जो पाव-भीरु-चित्तो अभयं जीवाण देह करुणाए ।

कत्तो वि तस्स न भयं होइ जहा अभयसीहस्स ॥

रत्ता भणियं भयवं ! कहेसु मह को इमो अभयसीहो ? ।

वागरइ गुरु एवं नरिंद ! निसुणेसु अक्खेमि ॥

इत्थेव भरह-खेत्ते मणाभिरामे कुसत्थल-ग्गामे ।

पयईए भइओ नामओ आसि कुलपुत्तो ॥

सो गाढे दुब्बिमक्खे अनिब्बहंतो विचित्तए एवं ।

हणितं मिगाइ-जीवे काहमहं अत्तणो वित्तिं ॥

तो गिण्हऊण लगुडं वाहिं पत्तो पलोइउं ससयं ।

तस्स विणास-निमित्तं पहाविओ मिल्हए लउडं ॥
 इंतं लउडं दहुं भयन्त-चित्तो पलायए ससओ ।
 भदो तस्स वहत्थं पुणो पुणो मिल्हए लउडं ॥
 ससओ पलायमाणो सुणिस्स पडिमा-ठियस्स वण-मज्जे ।
 चरणंतरे निलुक्को अन्नं सरणं अपावंतो ॥
 अह तिब्ब-तवावज्जिय-मणाए वण-देवयाइ निम्मविया ।
 समणस्स तस्स पुरओ विउला आयास-फलिह-सिला ॥
 तो तीए अप्फलिओ सहसा सदेण मिच्छिओ लउडो ।
 वेगेण पडिनियत्तो लग्गो भदस्स भाल-यले ॥
 सो त-प्पहार-निग्गय-रुहिरो गुरु-वेयणा-विहुरियंगो ।
 मुच्छ-निमीलिय-अच्छो घसत्ति धरणी-यले पडिओ ॥
 वण-पवण-संग-सत्थो सुणिं पुरो पिच्छिउं भणइ भदो ।
 हा हा ! इहेव जम्मे फलियं मे पाव-कम्ममिणं ॥
 अहवा उइन्नमेयं सुह-कम्मं कि पि जं अदिट्ठेण ।
 केणावि पडिक्खलिओ लउडो लग्गो मह णिडाले ॥
 अणणह लउडो लग्गेज्ज कहवि पडिमा-ठियस्स साहुस्स ।
 तो सत्तमे वि नरए न हुज्ज पावस्स मह ठाणं ॥
 अह पारिऊण सुणिणा काउस्सगं किवा-समग्गेण ।
 भणिओ इमो महायस ! किमेयमसमंजसं कुणसि ॥
 जो मंस-लुद्ध-चित्तो निरणुक्कोसो करेइ जीव-वहं ।
 नरयानलस्स सो होइ इंधणं पाव-पडिहत्थो ॥
 तो पणमिऊण समणं भदो जंपइ अओ परं भयवं ! ।
 न हणामि जाव-जीवं जीवं मंसाइ-कज्जेण ॥
 सुणिणा भणिओ भदो खणं तुमं भद ! भावि-भदो सि ।
 धम्म-तरु-बीय-भूया जीव-दया जेण पडिवन्ना ॥
 अह वंदिऊण साहुं भदो निय-मंदिरंमि संपत्तो ।
 जीव-वह-नियत्त-मणं मन्नेइ कयत्थमप्पाणं ॥
 पुत्ताणुभावओ चिय पइदिणमुववज्जमाण-निव्वाहो ।
 आउ-क्खयंमि मरिडं उपत्तो जत्थ तं सुणह ॥
 अत्थित्थ जंबुदीवे भारह-वासंमि मज्झिमे खंडे ।

पासाय-पंति-सेया सेयविया नाम वर-नयरी ॥

सुर-मंदिर-सिर-कंचण-कलस-समूहो नहंगण-दुमस्त ।

परिपाग-पिंग-फल-निवह-लीलमवलंबए जत्थ ॥

तत्थ वीरसेणो राया ।

जस्स नय-रुव-चंगिम-खम-विक्रम-पमुह-गुण-समूहेण ।

सिरिखंड-पंडुरेण वि सयल-जणो रंजिओ चोळं ॥

तस्स सरीर-सुंदेर-दलिय-देव-रमणी-महप्पा वप्पा नाम देवी । सीह-सुवि-
ण-सूइओ समुप्पन्नो तीए गब्भे भइ-जीवो । ति-वग्ग-संपायण-रयाए पत्तो
पसूइ-समओ, जाओ जण-भणाणंद-यारओ दारओ । कयं रत्ता महा-विभूईए
वद्धावणयं । अपरिपुत्ते य तस्स मासे वीरसेणास्स रत्तो उवरि विक्खेवेण समा-
गओ गय-तुरय-रह-पाइक्क-साहणेणं अप्पमाणेणं माणभंग-नरवई । निअओ य
तयभिसुहं निय-सिन्न-संगओ वीरसेणो । पयट्टमाओहणं । भवियव्वया-वसेणं
विणासिओ वीरसेणो माणभंगेण । गहियं करि-तुरयावासाइयं । अंगीकयं
सेयवियाए रज्जं । तंमि रज्ज-भंग-विइवे वेत्तूण पुत्तं वप्पा महादेवी पलाय-
माणा अरण्णे पत्ता एक्केण पाइक्केण । चिंतियं अणेण-अहो ! मे पुन्न-पगरिसो,
जं एसा तियसंगण व्व मणोहरा पत्ता मए मयच्छी । ता छड्ढावेमि बालयं,
जेण ममंमि चैव दढाणुराया होइ त्ति । तओ भणिया सा-भइ ! परिच्चय इमं
बालयं । वाह-जल-भरिय-लोयणाए अ णाए भणियं—निय-गब्भ-संभूयं सय-
लतिलुक्क-चूडामणिक-भूयं कइं परिच्चयामि एयं ? । पाइक्केण वुत्तं-मइ साहीणे
अत्ते तुह तणया होहिति । तीए भणियं-जइ परं अन्न-जम्मे अत्ते तणया मे
होहिति त्ति रोविडं पवत्ता । पाइक्केण वि निक्करुण-भणेण बलावि वेत्तूण छड्ढा-
विओ । देवी वि भुयाए वेत्तूण नीया अग्गओ । भणिया य—

रोयसि कीस किसोयरि ! ?, मुंच विसायं पवज्जसु पइगं ।

मा कुणसु रत्तसरए कयं व्व निय-जुव्वणं विहलं ॥

इय कण्ण-कड्डयमायन्निऊण देवी दढं विसन्न-मणा ।

घोरं सुय-सित्त-थणी चिंतिउमेवं समाढत्ता ॥

हा देव ! पुव्व-जम्मे पडिकूलं किं मए कयं तुज्झ ? ।

जं कुणसि अकय-करुणो मह वसणु त्ति रिविडिं एवं ॥

एकं किर जस्स अहं पाणेहितो वि वल्लहा आसि ।

तस्स गुण-रयण-निहिणो भूवइणो भत्तुणो मरणं ॥

वीयं बहु-लच्छी-संवयस्स चउरंग-वल-समिद्धस्स ।
 सयल-समीहिय-सुह-कारयस्स रज्जस्स विद्धंसो ॥
 अवरं सिणोह-सवभाव-गवम-हिययस्स सयण-वग्गस्स ।
 परिवारस्स य विणयाइ-गुण-निहाणस्स परिहाणी ॥
 अन्नं सुत्ते रत्ते सावय-सय-संकुले किलेस-कुले ।
 एगागिणीइ छुह-तिस-आयव-विहुराइ परिभमणं ॥
 पत्तो वि परं वसणं किं होही जं हृदेण अंकाओ ? ।
 अवहरिउं सुय-रयणस्स अडवि-मज्झे परिचाओ ॥
 तुट्ठो न उ मं हय-विही विहिउं एवं विहं विविह-दुक्खं ।
 अज्ज वि मयंक-विमलं मह वंछसि खंडिउं सीलं ॥
 हा हियय ! तुमं पि धुवं निल्लज्ज ! अणज्ज ! वज्ज-घडियं सि ।
 असमंजस-वयणाइं सोऊण वि जं न फुट्टेसि ॥
 एवं विचिंतयंतीइ तीइ देवीइ हियय-संघट्ठो ।
 सो को वि पयट्ठो जेण ज्ञत्ति पाणा विणिकखंता ॥
 भरिऊण तक्खणेणं सा देवी वंतरी समुप्पन्ना ।
 आभोइओ अ णाए पुव्व-भवो ओहि-नाणेण ॥
 दिट्ठो य नियय-पुत्तो आचामंतो वणम्मि जंबु-तले ।
 पवणाहयं निवडियं मुहंमि जंबू-फलं पक्कं ॥
 तो पुव्व-सिणोहेणं गावी-रुवं विउड्विउं देवी ।
 पाएइ दुद्धमेयं रक्खेइ उवइवेहिंतो ॥

कइवय-दिण-पज्जंते आवासिओ तत्थ अत्थ-जत्ताओ नियत्तो सेयविया-
 वत्थव्वओ पियमित्तो नाम सत्थवाहो । तेण दिट्ठो जंबू-तरु-तले बालओ । छा-
 याए अपरावत्तणेण पुन्नवंतो, मण-हर-गोरत्तणेण विसाल-कुल-संभवो त्ति जा-
 णिऊण गहिओ । परितुट्ठेण समप्पिओ अपुत्ताए नियय-भज्जाए रज्जाए नामाए ।
 गृह-गव्भा गिहिणी मे दारयं पसूय त्ति पयासियं परियणे । सेयविया-गएण
 कयं वद्धावणयं । अरत्ते अमओ सीहु व्व पत्तो एसु त्ति चिंतिऊण कयं इमस्स
 'अभयसीहु' त्ति नामं । गिरि-कंदर-गओ चंपय-पायवु व्व वड्ढिओ एसो । समए
 समप्पिओ उवज्झायस्स । क्रओ णेण सयल-कला-कलाव-कुसलो । पत्तो पंच-
 सर-पसर-लीला-वर्ण जोव्वणं । कयाइ कणग-पल्लं-क-प्रसुत्तो निसाए बुत्तो जण-
 णीवंतरीए—वच्छ ! पुव्वं इमीए नयरीए सामिणो वीरसेण-रायस्स पत्ती वप्पा

नाम देवी अहं । तुमं मह गब्भ-संभवो पुत्तो । तुह पिया वीरसेण-राओ विणा-
सिओ इमिणा माणभंगेण । अहं पि मरिऊण वंतरी जाया । ता सत्तु-पुत्तस्स
तुह विरुद्धो एस राया । अओ गिणह तुमं तक्खणा पढिय-सिद्धं अदिस्सी-
करण-मंतमेयं । ' भयवह ! महंतो अणुग्गहो ' त्ति बुत्तूण पढिच्छिओ मंतो
अभयसीहेण । तिरोहिया वंतरी ।

अह माणभंग-नरवई निच्चं पि हु मांस-भक्खणं कुणह ।

मन्नह पलाल-पायं अन्नं अन्नं मणुस्सं पि ॥

एगया सूयारस्स पमायाओ अवहरियं पुब्बाणीयं मंसं मज्जारेणं । का
भक्खे वासहत्तणेण (?) अन्नं मंसं आणेउं अचयंतेण तेण किं पि डिंभख्वं ह-
णिऊण रद्धं मंसं । मुंजंतेण रत्ता पुच्छिअं-किं अज्ज पेसलं मंसं ति ? । सूआरेण
सिद्धं जहट्टियं । तओ मंस-लुद्ध-बुद्धिणा रत्ता दिन्नो सूआरस्साएसो—पइ-
दिणं इक्किक्कं पहाण-माणुसं मारिऊण तुमए संरद्धियन्वं ।

एवं च कीरमाणे वेरी निवहस्स पुर-जणो जाओ ।

अप्पावि पाव-कारिस्स वेरिओ किं पुणो सेसे ? ॥

अह माणभंग-रत्तो चित्ते चिंता इमा समुप्पन्ना ।

किं मह वंस-पइट्टं रज्जं किं वा नवेयं ति ॥

इत्थंतरे जुग-क्खय-समइ व्व समीरणो समुल्लसिओ ।

भंजंतो तरु-निवहं मच्चु व्व मणोरह-समूहं ॥

पवणुक्खएण तह कह वि रेणु-नियरेण पूरियं गयणं ।

न जहा दीसइ कत्थ वि भएण नट्टे व्व सूलादि ॥

मोहो व्व तिमिर-निवहो वियंभिओ दिट्ठि-पसर-पडिहणणो ।

निउणेण थ (?) बहूणं एग-रूवत्त-संजणणो ॥

गज्जंति खणं मेहा लद्ध-प्पसरा खलु व्व दुब्बिसहा ।

विप्फुरइ खणं विज्जू कयंत-जीह व्व भय-जणणी ॥

तंमि समए नरिंदो पलोयए भूय-भिहुणमायासे ।

अन्नोन्नमुल्लवंतं भय-विम्हय-कारयं जुगवं ॥ ।

भूएण जंपियं पंकयच्छि ! वोच्छं अणागयं किं पि ।

ता भूय-पिया जंपइ पिय ! जंपसु सावहाण म्हि ॥

भूएण भासियं माणभंग-राओ पडिस्सइ अवस्सं ।

जीव-वह-विहिय-बहु-पाव-पेह्छिओ थेव-दिण-भज्जे ॥

अह भूय-पिया पुच्छइ भविस्सए सामि ! एत्थ को राया ? ।

भूएण भणियमेयं सुण सुयणु ! कहेमि अविअप्यं ॥

नरवइ-आण जु लंघिहइ वसि करिहइ जु करिंदु ।

हरिहइ कुमरि जु कणगवइ होसइ इह सुनरिंदु ॥

एवं वोत्तूण तिरोहियं भूय-मिहुणं, उवसंतं पवण-डंबरं । भूय-मिहुणु-
ल्लावं सोच्चा मरण-भउब्भंत-चित्तेण रत्ता आणत्तो नयरारक्खो—जो मह
आणं लंघेह सो तुमए निगहेयव्वो ।

अह कोइल-कुल-रव-मुहुल्ल भुवणि वसंतु पयट्टु ।

भट्ट व मयण-महा-निवह पयडिअ-विजय-मरट्टु ॥

सुरु पलोइवि कंत-करु उत्तर-दिसि आसत्तु ।

नीसासु व दाहिण-दिसय मलय-समीरु पवत्तु ॥

क्काणण-सिरि सोहइ अरुण-नव-पल्लव-परिणद्ध ।

नं रत्तंसुय-पावरियमहु पिययम-संबद्ध ॥

सहयारिहि मंजरि सहइ भमर-समूह-सणाह ।

जालाउ व मयणानलह पसरिय-धूम-पवाह ॥

तंमि वसंते मज्झ-रत्ते अभयसीहो देवघाययणे पेक्खणं पिक्खिज्जण स-
भवणं वच्चंतो भणिओ नयरारक्खेण—भइ । मा वच्च, चिट्ठ खणं, कहसु अत्ताणं,
को तुमं ति ? । न ठिओ अभयसीहो । नयरारक्खेण दिन्ना रत्तो आणा । देसु
निय-पिडणो रत्तो आणं ति भणंतो अभयसीहो वच्चइ । तओ गहिय-खग्गो
' हण हण ' ति भणंतो धाविओ तस्स पिट्ठओ नयरारक्खो । तमागच्छंतं
पिच्छिज्जण अदिस्सी होडं गओ अभयसीहो । जाओ नयरारक्खो विलक्खो ।
पहाए विन्नत्तमेयं रत्तो । रत्ता वुत्तं—किलीबो तुमं जं न सक्किओ सो निग्गहिडं
ति । अन्नया मय-परव्वसो उम्मूलिज्जण खंभं वियरिओ पट्ट-हत्थी । कयं अणेण
नयरे असमंजसं । अत्थि य रत्तो कन्ना कणगवई, जीए काय-कंतीए कणगं विल-
ज्जियं व जलणे पडइ बहुसो । सा उज्जाणाओ मयण-पूअं निव्वत्तिज्जण नियत्त-
माणी दिट्ठा करिणा । धाविओ सो तस्संसुहं । अद्ध-गहिया सा तेण । पुक्करियं
परियणेण—अत्थि कोह चउइसी-जाओ जो अम्ह सामिणिं इमाउ कयंताउ व्व
भयंकराओ करिणो रक्खेइ । भवियव्वया-वसेण सुयमिणं अभयसीहेण । करु-
णाए धाविज्जण ' अरे दुरप्प ! मायंगो सि, न लज्जे इत्थी-वहं कुणंतो तुमं ?'
ति वुत्तूण आहओ कुलिस-कट्ठिण-मुट्ठिणा पच्छिम-भागे करी । सुत्तूण राय-कच्चं

चलिओ सो अभयसीह-संमुहं । भामिओ तेण चक्क-भमेण । परिस्संतस्स तस्स चडिओ विज्जुक्खित्त-करणेण खंधि एसो । गहिऊण अंकुसं अप्फालिओ कुंभ-त्थले हत्थी । वसीकाऊण चालिओ राय-कुलं । 'अहो पियमित्त-पुत्तो महा-सत्तो एसो त्ति' समुच्छलिओ लोय-वाओ । दिट्ठो साहिलासाए दिट्ठीए राय-धूयाए । नयर-नारी-नीलुप्पल-मालाहिं अच्चिजंतो पत्तो राय-कुलं अभयसीहो । दिट्ठो रत्ता, चिंतियं च—इमाए आगिईए इमिणा परक्कमेणं करिस्सइ नूणमे-सो रज्जं, तहावि पुरिसयारो न मुत्तव्वो त्ति । तओ आणत्ता सुहडा, जहा-वाणि-उत्त-मित्तेण हत्थी वसीकओ त्ति मे अकित्ति-कारओ करिणो अवयरिओ निग्गहियव्वो एसो त्ति । अभयसीहेण नीओ आलाण-खंभं करी । ओइन्नो सो करिणो । 'हण हण' त्ति भणंता धाविआ सुहडा । अदिस्सीहोऊण गओ एसो । विलक्ख-चित्ता नियत्ता सुहडा । कहियं तेहिं रत्तो, पहरिउं पयट्ठाणं अम्हं पणट्ठो एसो । रत्ता वुत्तं-तुव्वे वि किलीव त्ति ।

अह विन्नत्तो राया पडिहारीए वसंतसेणाए ।

कणगवई-कुमरीए देवो मुणइ चिय सरूवं ॥

राय-सुयाण बहूणं चित्त-गए पेच्छिउं पडिच्छंदे ।

चित्तहरे वि इमीए कहिं पि चित्तं न वीसंतं ॥

संपइ पर्यड-करि-संभमाओ मोयाविया इमा जेण ।

तंमि दट्ठं अणुरत्ता पियमित्त-सुए अभयसीहे ॥

भणिया य सा मए हे मयच्छि ! सो अणुचिओ वणि-सुओ त्ति ।

तो कुमरीए वुत्तं खत्तिय-कुमरो धुवं एसो ॥

अन्नह कयंत-करणिं करिंदमेयं कहं वसीकुज्जा ? ।

नज्जइ कुलं विसालं विसाल-चरिएण पुरिसस्स ॥

जइ एस राय-पुत्तो न होज्ज तो, मह मणं पि न हरेज्जा ।

संसय-पए पयत्थे मणुयाण मणं चिय पमाणं ॥

किंच करि-संभमं रक्खिऊण मे जेण जीवियं दिन्नं ।

तं मुत्तुं जइ अन्नं महामि तो होमि अकयन्नू ॥

एयं सुब्बा चिंतियं रत्ता—तहावि एसो मए वावाइयव्वो त्ति । तो पडि-हारी-समक्खं आणत्तो तलवरो, इक्कारसु पियमित्त-पुत्तं अभयसीहं । जओ अ-णेण कुमरी करि-संभमाओ मोइया ता एयं सक्कारेमि त्ति । तलवरेण गंतुं क-हियं से राय-सासणं । विरूद्ध-मणं मुणंतो वि रायाणं 'पुव्व-भव-जणणी देवी मे

सर्व्वं सुत्थं करेहि' त्ति चिंतंतो आगओ अभओ अभयसीहो । 'रयणीए पच्छन्नं
हणिस्सामि'त्ति सो समप्पिओ पाइक्काणं । ते वि तं जत्तेण रक्खंति । पओसे
अदिस्सीसूओ एसो । तओ तत्थवि चिट्ठंतं पि तं अपेच्छंता पाइक्का जंपिडं पयट्ठ
'कहि पि गओ एसो'त्ति सुयमिणं रत्ता । मा नाम मे धूयं हरहि त्ति चिंतंतो
राया पत्तो पासाओवरिम-तलं जत्थत्थि कणगवई । तत्थेव पसुत्तेण रत्ता दिट्ठो
सुविणो—कणगवई भुयाए वेत्तूण अभयसीहो वच्चंतो, 'अरे कहिं वच्चसि ?'
त्ति भणंतो करवालं कड्डिऊण धाविओ राया । रोसावेस-वसओ वीसारिऊण
उवरिम-तलावत्थाणं निवडिओ पासायाओ । भूमिं अपत्तो चेव मुक्को पाणेहिं ।
'पावायारी सयमेव पडिओ त्ति' परितुट्ठो पुर-लोओ । 'संपयं को रज्जे ठविज्जउ' त्ति
परोप्परं पर्यंपमाणण पहाणाणं भणियं गयणंगण-गयाए वंतरीए 'वीरसेण-
राय-पुत्तं अभयसीहं रज्जे ठावेहि' त्ति । 'तह' त्ति पडिकाऊण ठाविओ एसो ।
परिणीया अणेण कणगवई । वसीकय-समत्त-सामंत-वग्ग तिवग्ग-संपायण-
समग्गं अभग्ग-भणोरहं रज्जं भुंजंतस्स तस्स वच्चए कालो ।

अह जाया से चिंता पुव्व-भवे किं मए कथं कम्मं ? ।

जं लंघिय-वसण-गणो संपत्तो रज्ज-सुक्खमहं ॥

तो नाणसूर-नामो अइसय-नाणी समागओ सूरी ।

तं वंदिडं निसन्नो पुच्छइ निय-संसयं राया ॥

कहइ गुरु पुव्व-भवे ससय-वहे जं तुमं पयट्ठो सि ।

न ढण हओ सो पच्छा कया तए जं च वह-विरई ॥

तं वसण-गओ वि अणत्थ-वज्जिओ पाविओ सि रज्ज-सुहं ।

तो जाय-जाइसरणो संमत्तं गिणहए राया ॥

कुणइ जिण-साहु-भत्ति जीवाण वहं निवारए रज्जे ।

कालेण समाहि-परो मरिडं तियसालयं पत्तो ॥

इय जीव-दया-रूवं धम्मं सोऊण तुट्ठ-चित्तेण ।

रत्ता भणियं मुणि-नाह ! साहिओ सोहणो धम्मो ॥

जओ—

एसो मे अभिरुहओ एसो चित्तंमि मज्झ विणिविट्ठो ।

एसो चिय परमत्थेण घटए जुत्तीहि न हु सेसो ॥

मव्वंति इमं सव्वे जं उत्तम-असण-वसण-पसुहेसु ।

दिक्षेसु उत्तमाहँ इमाहँ लब्भन्ति पर-लोए ॥
 एवं सुह-दुक्खेसुं कीरंतेसुं परस्स इह लोए ।
 ताहँ चिय पर-लोए लब्भन्ति अणंत-गुणियाहँ ॥
 जो कुणह नरो हिंसं परस्स जो जणह जीविय-विणासं ।
 धिरएह सोक्ख-विरहं संपाडह संपया-भंसं ॥
 सो एवं कुणमाणो पर-लोए पावए परेहितो ।
 बहुसो जीविय-नासं सुह-विगमं संपओ च्छेयं ॥
 जं उप्पह तं लब्भह पभूयतरमित्थ नत्थि संदेहो ।
 वविएसु कोद्वेसुं लब्भन्ति हि कोद्व वेय ॥
 जो उण न हणह जीवे जो तेसिं जीवियं सुहं विभवं ।
 न हणह तत्तो तस्स वि तं न हणह को वि पर-लोए ॥
 ता भदेण व नूणं कयाणुकंपा मए वि पुव्व-भवे ।
 जं लंघिज्जण वसणाहँ रज्ज-लच्छी इमा लद्धा ॥
 ता संपह जीव-दया जाव-ज्जीवं मए विहेयव्वा ।
 मंसं न भविस्सयव्वं परिहरियव्वा य पारब्धी ॥
 जो देवथाण पुरओ कीरह आरुग्ग-संति-कम्म-कए ।
 पसु-महिसाण विणासो निवारियव्वो मए सो वि ॥
 जीव-वह-दुक्कएण वि जइ आरुग्गाइ जायए कह वि ।
 तत्तो दवानलेणं दुमाण कुसुभोग्गमो होज्जा ॥
 जो जन्नेसु पसु-वहो विहिओ सग्गाइ-साहण-निमित्तं ।
 दिय-पुंगव ! सेयं चिय विवेयणो तं न काहिति ॥
 बालो वि मुणह एवं जं जीव-वहेण लब्भह न सग्गो ।
 किं पन्नग-मुह-कुहराओ होइ पीऊसर-रस-बुद्धी ? ॥
 तो शुरुणा वागरियं नरिंद ! तुह घम्म-बंधुरा बुद्धी ।
 सब्बुत्तमो विवेगो अणुत्तरं तत्त-दंसित्तं ॥
 जं जीव-दया-रम्मे घम्मे कल्लाण-जणण-कय-कम्मे ।
 सग्गापवग्ग-पुर-मग्ग-दंसणे तुह मणं लीणं ॥

तओ रत्ता रायाएस-पेसणेण सब्ब-गाम-नगरेसु अमारि-घोसणा-पडह-
वायण-पुव्वं पवत्तिया जीव-दया ।

शुरुणा भणिओ राया—महाराय ! दुप्परिच्चया पाएण मंस-गिद्धी । घन्नो
तुमं भायणं सकल-कल्लाणाणं जेण कया मंस-निवित्ती ।

ता संमं पालेज्जसु मंस-निचित्ति नरिंद ! जा-जीवं ।
 संमं अपालर्यंतो कुंदो व्व बुहं लहइ जीवो ॥
 रत्ता भणियं—भयवं ! को सो कुंदो ? । गुरुणा भणियं—सुण ।
 कुन्दकथानकम् ।

अत्थि सुरट्ठा-विसए अणुमंती-पुर-वरी सुर-पुरि व्व ।
 जीए गिहा मणिमया सुपव्व-कलिया विमाण व्व ॥
 तत्थ य पयइ-विणीओ कुंदो नामेण अत्थि कम्म-घरो ।
 तरुणो व्व मंजरी से लया मंजरी भज्जा ॥
 अह तत्थ मेहघोसो मेहो व्व महोदयं पयासंतो ।
 संपत्तो आयरिओ ठिओ विचित्तंमि उज्जाणे ॥
 कुंदेण इमो दिट्ठो कट्ठाइ-निमित्तमित्तजंतेण ।
 धत्तो एसो त्ति चित्तिज्जण नमिओ य भत्तीए ॥
 भव्वो त्ति तस्स गुरुणा कहिओ सब्बुत्तमो दया-धम्मो ।
 कुंदेण मंस-विरई संविग्ग-मणेण पडिवत्ता ॥

कयाइ आगओ तस्स सालगो पाहुणगो । कयं मंजरीए पाहुणगं । रद्धं
 मंसाइ । उवविट्ठा दो वि भुत्तुं । अद्ध-परिविट्ठं मंसं पडिसिद्धं कुंदेण । सालगो वि
 न गिणिहस्सइ त्ति बला दिन्नं मंजरीए । तदुचरोहेणेव ओहय-मण-संकप्पेण भ-
 क्खियं कुंदेण । जाओ से अणुतावो । नीसाए नीससंतो भणिओ मंजरीए—किमेवं
 नीससिसि । साहिओ अणेण वुत्तंतो—वय-भंगो कओ त्ति महंतो मे संतावो त्ति ।
 उव्विग्गा से भज्जा वि । भणियं तीए—कीस तए एयं मे न कहियं ? । अहं पि
 पावे पडिय भिइ । गोसे पुच्छिज्जण गुरुं जमेत्थ जुत्तं तं करिस्सामो । किं इ-
 मिणा नीससिएण ? । जुत्तमेयं त्ति चित्तियं कुंदेण । पहाया रयणी । लज्जा-प-
 राहीणो वि नीओ एस गुरु-सगासं भज्जाए । वंदिज्जण य गुरुं लज्जेणओ चि-
 इइ । तओ गुरुणा भणिओ कीस तुमं एवं त्ति ? । तेण वुत्तं—भयवं ! पावो
 अहं, न जुत्तं मे संभासणं । गुरुणा वुत्तं—कीस त्ति ? । भज्जाए साहिओ
 वुत्तंतो । गुरुणा चित्तियं—सोहणाणि एयाणि, जेसिं इईसो परिणामो । भणियं
 च—अलं एत्थ उव्वेएण किं तुट्ठो वि तंतू न संधिज्जइ ? । किं असुइ-विलित्तो
 पाओ न धुव्वइ ? । तुव्वं पि कु-भाव-दोसओ अप्पो बंधो इच्छाए । कया एसिं
 धम्म-देसणा । संविग्गा इवे वि । गहिया दोहिं पि मंस-विरई । परिवालिया
 भावओ । अहाज्ज-क्खएण मओ कुंदो ।

सिरिकं-ठदेस-भूसणमत्थि जयंती-पुरी पवित्त-पया ।
जा सुर-सरि व्व रेह्ह न य अन्न-बसंगया किंतु ॥
तं पालइ कुरुचंदो राया चंदो व्व कय-जणाणंदो ।
संचरइ अणह-मग्गे ण जं इमो तं महच्छरियं ॥
तस्स परमंग-लायन्न-संगया अत्थि मंगला देवी ।
कुंदो मरिडं तीए गब्भे पुत्तो समुप्पन्नो ॥

दिट्ठो अ णाए सुविणयंमि तीए चेव रयणीए रायहंसो वयणे पविसमाणो ।
सुह-विउच्चाए साहिओ जहा-विहं रन्नो । भणिया तेण-सुंदरि ! रायहंसो ते
पुत्तो भविस्सइ । पडिसुधमिमीए । परितुट्ठा चित्तेण । अइक्कंतो को वि कालो ।
जाओ से दोहलो, करेमि जिण-मुणि-पडिबत्ति । संपाडिओ से रत्ता । पसूया
एसा । जाओ दारगो । कयं वद्धावणयं । समए पइट्ठियं नामं दारगस्स सुवि-
णाणुसारेण 'रायहंसो' त्ति । समाइट्ठं महा-रज्जं नेमित्तिणेण । अइक्कंतो को वि
कालो । जाव चेव न जोव्वणं पावइ ताव मरण-पज्जवसाणयाए जीव-लोगस्स
मओ से पिया । अणुगमिओ मंगलाए बालो रायहंसो त्ति । ठिओ रज्जंमि
एयस्स चुल्ल-बप्पो सिरिचंदो । कओ तेण एसो जुवराओ । इओ य वय-अंग-
कम्म-दोसेण मम पुत्तस्स रज्ज-परिपंथी एसु त्ति जाओ चुल्ल-बप्प-घरिणीए
रज्जा-देवीए रायहंसंमि मच्छरो । जओ—

सुहगो त्ति गव्वसुव्वहउ मच्छरो सयल-तिहुयणे एक्को ।

जो महिलाण खणं पि हु हिययाओ न दूरमोसरइ ॥

दिदं तीए तस्स कम्मणं । अचिरेणाहिओ एस जलोयर-वाहिणा ।
उम्माहिओ राया । पारद्धो किरिया-कम्मो । न य वाही नियत्तइ । अह सत्तुणा
पच्चंत-विसओ हओ त्ति गओ घाडीए राया । दुग्ग-भूमि-बलेण न सो जिप्पइ
त्ति जाओ तत्थेव विग्गहो । एत्थंतरे देवीभाव-सुणा परिभूओ एस परियणेण ।
न से को वि किंचि वि करेइ । चित्तिंयं अणेण—मम घरं चेव विदेसो ता घरं
सो चेव विदेसो, त्ति छिहेण निग्गओ राय-गेहाओ नगरीओ य । महया किले-
सेण गामाउ गामं भमंतो गओ उल्लेणीए । तत्थ अईव घत्थो वाहिणा परिस-
क्किडं पि न सक्कइ । ठिओ देवउले । तत्थ लोओ दयाए देइ मंडगाइ । एवं
महा-किलेसेण अइक्कंतो को वि कालो । सा हि पुव्व-जम्म-घरिणी मंजरी
आउ-क्खएण मया समाणी समुप्पन्ना इमीए चेव उल्लेणीए महासेणस्स रन्नो
सेणाए महा-देवीए 'देइणि' त्ति घूया । इमीए वि चियंभिओ वय-अंग-कम्म-

दोसो । दंतुब्भेय-काले गहिया अम्बरे रेचइहिं । पीडिया दहं । कयाइं उचिय-
विहाणाइं, तहावि से न दुक्ख-क्खओ होइ ।

सा जुव्वणमारूढा तत्तो सयमेव वाहिणा मुक्का ।
जाया मयंक-मुत्ति व्व राहु-वमिया दहं रम्मा ॥
वयणेण लोयणेहिं य जीए विजियाइं तज्जियाइं व ।
कमलाणि मह-कुलाणि य वण-वास-वयं पवन्नाइं ॥

इओ य राया महासेणो सेवग-जणं पुच्छइ-कस्स पुत्तेहिं रिद्धिं तुब्भे वि-
लसह ? । ते वि भणंति—देव ! तुम्ह पुत्तेहिं । तओ ते संपूइअ विसज्जेइ राया ।
अन्नया दिट्ठमिणं देइणीए । हसिऊण भणियमणाए—अहो ! तायस्स मुद्धया,
जोएवमेएहिं विप्पयारीयइ । सुयमेयं भाय-सवत्ति-चेडीए । भणियमणाए—
सामिणि ! का एत्थ विप्पयारणा ? । किं न एवमेयं ति ? । देइणीए भणियं—न
पर-पुत्तेहिं को वि सिरिं भुंजइ त्ति परमत्थो । कहियमिणं चेडीए रत्तो । कुविओ
राया । सद्दविद्या देइणी । भणिया अणेण—कस्स पुत्तेहिं तुह एसा सिरि ? ।
तीए बुत्तं—ताय ! परमत्थओ अप्प-पुत्तेहिं । जओ—

निय-सुकय-दुक्कयाणं फलाइं भुंजंति जंतुणो सब्बे ।
संपत्ति-विपत्तीसुं निमित्त-मित्तं परो होइ ॥

एयं सोऊण अहियं कुविओ राया । सद्दविद्या अणेण दंडवासिया ।
भणिया य सगोरवं—भो ! जो कोइ तुब्भेहिं दिट्ठो एत्थ नयरीए अच्चंत-दुक्खि-
ओ सत्तो तमेत्थ सिग्घं आणेह । तेहिं बुत्तं—जं देवो आणवेइ । न अन्नो
इओ वि दुक्खिओ त्ति आणियो रायहंसो । दंसिओ रत्तो । भणियं रत्ता—
अहो जहिच्छिओ एसो । अवन्नाइ दंडि-खंडियादि परिहाविऊण परिणाविओ
देइणिं । समाणत्तो य समं तीए निव्विसओ । विसेसेण बुत्ता देइणी—माणेसु
अप्प-पुत्ताइं । तीए बुत्तं—जं तुमं आणवेसि । किलेसेण निग्गयाणि नयराओ ।
मिलियाणि उत्तरा-वह-गामिए सत्थे । दिट्ठो देइणीए सत्थ-वई । कहिओ से
बुत्तंतो । भणियो य स-बहु-माणं । जाव ताय-संतियं विसयं उत्तरामो ताव
तए नेयव्वो एस मे भत्तारो । पडिबन्नं सत्थवाहेण । सम्पिओ से महिसगो ।
कमेण पत्ताणि अन्न-रट्ठं । आवासिओ सत्थो अडवीए । देइणी वि भत्तारं गि-
ण्हिऊण ठिया तथासत्ते । भूयसाया-पीढे कओ तीए तरु-पल्लवेहिं सत्थरो । भु-
वन्नो तत्थ एसो । समागया से निद्धा । देइणी वि सीसं से कुरुमालंती चिट्ठइ ।
इओ य जा पुव्वं कुमार-माया भंगला देवी कुरुचंद-मरणे मया समाणी तद्देसे
चंतरी समुप्पत्ता । तीए दिट्ठो रायहंसो, पच्चभिन्नाओ य । तओ दिव्व-सत्तीए

विजव्वियं इंद-जालं । वम्मिआओ उट्टिओ सप्पो । भणियं अणेण—अरे दुरप्प सप्प ! कीस तए एस राय-पुत्तो विणासिओ ? । नत्थि कोइ इत्थ जो एयस्स रायिगाओ पीसिऊण तक्केण देइ । एवं सोऊण तम्मूह-टिएण भणियं सेय-स-प्पेण—अरे किण्ह-सप्प ! कीस एयं अहिट्टियं दव्वं ? । नत्थि इत्थ को वि जो एयं खणिऊण लेइ । सुयमिणं देइणीए । राय-पुत्तो एसो त्ति हरिसिआ एसा । चित्तिं अणाए—

एसो राय-सुओ वि हु नज्जइ अन्नारिसो व्व रोगत्तो ।

रयणं पि रयावरियं लक्खिज्जइ लिट्ठु-खंडं व ॥

किंच सच्चमेयं ।

परस्परस्य मर्माणि ये न रक्षन्ति मानवाः ।

त एव निधनं यान्ति बल्मीकोदरसर्पवत् ॥

ता लडो रोग-क्खओवाओ । बोलियाणि अम्हे ताय-विसयं । अओ इहेव कहिंचि करेमि किरियं एयस्स त्ति । तओ तीए अन्नेसमाणीए गामाई दिट्ठमासन्नमेव गो-उलं । अब्भत्थिओ तस्स सामी एय-वइयरे । पडिवन्नमणेण, गहिया य धूय त्ति देइणी । पुच्छिऊण सत्थ-वाहं टिया एसा गो-उले । पारडो किरिया-कम्मो । थेव-कालेण व जाओ पउणो रायहंसो । विज्जाहरो व्व मण-हरो संयुत्तो । जाओ एस पाव-क्खओ त्ति तुट्ठा देइणी । अइक्कंता कइ वि दि-यहा विसिट्ठ-गो-रसाहारेण । को कत्थ तुमं ति पत्थावे पुच्छिओ देइणीए । सा-हिओ अणेण सव्भावो । चित्तिं देइणीए—अणुकूलो संपयं एयस्स विहि त्ति जुत्तं स-देस-गमणं । भणिओ य एसो—कुल-हरं ते वच्चम्ह । तेण भणियं—एवं करेमि । किं तु गो-उल-वइणो अणुवगरिए न गमणं जुत्तं । देइणीए चित्ति-यं—महा-सत्तो एसो । भवियव्वमेयस्स संपयाए । साहिओ से निहि-वइयरो । खणिऊण दिन्नं दविणं गो-उल-वइणो । कमेण पत्तो जयंति । ठिओ आरामे सहयार-च्छायाए । आगया से निहा । एत्थंतरे अपुत्तो मओ राया सिरिचंदो । अहिवासियाणि दिव्वाणि । निग्गयाणि नयरीओ । गयाणि जत्थ रायहंसो । दिट्ठो अपरिअट्ठंतीए सहयार-च्छायाए एसो । पडिवन्नो दिव्वेहि । पमोएण पवे-सिओ नयरीए । कओ से रायाभिसेओ । पुन्न-बलेण मणोरमो त्ति अणुमओ सामंतार्हण । अइक्कंतोकोइ कालो । जयंतीए नवो राय त्ति सुयमिणं महासे णेण । तओ—भो नवनरिंद ! दंडं दाऊण मम भिच्चो होहि, जुज्झ-सज्जो वा होसु-त्ति सिक्खविऊण पेसिओ दूओ । गओ सिग्घं । भणिओ तेण जहाइदं रायहं-

सो । पडिभणियमणेण—गरुओ तुह सामी । अओ न किंचि अहं पढमं करेमि । पारखेडण विग्गहे तक्कालोचियं अलुत्तो चैव करिस्सामि त्ति विसज्जिओ दू-ओ । पत्तो एस उज्जेणिं । निवेइयमिणं महासेणस्स । कुविओ एसो । तदियहे चैव निग्गओ उज्जेणीओ । पयट्ठो अणवरय-पयाणएहिं । सुयमिणं निउत्त-पु-रिसेहिंतो । देइणीए निवेइयं रत्तो रायहंसस्स । भणिओ य एसो—संदेसगा-णुरूवं करेहि । देहि तुमं पि तदभिमुहं पयाणयं । रायहंसेण वुत्तं—जुत्तमेयं । समालोचियं समं सामंताईहिं । विग्गह-विहाणेण निग्गओ रायहंसो । दु-गुण-प-याणगेहिं लंघिऊण सविसय-संधिं मिलिओ महासेण-कडगस्स । बीय-दियहे चैव पवत्तमाओहणं महया विमहेण । जिओ महासेणो पाडिऊण बद्धो य । सहाविया णेण देइणी । भणिया य—किमित्थ जुत्तं ति ? । तीए भणियं—सं-पूइऊण विसज्जणं सज्जणस्स । एवं ति पडिवन्नं रत्ता । सयमेव भग्गा पहारा । वद्धा वण-पट्टया । एत्थंतरे सभागया देइणी । चलणेसु निवडिऊण भणिओ राया—ताय ! तुज्झ आसीसाए सा अहं माणेमि अप्प-पुत्ताइं । देइणि त्ति पच-भिन्नाया रत्तां । जस्स मए दिन्ना एसा तं मुत्तूण अत्तो इमीए पई कओ त्ति ल-ज्जिओ राया । तस्स भावं नाऊण कहिओ सच्च-वुत्तंतो देइणीए । एस कुरुचं-द-पुत्तो रायहंसो । एसा वि महासेणघूय त्ति हरिसिया सामंताइणो । अहो ! मए न सोहणमणुचिद्वियं ति विलज्जिओ महासेणो । एवमेयं सच्चो अप्प-पुत्ताइं माणइ त्ति जंपियमणेणं । पडण-भणो विसज्जिओ महासेणो । भणियमणेण-गच्छामि अहं वणं । मम पुत्ता पुण ते भिच्च त्ति ।

एवं अणेग-मंडल-सिद्धीए सो महा-निवो जाओ ।

पुत्तो य देइणीए राय-मियंको समुप्पन्नो ॥

अह अन्नया नरिंदो विंचितए किं मए कयं पुव्वं ? ।

जेण लहिऊण दुक्खं पच्छा सुक्खं अहं पत्तो ॥

एत्थंतरम्मि रत्तो मुणिउं पडि-बोह-समयभायरिओ ।

नासेण नाणभाणू चड-नाणो तत्थ संपत्तो ॥

तस्स पय-वंदणत्थं विणिग्गओ देइणीए सह राया ।

उत्तम-गय-खंघ-गओ इंदाणीए सुरिंदो व्व ॥

नमिउं गुहं निसण्णस्स तस्स सूरी घणोह-सम-धोसो ।

सग्गापवग्ग-पुर-पह-पवेसणं देसणं कुणइ ॥

पुव्व-कय-सुकय-दुक्कय-वसेण जीवाण होइ सुह-दुक्खं ।

न हि कळं निक्कारणमुप्पज्जइ अहंपंसगाओ ॥
 तो पुच्छइ पुव्व-कयं सुह-दुक्ख-निमित्तमप्पणो राया ।
 कहइ गुरु पुव्व-कयं वय-भंगं दो वि तं सुणिडं ॥
 सुमरंति पुव्व-जम्मं अवितहमेयं ति दो वि जंपंति ।
 पडिबुज्झइ बहुय-जणे वय-भंग-विवाग-सवणेण ॥
 परम-पय-साहणं ताण होइ सिद्धंत-सवण-परिणामो ।
 दुन्नि वि अणुव्वयाइं गुरु-पय-मूले पचज्जंति ॥
 मणि-कणय-मंडियाइं पुरे पुरे जिण-हराइं कारंति ।
 सील-समिद्धाण मुणीण पय-जुयं पज्जुवासंति ॥
 इय पालिऊण सम्मं चिर-कालं सावगत्तणं दो वि ।
 गिण्हंति संजम-भरं विवेगिणा परियणेण समं ॥
 काऊण तवं तिब्बं दुन्नि वि समए समाहिणा मरिडं ।
 वचंति वंभ-लोए कमेण मोक्खं च पावंति ॥

जो पुण नियममखंडं पालिज्ज अवज्ज-वज्जणुज्जुत्तो ।
 सो पुरिसो पर-लोए सोक्खमखंडं लहइ नृणं ॥
 जो य न करेज्ज नियमं निद्धम्मो जो कयं च भंजिज्जा ।
 सो मंस-भोग-गिद्धो नरयाइ-कयत्थणं लहइ ॥

ता महाराय ! जुत्तं तुमए कयं जं सत्तण्हं महा-वसणाणं दुवे पारद्वी मंसं
 च परिचत्ताणि । सेसाणि वि सव्वाणत्थ-निबंधणाणि परिहरियव्वाणि । तत्थ—
 जं कुल-कलंक-मूलं गुरु-लज्जा-सच्च-सोय-पडिक्कलं ।
 धम्मत्थ-काम-सुक्कं दाण-दया-भोग-परिसुक्कं ॥
 पिय-माय-भाय-सुय-भज्ज-भोसणं सोसणं सुह-जलाणं ।
 सुगइ-पडिवक्ख-भूर्यं तं जूर्यं राय ! परिहरसु ॥
 जूर्य-पसत्तो सत्तो समत्त-वित्तस्स कुणइ विद्धंसं ।
 हारिय-असेस-रज्जो इह दिट्ठंतो नलो राया ॥

द्यूतविषये नलचरितम् ।

रत्ना भणियं—को सो नलो ? । गुरुणा वुत्तं—सुण,
 अत्थि इह भरह-खित्ते कोसल-देसंमि कोसला-नयरी ।

जायन्ति गुणा वसणस्स द्वेडणो जत्थ अच्छरियं ॥
इक्खागु-कुलुप्पन्नो निरुवम-नय-चाय-विक्रम-पुत्तो ।
अरि-पत्थिव-दुव्विसहो निसहो नामेण तत्थ निवो ॥

तस्स सुंदरी-देवी-कुक्खि-संभूया जण-भणाणंदणे दुवे नंदणा, नलो
कूबरो य । इओ य विद्वभ-देस-मंडणं कुंडिणं नयरं । तत्थ अरि-संघ-सिंह-
सरहो भीमरहो राया । तस्स सयलंतेउर-तरु-पुप्फं पुप्फदंती देवी । ताणं विस-
य-सुहमणुहवंताण समुप्पन्ना सयल-तइलोक्कालंकार-भूया धूया ।

तीए तिलओ जाओ सहजो भालंमि तरणि-पडिबिंबं ।
सप्पुरिसस्स व वच्छ-त्थलंमि-सिरिवच्छ-वर-रयणं ॥

जणणी-गब्भ-गयाए इमीए मए सब्बे बेरिणो दमिय त्ति पिडणा कयं
तीए 'दमयंति' त्ति नामं । सिय-पक्ख-चंद-लेह व्व सब्ब-जण-नयणाणंदिणी
पत्ता सा बुद्धिं । समए समप्पिया कलोवज्झायस्स ।

आयंसे पडिबिंबं व बुद्धि-जुत्ताइ तीइ सयल-कलाओ ।
संकंताओ जाओ य सक्खि-भत्तं उवज्झाओ ॥
मुणि-जण-सेवा-वसओ सम्मत्तं पाविऊण सा जाया ।
दुरवगम-कम्म-पयडि-प्पसुह-वियारेसु कुसल-मई ॥
तीए य पवयणत्थं पर्यंपमाणीएँ महुर-वाणीए ।
पिडणो वि हू जणणीए जणिया जिण-धम्म-पडिवत्ती ॥

पणिह-पुल्ल-पेरियाए निवुइ-देवयाए समप्पिया तीए भावि-संति-जिणस्स
कणयमय-पडिमा । भणिया य सा—वच्छे ! इमा तुमए निच्चमच्चणिज्जा । सा वि
तं पडिवज्जिऊण तद्देव काउमारद्धा । पत्ता य सा रम्म-महा-राय-लीला-वणं
जुव्वणं । तं ददूण चित्थियं जणणी-जणएहिं—

एसा असरिस-रूवा विहिणो विज्जाण-पगरिसो एसो ।
जेणोसा निम्मविद्या दलेण तं इत्थियं चव ॥

ता नत्थि इमीए समाण-रूवो वरो । अत्थि वा तहवि सो न नज्जइ । अओ
सर्यंवरो काउं जुत्तो । जेणं तत्थ निय-इच्छाए इमीए (?) अणुच्चिय-वर-पयाण-ज-
णिओ दोसो अम्ह होइ त्ति । तओ पेसिऊण दूए हक्कारिया रायाणो राय-पुत्ता
य । आगया गय-तुरय-रह-पाइक्क-परियरिया ते । नलो वि निरुवम-सत्तो पत्तो
तत्थ । भीम-निवहणा कय-सम्माणा ठिया ते पवरावासेसु । कराविओ कणय-

मय-क्खंभ-मंडिओ रम्मयाए विमाण-माण-निम्महण-पंडिओ पवणुद्धय-घयपा-
रद्ध-तंडवो सयंवर-मंडवो । तत्थ रयाविद्या विद्धिय-द्धरिसण(?)..... । ठवि-
याहं तत्थ नाणा-रयण-किरण-कडप्प-कप्पिय-सुरिंद-सरासणाहं सुवत्त-सिंहास-
णाहं । निविट्ठा तेसु परोप्परं रिद्धि-पाडिसिद्धीए पयडियप्पाणो रायाणो । पयट्ठा
पयासिउं बहु-प्पयारे काम-वियारे । एत्थंतरे जणयाएसेण समागया पसरिय-प-
हाजाल-भाल-तिलयालंकिया पुव्व-दिस व्व रवि-बिंब-बन्धुरा पसन्न-वयणा पुत्ति-
मनिस व्व संपुन्न-ससि-सुंदरा घण-त्थण-मंडला मयण-केलि-सरसि व्व मिलि-
एक्क-चक्कवाय-मिहुणा आरत्त-कर-चलण-कमला कंकेल्लि-तरु-लय व्व नव-
पल्लव-पेसला थूल-सुत्ताहलाहरण-हारिणी मल्लिय व्व उम्मिहंत-कुसुम-समूह-
सोहिआ धवल-दुकूल-निवसणा गयण-लच्छि व्व सच्छ-सरयव्व-संगया वल-
क्ख-कडक्ख-च्छडा-विच्छुरिय-दिस-सुहा समुह-वेल व्व समुच्छलंत-मच्छ-रिं-
छोलि-संकुला सयंवर-मंडवं मंडयंती दमयंती । तं दट्ठूण विद्धिय-सुहेहिं म-
हिनाहेहिं स व्वेव चक्खु-विक्खेवस्स लक्खीकया ।

तो रायाएसेणं भद्दा अंतेउरस्स पडिहारी ।

कुमरीए पुरो निव-कुमर-विक्रमे कहिउमाडत्ता ॥

कासि-नयरी-नरेसो एसो दढ-भुय-बलो [बलो] नाम ।

वरसु इमं जह गंगं तुंग-तरंगं महसि दट्ठुं ॥

दमयंतीए भणिअं—भद्दे ! पर-वंचण-वसणिणो कासि-वासिणो सुव्वंति
ता न मे इमंमि रमह मणं ति अग्गओ गच्छ । तद्देव काऊण भणियं तीए—

कुंकण-वई नरिंदो एसो सिंहो त्ति वेरि-करि-सिंहो ।

वरिऊण इमं कयली-वणेसु कीलसु सुहं गिम्हे ॥

दमयंतीए भणियं—भद्दे ! अकारण-कोवणा कुंकणा, ता न पारेमि इमं
पए पए अणुकूलिउं तो अन्नं कहेसु । अग्गओ गंतूण भणियं तीए—

कम्हीर-भूमि-नाहो इमो महिंदो महिंद-सम-रूवो ।

कुंकुम-केयारेसुं कीलिउ-कामा इमं वरसु ॥

कुमरीए वुत्तं—भद्दे ! तुसार-संभार-भीरुयं मे सरीरयं किं न तुमं
जाणसि ? । तो इओ गच्छामो त्ति भणंती गंतूण अग्गओ भणिउं पवत्ता
पडिहारी ।

एस निवो जयकोसो कोसंबीए पहू पउर-कोसो ।

मयरद्धय-सम-रूवो किं तुह हरिणच्छि ! हरइ मणं ? ॥

कुमरीए वुत्तं—कविजले ! अहरमणीया वरमाला विणिम्मविया । भद्दाए चित्तिं—अप्पडिवयणमेव इमस्स नरिंदस्स पडिसेहो । तओ अग्गे गंतूण वुत्तं भद्दाए ।

कलयंठ-कंठि ! कंठे कलिंण-वट्ठणो जयस्स खिव मालं ।

करवाल-राहुणा जस्स कवलिया वेरि-जस-ससिणो ॥

कुमरीए वुत्तं—ताय-समाण-वय-परिणामस्स नमो एयस्स । तओ भद्दाए अग्गओ गंतूण भणियं—

गय-गमणि ! वीर-मडडो गडड-वई तुज्झ रुवइ किमैसो ? ।

जस्स करि-नियर-घंटा-रवेण फुट्टइ व वंभंडं ॥

कुमरीए जंपियं—अम्मो ! एरिसं पि कसिण-भंसणं माणु-साणं रूवं होइ त्ति तुरियं अग्गओ गच्छ । वेवइ मे हिययं । तओ ईसि हसंती गया अग्गओ भद्दा जंपिडं पवत्ता ।

पडमच्छि ! पडमनाहं अवंति-नाहं इमं कुणसु नाहं ।

सिप्पा-तरंगिणी-तीर-तरु-वणे रमिउमिच्छंती ॥

कुमरीए वुत्तं—हद्धि परिस्संत भिइ इमिणा सयंवर-मंडव-संचरणेण, ता किच्चिरं अज्ज वि भद्दा जंपिस्सइ । चित्तिं च भद्दाए—एसो वि न मे मणमाणंदइ त्ति कहियं कुमरीए । ता अग्गओ गच्छामि त्ति तहेव काडं जंपिडं पवत्ता भद्दा ।

एसो नलो कुमारो निसह-सुओ जस्स पिच्छिडं रूवं ।

मन्नइ सहस्स-नयणो नयण-सहस्सं धुवं सहलं ॥

चित्तिं विमिहिय-मणाए दमयंतीए—अहो ! सयल-रूववंत-पच्चाएसो अंग-संनिवेशो, अहो ! असामन्नं लावन्नं, अहो ! उदग्गं सोहग्गं, अहो ! महुुरिम-निवासो विलासो, ता हियय ! इमं पइं पडिवज्जिऊण पावेसु परम-परिओसं त्ति । तओ खित्ता नलस्स कंठ-कंदले वर-माला । अहो ! सुवरियं सुवरियं त्ति समुट्ठिओ जण-कलयलो । एत्थंतरे खग्गं कड्डिऊण नलमक्खिविडं पवत्तो कणहराओ । भो नल ! न लब्भए दमयंती परिणेडं । अजुत्तं कर्यं इमीए जं तुमं वरिओ । न मं सुत्तुं अन्नो उचिओ इमीए । ता मुंच एयं जुज्झ-सज्जो वा होहि । नलेण भणियं—अरे नराहम ! जइ तुमं न वरिओ दमयंतीए ता किं दूमिओ सि ? । संपयं पुण ममंमि वरिए एयं परित्थियं पत्थंतो न ग-णेसि कुल-कलंकं, नासंकसे अयस-पंकं, न लज्जसे-लोआओ, न बीहसे परलो-

याओ, ता तुमं परिचत्त-संत-भग्गो मए, सिक्खवियब्बो त्ति करवालं वेत्तूण उट्ठिओ जलंत-कोवानलो नलो । दोण्हं पि संनद्धां विविह-पहरण-भीसणां सि-
 न्नाहं । तओ चित्तिं दमयंतीए—हा ! किं मंद-भग्गाऽहं जं मह कए उवट्ठिओ
 एस पलओ, ता जइ मह अरहंते भत्ती तो भयवइ सासण-देवि ! लहउ
 विजय-लच्छं नलो, उवसमउ समरं ति भणंतीए गहिओ वारि-भिगारो ।
 खित्ताओ तिन्नि तोय-च्छडाओ । कण्हराओ तोएण फरिसियंगो अंगारो व्व
 निव्वाणो नित्तेओ जाओ । पक्क-पत्तं व पायवाओ पडियं.से मंडलगं करग्गा-
 ओ । निव्विसो विसधरो व्व रोस-रहिओ कण्हराओ चित्तिं पवत्तो । अजुत्तं
 मए नलं पइ पलत्तं । न सामन्न-पुरिसो एसो । ता मे पणमिउं जुज्जइत्ति । तओ
 तेण पणाम-पुव्वं खमाविओ निययावराहं नलो ।

संभासिउं नलेण वि विसज्जिओ कण्हपत्थिवो पणओ ।

जं पणय-वच्छला उत्तम त्ति सच्चं बुहा विति ॥

नल-चरिएण तुट्ठो भीमो सक्कारिऊण विसज्जिया तेण सेस-पत्थिवा ।
 कराविओ महा-विच्छडेण दमयंतीए कर-ग्गहणं नलो । दिन्नाहं नलस्स कर-मो-
 यणे अणेय-करि-तुरय-रयणालंकार-वत्थाईणि । एवं भीमेण संमाणिज्जंतो
 ठिओ तत्थ कइवय-दिणाहं । तेण कयाणुगमणो पत्थिओ निय-नयरिं नलो ।
 दमयंती वि नलेण सह वच्चंती भणिया जणणीए ।

जंपेज्ज पियं, विणयं करिज्ज, वज्जेज्ज पुत्ति ! पर-निदं ।

वसणे वि मा विसुंचसु देह-च्छाय व्व निय-नाहं ॥

तं सिक्खं पडिवज्जिऊण कय-प्पणामा विसज्जिया जणणी-जणएहिं प-
 त्थिया दमयंती । रहमारोविऊण नलेण निवेसिया निय-उच्छंगे । तओ चउरंग-ब-
 लुक्खय-खोणि-रेणु-नियरेण रुद्ध-नह-मंडलस्स नलस्स व्वच्चंतस्संतराले अत्थं ग-
 ओ गयण-मणी । पुरियं शुवणं विहिय-दिट्ठि-प्पसर-संरोहेण तिमिर-संदोहेण ।
 न लक्खिज्जए जल-त्थल-तरु-गिरि-गड्ढाह-विसेसो । तहवि निय-नयरुक्कंठि-
 य-मणो गमणाओ न नियत्तए नलो ।

संरुद्ध-दिट्ठि-पसरं बलं खलंतं पढंतमवडेसु ।

गच्छंतसुप्पहेणं दट्ठुं भणिया नलेण पिया ॥

देवि ! जग्गसु खणं पयासेसु भाल-तिलय-तरणि । जओ तिमिर-तिरो-
 हिय-नयण-मग्गं समग्गं बलं अबलं गंतुं । उट्ठिऊण दमयंतीए करेण परामुट्ठं
 भाल-वट्ठं । फुरिओ, फार-पहा-निलओ कयंघयार-विलओ तिलओ । तओ

निष्पन्नं पदे पयदं बलं । कोसलापुरी-परिसरं गण भणिया नलेण दमयंती,
 देवि ! जिण-भवण-मंडिय-प्पएसा एसा मे पुरी । तीए भणियं—धन्नाऽहं जा
 लहूण नलं नाहं निब्वमच्चित्सं चेइयाइं । अह पसत्थ-दियहे बहु-प्पवंच-मंच-वित्थ-
 रिय-रिद्धि-डंबरं पइ-भवण-पणच्चिय-घयंचल-चुंबियंवरं विविह-तूर-रवाऊरिय-
 दियंतरं नच्चंत-तरुणि-चक्क-निरंतरं पए पए कीरंत-मंगलो नलो पविट्ठो नयरिं ।
 पणमिया दमयंती-सहिएण तेण जणणि-जणया । अहिणंदिओ णेहिं एसो ।
 तओ नलो दमयंती थ कयाइ जल-कीलं कुणंति । कयाइ दोलंदोलण-मुहं अणु-
 हवंति । कयाइ सयं शुच्छ-सुरहि-कुसुमेहिं परोप्परं विचित्त-बंधं धम्मेल्लं पूरंति ।
 कयाइ अक्ख-जूएण रमंति । कयाइ सयं विविहाउज्ज-वायण-परो रहसि दम-
 यंति नलो नच्चावेइ । एवं नलो दमयंतीए अविउत्तो नव-नवेहिं विणोएहिं कालं
 वोलेइ । अन्नया नलं निय-रज्जे कूवरं च कुमरत्ते ठाविऊण पडिवन्नं निसहेण
 समणत्तणं ।

अनलो व्व नलो दुव्विसह-तेय-पसरो सरोस-वेरीहिं ।

पत्थिव-मत्थय-पणमिय-पय-कमलो पालए रज्जं ॥

अन्नया नलेण पुच्छिया मंतिणो—जणओवज्जियं चेव किमहं महिं
 पालेमि ?, अओ अहियं । तेहिं भणियं—ति-भागूणं भरहद्धं भुत्तं निसहेण ।
 तुमं पुण सयलं भरहद्धं भुजसि । ता जुत्तं पुत्तो पिउणो अहिओ त्ति । किं तु
 पुरी तक्खसीला अत्थि इओ दोहिं जोयण-सएहिं । तत्थ कयंओ राया । सो
 तुह आणं न मत्तेइ ।

तुह जस-ससिमि विमले समत्त-भरहद्ध-विजय-संभूए ।

उव्वहइ दुव्विणीओ एसो च्चिय लंच्छण-च्छायं ॥

एसो थ तुमए उव्विक्खओ रोग-लेसो व्व लद्धोवचओ दुसज्जो जाओ ।
 जइ पुण इमं पइ पराजय-मणं कयं ता पव्वय-व्वट्ठो घडो व्व विणट्ठो चेव एसो ।
 अओ पढमं दूय-पेसणेण से मुणिज्जउ मणं । पच्छा जहा-जुत्तं किज्जउ त्ति ।
 तओ सिक्खविऊण पेसिओ विचित्त-भणिइ-कुसलो दूओ । गंतूण तेण
 भणिओ निव्विलंबं कयंओ ।

वेरि-वण-दहण-दावानलेण पट्टुणा नलेण आणत्तं ।

मह पडिसेवं पडिवज्जिऊण पालेसु नियरज्जं ॥

अह न कारिस्ससि एवं सील-व्वट्ठो मुणि व्व सुकयस्स ।

पाविहिसि परिव्वभंसं इमस्स सत्तंग-रज्जस्स ॥

किं च मए तुभ हियं विचिंतयंतेण पेसिओ दूओ ।

अन्नह अतक्किओ चिय अहं करिंतो तुह विणासं ॥

इय दूय-वयणमायन्निऊण दसणाग-दद-ओद-पुडो ।

अप्पाणमयार्णंतो कयंबराओ भणइ दूयं ॥

तुभ पहू किं बालो ? किं मत्तो ? किं च वायसुत्तो सो ? ।

जो सयल-रिउ-भुयंगम-गरुडं न वियाणइ ममं पि ॥

गुण-दोस-वियार-खमा किं तस्स न संति मंतिणो के वि ? ।

जेहिं नलो न निसिद्धो असमंजस-जंपिरो एवं ॥

भो दूय ! गच्छ जइ तुह' सामी निय-जीवियस्स निव्विन्नो ता होउ
समर-सज्जो; अहं पि दूय ! आगओ एसो ।

दूएणवि आगंतुं नलस्स कहियं कयंब-वज्जरियं ।

तस्सोवरि सो कुविओ चलिओ चउरंग-बल-कलिओ ॥

पत्तो तक्खसिलाए समंतओ वेढिया अणेणोसा ।

पायारो व्व दुइज्जो विहिओ कुंजर-परिक्खेवो ॥

तं असहंतो संनहिऊण निग्गओ बाहिं कयंबो । विविह-पहरण-किरण-
दुगुणिय-दिण-मणि-पहा-पसरं सर-नियर-रुद्ध-नह-मंडलं मंडलग-संघट्ट-समु-
च्छलिय-सिहि-सिहा-भासुरं सुर-सिद्ध-जक्ख-पिक्खिज्जंत-नच्चंत-कबंध-निवहं
वहंत-रुहिर-वाहिणी-कमलायमाण-भड-मत्थयं दोहिं वि बलेहिं पारद्धं जुद्धं ।
नलेण भणिओ कयंबो—मारिएहिं किमिमेहिं किमि-प्पाएहिं पाइक्केहिं ? ।
अहं तुमं च दो वि जुज्झामो । तओ जंगम-गिरिणो व्व पवत्ता दो वि बाहु-
जुद्धाएहिं जुज्झुं । जं जं जुद्धं कयंबेण मग्गिओ नलो तत्थ तत्थ नलेण नि-
ज्जिओ सो । तओ पलाइऊण पडिवन्न-संजमो ठिओ पडिमाए कयंबो । दिट्ठो
नलेण, भणिओ य-निज्जिओऽहं तुमए इमिणा सब्बरिएण, ता करेसु निय-रज्जं ।
निरीहत्तणेण नलोऽनिलो व्व असारो त्ति उवेक्खिओ कयंबेण । कयंब-सत्त-
रंजिय-मणेण नलेण कयंब-पुत्तो जयसत्ती नाम कओ कयंबरज्जे ।

विणहुस्स व नलस्स भरहद्ध-रज्जाभिसेओ कओ नरिदेहिं । पए पए भ-
त्ति-कुसल-राय-कोसलीय-वडुंत-कोसो कोसलाए समागओ गयणचरंगणा-ग-
ण-गिज्जंत-बलो नलो विविह-विणोएहिं दमयंतीए समं रमतो गमेइ कालं ।
कूबरो पुण निय-कुलंगारो रज्ज-लुद्धो नलस्स छलं गवेसंतो चिट्ठइ । चंदस्स व
लंछणं भवियव्वया-वसेण जायं नलस्स जूय-वसणं, जिणेमि रज्जं नलं ति

चित्ततो कूबरो रमावेह निबं । डमरूय-गंठिमिव संचरंते जा दुण्हं पि जूएण
रमंताणं गओ बहुय-कालो । अन्नया नियइ-वसेण नलेण जिण्डं न सक्किओ
कूबरो । पडिओ नाणुकूलो नलस्स दक्खस्स वि कंखिओ अक्खो । पुणो पुणो
नल-सार-मारणं कुणह कूरो कूबरो । नगर-गाम-खेड-कत्त्वडाईणि हाराविओ
नलो कूबरेण । तलाओ व्व गिम्हे जलेण जाओ हीयमाणो नलो विह्वेण ।
विसन्नो जणो जूयंघले नले । संपज्जमाण-मणोरहो हरिसिओ कूबरो । नलाणु-
रत्तेण लोएण कओ हाहारवो । तं सुच्चा समागया दमयंती ।

सा जंपइ नाह ! पसीय मज्झ पत्थेभि सुंच जूयमिणं ।

नणु वसण-दाण-दक्खा अक्खा तुह वेरिणो व्व इमे ॥

लहु-बंधुणो वरं कूवरस्स रज्जं इमं सयं देहि ।

एस हह-हरिय-रज्जो त्ति अत्तणो मा कुरु अकित्ति ॥

जुद्धेहिं अज्जियं जं रज्जं तं हारियं व जूएण ।

सित्थं व असोत्त-गयं मज्झ मणं देव दूमेइ ॥

तव्वयणमंकुसं मय-गलो व्व मत्तो नलो न म्मेइ ।

तीइ भणिया अमच्चा जूयाओ नलं नियत्तेइ ॥

तेहिं पि बहुं भणिओ तहवि नियत्तो नलो न जूयाओ ।

न हि सन्निवाय-गहियस्स ओसहं किं पि संभवइ ॥

हारिय-समग-रज्जो हारिय-दमयंति-पसुह-सुद्धंतो ।

हारिय-सरीर-परिहिय-सयलाभरणो नलो राया ॥

भणिओ य कूबरेणं मह रज्जं सुंच इत्थ मा चिट्ठ ।

तुह रज्जं दिन्नं पिउणा, अक्खेहिं पुणो मज्झ ॥

पवल-भुय-बलाणं भइ ! लच्छी न दूरे

परिहर मयमेवं कूबरं जंपमाणो ।

परिहिय-पड-रित्थो पत्थिओ सो पहिट्ठो

न हि विधुर-सहावा हुंति दुत्थे वि धीरा ॥

नलाणुमग-लग्गा दमयंती निसिद्धा कूबरेण । मयच्छि ! मा गच्छ तुमं,
मए जूए जिघाऽसि त्ति मे सुद्धंतं अलंकरेसु । तओ मंतीहिं वुत्तो कूबरो । पर-
पुरिस-च्छायं पि न छिवइ महा-सइ दमयंती । ता मा इमं खिवसु निय-अंते-
उरे । जओ जेइ-भाउणो भज्जा जणणि व्व दट्ठवा ।

अहं जइ हृदये एवं काहिसि तत्तो तुमं सई एसा ।

छारुक्कुरुडं कारिही सईण न हि दुक्करं किं पि ॥

ता इमं सईं कोविज्जण मा पडसु अणत्थे । एसा खु भत्तारमणुसरंती उच्छाहिज्जइ, किं पुण निवारिज्जइ ? । अलं ते नलं पइ गाम-खेडाइ-दाणेण । समप्पेहि पाहेय-सहियं ससारहिं रहमेक्कं । एवं अमच्च-भणिण्ण कूबरेण विसज्जि-या नलेण सह दमयंती । समप्पिओ जहुत्त-रहो । नलेण वुत्तं—जेण मए भरह-द्ध-विज्जओवज्जिया वज्जिया लीलाए लच्छी तस्स मे किं रहेण ? । पहाणेहिं भणिओ नलो—चिरसेवए वि अम्हे तुमं अणुगच्छंते निवारेइ कूबरो ।

किं च—

इह वंसे जो राया तं सेवामो त्ति एस अम्ह कमो ।

तुमए विइन्न-रज्जं ता मुंचामो कहं एअं ? ॥

संपयं दमयंती चेव तुह भज्जा मंती मित्तं पाइक्को य । एसा सिरीस-कु-सुम-सूमाल-सरीरा सूर-कर-नियर-संतत्त-रेणु-कण-हुग्गमे मग्गे कहं कमल-को-मलेहिं चलणेहिं चंकमिहि त्ति ? । ता नाह । गिण्ह रहं । अणुगिण्ह अम्हे । दे-वीए समं समारोह इत्थ । एवं पहाणेहिं पत्थिओ पत्थिओ रहमारुहिज्जण दमयंतीए सह नलो । पहाणुज्जयं व एग-वत्थं दमयंतिं दट्टूण बाह-बि-दु-दु-गुणिय-हाराहिं रोइयं नगर-नारीहिं । वचंतेण नलेण नयरि-मज्झे दिट्ठो हत्थ-पंच-सय-प्पमाणो खंभो । रज्ज-भंसुब्भवं दुक्खं अमुणंतेणेव कोडणेण कयली-खंभो व्व करेण उक्खओ लीलाए । उक्खाय-पडिरोव-ख्वं राय-व्वयं व दंसयंतेण पुणो वि आरोविओ तत्थेव । इमं दट्टूण जंपियं नायरेहिं—अहो ! बल-सालिणो वि नलस्स रज्ज-व्वंसो त्ति विचित्तो विहि-निओगो । पुव्वं नय-रुज्जाणे कूबरेण सह कीलंतस्स नलस्स समागओ दिव्व-नाण-नयणो मुणी । काहियं तेण—भावी भरह-दाहिणद्ध-सामी नलो । सो य चालइस्सइ नयर-म-ज्ज-द्धियं हत्थ-पंच-सय-प्पमाणं थंभं । एयं उभयं पि मिलियं दिट्ठं अम्हेहिं निय-नयणेहिं । जं पुण नले जीवंते वि कोसलाए अन्नो राया संजाओ तं विसं-वयइ । अहवा न अन्नहा मुणिवयणं ति । जइ पुण न नंदिस्सइ कूबरो , नलो चेव भविस्सइ एत्थ पत्थिवो । एवं लोय-संलावं सुणंतो रुयंतीए दमयंतीए बाह-सल्लिलेण सिचंत-संदणो नयरीओ निग्गओ नलो । भणिया नलेण भीम-पुत्ती—देवि ! कत्थ वचामो ? । तीए वुत्तं—देव ! गच्छ कुंडिणपुरं तत्थ पाहूणो हो-ऊण अणुगिण्ह मे तायं । तओ नलाएसेण सारहिणा चोइया कुंडिणाभिमुहं

रह-तुरंगा । कमेण घुरघुरंत-घोर-चग्ध-वितत्य-पंथ-चूहं, रउइ-सइ-सइल-संहरि-
य-हरिण-जूहं विस-विसम-विसप्पंत-सप्प-भीसणं सुणिज्जंत-सावय-निवह-
नीसणं अरन्नं पत्तो नलो । तत्थ रुद्धो कर-घरिय-घनु-चाण-सिल्लेहिं भिल्लेहिं ।
रहं सुत्तूण इक्को ताण संसुहो करेण करवालं नच्चावयंतो नलो । सीहस्स व सि-
यालेसुं को तुह इमेसु अवत्तेवो ? , भरहद्ध-विजय-लच्छी-विलास-भवणं ते
किवाणो किं न लज्जए इमेसु पसु-पोएसु पहरंतो ? त्ति भणंतीए भुयाए
घरिओ रहं सुत्तूण दमयंतीए नलो । सुक्का दमयंतीए सील-माहप्प-डुस्सहा
हुंकारा । हरिण व्व हरि-गुंजहितेहिं पणट्ठा दिसो-दिसं भिल्ला । भिल्ल-पिट्ठओ
नलेण समं गया दमयंती दूरं ।

एत्तो य अन्न-भिल्लेहिं रह-वरो तत्थ ताण अवहरिओ ।

कि कुणइ पुरिसयारो पुरिसस्स विहिम्मि विचरीए ॥

तम्मि अरन्ने वेत्तुं दमयंतीए करं निय-करेण ।

कर-गहणूसव-समयं सुमरावंतो नलो चलिओ ॥

दव्वभग्ग-भिन्न-कोमल-कम-कमल-झरंत-रुहिर-विंदूहिं ।

दमयंतीए तमरन्नमिंदगोवंकियं व करं ॥

रज्जमि पट्ट-बंधो दमयंतीए सिरंमि जो आसि ।

निय-पड-खंडेहिं नलेण सो कओ संपइ पएसु ॥

दमयंतिं दुम-मूले निसन्नमद्धाण-गमण-खिन्न-तणुं ।

निय-परिहाणंचल-वीयणेहिं वीएइ नल-राओ ॥

पाएइ नलो सलिलं पत्त-पुडि आणिऊण तं तिसियं ।

सा पुच्छइ नलमज्जवि गंतव्वं कित्तियमरन्नं ॥

नलेण बुत्तं—देवि ! जोयण-सयं अरन्नमेयं । अज्जवि पंच-जोयणाहं लंघि-
याहं । धीरा होहि । एवमुल्लवंताणं ताणं पट्टे वचंताणं पडियारं काउं असक्को
अक्को लज्जंतो व निल्लद्धो अत्थगिरि-सिहरं । काणणेसु कंकेल्लि-पल्लवेहि विहिओ
पसत्थो सत्थरो नलेण । भणिया दमयंती—देवि ! सुविऊण एत्थ देहि दिन्न-
दुक्ख-मुद्दाए निद्दाए अवसरं । अलं आर्यक-संकाए । अहं ते पाहरिओ त्ति
खित्तं सत्थरे नलेण निय-निवसणद्धं । वंदिऊण देवं अरहंतं सरिऊण पंच-पर-
मिद्धि-भंतं पसुत्ता तत्थ दमयंती । निद्दायंतीए तीए नलेण चित्तियं—

जेसिं ससुरो सरणं लहंति पुरिसा न ते पुरिस-लीहं ।

दमयंतीइ पिइ-हरं ता कह वच्चामि निव्वभग्गो ? ॥

काऊण कुलिस-कढिणं हिययं मुत्तुं पियं पि दमयंति ।

रंको व्व कहिं वि अन्नत्थ जामि वेत्तूण अत्ताणं ॥

दमयंतीह अवाओ न कोवि सील-प्पभावओ होही ।

सच्चंग-रक्खण-करं कवयं सीलं चिय सईणं ॥

तओ छुरिएण छिन्नं वसणडं । दमयंती-वत्थंचले लिहियाइं निय-रुहिरेण अक्खराइं ।

वड-रक्खह दाहिण-दिसिहिं जाइ विदग्भिहि मग्गु ।

वाम-दिसिहि पुण कोसलिहि जहिं रूइ तहिं लग्गु ॥

अहं पुण अन्नत्थ वच्चिस्सं । तओ असइं रुयंतो व्व निहुय-क्कमो गंतुं पयट्ठो नलो । पिय-पणइणिं पसुत्तं वलिय-कंधरं पलोयंतो गंतूण केत्तियं पि भूमि-भागं चित्तिडं पवत्तो । आहारत्थी पसुत्तं वालं एयं अणाहं वग्घो सिघो वा जह भक्खेज्ज ता मे का गइ ? । अओ सूरुगमं जाव रक्खामि एयं । पच्चूसे वच्चउ एसा स-इच्छाए त्ति । तओ पडियरित्थो पुरिसो व्व नियत्तो तेहिं चेव पएहि नलो । भूमि-सुत्तं दइण दमयंति चित्तियं तेण—हा ! दमयंती एग-वत्था एगागिणी सुवइ सुत्तारत्ते । अहो ! नलस्स अंतैउरं असुरियं-पस्सं । मम कम्म-दोसेण इमं अवत्थं गया एसा कमल-लोयणा ता किं करेमि हयासोइहं ? । अणाहं पिब पिययमं महि-वीढ-लुट्ठियं पिच्छंतो वि जं न निच्छज्जो विलज्जामि ता नूणं वज्ज-घडिओ म्हि । एसा अरत्ते मए मुक्का पडिवुद्धा समानी मम पाडिसिद्धीए जीविएणावि मुच्चिस्सइ । ता पइ-व्वयं एयं मुत्तूण अन्नत्थ न गंतु उच्छहइ मे मणं । जीवियं मरणं वा मे इमीए समं होउ । अहवा अवाय-सय-संकुले अरत्ते अहमेव इह-भायणं होमि । एसा पुण वत्थ-लिहियं ममाएसं सुणंती गंतूण स-यण-भवणे सुहेण चिट्ठिस्सइ एवं कय-विच्छओ गमिऊण रयणिं पिययमा-पडिवोह-समए तिरोहिओ तुरिय-पय-क्खेवं नलो । उच्चिइ-कमलामोय-सुरहि-समीराभिरामे रयणी-विरामे दमयंतीए दिट्ठो सुविणो । आरूढाइहं फल-फुल्ल-मण-हरे चूय-पायवे । भक्खियाइं मए तस्स पेसलाइं फलाइं सहस त्ति वण-हत्थिणा उम्मूलिओ सो तो पडिया अहं अंडं व पक्खिणो खोणी-यले । तओ पडिवुद्धा दमयंती नलं अपेच्छिऊण जूह-ग्मट्ठा हरिणि व्व दिसाओ पलोयंती चित्तिडं पवत्ता । हा ! अच्चाहियं पडियं, जं अरत्ते असरणा पिएण विमुक्क म्हि । अहवा पहाए मह वयण-सुद्धि-सलिलाणयणत्थं कत्थ वि जलासए गओ भविस्सइ पिययमो । अहवा निरूवम-रूव-लुट्ठाए

कीए वि खेयरीए रमणत्थं नीओ भविस्सइ नलो । ते दुमा ते पव्वया तं चारन्नं,
एक्को चेव चंद-सुंदर-मुहो न दीसइ नलो एवं अणप्प-वियप्प-पज्जाडल-मणा
कय-दिसालोया नलं अपेच्छंती भीया सुविणत्थं भाविडं पवत्ता । जो चूय-
दुमो पुप्फ-फल-समिद्धो सो नलो राया । जं मए फलासाओ कओ तं रज्ज-
सुह-भाणणं । जं च सो वण-हत्थिणा उम्मूलिओ तं दिव्वेण रज्ज-व्वंसं लहा-
विओ नलो । जं पुण पडिय म्हि तत्तो तं नलाओ चुक्क म्हि । तो इमिणा
सुविणेण दुल्लहं मे दंसणं ति ।

ता रोविडं पवत्ता दमयंती मुक्क-कंठमुच्च-सरं ।

कायर-मणाण हत्थीण धीरिमा होइ नहि वसणे ॥

हा नाह ! किं तएऽहं चत्ता ? किं तुज्झ होमि भार-करी ? ।

नहि भोगिणो कयाचि हु निय-कंचुलिया कुणइ भारं ॥

भो वण-देवयाओ पत्थेमि तुब्भे, दंसेह मे पाण-नाहं । तस्स पय-पंकएहिं
पवित्तिथं पहं वा । अहवा पक्क-वालुंकं व फुट्टेहि धरणि ! जेण तव्विवरेण पवि-
सिऊण पायाले पावेमि निच्चुइं । एवं विलवंती बाहजल-सारणीहिं अरन्न-दुमे
सिंचंती नलं विणा जले थले कत्थ वि रइं अपावंती सिचयंचले अक्खराइं
दहूण दमयंती वियसंत-वयणा वाएइ । नूणं पिययमेण चत्ताऽहं देहमित्तेण न
चित्तेण । कहं अन्नहा आएस-दाणेण अणुग्गहिय म्हि ? । ता गुरु-वयणं व
पहणो आणं कुणंतीए मे निम्मलो इह लोओ । अओ वव्वामि पिडणो घरं ।
जं पहणो भवणं तं पइं विणा पराभव-भवणं चेय नारीणं ति निच्छिऊण च-
लिया वड-दुमस्स दाहिण-दिसा-मग्गेण । नलं व पासट्ठियं पिच्छंती नलक्ख-
राणि । तीए विमल-सील-प्पभावेण पहवंति कदा नोवइवा ।

तहा हि—

कोव-वस-सज्जिय-नखो वि कुडिल-दाढा-कडप्प-दुप्पिच्छो ।

पंचाणणो न सक्को समीव-देसं पि अक्कमिडं ॥

मय-गंध-लुच्च-रोलंब-टोल-बहिरिय-समग्ग-दिस-चक्कं ।

तडुविय करं कुद्धं पि करि-कुलं दूरमोसरइ ॥

धूम-ज्झामलिय-दिसो महंत-जालोलिहिय-गयणग्गो ।

पासमपत्तो विज्झाइ वण-दवो अकय-संतावो ।

विप्फारिय-फार-फणा-फुक्कार-विमुक्क-विस-कणुक्केरा ।

पसरंत-रोस-विवसा वि विसहरा पहरिडं न खमा ॥

दिट्टि-प्पयाण-मत्तेण पडिहयाणप्प-दप्प-माहप्पा ।

रक्खस-भूय-प्पमुहा परंमुहा जंति दूरेण ॥

अह पह-परिस्सम-सलिल-धोय-गत्ताए कंटयाइ-विद्ध-पाय-तल-द्वारंत-
रुहिराए धूलि-धूसर-सरीर-च्छवीए तीए दिट्टो महंतो सत्थो । चिंतियं च-अहो !
अरन्न-नित्थरण-कारणं दिट्टो मए पुत्रोदएण पसत्थो सत्थो । सत्थी-डूआ किंचि
जाव ताव सब्बओ विविहाउह-भयंकरेहिं तक्करेहिं रुद्धो सत्थो । संतत्था तत्थ
लोया । तीए भणिया मा बीहेह त्ति हक्किया तक्करा-अरे दुरायारा ! मए रक्खिज्जंतं
मा लूडेह सत्थं, अन्नहा पाविस्सह अणत्थं । तहवि न विरमंति चोरा । तओ तीए
सील-प्पभाव-दुस्सहा विमुक्का हुंकारा । तेहिं घणु-गुण-दंकारेहिं वायस व्व पणट्ठा
चोरा । सत्थ-लोएण भणियं—अम्ह पुत्राओ ठिया कावि देवया एसा । जीए
चोरेहिंतो रक्खिओ सत्थो । सत्थ-वाहो जणाणि व तं पणमिऊण पुच्छए—
देवि ! काऽसि तुमं ?, किं वा अरन्ने परिब्भमसि ? । कहिओ तीए ख्यतीए
तस्स बंधवस्सेव सब्बो निय-वुत्ततो । तेण वुत्तं—महा-राय-नलस्स पत्ति त्ति
मे पूयणिज्जासि । तुमए तक्करेहिंतो रक्खंतीए उवयार-क्किणिओऽहं । ता पवि-
त्तेहि ममावासं ति भणिऊण दमयंती नीया नीयावासं । तं देवयं व आराहए
सत्थ-वाहो । एत्थंतरे गरुय-गज्जि-भरिय-वंभंड-भंडो आखंडल-कोयंड-दंडो
सिहंडि-मंडलाबद्ध-तंडवो घण-पडल-पडच्छन्न-नह-मंडवो निरंतरासार-सीयलो
सलिल-प्पवाह-मंडिय-मही-यलो पयट्टो पाउसो । जाया ति-रत्तं निरंतरा बुट्ठी ।
सुहं ठिया तत्थ दमयंती । विरयाए बुट्ठीए मुत्तूण सत्थं पत्थिया एसा । पि-
च्छए पिंग-केसं गिरिं व दावानल-पलित्तं जलयं व काल-कायं कयंतं व कय-
दुइय-रुवं कत्तिया-कराल-करं घणं व विज्जु-च्छडाडोव-भीसणं रक्खसं ।
भणियं अणेण—सत्त-रत्त-द्धियस्स मे भक्खमुवलद्धियं ता तुमं भक्खिस्सं ।
तीए भणियं—भइ ! जायस्स जंतुणो धुवो मच्चू । अकयत्थस्स मच्चु-भयं ।
अहं पुण मूलाओ देव-गुरु-भत्तीए कयत्था । नत्थि मे मच्चु-भयं । किं च—

विविह-दुह-दूमिआहं मरणं पत्थेमि दुक्ख-मोक्ख-कए ।

नल-विरहानल-दड्डं च मं तुमं खाहिसि सुहेण ॥

ता भक्ख किं विलंबसि ? एस मए तुज्झ अप्पिओ अप्पा ।

मरणं विणा दुहाणं जलंजली जायए कत्तो ? ॥

तओ धीरयाए तुट्टो रक्खसो । भणियं तेण—भइ ! तुट्टो म्हि । किं ते
पियं करेमि ? । तीए वुत्तं—जइ तुट्टो सि ता कहेसु कया मे पह-संगमो होहि

ति । विभंग-बलेण नाऊण अक्खियं रक्खसेण । पवास-दिवसाओ आरब्भ
संपुत्ते बारसे वरिसे पिउ-भवण-ट्टियाए सयमेव मिलिस्सह ते नलो । पुणोवि
तेण बुत्तं—किं इमिणा मग्ग-खेएण ? जइ भणसि ता निमेष-मित्तेण तुमं
ताय-मंदिरं पराणेमि । तीए बुत्तं—कयत्थाऽहं नल-संगम-ऋद्दणेण । नाहं पर-
पुरिसेण समं वच्चामि । वच तुमं सट्ठाणे । पहा-पुंज-भासुरं सुर-सरीरं दंसिऊण
तिरोहिओ रक्खसो । वारस-वरिसियं पट्टणो पवासं सुणिऊण गहिया दमयं-
तीए नियमा । रत्त-वत्थाहं तंबूलं भूसणाहं विलेवणं विगईओ न गिण्हस्सं, न
जाव मिलेह नलो । तओ तिब्ब-त्तव-च्चरण-परा पारणाए वीथ-रहिय-फल-विहिय-
पाण-विच्ची चित्त-ट्टियं संतिनाह-पडिमं झायंती दमयंती गंतूणं गिरि-गुहाए
ठिया । सत्थ-वाहो सत्थ-मज्झे तं अ-दट्टूण संभंत-चित्तो गयेसंतो आगओ
गिरि-गुहं । ज्ञाण-समत्तीए संभासिओ सो तीए । ताण संलावं सोऊण संपत्ता
तत्थ के वि तावसा । ठिया हरिणि व्व निबल-कन्ना । इत्थंतरे थूल-धाराहिं वरि-
स्सिउं पयट्ठो मेहो । सर-धोरणीहिं व धाराहिं ताडिज्जंतेहिं तावसेहिं जंपियं—
संपयं पय-प्पवंच-वंचणत्थं कत्थ वच्चामो ? । संजाय-दयाए दमयंतीए भणियं—
भइ ! मा बीहेह । काऊण तेसि चउदिसि कुंडयं कया सील-सावणा—जइ
मे सीलं अखंडियं ता कुंडयाओ वाहिं वरिसेउ मेहो । तओ छत्त-च्छत्त व्व
कुंडए न निवडियं सलीलं । अन्नत्थ पत्थरावि पलाविया पडंत-पय-पूरेण । तं
दट्टूण विम्हिय-मणेहिं जंपियं अणेहिं । अहो ! न माणुसीए एरिसं ख्वं । नवा
एरिसी सती । ता नूणं का वि देवया एसा । सत्थवाहेण बुत्तं—किं तुमं
झाएसि ? । किं वा निब्भया चिट्ठसि ? । तीए बुत्तं—अहं अरहंतं देवं झाएमि ।
तप्पभावओ नत्थि मे भयं । देव-गुरु-धम्म-सख्वं सवित्थरं कहिऊण कराविओ
जिण-धम्म-पडिवत्ति सत्थ-वाहो । तावसा वि संपत्त-खीर-पाणकं जियं व निय-
धम्मं निर्दंता पवत्ता जिण-धम्मं । तत्थ सत्थ-वाहेण करावियं पुरं । तं च पंच-
सयाहं तावसाणं इत्थ पडिबुद्धाहं ति 'तावसपुरं' ति पसिद्धं । तत्थ निम्मावियं
संतिनाह-पडिमा-भण-हरं जिण-हरं । सब्बे वि जिण-धम्म-परा कालं वोळंति ।
अन्नया निसीहे सेल-सिहरे उग्गमंत-रवि-पहा-पूर व्व उज्जोओ दिट्ठो दमयं-
तीए । दिट्ठा य उप्पयंत-निवयंता देवा । तेसि जय-जयारावेण जग्गिया जणा ।
तेहिं समं समारूढा दमयंती पव्वयं । तत्थ सिंहकेसरि-साहुणो कया केवलु-
प्पत्ति-महिमा अमरेहिं । वंदिऊण तं सुणि पुरो निसण्णा सब्बे । इओ य तस्स
केवलिणो गुरु जसभदो नाम तत्थागओ । सो वि केवलिणं नमिऊण निसन्नो ।

कथा केवलिणा असार-संसार-सरूव-परूवण-परा धम्म-देसणा । एत्थंतरे तत्था-
गओ गयणमुज्जोयंतो देवो । केवलिनं नमिऊण भणिया तेण दमयंती—भद्दे !
इहेव तवोवणे कुल-वइणो सीसो तिब्ब-तव-चरण-तप्परो कप्परो नाम अह-
मासि । पंचग्गि-साहगो वि नाहिनंदिओ तावसेहिं । तओ तेसु पसरंत-रोसो
पत्थिओ अन्नत्थ । नीरंध-तिमिर-निरुद्धाए निसाए वचंतो निवडिओ गिरि-
कंदरे । गिरि-दंतग्ग-लग्गा भग्गा मे दंता । दंत-भंग-पीडा-पर-वसो तत्थेव पडि-
ओ । ठिओ सत्त-रत्तं । तावसेहिं दुस्सुविणस्सेव तस्स वत्तावि न कया, किं पुण
पडीयारो ? । विसेसओ भुयंगे व गेहाओ निग्गए तवोवणाओ तम्मि तावसाणं
सुहं संजायं । सोवि तावसेसु विसेसुल्लसंत-रोसो मरिऊण तत्थेव तावसारन्ने
समुप्पन्नो पन्नगो । कथाइ कय-फण-कडप्पो पहाविओ अहं तुह डसणत्थं ।
तुमए वि मं दट्ठण पडिओ परभिट्ठि-भंतो । तेण मे कन्न-गोथरं गएण रुद्धा गई ।
पुणो वि पविट्ठो विलं । अन्नया तए तावसाणं कहिज्जंतं धम्मं सुणेमि ।

जो कोह-माण-माया-लोहाणुगओ करेइ पाणि-वहं ।

सो पर-भवमि पावइ जीवो तिक्खाइं दुक्खाइं ॥

तओ चित्तिर्यं मए—हा ! कहं भविस्सं ? , जो जीव-वहेण चैव जीवामि ।
इमे य मए तावसा कहिंचि दिट्ठ-पुव्व त्ति ऊहापोहं कुणंतस्स मे जायं जाइ-
सरणं । संवेग-पुव्वं पुव्व-दुक्खाइं गरहंतेण कयं मए अणसणं । मरिऊण सोऽहं
सोहम्मे समुप्पन्नो कुसुमप्पहो नाम देवो । तुह धम्म-वयण-सवणाओ समुवलद्धं
सुरत्तणं ति उवगारिणिं तुमं दट्ठुमागओऽहं । ता धम्म-पुत्तो अहं ते । भणिया
य तेण तावसा—खमह मह पुव्व-कोवाचरणं । पालेह पुव्व-पडिवन्नं साव-
य-व्वयं । तं च सप्प-कलेवरं गिरि-कंदराओ कड्डिऊण ओलंबियं पायवे । भणियं
च—जो कोह कोवं करेज्ज सो कप्परो व्व सप्पो पर-भवे हवेज्ज त्ति । तओ
संविग्ग-चित्तेण कुलवइणा भणिओ केवली—भयवं ! देहि मे दिक्खं । केव-
लिणा वुत्तं—एस जसभइ-शुरू दिक्खिस्सइ तुमं । पुणो वि जंपियं कुलवइणा-
कहं तए पडिवन्ना दिक्खा ? । केवलिणा कहियं—कोसलाए नयरीए कूबरस्स
नंदणो अहं । भंगा-नयरी-साम्मिणा केसरिणा, दिन्ना मे बंधुमई नाम निय-धूया ।
जणयाएसेण गंतूण परिणीया सा मए । तीए सह नियत्तंतेण दिट्ठो मग्गे
समोसरिओ एस आयरिओ । वंदिओ परम-भत्तीए सुया सवणामय-सारणी
तस्स देसणा । पुच्छिओ य—भयवं ! कित्तिर्यं मे जीवियं ? । दिन्नावोगेण
वागरियं शुरुणा—वच्छ ! पंचेव दिवसाइं । तओ मए मरणमासन्नं मुणिऊण

भणियं—भयवं ! धेव-जीविओऽहं किं करेमि संपयं ? । संपत्तमणुकंपेण
शुक्का बुत्तं—वच्छ ! मा गच्छ खेयं । पडिवज्ज पव्वज्जं । जओ एग-दिवसं पि
एसा सग्गापवग्गकारणं । तओऽहं पवन्नो दिक्खं । गुरु-निओगेण आगओ
एत्थ । सुक्कझाणानलेण दडु-कम्मिधणो पत्तो केवलं । एवं कहिज्जण कय-जोग-
निरोहो खविय-भवोवग्गाहि-कम्मो सिंहकेसरी गओ मोक्खं । कओ केवलि-
सरीरस्स सुरेहिं सक्कारो । पडिवन्ना कुल-वङ्गाणा जसमद्-सूरि-पासे पव्वज्जा ।
दमयंतीए भणिओ सूरी—ममावि देहि दिक्खं । सूरिणा भणियं—भदे !
शुत्तव्वा तए नलेण सह भोगा । अओ नारिहसि तुमं दिक्खं । पहाए पव्व-
याओ उत्तरिज्जण सूरी गओ तावसपुरं । एवं धम्म-पसत्ता मलिण-गत्ता सत्त-
संबच्छराहं ठिया गिरिशुहाए दमयंती । अन्नया आयन्नियं तीए जहा—दम-
यंति ! दिट्ठो मए अमुग्ग-प्पएसे तुह पइ त्ति पहिय-चयणं । तओ समुप्पन्नपरि-
ओसा निग्गया शुहाओ सा । पहाविद्या वयणाणुसारेण । गया दूरं । पडिया
अरत्ते । नलं अपिच्छंती रोविडं पवत्ता । हा ! किं करेमि ? कत्थ वा जामि ?
त्ति विलवंती तं चेव गिरि-शुहं गंतुमारब्धा । दिट्ठा पसारिय-मुहीए भक्खिस्सा-
मिति भणंतीए रक्खसीए । तीए वि न सक्किया सील-प्पभावओ भक्खिवडं ।
सुविण-दिट्ठ व्व तिरोहिया रक्खसी । अग्गओ गच्छंतीए तीए दिट्ठा निज्जला
नई । पिवास-पिडियाए पपिह-पहारेण सील-प्पभावओ उप्पाइयं तत्थ पाणियं ।
पाऊण तं पत्थिया पुरओ । परिस्संता वीसंता नग्गोह-तरु-तले । दिट्ठा सत्थ-
पुरिसेहि । भणिया य—भदे ! का तुमं देवि व्व दीससि ? । तीए बुत्तं—
माणुसी अहं सत्थ-परिव्वभट्ठाऽरत्ते संचरामि । दंसेहि मे तावसपुर-मगं । तेहिं
बुत्तं—अग्गे पाणियाणयणत्थं इत्थागया । अत्थ-गिरि-मत्थय-त्थे अक्के न सक्केमो
ते मगं दंसिडं । जइ पुण अग्गेहिं सह आगच्छसि ता सत्थेण समं तुमं किं
पि पट्ठणं पराणेमो । गया सा तेहिं सह सत्थे । तत्थ दट्ठूण धणदेव-सत्थ-वाहेण
पुच्छिया—कासि तुमं ? । तीए बुत्तं—वणिय-पुत्ती अहं पिइ-हरं पत्थिया
अरत्ते पसुत्ता परिचत्ता भत्तुणा । बंधवेहिं व तुह पुरिसेहिं सहागया । सत्थ-
वाहेण बुत्तं—अहं अचलपुरं गच्छिस्सं ता तुमं पि आगच्छ वच्छे ! । पुप्फं
व पयत्तेण नइस्सं तुमं । तओ आरोविद्या पहान-वाहणं सा । पत्थिओ सत्थ-
वाहो । आवासिओ वियसिय-दुम-कुसुम-ससुल्लसिय-पराग-पुंजे गिरि-निक्कुंजे ।
निसाए सत्थिएण पडिज्जंतो पंच-नमोक्कारो सुओ दमयंतीए । तीए बुत्तो
सत्थवाहो—जो नमुक्कारं पढइ सो सावओ साहम्मिओ मे, तं दडुमिच्छामि ।

सो वि जणउ व्व वच्छलो तं धेत्तूण तत्थेव गओ । दिट्ठो सावओ पडलिहियं
तमाल-दल-नीलं जिण-बिंबं वंदंतो । दमयंतीए वि वंदियं बिंबं । कय-सावय-
वंदणाए पुच्छिओ—भो ! कस्स तित्थयरस्स बिंबमेयं ? । तेण वुत्तं—सुण, धरणी-
रमणी-भणी-कंचीए कंचीए नयरीए वत्थव्वो वाणिओऽहं । तत्थ अन्नया नाण-
जुत्तो धम्मगुत्तो नाम समागओ साहू । वंदिऊण पुच्छिओ सो मए—कया मे
निव्वुई ? । तेण वुत्तं—देव-लोयाओ चूओ मिहिलापुरीए पसन्नचंदो राया
होऊण एगुणवीस-तित्थयरस्स मल्लिनाहस्स पासे पडिवन्न-संजमो सिञ्झि-
हिसि । तप्पभिइ समुपन्ना मे मल्लीनाहे भत्ती । पुज्जेमि पडिलिहियमेयं
मल्लिनाहस्स बिंबं । तेण वि पुच्छियाए दमयंतीए कहिओ निय-वुत्तंतो । तेण
वुत्तं—जणओ व ते एस सत्थवाहो अहं च भाया ता न कायव्वो तए खेओ ।
पहाए पत्तो सत्थवाहो अचलपुरं । तत्थ मुत्तूण दमयंतिं गओ अन्नत्थ । एसा
तिसिया पविट्ठा नगर-वावीए । जल-देवय व्व दिट्ठा इत्थीहिं ।

तीए य वाम-चलणो गहिओ गोहाइ सलिल-तीरंमि ।

निय-जाइ-संगम-कए दुक्खे दुक्खं धुवं एइ ॥

तीए पडिओ नमोक्कारो । तप्पभावओ मुब्बो पाओ गोहाए । सा पर्यं
पाऊण निग्गया वावीओ । निसन्ना विसन्न-मणा वावी-तडे । तत्थत्थि रिउ-
पन्नग-सुपन्नो रिउपन्नो राया । तस्स चंदुज्जल-जसा चंदजसा देवी । तीए
दासीहिं दिट्ठा दमयंती । अब्बंत-सुंदरि त्ति विम्बिह्यहिं ताहिं कहिया देवीए ।
तीए वि आणाविया अप्पणो पासे । दट्ठूण दमयंतिं, अहो ! महुरिमा रूवस्स
त्ति भणंतीए आलिंगिया गाढं । दमयंती वि निवडिया चलणेसु देवीए । भणिया
य—भेइ ! कासि तुमं ? । वणिय-पुत्ती भत्तुणा अहं अरत्ते चत्त त्ति कहियं
तीए । देवीए वुत्तं—पुत्ति व्व चंदवई निच्चिता चिट्ठ मह धरे । देवी वि पुर-परि-
सरे पइदिणं दीणाणाहाईण दवावए दाणं । अन्नया दमयंतीए भणिया देवी—
जइ पुण मे भत्ता भोयणत्थं इत्थागच्छेज्ज ता अहं देमि दाण-सालाए दाणं ।
निउत्ता सा देवीए । दइयं दट्ठु-मणा देइ दाणं । पुच्छए अत्थि-जणं किमेरिस-
रूवो पुरिसो दिट्ठो तुब्भेहिं त्ति । अन्न-दिणे दाण-साला-ठिया पिच्छए तलारेहिं
निज्जंतं वडं चोरं । पुच्छए सा तलारे—किमिमिणा विणासियं ? त्ति । तेहिं
कहियं—चंदवईए रयण-करंडिया हरिया अणेण, ता हणिज्जइ एसो । चोरो वि
दंत-गहियंगुली नमिऊण दमयंतिं भणइ—देवि ! मिळ्ळवेहि मं तुहः सरणमा-
गओऽहं । दयावंतीए दमयंतीए कया सील-सावणा । सील-प्पभावेण तुइ

तक्करस्स बंधा । विरलीह्वा तलारा । इमं वुत्तंतं सोऊण समागओ तत्थ राया भणइ दमयंति—वच्छे ! किमेयमजुत्तं कयं तुमए ? । नहि तक्करो रक्खिखंडं जुज्जइ । जओ रायधम्मो इमो, जं दुट्ट-निग्गहो सिट्ठ-पालणं च । जइ पुण इमं न कीरइ ता सब्बत्थ अब्बत्थाए मच्छ-संतिओ नाओ पयट्ठइ । दमयंतीए विन्नत्तं—देव ! दया-पर-वस-मणाए मए एवं कयं ता खमियन्वो मे इमो अवराहो । जओ दुट्ट-रोगो व्व इमस्स पीडा संकंता मे मणे । तओ सुफ़ो तक्करो रत्ता । सो वि तुमं मे माय त्ति जंपंतो पइदिणं पणमेइ दमयंति । अन्नया पुच्छिओ सो तीए—को तुमं ?, कत्तो वा आगओऽसि ? । तेण कहियं—अहं तावसपुर-वासिणो वसंत-सत्थ-वाहस्स पिंगलो नाम दासो । जूयाइ-वसणासत्तेण मए वसंत-सत्थ-वाहस्स चैव भवणे खत्तं खणिऊण अवहरियं सार-दब्बं ।

धित्तूण तं स-हत्थे पाण-भएणं पहे पलायंतो ।

चोरेहिं लुंदिओ कित्तियं व कुसलं कुसीलाण ॥

इह आगंतूण मए पारब्धो सेविडं इमो राया ।

दहुं चंदवईए आहरण-करंडियं कहवि ॥

चलियं मह चित्तेणं तग्गहण-मणोरहो समुप्पन्नो ।

पाएण कुपुरिसाणं न सहावो अन्नहा होइ ॥

तं धित्तुं निक्खंतो पावरिय-तणू पडेण विडलेण ।

चोरो त्ति लक्खिओऽहं इंगिय-कुसलेण नरवइणा ॥

रायाएसेण बद्धो तलारेहिं अहं । वहत्थं निज्जंतेण मए दिट्ठा तुमं । पव्व-न्निजाणिऊण पवन्नाऽसि सरणं । मोइओ म्हि तुमए । किंच तावसपुराओ निग्गयाए तुमए सुक्क-भोयणो वसंत-सत्थ-वाहो ठिओ सत्त-रत्तं । जसभइ-सुरिणा सेस-जणेण य बुज्झविओ भुत्तो अट्टम-दिणे । कयाइ पहाण-पाहुडं धित्तूण गओ सत्थ-वाहो कूबरं दहुं । तेणावि तुट्टेण दिव्वं इमस्स छत्तादि-लंछियं तावसपुर-पहुत्तणं । सो वि तूर-रवाऊरिय-दियंतरो आगओ तावस-पुरं । पालए तत्थ रज्जं । दमयंतीए य पाव-पव्वय-वज्जं पवज्जं गहाविओ पिंगलो ।

अन्नया आयन्नियं भीमेण । जहा जूए जिणिऊण नलं अलंकरियं कूबरेण रज्जं । दमयंति धित्तूण पविट्ठो नलो महाडविं । न जाणिज्जइ कत्थ वि किं जीवइ ? मओ वा ? । तं सोऊण घोरंसु-सलिल-सिचंत-थण-भरा पक्खा पुप्फ-दंती । पेसिओ भीमेण तेसिं गवेसणत्थं । पहु-कज्ज-करण-पहुओ हरिमित्तो

नाम बडुओ । कमेण पत्तो अचलपुरे रिउपन्नस्स रत्तो पासं । पुच्छिओ चंद-
जसा-देवीए—कुसलं मम बहिणीए पुप्फदंतीए ? । बडुएण वुत्तं—निच्चं पि
कुसलं देवीए । किंतु नल-दमयंती-रज्ज-भंस-सवणाओ संजाओ देवीए महंतो
चित्त-संतावो । चंदजसाए वुत्तं—किं भणिसि ? त्ति । बडुएण कहिओ मूलाओ
नल-जूय-वुत्तंतो । तओ चंदजसं रुयंति दहुं परुत्तो राय-लोओ । सव्वं सोय-
निव्वमरं पिच्छिऊण छुहा-पीडिओ बडुओ गओ दाण-सालं । निविट्ठो तत्थ
भोयणत्थं । दाणाहिगारिणिं दमयंति उवलक्खिऊण समुप्पन्न-परिओसो पणओ
सो । देवि ! गिम्हे वीरुहाए व्व का एसा ते अपसत्था अवत्था ? दिट्ठिया
दिट्ठसि जीवंती । संपयं कुसलं सव्वेसिं । एवं जंपिऊण वीसरिय-छुहा-दुक्खो
गओ चंदजसा-समीवं । भणियमणेण—वच्चाविज्जसि, अत्थि ते दाणसालाए
दमयंती । तं सोऊण आगया तत्थ चंदजसा । तीए आलिं गिया गाढं दमयंती ।
भणियं च—धिद्धी मं जीए इयर-जण-विलक्खणेहिं सामुद्धिय-लक्खणेहिं
अक्खियावि नोवलक्खिया तुमं । वच्छे ! वच्छलावि अहं अत्ताणं गोविऊण
किं वंचिया तुमए ? । का वा ते लज्जा ममंतिए ? । कहेहि किं तुमए मुक्को-
नलो ? नलेण वा मुक्कासि ? । नूणं नलेण मुक्का तुमं । तुमं पि जइ वसण-वडियं
पहं परिब्वयसि ता धुवं रवी अवर-दिसाए उग्गमेज्जा । हा नल ! न लज्जसे
गुण-संचयं चयंतो एयं ? किं ते कुलोचियमिणं ? । गिण्हामि ते दुक्खं ।
किज्जामि उधारणं । खमेसु मे अवराहंजं नोवलक्खियासि । कत्थ वा फुरिय-
कंति-निलओ ते भाल-तिलओ । तओ निय-निट्ठीवणेण चंदजसाए परामुट्ठं
भाल-वट्ठं दमयंतीए ।

अक्को व्व मेह-मुक्को सुवन्न-पिंडो व्व अनल-उत्तिओ ।
दमयंतीए भाले तिलओ तो फुरिउमारओ ॥
अह देवयाइ पडिम व्व ण्हाविद्या निय-करेहिं देवीए ।
पवरंसुयाइ परिहाविऊण नीया निव-समीवे ॥
चंदजसा दमयंती य दोवि रत्तो सहाइ उवविट्ठा ।
तंमि समयंमि खूरो भुवण-पईवो गओ अत्थं ॥
तिमिरेण कज्जलेण व्व भायणं गयण-मंडलं भरियं ।
तह्वि न राय-सहाए वियंभिओ तिमिर-लेसो वि ॥
तो रत्ता वागरियं अत्थमिओ नणु रवी न इह दीवो ।
अत्थि न वा जलणो ता किमेस एवं विहुज्जोओ ? ॥

तओ देवीए दंसिओ सहजो पहा-पुंज-निलओ दमयंतीए भाल-तिलओ ।
 कोउगेण रत्ना निय-करेण पिहिओ । तओ गिरि-गुह व्व तिमिर-निव्वमरा जाया
 राय-सहा । ओसारिऊण पाणि पुच्छिया रत्ना रज्ज-भंसाइ-वत्तं । ओणय-मुहीए
 रुयंतीए तीए कहिया सब्बावि सा । रत्नावि निय-उत्तरिज्जेण नयणाइं परा-
 मुसंतेण भणियं—पुत्ति ! मा रुयसु । सुरासुरेसु वि पहवइ विही । एत्थंतरे
 तरणि-कर-णि[कर]तेय-प्पसरेण अमरेण परिसाए आगंतूण कयंजलिणा भणिया
 दमयंती—अहं तुहाएसेण पिगलो चोरो चारित्तं घित्तूण विहरंतो गओ ताव-
 सपुरं । तत्थ मसाणे ठिओ पडिमाए । चियानलेण डज्जंतो घम्म-ज्झाण-परो
 परमेट्ठि-मंतं सुमरंतो पुव्व-पावाइं गरहंतो गओ पंचत्तं । संजाओ पहा-पसर-भा-
 सुरो सुरो । अवहिणा सुणिय-पुव्व-भवो जीविय-रक्खणेण पव्वज्जा-पडिवज्जा-
 वणेण उवगारिणिं तुमं दट्ठमागओ । ता चिरं नंद तुमं ति । तओ सत्त कणय-
 कोडीओ वरिसिऊण तिरोहिओ देवो । एवं देवेण दंसियं सुकय-फलं पच्चक्खं
 पिक्खंतो पवन्नो रिउवन्नो जिणधम्मे । समए विन्नत्तो वड्डएण एसो—देव !
 विसज्जेह दमयंतिं पिह-हरं । चंदजसाए वि वुत्तं—एवं होउ त्ति । तओ रिउ-
 वन्नेण रत्ना विसज्जिया चउरंग-बल-कलिया चलिया दमयंती । तं आगच्छंतिं
 सोऊण सिणेह-तंतु-संदाणिओ निग्गओ पुप्फदंतीए समं संमुहो भीम-भूवईं ।
 जणणि-जणए दट्ठूण तुह-चित्ता मुत्तूण वाहणं निवड्डिया पाएसु तेसिं दमयंती ।

ताण घणुक्कंठाणं चिराओ मिलियाण नयण-नीरेण ।

निवडंतेण समंता महीयले कहमं जायं ॥

जउण व्व जणहु-कन्नं जणणिं आलिंकिऊण दमयंती ।

लग्गूण जणणि-कंठे विमुक्क-कंठे चिरं रुयइ ॥

तो वयण-पंकयाइं जलेण पक्खालिऊण विमलेण ।

अखिलं पि सुक्ख-दुक्खं परोप्परं जंपियं तेहिं ॥

अह भणइ पुप्फदंती अंकं आरोविऊण दमयंतिं ।

दिट्ठासि जं जियंती तं सुकयं जग्गए अम्ह ॥

अम्ह घरे अच्छंती सुहेण पिच्छिहिसि निय-पइं वच्छे ! ।

चिरकालाउ वि पावइ भदाइं जणो हि जीवंतो ॥

तुट्ठेण रत्ना दिन्नाइं बड्डयस्स गाम-पंच-सयाइं । नगरे गंतूण दमयंती आ-
 गय त्ति सत्त दिणाणि कया विसेसओ देव-गुरु-पूया । अट्ठम-दिणे भणिया
 दमयंती—तहा करिस्सं जहा सिग्घं ते नल-संगमो भविस्सइ त्ति ।

तया य दमयन्ति मुत्तूण रत्ने परिभ्रमन्तेण नलेण दिट्ठो वण-निशुंजाओ संजाओ धूमो । जो भमर-माला-सामलो उड्डं वड्डंतो गिरि व्व अच्छिन्न-प-क्खो अंतरिक्षे रिक्खंतो लक्खिज्जइ । निमेष-मित्तेण जो फुरंत-जाला-करालो जलहरो व्व महीयलुच्छलिय-विज्जु-पुंज-पिंजरो नज्जइ । तओ पसरिय-डज्जंत-वंस-तडयडारवो विविह-सावयक्कंद-भेरवो कय-दुमोवइवो पलित्तो दवो । तत्थ इक्खागु-कुल-कमल-भत्तंड-मंडल नल ! रक्ख ममं ति सद्दो सुओ नलेण । निक्कारण-करुणा-पहाणत्तेण सहाणुसारओ वच्चतेण दिट्ठो 'रक्ख रक्ख' त्ति भणंतो वणभन्तरे भुर्यंगमो । कहं मे नामं कुलं वा वियाणइ इमो ? कहं वा सप्पस्स भाणुसी भास ? त्ति, विम्भिय-खित्त-चित्तेण तस्स कड्डणत्थं खित्त-मुत्तरिज्जं । तं च भूविल्लगं वेडियं निय-भोगेण भोगिणा । रज्जु व्व कूवाड कड्डिऊण वण-दवाविसए पएसे पन्नगं मुत्तुकामो तेण डक्को करे नलो । तं भूर्यंगं भूयले खिविऊण भणियं नलेण—साह्हु कयं कयल्लुणा तुमए जं ममोवगारिणो एवमुवगारियं । सच्चं खु एयं जो खीरं पाएइ सो वि डसिज्जइ तुइ जाइए । एवमुल्लवंतस्स नलस्स विसप्पंतेण सप्प-विसेण सजीवं चावं व जायं खुज्जं सरीरं । पिसाओ व्व कविल-केसो करहो व्व लंबोट्टो रंको व्व सुहुम-पाणिपाओ गणवइ व्व लंबोयरो संपन्नो नलो । ब्रीभच्छ-सव्व-गतं अत्ताणं पिच्छिऊण चित्तियं नलेण—अहो ! इमिणा रूवेण मुहा मे जीवियं, ता परलोओवयारिणि पव्वज्जं पव्वज्जामि । एवं चिंता-पवन्नस्स नलस्स पन्नगो संपत्तो पसरंत-पहामंडलो लसंत-मणि-कुंडलो सुरो । भणियं अणेण—परिच्चय विसायं, तुह पिया अहं निसहो । तथा तुह रज्जं दाऊण पडिवन्न-पव्वज्जो मरिऊण समु-प्पन्नो बंमलोए देवो । अवहिनाणेण मुणिया मए इमा ते अवत्था । अओ मए मायाए भूर्यंग-रूवं काऊण खय-खार-क्खेवो व्व दुइसा-पडियस्स ते सरीरे विरइयं विरूवत्तणं, तं च कड्ड-ओसह-पाणं व उवगारगं ति चित्तियव्वं तए । जओ किं करीकया तुमए सव्वे वि रायाणो ते विरूवत्तेण अणुवलक्खिज्जं तुमं नोवड्विस्संति । पव्वज्जा-मणोरहं पि संपयं मा करेसु, अज्ज वि भुत्तव्वा तित्तिया तुमए मही । अहं च्चेव चारित्त-पडिवत्ति-समयं ते कहिस्सं, तथा गिण्हेसु बिल्लमेयं रयण-करंडयं च धरेसु जत्तेण । जया थ सरूवमप्पणो इच्छसि तथा फोडेज्ज बिल्लं पेच्छिहिसि तस्स मज्झे देवदूसाइं, उघाडिज्ज रयण-करंडयं तत्थ पलोइहिसि हार-प्पमुहाहरणाइं । तेहिं देवदूसेहिं आहरणेहिं य परिहिएहिं पाविहिसि तक्खणेण निय-रूवं । नलेण पुच्छिओ देवो दमयन्तीए बुत्तंतं । सई-

त्तण-पहाणो कहिओ तेण सब्बो । भणिओ देवेण नलो—किमेवं अरण्णे परि-
 ष्ममसि ? पराणेमि तुमं तत्थ, जत्थ गंतुमिच्छसि । नलेण वुत्तं—सुंसुमा-
 रपुरे पराणेसु मं । तओ तहा काऊण देवो गओ सुरलोयं । नलो वि तन्नग-
 रुज्जाण-भूसणे जिण-भवणे पणमिऊण नमिनाहं पत्तो सुंसुमार-पुर-दुवारं ।
 तत्थ उम्मूलियालाणक्खंभो पवण-फरिसे वि धूणियासणो उवरि संचरंते स-
 कुंते वि करेण कहुंतो भंजंतो तरुवणं वियरिओ मत्त-हत्थी । तत्थ दहिवन्नेण
 रत्ता पायारमारुहिऊण भणियं—जो एयं मत्त-कुंजरं वसीकरेइ तस्स जं मग्गियं
 संपयच्छामि । नलखुज्जेण वुत्तं—कत्थ सो मत्त-मयगलो जेण अहं वसीक-
 रेमि । एवं भणंतस्स खुज्जस्स घणो व्व गज्जंतो तं पएसमागओ गओ । जवेण
 तं पइ पहाविओ खुज्जो । करि-कराघाय-वंचण-कुसलेण अग्गओ पच्छओ
 पासओ य संचरंतेण तेण नीओ परिस्समं करी । गरुडो व्व उप्पइऊण आरू-
 ढो तस्स खंधे । पुव्वासणे ठाऊण कलावे खिविऊण चलणे आहओ कुंभत्थले
 चवेडाए । कर-कलियंकुसेण वाहीओ करी खुज्जेण । उग्घुट्ठो जयजयारवो
 जणेण । दिन्नं रत्ता सुवणण-सिंखलं । वसं नेऊण नीओ नलेण आलाण-क्खंभं
 वारणो । तओ उत्तरिऊण अकय-पणामो दहिवन्नस्स रत्तो आसत्ते निसत्तो नलो ।
 रत्ता भणिओ—भो खुज्ज ! अत्थि हत्थि-सिक्खा-वियक्खणं किमन्नं पि वि-
 न्नाणं ते ? । खुज्जेण भणियं—किमन्नं कहेमि, जइ सूरियपागं रसवइं दट्टु-
 मिच्छसि, ता करेमि । तओ रत्ता गंतूण गेहं खुज्जस्स समप्पियं मुग्ग-तंदु-
 ल-साग-वेसवार-प्पमुहं । सूरतावे थालीओ भुत्तूण सूरविज्जं सरंतेण खुज्जेण
 कथा दिव्वा रसवइं । कप्प-रुक्ख-दिन्नं पिव मणुन्नं तं रसवइं भुत्तो सपरिवारो
 राया । जंपियं रत्ता—अहो ! रसवइंए पाग-पगरिसो, अहो ! रस-महुरिमा,
 अहो ! विसेस-पेसलया, अहो ! सन्विदि-उवयारित्तणं । एरिसं रसवइं नलो
 चेव जाणइ तओ नलं सेवंतस्स मे परिचिया चिरं एसा । ता किं तुमं नलो सि
 खुज्ज !?, नवा विरूवो एरिसो नलो, कहं वा जोयण-सय-दुगंतरियस्स तस्सा-
 गमो ? कत्तो वा भरहद्धसामिणो तस्स एगागित्तणं ? । तओ तुट्ठेण रत्ता दि-
 न्नाइं खुज्जस्स वत्थालंकरणाइं टंक-लक्खं गामाणं च पंचसयाइं । से सब्बंपि
 गहियं खुज्जेण । न गहियाइं गामाण पंचसयाइं । रत्ता वुत्तो खुज्जो—किमन्नं पि
 किंचि ते दिज्जइ ? । खुज्जेण जंपियं—जइ एवं पारखिं मज्जं च नियरज्जेसु निवा-
 रेसु । रत्तावि तव्वयण-बहुमाणाओ तहेव कयं । अन्नया रत्ता पुच्छिओ खुज्जो—
 दमयंमं ? कत्तो वा आगओ ? खुज्जेण जंपियं—कोसलाए नलरायस्स सूय-

धारो हुंङ्ङिओ नामाहं । तस्स पासे सिक्खिआओ कलाओ । नलो कूबरेण वंधु-
णा जिणिओ रज्जं, दमयंतिं धित्तूण पवन्नो अरन्नं । विवन्नो तत्थेव नलो । तओ
अहं आगओ तुह समीवं, न उण अगुणह्णणो कवड-कूवस्स कूबरस्स पासे ठिओ ।

तो दहिवन्न-नरिंदो सोऊण नलस्स भरण-भुत्तंतं ।

तं सोयं संपत्तो पारिज्जइ जो न कहिउं पि ॥

दमयंती-पिउ-पासे दहिवन्न-निवेण अन्नया दूओ ।

केणावि कारणेण पट्टविओ मित्त-वित्तीए ॥

भीमेण सक्कारिओ दूओ । कयावि पत्थावे पत्थिवस्स पुरओ जंपियं
दूएण—मम सामिणो समीवे नलस्स सूयकारो अत्थि, नलोवएसओ सो मुणइ
सूरपागं रसवइं । तं सोऊण दमयंतीए जंपिओ पिया—ताय ! पणिहिं पेसिऊण
जाणाहि, केरिसो सूवयारो । नलं विणा न याणइ सूरपायं रसवइं । जइ पुण
गोवियप्पा नलो चेव हविज्ज एसो ।

तो सामि-कज्ज-कुसलो कुसलो नामेण पेसिओ विप्पो ।

दहिवन्न-सूवयारस्स रुव-जाणण-कए रत्ता ॥

सो सुंसुमारनयरे पत्तो सुह-सउण-दुगुणि-उच्छाहो ।

खुज्जं दट्टं तस्संतिए निसन्नो विसन्नो अ ॥

कुसलो चित्तेइ इमं कत्थ नलो कत्थ खुज्जओ एसो ।

जं मेरु-सरिसवाणं अंतरमेसिं पि तं चेव ॥

तओ चित्ते किं पि संपहारिऊण कुसलो दुहयं गाएइ—

निट्ठुरु निक्खिउ काउरिसु एकु जि नलु न हु अंति ।

मुक्क महासई जेण विणि निसि सुत्ती दमयंती ॥

तं पुणो पुणो गिज्जमाणं सोऊण दमयंतिं संभरंतो गलंतं सुजलो परुओ
नलो । ' किं रुयसि त्ति ? ' पुच्छिओ कुसलेण । खुज्जेण जंपियं—करुणरस-
संगयं गीयं ते सुणिऊण रुवामि । खुज्जेण पुच्छिओ सो ईहियत्थं । नल-जूयाओ
आरब्भ विदब्भाए दमयंती-गमण-पज्जंता कहिया कहा कुसलेण । पुणो वि बुत्तं
विप्पेण—खुज्ज ! दहिवन्नस्स रत्तो दूएण भीमरायस्स अगगओ सूरपाग-सूवयारो
त्ति कहिओ तुमं । सूरपाग-पच्चलो नलो चेव त्ति चिंतंतीए दमयंतीए जणयम-
वत्थिऊण पेसिओ अहं ते दंसणत्थं । तुमं दट्टूण चिंतियं मए—कत्थ अब-
त्थममणुज्जो खुज्जो, कत्थ वा सव्वंगोवंग-पेसलो नलो, कत्थ कवलिय-तिमि-
कुडवंगो वगो, कत्थ वा कय-जणाणंदो चंदो । तहा ममागच्छंतस्स संसुहो

सउण-संघाओ संजाओ सो वि निष्फलो, जं तुमं न होसि नलो । दमयंती-
पिम्म-परवसेण खुज्जेण नीओ निय-गेहं विप्पो ।

जओ—

जत्थ जणो वसइ पिओ तीए दिसाए समागओ संतो ।

काओ वि कुणइ हरिसं किं पुण पिय-पेसिओ पुरिसो ॥

महासईए दमयंतीए महापुरिसस्स नलस्स य कहंतस्स ते किं सागयं
कीरड त्ति वुत्तूण कया भोयणाइ-पडिवती । दिन्नं दहिवन्न-दिन्नं आहरणं । तओ
पत्तो कुसलो कुसलेण कुंडिणपुरं । कहिओ भीमस्स मत्त-करि-वलीकरण-भूलो
सव्वो खुज्ज-वुत्तंतो । दमयंतीए वुत्तं—ताय ! नूणं नलो सो, किंतु केणावि
आहारदोसेण कम्मदोसेण वा विरूवो जाओ ।

करि-सिक्खा-कुसलत्तं, सूरियपागस्स करण-सामर्थ्यं ।

अच्चभुयं च दाणं नलं विणा नत्थि अन्नत्थ ॥

ताय ! केणावि उवाएण तं खुज्जं इहाणेसु, जेण तं सयं परिक्खेमि ।
भीमेण वुत्तं—पुत्ति ! अलियं सयंवरं पारंभेमि, हक्कारेमि दहिवन्नं । दहिवन्नो
पुव्वं पि ते लुद्धो आसि, परंतुमए नलो वरिओ । ता एण्हि तुह सयंवरं सुणि-
ऊण सिग्घमागमिस्सइ सो । तेण सह खुज्जो वि । जइ सो नलो ता तुमं अन्नस्स
दिज्जंति न सहिस्सइ । तहा तुरय-हिययन्नू नलो अत्थि, जइ सो खुज्जो नलो ता
रह-तुरय-पेरेणेण जाणियव्वो नलो त्ति । नलस्स पेरंतस्स पवण-तुल्ल-रया तुरया
हवन्ति । आसन्नं दिवसं कहिस्सं । जइ तत्थ आगमिस्सइ खुज्जो वेगेण सो नलो
नूणं । अन्नो वि थी-परिभवं न सहइ किं पुण नल-नरिदो । पेसिओ भीमेण
दहिवन्नस्स दूओ, कहिओ तेण चित्त-सुद्ध-पंचमीए दमयंती-सयंवरो । चित्तिंयं
दहिवन्नेण—अहिलसणीया मे दमयंती, परं दूर-देसे सा, पच्चूसे पंचमी, न तीरइ
तत्थ गंतुं, ता किं करेमि त्ति मीणो व्व थोय-जले पत्तो अरइं दहिवन्नो । खुज्जेण
चित्तिंयं—दमयंती महासई न पुरिसंतरमिच्छइ, इच्छेज्ज वा तहावि मइ विज्ज-
माणे को गिण्हेज्ज तं । ता तत्थ दहिवन्नं छहिं पहरेहिं नेमि, जेण अणेण सह
ममावि पसंगेण दंसणं होइ । खुज्जेण वुत्तो दहिवन्नो—किं तम्मसि तुमं ? कहेहि
कारणं । नहि अकहिय-रोगस्स रोगिणो चिगिच्छा कीरइ । रत्ता वुत्तं—संपन्नो
कय-सुरपुर-पवेस-भंगलो नलो, पुणो वि दमयंती संपयं सयंवरं करिस्सइ,
अत्थिमे दमयंतीए अहिलासो, दूरे विदग्धा, छवेव पहरा अंतरे, बहुय-दिवसेहि
आगओ दूओ, अहं पुण कहं इत्तिएण कालेण वच्चिस्सामि ? त्ति चिंताए न पावे-

मि निव्वुइं । खुज्जेण वुत्तं—जच्च-तुरय-जुत्तं अप्पेहि मे रहं, जेण पच्चूसे तत्थ तुमं नेमि । न सामन्न-पुरिसो एसो किंतु खेयरो सुरो व त्ति चित्तिज्जण समप्पिओ जहुत्त-रहो रत्ता । तं काज्जण पणुणं भणियो नलेण दहिवन्नो—आरोह रहं ।

राया थइयाइत्तो छत्तधरो दुन्नि चामरकरा य ।

आरूढा तंमि रहे पंच इमे, खुज्जओ छट्ठओ ॥

तं विळ्ळं च करंडं च कडियडे बंधिज्जण वत्थेण ।

कय-देव-गुरु-सुमरणो तुरंगमे खेडए खुज्जो ॥

हय-हियय-जाणएणं नलेण चोइज्जमाण-वर-तुरओ ।

गंतुं रहो पयदो पहु-चित्तेणं विमाणं व ॥

अह दहिवन्नस्स पडो पडिओ रह-वेग-पवण-उड्डुओ ।

तेण परिओस-वसओ नलस्स ओयारणं व कओ ॥

दहिवन्नेण कहियमेयं खुज्जस्स, हसिज्जण भणियं खुज्जेण—कत्थ पत्थिव ! अत्थि ते पडो ? पड-पडणाओ पंचवीसं जोयणाइं आगओ रहो । किंच मज्झिमा इमे तुरया, जइ पुण उत्तमा हवेज्ज, ता इत्तिएण कालेण चोइ-ज्जमाणा वर-पंचास-जोयणाइं रहो आगच्छेज्जा । दहिवन्नेण अक्ख-रूक्खं पिक्खिज्जण अक्खिज्जं—इत्थ अक्खे जत्तियाइं फलाइं चिट्ठंति अगणंतो वि तेसिं संखं जाणेमि अहं, नियत्तंतो ते कोउगं दंसिस्सं । खुज्जएण भणियं—मए सारहिंमि मा बीहेसु कालक्खेवाओ । एग-भुट्ठि-प्पहारेण पाडेमि सच्चाइं फलाइं तुह पुरओ । रत्ता वुत्तं—पेच्छ अच्छेरं, पाडेहि तुमं, चिट्ठंति अट्टारस-सहस्साइं फलाणं । तओ भुट्ठि-घाएण पाडियाइं ताइं खुज्जेण । गणियाइं दहि-वन्नेण, जाव तित्तियाइं चेव । दिन्ना दहिवन्नस्स पत्थिएण तुरय-हियय-विज्जा खुज्जेण । गहिया दहिवन्नाओ फल-संखा-विज्जा । पहाए कुंडिणपुरासन्ने पत्तो रहो वियसिय-वयण-कमलो संपन्नो दहिवन्नो । एत्थंतरे रयणी-विरामे दंमयतीए दिट्ठो सुविणओ । कहिओ विहि-पुव्वं पिउणो । जहा—दिट्ठा मए निव्वुइ-देवी आणेयंती इत्थ गयणे कोसल्लुज्जाणं । देवी-वयणेण पुप्फ-फल-कलियं आरूढा अहं चूय-पायवं । मम हत्थे समप्पियं पहाण-पउमं देवीए । पडिओ पुव्वारूढो झत्ति विहंगमो । भीमेण वुत्तं—पुत्ति ! सोहणो सुविणो । निव्वुइ-देवी ते पुन्न-रासी-जग्गिओ । कोसल्लुज्जाणं कोसला-रज्ज-लाभ-करं । मायंदारोहणं नल-संगम-कारणं । पुव्वारूढ-विहंगम-पडणं कूबरस्स रज्जबभंसो । पच्चूसे दिट्ठो त्ति अज्जेव ते मिलिस्सइ नलो । तयाणिं चेव पत्तो पुरदारं दहिवन्नो । कहिओ मंग-

लाभिहाण-पुरिसेण भीमस्स । झत्ति आगंतूण मित्तो व्व परिरंभिओ भीमेण । समप्पिओ पवरावासो । भोयणाइ-पडिबत्ति काऊण भणिओ भीमेण—अत्थि ते सूरपाग-सूवयारो, तं दंसेहि मे । आइदो दहिवन्नेण खुज्जो रसवइ-करणत्थं । तेण वि कप्प-रुक्खेणेव तक्खणे कया रसवई, दइवन्नोवरोहेण सुत्तो भीमो सपरिवारो तं रसवई । तस्सासाय-परिक्खणत्थं तवभत्त-भरियं थालं आणावि-ऊण सुत्तं दमयंतीए । रसासायणाउ य निच्छियं खुज्जो नलो त्ति । भणियं च तीए—पुव्वं नाणनिहिणा गुरुणा अक्खियं मे, नलं विणा सूरपागं अन्नो न याणइ भारहे । ता नूणं नलो चेव एसो । जं पुण खुज्जो तत्थ केणावि कारणेण होयव्वं । नलस्स एक्खा परिक्खा रसवई, अन्ना वि अत्थि । नलंगुलीए वि फरिसिया अहं पुलयालं किया होमि । ता अंगुलीए फरिसेउ मं खुज्जो । जइ पुण इमावि परिक्खा मिलइ, तओ खुज्जो पुच्छिओ—कि तुमं नलो ? तेण वुत्तं—कत्थ वित्थि-न्न-वच्छत्थलो नलो, कत्थाहं जण-नयण-दुक्खुज्जओ खुज्जओ । तइ वि गाढो-वरोहेण तेण फरिसियं दमयंतीए वच्छत्थलं अंगुलीए । तित्तिएणावि अंगुली-फरिसेणावि हियय-हरिसुक्करिसेण कक्कोडयं व जायं उक्कटयं दमयंतीए देहं । तथा सुत्ता अहं तुमए मुक्का, संपयं पाणनाह ! दिट्ठो सि, कहि वच्चसि ? त्ति भणंतीए तीए नीओ नलो भवणभंतरं । अब्भत्थिओ—पयासेसु सरूवं । तओ बिच्छा-ओ करंडाओ य वत्थालंकरणाइं परिहिऊण जाओ सरूवत्थो नलो । तं दइण तुट्ठचित्ता दमयंती वल्लि व्व पायवं सव्वंगमालिंगए गाढं । भीमेणावि नलो ना-ऊण निवेसिओ निय-सिंहासणे । सामी तुमं, ता समाइस कि करेमि ? त्ति भणं-तो ठिओ पुरओ कयंजली भीमो । दहिवन्नेण विन्नत्तो नलो । नाहो वि तुमं जं अन्नाणओ अणुचियं आणत्तो सि, तं खमेसु मे । दमयंतीए हक्काराविओ चं-दजसा-समेओ समागओ रिउपन्नो राया । तहा तावसपुर-पहू वसंत-सिरिसे-हरो । कया तेसि पडिबत्ती भीमेण । अन्नया सव्वेसि पि भीमसहाए डियाणं पत्तो पहाए पहा-पसर-डामरो अमरो । कयंजलिणा भणिया तेण दमयंती—अहं खु तावसवई, तुमए पडिबोहिओ, जिणघम्म-प्पभावेण भरिऊण सोहम्मो सूरु संजाओ त्ति । सत्त कणय-कोडीओ वरिसिऊण गओ सट्ठाणं । भीम-रिउपन्न-दहिवन्न-वसंत-प्पमुहेहि महीनाद्वेहि मिलिऊण रज्जे अहिसित्तो नलो । नलाए-सेण मेलियाइं तेहि निय-निय-बलाइं । तेहिं परिगओ गज्जंत-गरूय-मयगलो तुरय-खुर-क्खय-खोणी-रेणु-रुद्ध-नहयलो रह-चक्क-चिक्कार-उक्कंपियारि-चक्क-कन्न-जुयलो नलो संपत्तो कोसलापुरिं । दूयं पेसिऊण कहावियं कूवरस्स, जओ

तुह दंसणत्थमागओ नलो, पत्तो अउज्झाए परिसरे । समागयं सुणिऊण नलं
अनलालिं गिओ व्व जाओ महंत-संताव-कवलिय-कलेवरो कूबरो ।

वुत्तो नलेण एसो दूय-सुहेणं— मए समं जुज्झ ।

होउ मह तुज्झ लच्छी मह लच्छी वा हवह तुज्झ ॥

अह कूबरेण पुणरवि पारद्धं जुज्झ-भीरुणा जूयं ।

सो सुकयमंसलेणं नलेण हाराविओ सब्बं ॥

कूरो वि कूबरो सो मम लहु-बंधु त्ति कोव-रहिण ।

गुण-निम्मलेण विहिओ नलेण पुत्तं व्व जुवराओ ॥

लहिऊण नियं रज्जं दमयंती-संजुओ नलो राया ।

उक्कंठिओ नमंसह अउज्झ-नयरी-जिणहराहं ॥

कय-विविह-पाहुडेहिं नलो नरिंदिहिं नमिय-पय-कमलो ।

कुणइ भरहद्ध-रज्जं वरिस-सहस्ताहं बहुयाहं ॥

अन्न-दिणे सग्गाओ निसह-सुरो तेय-भासुरो पत्तो ।

विसय-सुह-सेवणारंभ-विबभलं भणेइ नलमेवं ॥

रागाइ-तक्करेहिं लुंटिज्जंतं विवेय-सव्वस्सं ।

जो अप्पणो वि रक्खसि न तुमं सो होसि पुरिसो किं ? ॥

पव्वज्जा-समयं ते कहिस्समिति जंपियं मए पुव्वं ।

ता संपइ माणुस-जम्म-दुम-फलं संजमं गिणह ॥

इय जंपिऊण देवो तिरोहिओ, अह समागओ तत्थ ।

जिणभदो नाम गुरू विमलावहिनाण-रयण-निही ॥

तो गंतुं दमयंती-सहिणण नलेण वंदिओ एसो ।

तह उवविसिडं पुरओ पंजलिणा पुच्छिओ एवं ॥

किं पुव्व-भवे भयवं ! अम्हेहिं कयं जमेरिसं रज्जं ।

लद्धूण हारियं अह पुणो वि लद्धं समगं पि ॥

गुरुणा भणियं—सुण सोम ! अत्थि एत्थेव जंबुदीवंमि ।

भारहवासे अट्टावयस्स गिरिणो समीवंमि ॥

निद्धं अदिट्ठ-पर-चक्क-संगरं अत्थि संगरं नगरं ।

तत्थासि विहिय-दिसि-रमणि-कम्मणो मम्मणो राया ॥

तस्स वीरमई देवी । कयाइ तीए सह पारद्धि-पत्थिण पत्थिवेण नगर-
बाहिं सत्थेण सह गच्छंतो धम्मो व्व सुत्तिमंतो पसंतो संतोस-प्पसुह-गुणावि-

सिद्धो दिद्धो मुणी । मिगया-महूसव-विग्घ-पउणो असउणो मे एसो त्ति चिंति-
तेण तेण कुंजरो व्व जूहाओ सत्थाओ धरिओ सो । नियत्तिऊण नीओ निय-
गेहं । बारस घडिआओ जाव विडंविओ । पच्छा पुच्छिओ समुच्छलिय-कारुणेण
रत्ता देवीए य—कत्तो तुमं आगओ, कत्थ वा पत्थिओसि ? । मुणिणा भणियं—
रोहीडयपुराओ अट्टावय-पव्वयावयंस-पडिंविवाणं जिणविंवाणं वंदणत्थं सत्थेण
सह पत्थिओऽहं । एवं मुणि-वयण-भंत-सवणेण विसं व विसहराणं वियलिओ
तेसिं कोवो । भइग-भावं नाऊण मुणिणा कहिओ जीव-दया-पहाणो धम्मो ।
आजम्माओ धम्मक्खरेहिं अविड्ड-कन्नाण ताण जाओ किंचि धम्म-परिणामो ।
पडिलाहिओ तेहिं साहू भत्त-पाणाइणा । धरिओ केत्तिअं पि कालं । ओसहं
व रोगीण तेसिं धम्म-विन्नाणं दाऊण तेहिं विसज्जिओ गओ मुणी अट्टावयं ।
एवं साहु-संसगगओ पडिवुद्धेहिं तेहिं दविणं व किवणेहिं जत्तओ पालियं
सावणत्तणं । अन्नया वीरमई धम्मथिरी-करणत्थं सासण-देवयाए नीया अट्टा-
वय-पव्वयं । तत्थ निय-निय-वन्न-प्पमाण-जुत्ताओ विविह-रयण-पज्जुत्ताओ
सुरासुर-विणिम्मिय-महिमाओ अरिहंत-पडिमाओ पेच्छिऊण परमं परिओ-
समावत्ता । वंदिऊण आगया तओ नियनयरं । सा य वीरमई महंतं तित्थ-
मेयं मए वंदियं ति सट्ठाए जिणं जिणं पडुच्च वीसं वीसं आर्यविलाइं करेइ ।

उवरि निवेसिय-माणिक्क-मणहरे कणग-निम्मिए तिलए ।

चउवीसं जिणपडिमाओ जुग्गे कारवइ वीरमई ॥

अन्न-दिणे अट्टावय-गिरिम्मि गंतुं इमा सपरिवारा ।

पूजं कुणइ जिणाणं पहवण-विलेवण-बलि-प्पमुहं ॥

जिण-पडिमाण निलाडेसु ताइं तिलयाइं ठवइ भत्तीए ।

तप्पुन्न-पायवस्स व जाइं विरायंति कुसुमाइं ॥

चारण-समणाइणं तित्थे तत्थागयाण दाऊण ।

दाणं जहारिहं सा इय कुणइ तवस्स उज्जवणं ॥

कय-किच्चं मणुय-भवं सहलं विहवं कयत्थमवि जीयं ।

मअंती वीरमई पुणो वि पत्ता नियं नयरं ॥

इय भिन्न-सरीराण वि तेसिं दोणहं अभिन्न-चित्ताणं ।

जिणधम्म-कय-भणाणं बहुओ कालो अइकंतो ॥

जीवाण मरण-धम्म-त्तणेण समए समाहि-भरणेण ।

मरिऊण मम्मण-निवो पत्तो सोहम्म-सुरलोयं ॥

अणुमरिडं वीरमई देवी तत्थेव मणहरा जाया ।
 अर्थग्यमि चंदे कियचिरं चिद्वए जुण्हा ॥
 तत्तो मम्मण-जीवो चविडं इह जंबुदीव-भरहंमि ।
 बहली-विसयालंकरण-कंकणे पोयणपुरम्मि ॥
 आभीर-धम्मिलासस्स रेणुया नामियाइ घरिणीए ।
 निम्मल-गुण-परिपुत्तो उप्पत्तो ' धन्नउत्ति सुओ ॥
 वीरमई जीवो पुण संजाया 'धूसरि'त्ति से घरिणी ।
 धत्तो निय-महिसीओ बाहिं गंतूण चारेइ ॥
 अह पाउसे पयट्टे घणे सुवुट्ठिं घणं कुणंतेसु ।
 महिसीण चारणत्थं सिरोवरिं छत्तयं घरिडं ॥
 धत्तो गओ अरत्ते तेण तहिं तिन्व-तव-किसो दिट्ठो ।
 काउस्सगेण ठिओ मुणी गिरिदो व्व निक्कपो ॥
 भत्तीएँ छत्तयं से सिरंमि घरिडं निवारियं इमिणा ।
 समणस्स बुट्ठि-कट्ठं, अह बुट्ठीए नियत्ताए ॥
 नमिऊण मुणी भणिओ धत्तेण—तुमं इहागओ कत्तो ? ।
 समणेण जंपियं—भइ ! पंडुदेसाड पत्तोहं ॥
 लंकापुरीइ चलिओ तत्थागय-निय-गुरूण नमणत्थं ।
 मेहेण सत्त रत्तं वरिसंतेणं नवरि रुद्धो ॥
 धत्तेण जंपियं—पंक-दुग्गमा णाह ! संपयं पुहवी ।
 तो चलसु नयर-मज्झे मज्झ इमं महिसमारुहिडं ॥
 मुणिणा भणियं—साहूण वाहणारोहणं अजुत्तं ति ।
 तो धन्नएण सहिओ साहू सणियं गओ नयरं ॥
 धत्तेण मुणी भणिओ—खणमेक्कं एत्थ चिट्ठ ताव तुमं ।
 धित्तूण जाव दुद्धं अहमागच्छामि गेहाओ ॥
 गंतूण गिहं धत्तो दुद्धं धित्तूण आगओ झत्ति ।
 भत्तीए कारिओ तेण महरिसी दुद्ध-पारणयं ॥
 धत्तेण सभज्जेणं मुणि-पासे सावगत्तणं गहियं ।
 तत्थेव पोयणपुरे वरिसा-कालं ठिओ साहू ॥
 पच्छा अन्नत्थ गओ धत्तो सह धूसरीए चिरकालं ।
 पालिय-सावग-धम्मो पडिवत्तो संजमं पच्छा ॥

सत्त वरिसाहँ तं पालिऊण धन्नो मओ सह पियाए ।
 जुयलत्तणेण जाओ हेमवए वासणा-वसओ ॥
 तत्तो मरिडं जाओ सो सोहम्मंमि खीरडिंडिरो ।
 देवो सा उण देवी तवभज्जा खीरडिंडिरा ॥
 चविऊण धन्नओ सो सोहम्माओ तुमं नलो जाओ ।
 नरनाह ! धूसरि चिय इमा पिया तुज्झ दमयंती ॥
 जं पुव्व-भवे दिन्नं मुणि-दाणं सावगत्तणं च कयं ।
 तस्स फलेण सुख्वं रज्जं च तए इमं पत्तं ॥
 एसा वि हु दमयंती तद्धम्म-फलेण तुह पिया जाया ।
 केण वि अगंजियप्पा विसेस-तव-तिलय-दाणेहिं ॥
 जं पुण वारस-घडिआ विडंवणा तस्स साहुणो विहिया ।
 तुम्हं रज्ज-वभंसो वारस-वरिसाहँ तं जाओ ॥
 इय गुरु-वयणं मुण्डिणं संवेगमुवागओ नलो राया ।
 पुत्तं पुक्खलनामं गुणाभिरामं ठवह रज्जे ॥
 दमयंतीएँ समेओ गहिडं दिक्खं नलो गुरु-समीवे ।
 पढह सुयं कुणह तवं परीसहे दुस्सहे सहह ॥
 अह कम्मस्स विचित्तत्तणओ रायस्स दुज्जयत्तणओ ।
 भोगत्थं दमयंतीह कुणह चित्तं नलो साह ॥
 तत्तो गुरुहिं चत्तो पिडणा पडिवोहिओ य आगंतुं ।
 परिपालिडं असक्को वयं इमो अणसणं कुणह ॥
 दमयंतीए वि कयं नलाणुरत्ताह तं तओ मरिडं ।
 जाओ नलो कुवेरो दमयंती तस्स पुण भज्जा ॥
 किंचि वय-विराहणओ नीय-सुरत्तं इमेहि संपत्तं ।
 दो वि खविऊण कम्मं कमेण मोक्खं लहिस्संति ॥

इति द्यूते नलकथा ।

एयं सोऊण भणियं रत्ता—भयवं ! न मए अक्खाह-जूएण कीलामेत्तं
 पि कायव्वं । गुरुणावुत्तं—महाराय ! जुत्तं तुम्हारिसाणं विणिज्जिय-अक्खाणं
 अक्ख-जूय-वज्जणं । मंतीहिं विन्नत्तो राया—देव ! देवेण ताव सयं परिचत्तं
 एयं, अओ सब्वत्थ रज्जे निवारिज्जओ त्ति । रत्ता वुत्तं—एवं करेह । 'आएसो

पमाणं ' ति भणंतैहिं तेहिं तद्देव कथं । गुरुणा भणियं—सव्वाणत्थ-निबंधणं
परिहरसु पर-रमणि-सेवणं ।

जओ—

कुलु कलंकित मल्लिउ माहप्पु,
मलिणीकय सयण-मुह,
दिन्नु हत्थु नियगुण-कडप्पह,
जगु ज्झंपिओ अवजसिण,
वसण-विहिय सन्निहिय अप्पह ।

दूरह वारिउ भहु तिणि ढक्किउ सुगइ-दुवारु ।
उभय-भवुवभड-दुक्ख-करु कामिउ जिण परदारु ॥
सरहस-नभिर-नरेसर-चूडा-चुंबिज्जमाण-चलणो वि ।
पर-महिलमहिलसंतो पज्जोओ बंधणं पत्तो ॥
रत्ता भणियं—भयवं ! कहमेयं ? तो पर्यपियं गुरुणा ।
मगह-विसयावयंसं रायगिहं अत्थि वर-नयरं ॥
पइगेहं विलसंते दट्टं गोरी-महेसरे जत्थ ।
कुड्डेण आगओ हिमगिरि व्व धवलो सहइ सालो ॥
तत्थ पणमंत-पत्थिव-मत्थय माणिक्क-चक्क-वाल्लेण ।
मसिणीकय-कम-नह-चंद-सेणिओ सेणिओ राया ॥
चउविह-वुद्धि-समिद्धो चउदिसि-साहण-पउत्त-चउ-नीई ।
चउ-भेय-संध-भत्तो पुत्तो तस्साभयकुमारो ॥
अह उज्जेणीपुरीए चउदस-नर-नाह-विहिय-पय-सेवो ।
रायगिह-रोहणत्थं पज्जोओ पत्थिवो चलिओ ॥
तं जाणिऊण इंतं भणइ निवो—अभय ! किमिह कायव्वं ? ।
अभओ भणइ—भयं मा करेसु, नासेमि से दप्पं ॥
तो अरि-सेना-वास-ठाणेसुं तंब-कलस-मज्झ-गया ।
दीणारा निक्खणिआ अभएण अणागयं चेव ॥
अह पत्तो पज्जोओ रुद्धं सिन्नेण तस्स राग्गिहं ।
ससि-बिंबं व परिहिणा, कइवि दिणे उज्झिया दो वि ॥
तो भणिओ पज्जोओ गूहनरे पेसिऊण-अभएण ।
सिचदेवि-चिच्छणाणं अहं विसेसं न म मि ॥

तेण तुह सेणियस्स य तुल्लत्तणओ भणामि हिय-वयणं ।
 मह पिउणा तुल्ल निवा वसीकया दव्व-दाणेण ॥
 ता बंधिऊण एए तुममप्पिस्संति सेणिय-निवस्स ।
 जह नत्थि पव्वओ तो निव-आवासे खणावेसु ॥

पज्जोएण तद्देव कयं, दिट्ठा दीणार-कलसा, सासंक-चित्तो नट्ठो पज्जोओ ।
 पच्छा सेणिएण निगंतूण पज्जोयस्स बलं विलोडियं । उल्लेणीए पत्तस्स पज्जो-
 यस्स सब्बे वि रायाणो भणंति—न एयस्स कारगा अम्हे, अभएण एसा माया
 कया, जं भणेह तेण दिव्वेण सुज्झामो । चित्तिं पज्जोएण—नूणं एवमेयं,
 अन्नहा कहं कहेइ अभओ मे सेणिय-मंतं । नहि तस्स सेणियाओ अहं सिणेह-
 गेहं । अन्नया अत्थाणीएण भणियं पज्जोएण—अत्थि को वि जो अभयं इहाणेज्ज ।
 तओ एगाए गणियाए भणियं—अहं आणेमि, नवरं दुन्नि वि इत्थिआओ
 नव-जुव्वणाओ मे दिज्जंतु । रत्ता दिन्ना ताओ । सिक्खियं ताहिं समं तीए
 संजईण समीवे कवड-सावियत्तणं । तओ वाहण-सामग्गीए थेर-पुरिस-परिगया
 गया सा रायगिहं । ठिया ताहिं उज्जाणे ।

सा गरुय-विभूर्हए पुरमज्जे चेइयाइ वंदंती ।
 राय-कराविचमच्चंत-मणहरं जिणहरं पत्ता ॥
 महुुर-सरेण पूया-पुरस्सरं तत्थ वंदए देवं ।
 तं मुक्क-भूसणं ताहिं परिगयं पेच्छए अभओ ॥
 जिण-वंदणावसाणे तं पुच्छइ—का तुमं ? इमा का वा ? ।
 कत्तो वा आगयाओ त्ति ? ओणय-मुही कहइ एसा ॥
 उल्लेणी-वत्थव्वा अहं महेव्वमस्स भारिया विहवा ।
 मम पुत्तय-घरिणीओ दो वि इमा देव्वजोगेण ॥
 पुत्ते मयम्मि मरणत्थिणीओ अम्हे शुरुस्स पयमूले ।
 नीयाओ सयणेहिं अम्ह कया देसणा शुरुणा ॥

लहरी-तरलं जीयं रूवं सुरिंद-धणूवमं धयवड-चलं लच्छि विज्जुछडा-चव-
 लं बलं सुविण-सरिसं नेहं देहं पईव-सिहा-समं मुणिय महमं सम्मं धम्मे ह्वेज्ज
 कउज्जमो । तं सोऊण संविग्गाओ विसय-सुह-विरत-चित्ताओ पव्वइउ-कामाओ
 अम्हे गहिय-पव्वज्जेहिं सिद्धंत-पढणेण न तीरंति चेइयाइ वंदिउं त्ति, तव्वंदणा-
 त्थं निग्गयाओ । अभएण भणियं—पाहुणिया होह । ताहिं वुत्तं—अव्वमत्त-

द्वियाओ अम्हे । धम्म-ऋहाहिं चिरं ठाऊण गयाओ सट्ठाणं । वीय-दिवसे अ-
भओ एक्कगो तुरयाख्खो गओ तासिं आवासे निमंतेउं । ताहिं बुत्तं—

जं आगओ सि सावय-सिरोमणी ! इत्थ अम्ह पारणए ।

जायाओ सयल-कल्लाण-भायणं तं धुवं अम्हे ॥

नहिं चिंता-रयणं चडइ कर-यले कहवि पुत्त-रहियस्स ।

किं वा कप्प-महीरूह-उप्पत्ती होइ गेहंमि ॥

ता करेह भोयणं । मए भोयणं अक्कुणंते इमाओ वि मे घरे न सुंजिहिं-
ति त्ति चिंततो तत्थ भुत्तो अभओ । ओसह-संजोइयं पाइओ महुं । तव्वसेण
सुत्तो सो । आस-रहेहिं आरोविऊण पाविओ सो उंज्जेणिं, उवणीओ पज्जोय-
स्स । भणिओ तेण—कत्थ ते पंडिच्चं । अभएण भणियं—धम्म-च्छलेण वंचि-
ओ म्हि । पज्जोएण भणिओ अभओ—मए अविस्सज्जिएण तुमए न गंतव्वं ति
देहि मे वायं । अभएण बुत्तं—एवं करिस्सं । इओ य सेणियस्स रत्तो विज्जा-
हरो मित्तो । तस्स मित्ती-थिरीकरणत्थं दिन्ना सेणिएण सेणा नाम निय-व-
हिणी । परिणिऊण विज्जाहरेण नीया निय-नगरं । सा य तस्स अचंत-वल्लहा ।
धरणि-गोयरी वि ख्वाइगुणेहिं अम्ह अब्भत्थिय त्ति असहंतीहिं विज्जाहरीहिं
मारिया सा । तीए य धूया सा तेण मा एसा वि मारिज्जिहिं त्ति सेणियस्स
उवणीया । तं जोव्वणत्थं परिणाविओ अभओ सेणिएण ।

सावि हु ख्वाइहिं अभयस्स अईव वल्लहा जाया ।

नहिं नियगुणे विमुत्तुं जयंमि अन्नं वसीकरणं ॥

तं विज्जाहर-धूयं दट्ठं न तरंति सेस-भज्जाओ ॥

तुच्छ-पयईण महिलाण भच्छरो होइ किं चोज्जं ॥

तओ ताहिं मार्यंमि ओलग्गिऊण आरोविओ इमीए 'रक्खसि' त्ति
कलंको । धिक्कार-पुव्वं नयराओ निस्सारिऊण सा परि-चत्ता । अरत्ते भमंती
दिट्ठा तावसेहिं । करुणाए पुच्छिआ—भदे ! कासि ? कत्तो वा तुमं ? । तीए
कहिओ निय-बुत्तंतो । ते य तावसा सेणियस्स पुव्वया, तेहिं अम्हं 'नत्तुय'
त्ति सा रक्खिआ । अन्नया उज्जेणीए नेऊण सिवाए समप्पिया सा विज्जा-
हर-धूया, पुव्व-भज्जा अभयस्स पज्जोएण अप्पिया । तीए समं वसइ अभओ ।
पज्जोयस्स चत्तारि रयणाणि—? लोहजंधो लेहारिओ, २ अग्गीभीरू रहो,
सो किर अग्गिणा न डज्झइ, ३ निलगिरी इत्थी, ४ सिवादेवि त्ति । अन्नया
सो लोहजंधो भरुयच्छं विसज्जिओ रत्तो समीवं । तेण रत्ता चिंतियं—एस

एग-दिवसेण एह पंचवीसं जोयणाहं, ता पुणो पुणो सद्दाविज्जामि । अओ एयं मारेमि, जो पुण अओ होही सो बहुएहिं दिवसेहिं एही, एचिरं पि कालं सुहेण चिट्ठामि । तओ तेण रत्ता तस्स संबलं दिन्नं । सो नेच्छइ तो विहीए दवा-वियं । तत्थ वि से विस-संजोइया मोयगा दिन्ना, सेसगं संबलं हरियं । सो कहवि जोयणाहं गंतूण नइ-तीरे शुत्तुमाढत्तो, जाव सउणो वारेइ । उट्ठित्ता पहाविओ गओ दूरं । पुणो वि शुंजंतो वारिओ सउणेण, एवं तइय-वारं पि वारिओ । तेण चित्तिंयं—भवियव्वं कारणेणं ति पज्जोयस्स पासं पत्तो, निवे-इयं राज-कज्जं । रत्ता पुच्छिओ—छुहिओ व्व तुमं दीससि । कहियं तेण भोयणाकरण-कारणं । अभओ वियक्खणो त्ति सद्दाविओ रत्ता । कहिऊण पुव्व-वुत्तंतं दंसिया संबलत्थइया । तं अग्घाइऊण अभओ भणइ—एत्थ दव्व-संजो-एण दिट्ठिविसो सप्पो समुच्छिमो जाओ । जइ उग्घाडियं होंतं संबलं तो दिट्ठिविसेण सप्पेण एसो ढसिओ होंतो । रत्ता वुत्तं—ता किं किज्जउ ? । अभएण भणियं—वण-निउंजे परंमुहो मुच्चउ । तहेव कयं ।

अहिणो दिट्ठिविसेणं वणाइं दड्ढाइं सज्जण-भणाइं ।

खल-वयण-दुव्वयणेण व मओ य सप्पो मुहुत्तेण ॥

तुट्ठो राया, भणिओ अभओ—बंधण-मोक्ख-वज्जं वरं वरेहि । अभओ भणइ—तुह चेव पासे अच्छउ वरो । अत्थि पज्जोयस्स धूया वासवदत्ता नाम । सा बहुयाओ कलाओ सिक्खविद्या । तीए गंधव्व-कला-जाणणत्थं गंधव्व-कला-कुसलं उदयणं आणेमि त्ति चिंतंतेण सुयमेयं—जहा उदयणो जत्थ हत्थि पेच्छइ तत्थ गायइ, जाव बद्धं पि अप्पाणं न थाणइ । तओ रत्ता जंतमओ हत्थी कारिओ । नीओ कोसंबी-समासन्ने रत्ते । ठावियं तस्स अदूरा-सन्ने सिन्नं । तं हत्थि सोऊण पत्तो उदयणो । पवत्तो गाइउं । हत्थीवि विय-रंतो गीय-परवसो व्व ठिओ निच्चलो । आढत्तो उदयणो तं आरोहिउं । बद्धो हत्थि-भज्ज-ठिय-पुरिसेहिं । सिन्नेण आणिओ पज्जोयण-सगासं । भणिओ रत्ता—मम धूया काणा तं सिक्खवेहि गीय-कलं, तं च मा पेच्छसु, सा तुमं ददूण मा लज्जउ त्ति । तीए वि कहियं—उवज्झाओ कोढिओ मा दच्छिसि त्ति । सो य जवणियंतरिओ तं सिक्खवेइ । सा तस्स सरेण हीरइ, कोढिओ त्ति न जोइयइ । अन्नया जइ पेच्छामि एयं ति चिंतंती अन्नहा पढइ । तेण रूहेण भणिया—किं काणे ! विणासेहि ? । सा भणिया—कोढिया ! अप्पाणं न थाणसि । तेण चित्तिंयं—जारिसो अहं कोढिओ तारिसी एसा काण त्ति जवणिया अवणीया ।

दिद्वो य तेण एसा रइ व्व रूवेण विहिय-परितोसा ।
 तीए वि हु सो दिद्वो पच्चक्खो कामदेवो व्व ॥
 तो चितियं च तेहिं हा अम्हे वंचियाइं हय-विहिणा ।
 अन्नोन्न-दंसणं जं न अम्ह एत्तिय-दिणाइं कयं ॥

जाओ तेसिं निविडो सिणिहो । जाणइ इमं कंचणमाला नाम रायधू-
 याए घाई । अन्नया आलाणक्खंभाओ निग्गओ नलगिरी । न तीरइ गिण्हइं ।
 रत्ता पुच्छिओ अभओ—कहं एस धिप्पिही ?! अभएण भणियं—उदयणो गा-
 यज, जेण तग्गीयायन्नण-निच्चलो सुहं धिप्पइ । रत्ता भणिओ उदयणो—गाय-
 सु तुमं । तेण वुत्तं—भइवइं करिणिं आरुहिज्जण जवणियंतरियाणि अहं दारिगा
 य गायामो । रत्ता वुत्तं—एवं करेह । तहेव कयं । संगहिओ हत्थी । बीओ
 दिद्वो रत्ता वरो । अभएण ठाविओ तस्सेव पासे । रायधूया गंधव्वे निम्माय त्ति
 सा तत्थ गायविज्जिही । अओ गओ पज्जोओ उज्जाणिगाए । भणाविओ उद-
 यणो—तुमए वासवदत्ताए समं तत्थागंतव्वं । उदयणस्स जोगंधराइणो अमच्चो,
 सो निय-पहु-सोयावणत्थं उम्मत्तगवेसणं पढइ—

“ यदि तां चैव तां चैव तां चैवायतलोचनाम् ।

न हरामि नृपस्थार्थे नाहं यौगंधरायणः ॥ ”

सो य पज्जोएण दिद्वो उद्धट्ठिओ कायिअं वोसिरंतो । अणायार-
 करो गहिलो त्ति उवेक्खिओ सो । भइवईए चत्तारि मुत्तघडियाओ विलइ-
 आओ । कच्छाए बज्झंतीए को वि सर-विसेसन्नू अंधलो भणइ—

“ कक्षायां बध्यमानायां यथा रसति हस्तिनी ।

योजनानां शतं गत्वा तथा प्राणान् विमोक्षयति ॥ ”

ताहे घोसवइं वीणं गहिज्जण वासवदत्ताए कंचनमालाए य समं भित्त-
 वसंतगेण सिंठेन भइवई-आरुडो उदयणो भणइ जण-समक्खं—

“ एषः प्रयाति सार्थः कांचनमाला वसंतकश्चैव ।

भद्रवती घोषवती वासवदत्ताऽप्युदयनश्च ॥ ”

जणो जाणइ—एस पज्जोयस्स पासे उज्जाणिगाए गच्छिस्सइ । न
 गओ तत्थ, पहाविआ हत्थिणी कोसंबी-संमुहं । इमं नाज्जण रत्ता आणत्ता भडा
 नलगिरिं आरुहिज्जण गिण्हइ उदयणं । जाव सो सन्नज्जइ ताव गओ उदयणो
 पंचवीसं जोयणाइं, सन्नद्धो नलगिरी लग्गो पिट्ठओ । अदूरागयं गयं द्दहूण
 भिन्ना एगा मुत्तघडिया, जाव तं हत्थिओ सिंघइ ताव अन्नाणि पंचवीस जो

यणाइं गओ उदयणो । एवं सेसाओ वि तिन्नि मुत्तघडियाओ भग्गाओ । कोसंबि पविट्ठो उदयणो । अन्नया उज्जेणीये उप्पायग्गी उट्ठिओ कहिं पि नोव-समइ । रत्ता अभओ पुच्छिओ । सो भणइ—‘ विषस्य विषमौषधम्, अग्नेर-ग्निरेव ।’ तो अग्गीओ अन्नो अग्गीकओ । तेण सो आहओ अग्गी, तओ धक्को जलंतो । तइओ रत्ता दिन्नो वरो । एसो वि ठाविओ अभएण रत्तो पासे । अन्नया उज्जेणीए असिवं उवट्ठियं । अभओ पुच्छिओ उवसमोवायं, भणइ—अर्त्तिभतरियाए अत्थाणीए देवीओ विभूसियाओ इतु जा तुम्हेहिं रायालंकार-भूसिएहिं दिट्ठीए जिणइ तं मे कहिज्जहं । तहेव कयं । राया पलोएइ, सव्वाओ हेट्ठासुहीओ ठायंति । सिवाए राया जिओ । कहिअं अभयस्स । अभओ भणइ—रत्तिं अवसणा एसा कूरबलिं करेउ । जं भूयं उट्ठइ तस्स मुहे कूरं छुहउ । तहेव कयं । तिए चउक्के अट्ठालए य जाहे देवया सिवारूवेण वासइ, ताहे कूरं तस्स मुहे छुहइ, भणइ य—अहं सिवा गोपालग-पालग-माय त्ति । एवं सव्वाणि विनिज्जियाणि भूयाणि । जाया पुरीइ संती । देइ चउत्थं वरं निवो तस्स । चिंतइ अभयकुमारो, चिट्ठिस्सं केखिरं इत्थ, रायगिहं वच्चासि त्ति । तो भणइ—देव ! देहि मज्झ वरं । रत्ता बुत्तं—मग्गसु । अह अभओ जंपए एवं—

नलगिरि-हत्थिहिंमिं ठितइं सिवदेविहिं उच्छंमि ।

अग्गिभीरु-रह-दारुहहिं अग्गि देहिं मह अंगि ॥

बुद्धीए अत्ताणं विसज्जावेइ त्ति चिंतिऊण रत्ता सक्कार-पुव्वं विसज्जिओ अभओ, भणइ—तुम्हेहिं छलेण अणिओ अहं, मह पुण पइत्तं सुण—

करिवि पईवु सहस्सकरु नगरीमज्झिण सामि ।

जइ न रत्तु तइं हरत्तं अग्गिहिं पविसामि ॥

तं भज्जं धित्तूण गओ अभओ रायगिहं, ठिओ कंचि कालं । पच्छा चंद-सुंदर-वयणाओ कमल-दल-दीह-नयणाओ वित्थिण्ण-थण-कलसाओ विवि ह-वियारेसु अणलसाओ दो गणियाओ धेत्तूण वणिय-वेसेण पतो उज्जेणिं । राय-मग्गे गिण्हए आवासं । अन्नया दिट्ठाओ पज्जोएण गणियाओ । ताहि विस-विलासाहिं दिट्ठीहिं निज्झाइओ गओ नियावासं । पेसइ दूइं । ताहिं कुवि-याहिं व घाडिऊण दूइं भणियं, न होइ एस राया जो पर-महिलमहिलसइ त्ति । वीय-दिणे सणियं रुट्ठाओ । तइय-दिणे भणिया दूईं—सत्तमे दिवसे देवउले देवजत्तं करिस्सइ अस्स भाया तत्थ रहो त्ति आगच्छ । अन्नया भाया रक्खइ ।

अभएण पुव्वं पज्जोय-सरिसो पुरिसो पज्जोओ त्ति नामं काऊण उम्मत्तो कओ । भणइ अभओ—एस मे भाया सारवेमि, एयं किं करेमि, एरिसो भाइ-नेहो त्ति सो रुट्ठो रुट्ठो नस्सइ । तओ बंधिऊण, उट्ठेह रे ! अमुगा अमुगा, अहं पज्जोओ हरामि त्ति रढंतो आणिज्जइ निज्जइ य विज्ज-पासं । इमं च नायं नयर-जणेण । सत्तम-दिणे पज्जोएण पेसिया दूई ताण पासं । ताहिं वुत्तं—एउ एकल्लउ त्ति ।

दूई-बयणेण एसो एगागी आगओ गवक्खेण ।
 नहि जुत्तमजुत्तं वा मुणइ मणुस्सो रमणि-रत्तो ॥
 पुव्व-निउत्त-नरेहिं गिहं पविट्ठो परंगणा-गिद्धो ।
 बद्धो सो वारिगओ गओ व्व करिणी-कयाकंखो ॥
 अह खट्टाए सह बंधिऊण दिवसंमि नयर-मज्झेण ।
 निज्जइ पज्जोय-निवो अभयकुमारस्स पुरिसेहिं ॥
 रे ! रे ! धावह गिण्हह मोयावह झत्ति मं इमेहिंतो ।
 एसोऽहं पज्जोओ निज्जामि फुडं इय रढंतो ॥
 वीहीकरण-जणेणं पुच्छिज्जइ को इमो ?, भणंति नरा ।
 वाणिय-भाया निज्जइ विज्जघरं एस निच्चं पि ॥
 वाहिं आसरएहिं उक्खित्तो पाविओ य रायगिहं ।
 सो सेणियस्स कहिओ कड्डिय खग्गो इमो पत्तो ॥
 तं हणिउं कुविय-मणो भणिओ अभएण मा कुरु अजुत्तं ।
 जं किरइ सक्कारो सत्तुस्स वि गेह-पत्तस्स ॥
 वसणंमि समावडियं कह वि तुलग्गेण वेरियं लड्डुं ।
 उवयारमारियं तह करेसु जइ सो जियइ दुक्खं ॥
 तो सेणिएण रत्ता मुक्को सक्कारिऊण पज्जोओ ।
 इय परदार-पसत्तो संपत्तो बंधणं एसो ॥

इति पारदार्ये प्रद्योतकथा ॥

रत्ता वुत्तं—भयवं ! भूलाओ च्चिय मए परित्थीओ ।
 दूरं भयंकरीओ भुयंगमीओ व्व चत्ताओ ॥
 पर-रमणि-पसत्त-मणो पाएण जणो न को वि मह रज्जे ।
 शुरुणा भणियं—घन्नो सि जो परित्थी-नियत्तो सि ॥
 कमलाण सरं रयणाण रोहणं तारयाण जहा गयणं ।

परदार-निवृत्ति-वयं वन्नति गुणाण तह ठाणं ॥
 अह गुरुणा वागरियं—वेसा-वसणं नरिंद ! मुत्तव्वं ।
 द्विणस्स विणासयरं जं कमल-वणस्स तुहिणं व ॥
 जं नीर-रासि-भहणं व कालकूडं जणेइ खयरोगं ।
 कवलेह कुलं सयलं जं राहु-मुहं व ससि-बिंबं ॥
 धूमो व्व चित्त-कम्मं जं गुण-गणमुज्जलं पि मलिणेइ ।
 जं दोसाण निवासो वंमिय-विवरं व भुयगाणं ॥
 वेसा-वसणासत्तो तिवग्ग-मूलं विणासिउं अत्थं ।
 पच्छा पच्छायावेण लहइ सोयं असोओ व्व ॥

रत्ता वुत्तं—को सो असोओ ? । गुरुणा भणिओ—सुण,
 जं चवण-जम्म-निक्खमण-नाण-ठाणं ति सीयलजिणस्स ।
 भद्देहि विहियसेवं तमत्थि भदिलपुरं नयरं ॥

तत्थ जसभद्दो राया ।

अरि-कामिणीण कुंकुम-कच्छूरी-कज्जलाइं अंगेसु ।

जस्स करवाल-धारा-जलेण सहस ति घोआइं ॥

तस्स सम्मओ समओ व्व बहुयत्थ-संगओ गओ व्व पवत्तिय-दाण-पस-
 रो सरो व्व घम्म-गुण-जोग-सुंदरो सुंदरो सेट्ठी । तस्स कमल-दल-विसालच्छी
 लच्छी भज्जा । सा अचंत-वल्लहा वि अवच-रहिय ति दूमेह मणं सेट्ठिणो ।

जओ—

विविह-भणि कणय-भूसण-जुया वि जुवई विणा अवचेण ।

न विरायइ वल्लिरपल्लवा वि वल्लि व्व फलहीणा ॥

लच्छीए भणिओ सेट्ठी—किं तुमं विसन्नो व दीससि ? । तेण वुत्तं—जं
 तुमं निरवच ति तं मह महंतो संतावो । तीए भणियं—जइ एवं ता अन्नं
 परिणेषु । तेण भणियं—पिए ! न मे अन्न-भज्जाए अवचेणावि मण-निच्चुई ।
 तीए वुत्तं—इत्थ नयरे सीयलजिणिंद-मंदिर-दुवार-देसे असोया नाम देवया
 अत्थि, सा समत्त-जण-पत्थियत्थे पयच्छेइ । ता तीए उवाइयं करेसु । 'जुत्त-
 मेयं' ति भणिज्जण गओ सेट्ठी लच्छीए समं सीयलजिण-भवणं । कप्पूरकुं-
 कुम-कुसुमचएहिं अच्चिओ भयवं । तओ तहेव अच्चिया देवया ।

भणिया य—देवि ! जइ ते पभावओ मज्झ नंदणो होही ।

ता गरुय-विभूईए काहं पूयामहं तुज्झ ॥

तुह संतियं च नामं सुयस्स दाहं ति तप्पभावेण ।
 लच्छीए संजाओ गव्भो समए पसूया सा ॥
 जाओ पुत्तो तो सुंदरेण तोसं गणण कारवियं ।
 नच्चंत-रमणि-चक्कं वद्धावणयं पवंधेण ॥
 अह पडिपुत्ते मासे गंतुं जिण-मंदिरे विभूईए ।
 भुवणच्छेरय-भूओ विहिओ पूआ-महो तेण ॥
 सीयलजिणस्स तह देवयाह पाएसु पाडिओ पुत्तो ।
 नामेण असोयाए इमो असोओ त्ति वज्जरिओ ॥
 पत्तो कमेण वुड्ढिं सयल-कलाओ गहाविओ समए ।
 मयरद्धय-केलिवणं जोव्वणमारोहुमाहत्तो ॥

जाया सुंदरस्स चिंता—पाएण पणांगणासत्तस्स पुरिसस्स दव्व-
 क्वओ दीसइ, ता जाणावेमि पुत्तं वेसा-सरुवं, जेण वेसासु वीसासं न करेइ
 एसो त्ति । तओ भणिया चंडा नाम कुट्टिणी—अहे! मह पुत्तं जाणावेसु
 वेसा-सरुवं, देमि ते दीणार-लक्खं ।

निय-दोस-पयडणं पि हु लुद्धाए कुट्टिणीए पडिबन्नं ।
 अहवा तं नत्थि धणेण जं न कुव्वंति एयाओ ॥
 तो चंडाए नीओ स-गिहमसोओ पयंपिओ एवं ।
 तुह वेसाण सरुवं जहट्टियं पुत्तं साहेमि ॥
 वर-वत्थाहरण-विहूसियाओ वेसाओ जइ वि दीसंति ।
 तह वि विभाविज्जंतं न सोहणं किं पि एयासिं ॥

जओ—

अमुणिय-जाइ-कुलाओ लुहाकुलाओ अदंसणिज्जाओ ।
 किणिऊण परेहिंरो इमाओ धिप्पंति बालत्ते ॥
 अंगाहं भंजिउं विरसमारडंतीओ नट्ट-निवणेहिं ।
 लट्टि-लघाए हणिऊण सिक्खविज्जंति नट्ट-विहिं ॥
 परिकस्मिऊण अंगं विविह-पयारेहिं जोव्वणत्थाओ ।
 चित्तं वित्तं च परस्स लित्ति अप्पंति नउ निययं ॥
 बहू-कवड-चाडु-वयणेहिं नेहमुप्पाइऊण पुरिसस्स ।
 गिणहंति धणं तं निद्धणं च निद्धं पि मुंचंति ॥
 कय-विविह-विप्पियाओ वि अलिय-वयणेहिं पत्तियावित्ति ।

तह कहवि नरं जह सुणह एस सब्वं पि सब्बमिणं ॥
 ववल-सदावाओ निरप्पणाओ अच्चंत-लोह-बद्धाओ ।
 जाणंति वानरीओ व सुहेण जो भक्खियव्वो त्ति ॥
 वंचह मा वंचिज्जह गिण्ह हिययाइं देहि मा हिययं ।
 इय अक्का-उवएसं मंतं व सरंति सुविणे वि ॥
 अत्थस्स कए कुट्टिणसुवग्गंतीण जाण वेसाण ।
 अप्पावि वेरिओ खलु को अन्नो वल्लहो ताण ॥

तहा—

वेस विसिद्धह वारियइ जह वि मणोहर-गत ।
 गंगाजल-पक्खालिय वि सुणिहि किं होइ पवित्त ॥
 नयणिहि रोयइ मणि हसइ जणु जाणइ सउ तत्तु ।
 वेस विसिद्धह तं करइ जं कइह करवत्तु ॥
 इय कित्तिर्यं व सक्कह कहिउं वेसा-सरूवमइगहणं ।
 एत्थ य ठिओ सर्यं चिय तुमं पि पेच्छिहिसि पच्चक्खं ॥

मह चत्तारि दारियाओ—१ गोरी, २ ललिया, ३ रंभा, ४ मयणा-
 नामाओ इमस्स धवलहरस्स मज्झे भिन्न-भिन्न-भवणेसु चिद्धंति, तासिं चरियं
 कुड्ढंतरिओ तुमं पेच्छसु । तहेव काउमाहत्तो असोगो । तत्थ गोरीए पुव्व-
 परिचियं चिराउ आगच्छंतं सिवं नाम पुरिसं दहूण पुव्व-पविट्ठो पुरिसो
 निस्सारिओ अन्नदारेण, अप्पणा पुण पडिबन्नं तक्कालमेव पइव्वया-वयं । शुत्था
 मंगलवेणी, विमुक्काइं कुसुम-तंबोलाहरणाइं । तओ कयं सिवेण सह दंसणं ।
 बाह-जल-भरिय-नयणाए भणियं अणाए—सागयं पाणनाहस्स । सिवेण
 बुत्तं—कुसलं ते ? । गोरीए भणियं—केरिसं कुसलं तुह विरहे, संपयं पुण
 कुसलं जं तुमं जीवंतीए मए देव-उवाइय-सएहिं दिट्ठोसि ।

पिय ! हउं थक्किय सयल्लु दिणु तुह विरहग्गि किलंत ।
 थोइह जलि जिम मच्छलिय तल्लोविल्लि करंत ॥
 महं जाणियउं पिय-विरहियह कविघर होइ वियालि ।
 नवरि मयंकु वि तह तवइ जह दिणयरु खयकालि ॥

इचाइ चाडु-वयणावज्जिय-चित्तेण सिवेण पिए मा झूरसु, कित्थियमिणं
 तुह सिणेहस्स त्ति भणिज्जण दिन्नाइं कुसुम-तंबोल-वत्था-हरणाइं । असोएण
 सव्वमिणं दहूण चित्थियं—

कवड-कुडुंब-कुडिओ विवेय-मायंड-मेह-मालाओ ।

निचं पर-बंचण-विहिय-अहिणिवेसाओ वेसाओ ॥

ललियाए अचंताणुरत्तो मयण-सरिस-गत्तो दत्तो नाम इव्भो, सो तीए देइ जं मगियं घणं, न करेइ पणय-खंडणं । पिच्छए निरुवमख्वं पि वेरिणिं व नियघरिणिं । ललियावि तं पसुत्तं विमुत्तूण अन्नेण सह रमइ । जग्गिएण दत्तेण कत्थ गयासि त्ति पुच्छिज्जंती करेइ माइ-पिइ-देवगुरुसंतीए सबहे— तुमं विमुत्तूण न मए मणेणावि अन्नो चित्तिओ त्ति । असोएण चित्तियं—

सबहे कुणंति अलिए रंजंति परं सयं न रज्जंति ।

गिणहंति घणं चिय नहु घणेण घिप्पंति वेसाओ ॥

रंभाए जोञ्जणारंभे वियंभिय-हरिसो अत्थि मुद्धो नाम पुरिसो ।

भणिओ सो रंभाए—मुद्ध ! मए किं पि तुज्ज जइ कज्जं ।

ता किज्जउ घरवासो आजम्मं जो न विहडेइ ॥

मह बाइयाए अप्पसु भूरिघणं अज्ज एग-मुट्टीए ।

जेण तुमं निब्बिग्घं मह संग-सुहं लहसि सिग्घं ॥

उक्खणिऊण निहाणं घराउ मुद्धेण अप्पियं तीए ।

किं वा न कुणइ किं वा न देइ पुरिसो रमणि-लुद्धो ॥

तं कुट्टिणीए गहिऊण जंपियं झत्ति तुट्ट-चित्ताए ।

मह धूयाए सद्धिं विलस तुमं वच्छ ! आजम्मं ॥

कइवय-दिण-पज्जंते नयर-तलारं घरंमि आणेउं ।

भणिओ मुद्धो एचं कवडारंभाए रंभाए ॥

पिय-धम ! इमो तलारो बलवंतो मज्झ अप्पए भाडिं ।

ता किं करेमि किं वा भणामि किं भणिहिसि तुमं वा ॥

पिय ! सहसु दिवसमेकं पवरा पीई पुणो वि सह तुमए ।

अन्नह होइ अणत्थो तुह स-कुडुंबस्स अम्मं पि ॥

तं वज्ज-वडण-दुसहं वयणं सोउं कहं पि मुद्धेण ।

भीएणाणुन्नारं अन्न न गइ त्ति दुहिएण ॥

नीहरिओ भवणाओ तत्थ पवेसं पुणो वि अपावंतो ।

रंभा-संजोय-सुहस्स तह य विहवस्स सो चुक्को ॥

असोएण चित्तियं—

अकयञ्जु-गामणीओ सिरोमणीओ धणंधलमणाण ।

पालंति न वेसाओ निथ-जोहाए वि पडिवन्नं ॥

मयणाए अणुरत्तो भद्दो नाम वाणित्तो । निद्धणो त्ति तं न कामए मयणा । सो पराभव-पर्यं अप्पाणं मद्दंतो अत्थत्थी गओ असोया-देवीए भवणं । अच्चिऊण तं निविट्ठो तीए पुरओ । परिचत्त-चउच्चिहाहारो ठिओ अद्द अहोरत्ताहं । अट्टम-रयणीए भणिओ देवयाए—ओ ! किमेवं चिट्ठसि ? । भद्देण भणियं—देवी ! धणत्थी तुमं सेवेमि । देवीए वुत्तं—नत्थि ते पुत्तं । तेण वुत्तं—जइ मे चिंतामणी-पयाणेण पसायं करेसि तो उट्ठेमि, अन्नहा एत्थेव किमिपुंजो होमि । मुणिय-तन्निच्छयाए देवयाए दिट्ठो तस्स चिंतामणी कहियं च—पंच-परमिट्ठि-भंत-सरण-पुत्तं मग्गिओ पइदिणं पंच-दिणार-सयाहं वियरिस्सइ एसो त्ति तिरोहिया देवी । सो वि चिंतामणी-माहप्पेण संपुत्त-म-णोरहो विलसइ । सधणो त्ति मुणित्तं मयणाए पवेसिओ नियघरं । देइ एसो जं मग्गियं । चित्तियं मयणाए—नूणं इमस्स परिग्गहे अत्थि चिंता-मणी, अन्नहा कहं एरिसी दाण-सत्ती, ता तं गिण्हामि । तओ ण्हाणोव-विट्ठस्स तस्स कुप्पासं खल्लयाओ गहिओ तीए चिंतामणी । पुणो किपि मग्गि-एण निहालियं अणेण खल्लयं । तं अपेच्छन्तेण पारद्धा गवेसणा । भणियं मयणाए—पज्जत्तं तुह दाणेण । मा मे परियणं अब्भक्खाणेण दुमिहिसि, ता निग्गच्छ गेहाओ । भद्देण चित्तियं—नूणं इमीए हरिओ चिन्तामणी, कहं अन्नहा सिद्ध-कज्जं व निद्धक्खणं जंपइ, परं किं किरइ अदिट्ठ चोरो राय त्ति विलक्खचित्तो निग्गओ भद्दो । चिन्तियं असोएण—

न दया न लोय-लज्जा नाकित्ति-भयं न पाव-संका य ।

अत्थ-गहणत्थ-विरइय-विविह-किलेसाण वेसाण ॥

एवं ठिओ वरिसमेक्कं असोओ । जंपिया अणेण कुट्ठिणी—मुणियं मए वेसा-सरूवं । नीओ असोओ सुंदर-समीवे तीए । भणिओ सुंदरो—जाणा-विओ मए तुह सुओ वेसा-सरूवं, कहं पि न वंचिज्जइ वेसाहिं । सुंदरेण दिण्णं पडिवन्नं दीणारलक्खं कुट्ठिणीए । अइक्कंतो कोइ कालो । कयाइ चित्तियं असोएण—

सोइइ सिसुत्तणेच्चिय न जुव्वणे जुयमिणं मणुस्सस्स ।

जणणि-थण-दुद्ध-पाणं पिउ-लच्छीए य परिभोगो ॥

ता गंतूण वेसंतरं विद्धवेमि विहवं, तोसेमि सयण-गणं, करेमि देवशुरू-पूरं, पूरेमि समग्ग-मग्गण-अणोरहे । तओ जणणी-जणायाणुत्ताओ दीणार-

दस-लक्ष-मुद्गं भंडं गहिज्जण गओ गयउरं नयरं असोगो । पवत्तो तत्थ ववह-
रिउं । दिट्ठो कामलयाए गणियाए । ता कहं पि गिण्हामि इमस्स धणं ति चित्ति-
ज्जण पलोइओ विलास-पेसलाए दिट्ठीए, धण-गहण-कयावेसा वेसा एस त्ति
चित्तिउं इमिणा भय-विस-विसुंदुलेणं सिग्घं वग्घि व्व सा मुक्का । तीए य
दिट्ठि-दूइं पट्ठविउं वंचिउं असक्काए पच्छा तं आपोउं पट्ठविया चेडिया दूई ।

तीए वि भणिइ-निउणाए आणिउं सक्किओ न सो गेहं ।

पच्छा गया सयं चिय कामलया तस्स आवासे ॥

भणिओ इमीए—जप्पभिइ सुहय ! दिट्ठोसि अमर-कुमरो व्व ।

तप्पभिइं मह जाओ कुसुमसरो तत्त-लोह-सरो ॥

ता काज्जण पसायं मह हिययं जह अलंकियं तुमए ।

तह मज्झ मंदिरं पि हु निय-आगमणेण मंडेसु ॥

एवं भणिओ वि इमो कामलयाए गिहे न संपत्तो ।

ता पइदिणमादत्ता तं पइ सा पत्थणं काउं ॥

पइदियह-पत्थणाए जाओ ता निट्ठुरो वि मउय-मणो ।

जं पत्थरो वि भिज्जइ निरंतरं नीर-पूरेण ॥

धणमेव न दायव्वं को मह दोसो इमीए गिह-गमणे ।

इय चित्तिउं असोओ कामलयाए घरं पत्तो ॥

भणियं इमीए—

अज्जु विहाणउं अज्जु दिणु अज्जु सुवाउ पवत्तु ।

अज्जु गलत्थिउ सयलु दुहु जं तुहुं मह घरि पत्तु ॥

इय चाहु-वयण-संजणिय-संभमो निव्वमेइ तग्गेहे ।

सो तडुवरोहओ चिय ताए सह कुणइ संभोगं ॥

वेसा-जणोच्चियेहिं कवडोवाएहिं किंतु विविहेहिं ।

सो मग्गिओ वि तीए मणिच्छियं देइ नहु वित्तं ॥

तओ पाडवेसिय-कुट्टिणीओ मेलिज्जण भणिया कामलया कुट्टिणीए—
बहु-प्पयारं पि पत्थिओ इमो न देइ निय-विहवं । ता नूणं सिक्खविओ कीए
वि वेसा-सरुवं । ताहिं भणियं—जीवंत-कवडाइं कयाइं कामलए ! तए,
संपयं मय-कवडाइं करेसु । तीए वुत्तं—एवं करिस्सं । तओ भणिओ असो-
गो—तइ मह घरं अणागच्छंते गेहासन्नस्स गोसुइ-जक्खस्स कयं मे उवाइयं,
जइ जक्ख ! मे घरं आगमिस्सइ असोगो, ता मए असोग-दिन्नाइं पसत्थ-व-

त्थाहरणां परिहिज्जण असोग-दिग्गेण महाविभवेण तुमं अखियच्चो । अन्नहा
 तुह अग्गओ अग्गी-साहियच्चो । ता पिययम ! संपाडेसु सब्वमेयं । तं
 सोऊण असोगो ठिओ तुण्हिक्को । तओ भणियं कामलयाए—नाह ! नाहं
 वल्लहा ते किं तु तुमं घणं बहु मन्नेसि, ता किं मे जीविणं ति भणिऊण
 जक्खस्स पुरओ रयाविया चंदणागरु-कट्ठ-निचिया चिया । अकय-सोयस्स
 असोयस्स पच्चक्खं पविट्ठा तत्थ सा । जालाजाल-पल्लविय-दिसिमुहो पज्जा-
 लिओ हुयवहो । समुच्छलिओ लोय-कलयलो । विसाय-विसहर-डक्काहिं व
 अक्कं दियं अक्काहिं । खणमेत्तेण भासरासी हूआ चिया । कामलया पुण त-
 तो विणिग्गया पुच्च-कय-सुरंगाए । कवडमिणं अमुणंतो गओ असोगो परं
 सोगं । कय-कवड-विसेसाओ वेसाओ इमाओ कहवि न मरंति । जणिय-ज-
 लण-प्पवेसा वेसा एसा न होइ फुडं । ता जं इमा मरंती उवेक्खिया तं मए
 कयं न सुहं । चुक्को अहं अभग्गो हा । एरिस-रमणी-रयणस्स । इय विलवंतो
 जा कुट्टिणीण पासंमि अच्छइ असोगो कय-पुरिस-वेज्ज-रूवा ता अन्ना कुट्टिणी
 भणइ—कुट्ट-भगंदर-खय-सास-कास-पसुहे हरामि रोगेऽहं । मंतोसहेहिं रंभेमि
 थावरं जंगमं च विसं । रक्केमि जक्ख-रक्ख-डायणि-भूय-ग्गहाइणो दोसे ।
 जीवावेमि मयं पि हु किं बहुणा अत्थि जा छारो । इमं सोऊण भणियं असो-
 गेण—शह ! जइ एवं ता जीवावेसु मे हियय-वल्लहं । वेज्जेण वुत्तं—दंसेसु
 छारं । दंसिओ सो । वेज्जेण भणियं—बहुणा दव्व-वएण इमं कज्जं सिञ्चइ ।
 असोगेण भणियं—अहं करिस्सं दव्व-ववयं । तओ तत्थ कराविओ मंडवो ।
 आलिहियं मंडलं । पारद्धो होमो । सत्तम-दिग्गे सुरंगामग्गेण आगया काम-
 लया । आणंदिओ असोगो । पेम्म-सरंभ-विंभल्लेण आलिंगिया तेण एसा

अह कामलयाए नेह-मोहिओ देइ मग्गियं विहवं ।
 थेव-दिग्गेहिं असोगो संजाओ खीण-सयल-धणो ॥
 तो निद्धणो त्ति मुणिडं तीए निस्सारिओ नियघराओ ।
 सो साहा-चुक्को मक्कडो व्व जाओ विलक्ख-मणो ॥
 चित्तेइ इमं हा ! एत्तिथं पि मूढेण जाणियं न मए ।
 किं कत्थवि कहवि मया छारीभूया य जीवंति ? ॥
 मं वंचिडं इमीए निन्नेहाए कयं मरण-कवडं ।
 वेत्तूण घणं इहरा घराओ निस्सारिओमिहं कहं ॥
 मह वेसा-वरिय-पढावण-त्थमत्थ-व्वओ कओ पिण्णा ।

विहलो च्चिय संजाओ इमीए मुसिओरिह जं एवं ॥
 सो परिवार-विमुक्को कत्थ वि केणावि अकय-सम्माणो ।
 तत्थेव ठिओ लज्जाइ निय-पुरगंतुमतरंतो ॥
 तस्स सरूवं मुण्डं पुरिसो भद्विलपुरं गओ एक्को ।
 सो सुंदरस्स साहइ तं सोउं दुमिओ एसो ॥
 भणिया अपेण चंडा—मह पुत्तो किं पढाविओ तुमए ।
 जं सो सयलं पि धणं गणियाए गयउरे गहिओ ॥
 तो कुट्टिणीइ भणियं—खेयं मा कुणसु सह मए चलसु ।
 गंतूण गयउरे जेण तुज्झ अप्पेमि पुत्त-धणं ॥
 सह सुंदरेण चंडा संपत्ता तत्थ पेच्छइ असोगं ।
 तेण सह मंतिउं किं पि कुणइ हुंवीइ वेसमिमा ॥
 आढवइ गाइउं विहिय-हुंवेसेण सुंदरेण समं ।
 कामलयाए गेहस्स अग्गओ मणहरं गेयं ॥
 तं निसुणइ एक्कमणा कामलया जाव ताव संपत्तो ।
 सहस त्ति असोगो लग्गिऊण दुण्हवि गले रुयइ ॥
 दोवि इमाइं रुयंताइं तं पर्यंपत्ति—वच्छ ! ते लच्छी ।
 कत्थ गया जं दीससि तुमं किसो मलिण-वत्थो य ॥
 तेणंगुलीइ तेसिं कामलयं दंसिउं भणियमेयं ।
 एइए वेसाए गहिया मं वंचिउं लच्छी ॥
 तं दट्टं कामलया भीया चितइ—असोहणं जायं ।
 जं धणलुच्चाइ मए विहिओ हुंवेण संबंधो ॥
 ताइं भणियाइं तीए बुत्तं तमिणं परस्स मा कहइ ।
 तेहिं भणियं समप्पसि जइ अम्ह धणं समगं पि ॥
 ता न कहेमो अन्नस्स कस्सई अन्नहा कहिस्सामो ।
 तीए भीयाइ धणं सब्बं पि समप्पियं ताण ॥
 तो कुट्टिणी-समेओ पुत्तं वित्तं च गिण्हिउं झत्ति ।
 भद्विलपुरंमि नयरे संपत्तो सुंदरो सेट्ठी ॥
 वेसाओ रक्खसीओ व तओ असोगो परिचयइ निच्चं ।
 जम्हा न होइ पुरिसो अखंडिओ पंडिओ कहवि ॥

जिणधम्म-कम्म-निरओ कालं गमिउं सदार-संतुट्ठो ।
पज्जंत-गहिय-दिक्खो मरिऊण इमो गओ सुगइं ॥
इति वेश्या-व्यसने अशोक-कथा ।

रत्ना भणियं—भयवं ! वेसासु मणं अहं पि न करिस्सं ।
शुरुणा भणियं—भवउ उत्तम-पुरिसस्स जुत्तमिणं ॥
संपयं मज्ज-वसण-दोसे सुणसु—

नच्चइ गायइ पहसइ पणमइ परिभमइ सुयइ वत्थं पि ।
तूसइ रूसइ निक्कारणं पि महरा-मउम्मत्तो ॥
जणणिं पि पिययमं पिययमं पि जणणिं जणो विभावंते ।
महरा-मएण मत्तो गम्मागम्मं न याणेइ ॥
न हु अप्प-पर-विसेसं वियाणए मज्ज-पाण-भूह-मणो ।
बहु मन्नइ अप्पाणं पहुं पि निव्वत्थए जेण ॥
वयणे पसारिए साणया विवरवभमेण मुत्तंति ।
पह-पडिय-सवस्स व दुरप्पणो मज्ज-मत्तस्स ॥
धम्मत्थ-काम-विग्घं विहणिय-मइ-कित्ति-कंति-मज्जायं ।
मज्जं सव्वेसिं पि हु भवणं दोसाण किं बहुणा ? ॥
जं जायवा स-सयणा स-परियणा स-विहवा स-नयरा य ।
निच्चं सुरा-पसत्ता खयं गया तं जए पयडं ॥
आसि पुरी वारवई सुरट्ट-विसयंमि सव्व-कणय-मई ।
डज्जंत-महण्णव-तीर-खित्त-वडवानल-सरिच्छा ॥
गयण-यल-पसरिएणं पिसंडि-पासाय-कंति-पडलेणं ।
जा कणय-सेल-संकं दूराउ जणस्स संजणइ ॥
अक्के व्व जस्स चक्के फुरिए रिउ-तिभिर-मंडलं खीणं ।
शुवणद्धरण-सयण्हो कण्हो सो तत्थ नर-नाहो ॥

सो दसहिं दसारेहिं जेट्ट-भाउणा बलदेवेण संव-पज्जुल-पसुह-कुमार-
असुट्ट-कोडीहिं अणेग-विलासिणी-सय-सहसेहिं य सहिओ संपज्जंत-चितिय-
मणोरहो रज्जसुहं भुंजई । अनया तत्थ भयवं अरिट्टनेमी समागओ । कयं
तियसेहिं समोसरणं । सयल-जायव-समेओ पत्तो कण्हो । कया सामिणा देसणा ।
पाणेसु निच्च-पहिणसु चले सरिरे,
तारुन्नयंमि तरले मरणे धुवंमि ।

धम्मं समग्ग-सुह-संघडणा-निमित्तं,

मुत्तूण नत्थि सरणं भुवणे जणाणं ॥

लद्धावसरेण भणियं कण्हेण—एसा वारवई सुवन्न-रयणाइत्ता थिरा किं न वा ? । सामी जंपह—जं इहत्थि कयगं सव्वं पि तं भंगुरं । कण्हो पुच्छइ—को इमीइ निहणं काही । पड्ढ अक्खए—सव्वेहिं सह जायवेहिं नयरं नेही विणासं सुरा । कण्हेण भणियं—ऋमेयं ? । सामिणा भणियं—इत्थ दीवायणो परिव्वायगो बंभयारी छट्ट-काल-भोई तवं चरंतो चिद्धइ । सो सुरा-पाण-मत्तेहिं संवाइ-कुमारेहिं कोविओ वारवई विणासेही । जायव-कुलस्स अंतं काही । पुणो पुच्छियं कण्हेण—सामि ! कत्तो मे मरणं भविस्सइ ? । सामिणा कहियं—जो एस ते जेट्ठभाया वसुदेव-पुत्तो जरादेवीए जाओ जरकुमारो नाम, इमाओ ते मच्चू । तओ जायवाण जरकुमारे सविसाया सोएण निवडिया दिट्ठी । चित्तियं इमिणा—अहो ! कट्ठं कट्ठं अहं वसुदेव-पुत्तो होऊण सयल-जणमिद्धं कण्णिद्धं भायरं विणासेहामि त्ति । तओ आपुच्छिऊण जादव-जणं जण-इण-रक्खणत्थं गओ वणवासं जरकुमारो । तंमि गए हरिपसुहा जायवा जाय-सोया जयं पि सुद्धं व मन्नंति पणमिऊण अरिट्ठनेमिं जीव-लोयस्स विसेसओ वारवईए जायव-कुलस्स य अणिच्चयं चिंतंता पविट्ठा नयरिं । घोसा-वियं पुरीए कण्हेण जहा—सुरा समग्गा वि कायंब-वण-गुहाए परिहरियव्वा पयत्तेण । जम्हा नेमिजिणेणं वज्जरियमिणं सुरा-पमत्त-मणा दीवायणं महारिसिं कुमरा खलियारइस्संति । सो कुविओ वारवई विणासिही, सयल-जायव-समेयं । तो किंकरेहिं नेऊण तत्थ सव्वा सुरा चत्ता ।

सा य सिला-कुंडेसुं कायंब-वणंमि तेहिं पक्खित्ता ।

कायंबरी-गुहाए भन्नइ कायंबरी तेण ॥

अह बलदेवस्स लड्ढ भाया नामेण अत्थि सिद्धत्थो ।

नेहेण सारही सो तस्सेव भणइ तं एवं ॥

संसारो जम्म-जरा-मय-मरण-प्पसुह-दुह-भरकंतो ।

खण-भंगुरो य एसो विसेसओ जायव-कुलस्स ॥

ता मं विसुंच गिण्हामि जेण पड्ढ-नेमिनाह-पय-सूले ।

मुक्ख-सुह-रक्ख-मूलं दिक्खं कम्म-क्खण-दक्खं ॥

नाऊण निच्छयं से बलदेवो भणइ कुरु तुमं एवं ।

किंतु वसणंमि कंमिवि पडिबोहिज्जसु ममं भइ ! ॥

तं सो पवज्जिउं गहिय-संजमो नेमिनाह-पासंमि ।
 छम्मास-मित्त-कालं कय-तिव्व-तवो गओ सगं ॥
 अह छड्डिया सुरा जा गुहाइ कायंबरीइ कुंडेसु ।
 सीयायव-पवण-हया सा जाया सुद्धं पक्करसा ॥
 तं दहुं संब-कुमार-संतिओ लुद्धओ परिभमंतो ।
 आसाइउं पवत्तो अइसाउरस त्ति सो तुट्ठो ॥
 तं अंजलीहिं घुंउइ तह पेच्छइ मय-कुलाइं मत्ताइं ।
 पाऊण तं सुरं निव्वभयाइं कीलं कुणंताइं ॥
 संबकुमारस्स इमं सो अक्खइ, तत्थ वच्चए संबो ।
 पाऊण तं सुरं चित्तिं च तुट्ठेण संवेण ॥
 न मह इमीए सुराए पाणं जुत्तं विणा कुमारेहिं ।
 एगागिणो न जम्हा माणंति सुहाइं सप्पुरिसा ॥
 तो वीय-दिणे संबो मेलिय दुद्धंत-कुमर-निउरुवो ।
 कायंबरी-गुहाए कायंब-वणंमि संपत्तो ॥
 आणाविऊण पायव-तलेसु आबद्ध-मंडला तत्थ ।
 अमयं व पियंति सुरं सुरासुरंजियमणा कुमरा ॥
 तीए मएण गार्थंति निव्वमरं ते हसंति नच्चंति ।
 आलिंगति परोप्परमिओ तओ तत्थ कीलंति ॥
 अह वारवई नयरिं कुविओ दीवायणो खयं नेही ।
 इय नेमिनाह-कहियं सोऊण मणे विसत्तो सो ॥
 हा ! पावनिही हा ! दुट्ठच्चिद्धिओ हा ! अभग्गवंतोऽहं ।
 जो जायव-कलियाए वारवईए खयं काहं ॥
 मं को वि कोवइज्ज त्ति जामि अन्नत्थ पुरिमिमं मुत्तुं ।
 इय चित्तिऊण विजणे वणंमि दीवायणो पत्तो ॥
 दहुण तं कुमारेहिं जंपियं मज्ज-पाण-मत्तेहिं ।
 निइय-मणो दुरप्पा सो दीवायणरिसी एसो ॥
 वारवईए खय-कारओ त्ति जो रिद्धनेमिणा कहिओ ।
 ता निव्वमरं हणामो निक्खरणवेरियं एयं ॥
 तो कुविएहिं तह ताहिं ताडिओ मुट्ठि-लेहु-लट्ठीहिं ।
 जेह नीहरंत-रुहिरो पडिओ धरणीयले एसो ॥

कण्ठेण सुणियमेयं अहह ! अकज्जं कयं कुमारेहिं ।
 जुत्ताजुत्त-वियारो दुद्धंताणं हवह किं वा ॥
 इय चिंतंतो बलदेव-संजुओ खेयनिभरो कण्हो ।
 दीवायणमणुणेउं कार्यव-वर्णमि संपत्तो ॥
 रोस-फुरियाहरुद्धो दिट्ठो दीवायणो सुणी इमिणा ।
 नमिऊण जंपिओ सो—महरिसि ! जाणसि तुमं एयं ॥
 कोहो तिब्ब-तवाणं तरूण दावानलो व्व खय-हेऊ ।
 कोहो पयंड-सत्तू विवेय-जीविय-विणास-यरो ॥
 कोवं मुत्तूण अओ पडिवन्ना उवसमं महा-पुरिसा ।
 ते बाल-मूढ-मत्ताइयाण न गणांति अवराहं ॥
 तो खमसु अम्ह कुमराण मज्जमत्ताण दुच्चरियमेयं ।
 इय भणिओ वि न मुंचह जाहे दीवायणो कोवं ॥
 ता भणियं बलदेवेण—कण्ह ! भो ! भो ! अलं पयत्तेण ।
 कुणउ निय-चित्थियमिमो किमन्नहा होइ जिणवयणं ॥
 दीवायणेण भणियं—नरिंद ! कुमरेहिं हम्ममाणेण ।
 कोव-वत्सेण पइन्ना मए महंती इमा विहिया ॥
 मुत्तूण दुवे तुम्हे सयणस्स विमोक्ख-संभवो नत्थि ।
 चारवईए विणासे ता गच्छह किं वियारेण ॥
 अह सोय-भरक्कंता पुरिं गया वासुदेव-बलदेवा ।
 वयणेहिं मिलाणेहिं हिम-पीडिय-पंकएहिं व ॥
 वित्थरियं सयलाए पुरीए दीवायणस्स वयणं पि ।
 अह पडह-दाण-पुब्बं कण्हो घोसावए एयं— ॥
 तव-नियम-देव-गुरू-वंदणाइ-धम्मज्जया जणा होह ।
 जं परिणामो नयरीए दारुणो सामिणा कहिओ ॥
 एत्थंतरम्मि पुणरवि अरिइनेमी समागओ भयवं ।
 रेवयगिरि-अवयंसे सहसंबवणे समोसरिओ ॥
 तो जायदा जिणिंदं नमिऊण पुरो सहाइ विणिविट्ठा ।
 संसारुब्बेय-करी धम्म-कहा भयवया विहिया ॥
 संविग्ग-मणा पज्जुन्न-संव-निसह-सुय-सारण-प्पमुहा ।
 पव्वज्जं पडिवन्ना कुमरा सामिस्स पय-भूले ॥

अहं रुप्पिणी पथं पइ कण्हं—पिय ! एरिसं अणिच्चत्तं ।
 संसारिय-भावणां विसेसओ जायव-कुलस्स ॥
 ता मं विसज्ज गिण्हामि जेण नेमिस्स अंतिए दिक्खं ।
 बाह-जल-भरिय-नयणो विसज्जए रुप्पिणिं कण्हो ॥
 सा पडिवज्जइ दिक्खं सहिया वहुयाहिं रायधूआहिं ।
 तो जायवा ससोगा नमिडं नेमिं पुरिं पत्ता ॥
 विगयसिरिं पिव मन्नइ अप्पाणं रुप्पिणिं विणा कण्हो ।
 पत्तो अरिट्ठनेमी जण-पडिवोहत्थमन्नत्थ ॥

पुणो वि पुरीए काराविचं घोसणं कण्हेण जहा—भो ! जायवा ! महंतं
 दीवायणाओ भयमुवट्ठियं ता विसेसओ धम्मविनिरया होह । वज्जेह पाणाह-
 वाय-मुसावायादिन्नदाण-परदार-परिग्गहे । अणुचिद्दह आयं विल-चउत्थ-छट्ठा
 ट्ठमाइ-तव-विसेसे । अच्चेह पवित्त-गत्ता पयत्तेण जिणिंदे । पज्जुवासह जिइ-
 दिया साहुणो । तेहिं वि तहत्ति पडिवन्नमेयं । दीवायणो वि दुम्मई वारवईए
 विणासे कयनियाणो मरिऊण समुप्पन्नो अग्गिकुमारोसु । संभरिय-पुव्व-जायव-
 वेरो आगओ वारवई-विणासणत्थं । न पभवइ जिण-चंदण-च्चण-नियमोववा-
 साइ-परस्स जणस्स । एवं दीवायणो छिद्दणेसि ठिओ ताव जाव गयाइं वारस-
 वरिसाइं । तओ लोएण चित्तिचं—नट्ठो निज्जिओ निप्पभो पडिहय-तवो दीवा-
 यणो कओ त्ति निव्वभओ वारवई-जणो पुणो कीलिउमाढत्तो । कायंबरी-पाण-
 परायणो जाओ । सो अग्गिकुमारो छिइं लहिऊण वारवइं विणासिउमारद्धो
 बहुखुवे उप्पाए उप्पाएइ । जुगंत-सरिसं संवत्त-वायं विउव्विऊण कट्ट-त्तण-पत्त-
 संघाए-पलायंत-जणे य महारवं करते पुरीए अर्द्धिभतरे पक्खिवइ । पज्जालए
 भीसणं महंतं जलणं । पुणो पुणो उज्जाणेहिंतो तरु-गुम्म-लया-वल्ली-तणार्हणि
 पक्खिवइ । घरं-घराउ उग्गेण अग्गिणा धूमेण य गंतुं न तीरइ नाणा-मणि-
 खंड-मंडिया कणयगमया समंतओ फुट्ठंति पासाया तडत्ति विसट्ठंति महीयले
 करि-तुरय-करह-वसह-रासह-मेस-पसु-पक्खि-गणाणं महंतो दारुणो सद्धो
 संभूओ । जायव-जणा मत्ता पमत्ता य पियाबाह-समालिंगिया डज्झंति ।
 हाहाख-गन्धिभं रुयंति पियंगणाओ । तओ बलदेव-वासुदेवा दट्ठण डज्झमाणिं
 वारवइं मुक्क-अक्कंद-सद्धा पिउणो घरमुवागया । सिग्घं च रोहिणिं देवइं
 पियरं च रहमारोविऊण चलिआ जाव तुरय-वसहा हुयासणेण डज्झमाणा न
 सकंति रहवरं समाकरिसिडं ताव ते सयमेव आयट्ठिडं पवत्ता । एत्थंतरे हा

महाराय-कण्ह ! हा राम ! हा पुत्त ! हा वच्छ ! हा नाह ! परित्तायहि परि-
त्तायहि त्ति सयलघरेसु उट्टिया करुण-समुल्लावा । तओ बलदेव-कणहेहिं तुरिय-
तुरियं गोडर-द्वारं जाव नीया दोवि रहा, इंदकीलेणं च ते रुद्धा । तओ तस्मि-
दकीलं पाएण बलदेवो जाव चुझेइ ताव जलणेणं तं दुवारं जालाहिं जलिउ-
माढत्तं । एत्थंतरे दीवायणेण संलत्तं—ओ ! मए पुब्बमेव भणियं जहा तुब्भे
दुवे मुत्तूण अन्नस्स मुक्खो नत्थि त्ति मे पइत्ता । तओ वासुदेवेण पायतलाहयं
कवाडमेक्कं धरणी-यले निवाडियं, विहयं च जालावली-पलित्तं रामेण । तओ
ते वसुदेव-रोहिणी-देवईहिं भणिया—पुत्तया ! तुब्भेहिं जीवभाणेहिं जायवक्कु-
लस्स पुणो वि समुत्तई भविस्सइ ता तुरिय-तुरियं वच्छया ! निगच्छह त्ति ।
तओ दीवायणस्स माया-पिऊणं च वयणेण सकरुणं रुयंता निग्गया कण्ह-बल-
देवा । बाहिं भग्गुज्जाणे ठिया डड्ढमाणं वारवइं पिच्छंति । दीवायणेण वि
सयलाइं दुवाराइं देव-सत्तीए ढक्किऊण विसेसेण पज्जालिया नयरी । एत्थंतरे
रामस्स पाण-वल्लहो पुत्तो मणुज्जो कुज्जवारओ नाम बालकुमारो चरम-देह-धरो
सो नियय-भवणुत्तमंगे समारुह्जण भणइ—ओ ! ओ ! सुणंतु समासन्न-
देवय-जणा ! अरिट्ठनेमि-सामिणो अहं सिस्सो । समणो दंतो सब्ब-भूय-दया-
धरो मोक्खं गमिस्समि त्ति सामिणा समाइट्ठो चरमदेहो । तं जइ सब्बं भय-
धओ वयणं ता किमेयं ? ति भणिए उवट्टिया जंभगा देवा । तेहिं उक्खित्तो
जलंत-जलणाओ । नीओ पल्हवदेसं नेमि पासे ।

अह पायवोवगमणं समभावेणं अणुट्टियं तइया ।

कण्हस्स महीवइणो सोलस देवी-सहस्सेहिं ॥

तह पायवोवगमणं संजायं जायवाण महिलाण ।

सव्वासिं चिय धम्मज्जयाण जलणाउ भीयाणं ॥

इय जायवाण सट्ठी जणाण वावत्तरी य सेसाण ।

कुलकोडीओ दीवायणेण नयरीएँ दड्ढाओ ॥

एवं छम्मासेणं दड्ढा दीवायणेण वारवई ।

तेण य पलाविया सा पच्छा पच्छिम-समुद्धंमि ॥

बलदेव-वासुदेवा डड्ढंति पिच्छिऊण वारवइं ।

बाह-भरियच्छि-जुयला जंपंति परोप्परं एवं ॥

नीसेस-सयण-रहिया रज्ज-विडत्ता विणट्ठ-परिवारा ।

भय-तरलच्छा हरिण व्व संपयं कत्थ गच्छामो ॥

रामेण भणियसेयं—दक्खिण-महुरा-पुरीह गच्छामो ।
 अच्छंति वच्छला अम्ह बंधवा पंडवा तत्थ ॥
 कण्हो भणइ—अए ते विमाणिया दोवईह आणयणे ।
 जं गंगसुत्तरंतस्स मज्झ पट्टाविओ न रहो ॥
 पुब्बुत्तिन्नेहिं इमेहिं, ता कहं ताण वच्चिमो नयरि ।
 भणियं बलदेवेणं—ते पंडु-सुया महापुरिस्सा ॥
 करिहंति कहं पि न ते पराभवं परम-बंधवा अम्ह ।
 जम्हा घरागयाणं नीओ वि न दुट्टमायरइ ॥
 पडिवन्नमिणं कण्हेण तो गया दो वि हत्थिकप्पपुरे ।
 कण्हो जंपइ—बंधव ! बाहंति छुहा-तिसाउ ममं ॥
 तुममपमत्तो बाहिं चिट्ठ अहं भत्त-पाणमाणेमि ।
 जइ पुण होज्ज अवाओ मह मज्झगयस्स तत्तोऽहं ॥
 काहामि सिंहनायं आगंतव्वं तओ तए झत्ति ।
 इय जंपिऊण पत्तो पुरस्स मज्झंमि बलदेवो ॥
 वत्थय-पडेण पच्छाइऊण सिरिवच्छलंछियं वच्छं ।
 सयल-भुवणाभिरामो कंदुय-हट्टं गओ रामो ॥
 रुवेण पमाणेण य अब्भहिओ सो असेस-मणुयाण ।
 लोएण सब्बविज्जइ विम्हय-रस-वियसियच्छेण ॥
 हट्टंमि अंगुलीयं समप्पिउं किणिय-भक्ख-हत्थो सो ।
 कडय-जुयलं च दाउं गहिय-सुरो जाव नीहरइ ॥
 तावारक्खिय-पुरिसोहिं अक्खियं अच्छदंत-भूवइणो ।
 बलदेव-समो रुवाइएहिं पत्तो नरो को वि ॥
 रत्तावि ससंकेणं तं हणियं पेसियं नियं सेन्नं ।
 पहरिउमिणं पयट्टं बलस्स लोउत्तर-बलस्स ॥
 कण्हस्स सद-सन्नं काउं सो तस्स संसुहो दुक्को ।
 नियडं करिमारुहिऊण हरिण-जणस्स सीहु व्व ॥
 कण्हो वि तत्थ पत्तो पुरगगलं कड्डिऊण पहरेइ ।
 विहि-विचलं तं भग्गं नाणज्झाणेहिं कम्मं व ॥
 भणिओ य अच्छदंतो—अरे दुरायार ! चारवइ-दाहे ।
 करि-नुरयाइ-बलं पिव किं दाहुवलं पि गयमम्ह ? ॥

ता भुंजसु निय-रज्जं सुफो अम्हेहिं वह्यरो एसो ।
 ह्य भणिउं ते पत्ता पत्तल-तरु-पवरसुज्जाणं ।
 तत्थ गलंतंसुजला नमो जिणाणं ति जंपिउं दो वि ।
 तं अन्नं भुंजंता विसाहणो चितयंति इमं ॥
 सुद्धि-सयणाइ-विहन्नं भत्तं भोत्तूण पवर-रिद्धिण ।
 एवं पि भुज्जइ अहो ! दुसहाओ छुहा-पिवासाओ ॥
 किंचि जिमिऊण चलिया कोसंवारन्नमुवगया ण ।
 नो सल्लवण-भत्ताओ महर-पाणाओ १ गिम्हाओ ॥
 बहु-पह-परिस्समाओ सोयाइ-नयाओ पुत्र-विगमाओ ।
 कण्हो फुरंत-तण्हो बलदेवं जंपए एवं ॥
 हे भाय ! भाय-वच्छल ! तण्ह मं वाहए, सुसइ वयणं ।
 आणसु कत्तो वि पर्यं पर्यं पि गंतुं न सक्काइहं ॥
 भणिणं बलदेवेणं—इह तरुच्छायाए चिट्ट अपमत्तो ।
 विविहोचहव-बहुलं सन्नं पि ह्य सुच्चइ अरत्तं ॥
 वणदेवीओ य पर्यंपियाओ पिय-बंधओ इमो मज्झ ।
 तुम्हेहिं रक्खियन्वो नासो व्व समप्पिओ तुम्ह ॥
 ह्य भणिऊण गओ सो जलत्थमह पीय-वत्थ-पिहियंगो ।
 जाणुवरिकय-पाओ जणहणो सुविडमारओ ॥
 तत्तो पलंबकुच्चो घणु-हत्थो वग्घ-चम्म-पावरणो ।
 हरिण-चहत्थं तं देसमागओ सो जरकुमारो ॥
 कण्हो तेण धणुं कट्ठिऊण सुक्केण निसिय-वाणेण ।
 हरिण-अभमेण विद्धो मम्म-पएसंमि पायतले ॥
 तो उट्ठिऊण सहसा आढत्तो केसवो भणिउमेवं ।
 केण विणा अवराहं विद्धोइहं हंत ! पायतले ॥
 न मए अन्नाय-कुलो एत्तिय-कालं कयाह कोइ हओ ।
 ता सिग्घं निय-गोत्तं मह अक्खव सो जइ मणुस्सो ॥
 तरु-गहणंतरिणं जराकुमारेण चितियं एयं ।
 हरिणो न हाइ एसो पुरिस-विसेसो इमो को वि ॥
 गोत्तं च मज्झ पुच्छइ कहेमि ता तं कहेइ जरकुमरो ।
 वसुदेव-जरादेवीण हरिकुलुत्तंसयाण सुओ ॥

हरिणो जङ्गवीरस्स जेड्ड-भाया जराकुमारोऽहं ।
 कण्ह-वह-वज्जणत्थं भमामि वाहो व्व रत्तंमि ॥
 जायाइं वच्छराइं वारस, तुम्हे वि कहह के तुम्भे ? ।
 कण्हेण जंपियं—एहि एहि सिग्घं महाराय ! ॥
 तुह बलदेवस्स थ लहुय-बंधवो केसवो अहं एसो ।
 मम रक्खत्थमरत्ते भमसि तुमं निप्फलारंभो ॥
 हा ! किं एसो कण्हो त्ति संकिरो आगओ जरकुमारो ।
 ददूण तारिसं तं वाहाविल-ल्लोयणो भणइ ॥
 हा ! हा ! हओमि धिन्दी ! अहं दुरप्पा कुकम्म-चंडालो ।
 कत्तो कहं व पत्तो इत्थ तुमं पुरिस-सहूल ! ? ॥
 दीवायणेण दड्ढा किं नयरी जायवावि किं नट्टा ? ।
 कण्हेण जरकुमारस्स झत्ति सिट्ठं जहा दिट्ठं ॥
 तो पलविडं पवत्तो सोयज्जर-जज्जरो जरकुमारो ।
 अहह ! मए पावेणं विहियं कण्हस्स आत्थिं ॥
 ता किं करोमि गच्छामि कत्थ कत्थ व गओ अहं सुगओ ।
 होहामि भायवाया को वा मं पिच्छिडं पि खमो ॥
 जावेस अत्थि लोओ तुहह नामं ताव इत्थ वित्थरिही ।
 मह पावकारिणो षण वियंभिही एच्चिरं गरिहा ॥
 तुज्झ हिय-करण-हेडं षणवास-किलेसमवुवगओऽहं ।
 जेण मए निक्कारण-रिवणा एयं हियं विहियं ॥
 ते कत्थ जायव-निवा ताओ कत्थ व कुमार-कोडीओ ।
 कत्थ व गयाइं ताइं विलासिणीणं सहस्साइं ? ॥
 कण्हो जंपइ—पत्थिव ! अलं पलावेहिं वेहि धीरत्तं ।
 सुविणो व्व जीवलोओ हि भंगुरो भयवया कहिओ ॥
 ता मह वच्छयलाओ गहिडं कोत्थुहमणि तुमं गच्छ ।
 पंडव-समीवमंसिं वुत्तंतमिणं च साहेज्ज ॥
 तह मम वयणेण भणेज्ज पंडवे दोवई-समाणयणे ।
 सच्चस्स-हरण-पमुहो मए कओ तुम्ह अवमाणो ॥
 तं खमह मज्झ दोसं खमा-पहाणा हि हुंति सप्पुरिसा ।
 इय जंपिओ वि-जाहे न गंतुमिच्छइ जरकुमारो ॥

कण्हेण पुणो भणिओ—गच्छसु सिग्घं तुमं महाभाग । ।
 बलदेवस्स ममोवरि गरुयं मुणसि चिय सिणेहं ॥
 सो मह तण्हा-विगमत्थमुदयमत्तेसि गओ अडविं ।
 इह पत्तो मं दहुं मरणावत्थं तुमं हणिही ॥
 तो तेहिं चेव पएहिं गच्छंतो पायतल-गयं वाणं ।
 उद्धरिउं हियय-मणिं गहिउं च गओ जरकुमारो ॥

तओ कण्हो पहार-पीडा-परव्वसो नमोक्कारं काउमारद्धो—नमो परम-
 पूयारिहाणं अरहंताणं । नमो सासय-सुह-समिद्धाणं सिद्धाणं । नमो पंच-वि-
 हायार-पराणं आयरियाणं । नमो सज्झाय-ज्झाण-रयाणं उवज्झायाणं । नमो
 मोक्ख-साहण-सहायाणं साहूणं । नमो मम धम्मगुरुणो नेमिनाहस्स । तओ
 तण-सत्थरं रइऊण पड-पच्छाइय-सरीरो वीर-सयणिज्जमुवगओ विचिंतिउ-
 मारद्धो—

धन्ना कुमरा पज्जुन्न-संब-अनिरुद्ध-सारण-प्पमुहा ।
 अत्ते वि जायव-जणा तह रुप्पिणी-पमुह-देवीओ ॥
 परिचत्त-सव्व-संगा सामि-समीवंमि जे पवन्न-वया ।
 अकय-तवचरणोऽहं तु पावकम्मो मरामि त्ति ॥
 पज्जंते दीवायण-संभरणुप्पन्न-रोह-ज्झाण-परो ।
 सो वरिस-सहस्साऊ मरिऊण गओ तइय-पुढविं ॥
 बलदेवो वि जवेणं गहिय-जलो नलिणि-पत्त-पुडएण ।
 विवरीय-सउण-संक्रिय-चित्तो कण्हंतियं पत्तो ॥
 सुत्तो इमो त्ति मुत्तूण सो जलं चितए सुवओ ताव ।
 एसो जणहणो जग्गियस्स दाहं इमस्स जलं ॥

नेह-निव्वर-मणो मयं पि तं न याणह । तओ कंचि कालं पडिवाल्लिउं
 यलदेवो नियच्छइ कसिणमच्छियाहिं संच्छन्नं कण्हं । तओ भीओ हली मुहाओ
 वत्थं अवणेइ जाव हा ! मउ त्ति मुच्छाए पडिओ धरणीयले । पच्चागय-चेय-
 णेण मुक्को सीहनाओ तहा जहा सावयाकुलं काणणं कंपिउमादत्तं । भणिउं
 चादत्तो हली—जेण मे एस भाया पाण-बल्लहो पुहईए एक्क-वीरो निग्घिणेण
 दुरप्पणा विणिवाइओ सो जइ सचं सुहडो तो मे देउ दंसणं । कहं वा सुत्ते
 पमत्ते वाउले वा पहरिज्जइ । ता नूणं सो पुरिसाहमो । एवमुच्चसहेण भणंतो
 समंतओ वणं हिंडिऊण पुणो गोविंद-पासमागओ बलो । रोविउमारद्धो य—

हा भाय ! हा जणवण ! हा हरिवंसावयंस ! हा वीर ! ।
 किं ते ख्यामि खवं सोहर्गं सुयवलं विहवं ॥
 इय विविहं विलवंतो गमिऊण दिण-निसं च वलदेवो ।
 गोसे नेह-विमूढो चलिओ खंधे हरिं काणं ॥
 गिरि-गाहणेसु भमंतं सिद्धत्थ-सुरो तमोहिणा दहुं ।
 तस्स पडिवोहणत्थं दिट्ठेते दंसए एवं ॥
 गिरि-भग्ग-अभग्गं समपहम्मि भग्गं च संघइ रहं सो ।
 नर-ख्वो आरोवइ पउमिणिसंबं सिलावट्ठे ॥
 दव-दडु-थाणु-सरिसं तिदुइणि-तरुं जलेण सिंचेइ ।
 हरिय-तणंऊर-नियरं गावि-करोडी-मुहे छुहइ ॥
 तं दहुं भणइ वलो—अलं किलेसेण तुम्हं जं इमिणा ।
 रह-नलिणी-तिदुइणी-गावीण न कोइ होइ गुणो ॥
 सिद्धत्थ-सुरो जंपइ—जइया तुह खंध-संठियं मडयं ।
 जीविहिइ तथा होही गुणो रहाईण एएसिं ॥
 ता लद्ध-चेयणेणं वलेण भणियं—किमेस मे भाया ।
 सखं मओ त्ति जं एस को वि मं एवमुल्लवइ ॥
 तो पबक्खो होउं सिद्धत्थो भणइ—जरकुमाराओ ।
 कणहस्स वहो कहिओ जिणेण सो तहा जाओ ॥
 भणइ वलो—कणह-वहो विहिओ कइया जराकुमारेण ।
 सिद्धत्थो कहइ—जराकुमार-वुत्तंतमेयस्स ॥
 सो सिद्धत्थं आलिगिउं भणइ—कहसु मज्झ कायव्वं ।
 भणइ सुरो—जिण-वयणं संभर पडिवज्ज पव्वज्जं ॥
 भणियं वलदेवेणं—करोमि एयं कहं हरि-सरीरं ।
 नइ-डुम-संगम-पुलिणे सक्कारसु इय सुरो भणइ ॥
 उत्तम-पुरिसा पूयारिह त्ति तं पुज्जिउं तहेव कयं ।
 अह नेमिजिणाणत्तो चारण-समणो तहि पत्तो ॥
 तस्स समीवे वेरग्गसंगओ गिणहइ वलो दिक्खं ।
 तुंगे तुंगिय-सिहरे गंतुं तिब्बं तवं तवइ ॥
 अह जरकुमरो पत्तो दाहिणमहुराइ पंडवाण इमो ।
 अप्पेइ कुत्थुहमणिं कहेइ वारवइ-दाहाइ ॥

ते संविग्गा रज्जं दाडं तस्सेव नेमि-पथ-मूले ।
 चलिया वय-गहणत्थं, अह नेमिजिणेण पट्टविओ ॥
 धम्मो व्व मुत्तिमंतो चउनाणी धम्मघोस-अणगारो ।
 तेण य विइन्न-दिक्खा पहु-पासे पंडवा चलिया ॥
 छट्टभाइ-मासद्धमास-छम्मास-पमुह-खमण-परा ।
 बारसहिं जोयणेहि सुणिउं नेमिस्स निब्बाणं ॥
 संजाय-गरुय-खेया पंच वि सत्तुंजए गिरिवरंमि ।
 कय-पायवोवगमणा केवलमुप्पाडिउं सिद्धा ॥
 पुव्वं पि नव दसारा समुहविजयाइणो सिवादेवी ।
 गयसुकुमालेण समं वयं पवन्ना दिवं पत्ता ॥
 रुप्पिणि-पमुहाओ सिवं गयाओ अह दोवई वयं गहिउं ।
 राईमई-समीवे अच्चुय-कप्पंमि संपत्ता ॥
 वारवईइ चिणासे विसुद्ध-संवेग-संगय-मणाओ ।
 वसुदेव-रोहिणी-देवईओ पत्ताओ^५ सुरलोयं ॥
 अह तं बलदेवरिसिं पवंत-निवा जणाओ सोऊण ।
 चितंति अम्ह रज्जं वंछंतो को वि कुणइ तवं ॥
 विज्जं च साहइ इमो तत्तो चउरंग-सेन्न-परियरिया ।
 पहरण-विहत्थ-हत्था ते पत्ता राम-रिसि-पासे ॥
 अह सिद्धत्थ-सुरेणं विउव्विया पिंग-केसर-कडप्पा ।
 दाढा-कराल-वयणा रामस्स चउदिसिं सीहा ॥
 ते दट्टूण नरिंदा भीया दूराड पणामिउं रामं ।
 निय-निय-नयरेसु गया तत्तो लोयंमि बलदेवो ॥
 नरसिंहो त्ति पसिद्धो तवं विसेसेण कुणइ पसम-परो ।
 अन्न-दिणे पविसंतो कम्मि वि नयरंमि भिक्खत्थं ॥
 बलदेवो कूव-तडे तरुणीए दिट्ठिगोयरं पत्तो ।
 ख्वक्खत्त-मणाए तीए मुत्तुं कुडय-कंठं ॥
 निय-कडियल-उत्तारिय-सुयस्स कंठंमि पासओ दिन्नो ।
 सो पक्खत्तो कूवे रामरिसी पिच्छए एवं ॥
 तो संविग्गो चित्तइ अणत्थहेऊ अहो ! सरीरं मे ।
 ता गिण्हस्सं भिक्खं रत्ते च्चिय इत्थिया-रहिए ॥

एवं अभिग्राहं सो गहिज्जण नियत्तिउं गओ रन्नं ।
 तण-कट्टहार-वणछिंद-दिन्न-भिक्षवाइ पारेइ ॥
 सज्झायं धम्मकहं च तस्स सोऊण उवसमं पत्ता ।
 करि-वग्घ-सीह-चित्तय-संवर-हरिणाइणो सत्ता ॥
 ते के वि सावगत्तं सम्मत्तं के वि के वि अविरोहं ।
 के वि हु भद्दग-भावं पडिबन्ना अणसणं के वि ॥
 पडिमाठियं निसन्नं च तं निसेवंति मुक्क-चावारा ।
 जम्हा असंभवं पि हु तव-प्पभावेण संभवइ ॥
 तत्थेको हरिण-जुवा संविग्गो पुव्व-कम्म-संवद्धो ।
 सव्वत्थ राममुणिणोऽणुमग्ग-लग्गो परिब्भमइ ॥
 अह पत्ता रहकारा रुक्खे छिंदंति तत्थ दारुकए ।
 भोयण-समए तेसिं भिक्षवत्थं आगओ रामो ॥
 सुक्क-तण-पत्त-भोई तत्थ गओ साहुणा समं हरिणो ।
 ददूण मुणि रहकार-सामिणा चित्थियं एवं ॥
 रोरघरे एस निही एसो मरु-मंडलंमि कप्प-तरु ।
 जं पत्तो इत्थ इमो मुणी अहो ! मज्झ पुत्ताहं ॥
 पुत्ता मणोरहा मे मह सहलं जीवियं कयत्थोऽहं ।
 दाउं इमस्स भिक्षवंं करेमि गय-पावमप्पाणं ॥
 तो नमिऊण महीयल-निहिय-सिरो देइ सो पवर-भिक्षवंं ।
 सा गहिया मुणिणा दायगेण देवाउयं बद्धं ॥
 हरिणो वियसिय-नयणो रामरिसिं दायगं च रहकारं ।
 पुणरुत्तं पिच्छंतो संविग्गो चित्तए एवं ॥
 घन्नो इमो कयत्थो जो पडिलाभइ महासुणिं एवं ।
 पुन्न-रहिओ अहं पुण अखमो दाणंमि तिरिओ त्ति ॥
 इय दायगं पसंसइ पुणो पुणो निंदए य अप्पाणं ।
 इत्थंतरंमि पबलानिलेण कंपाविओ पडिओ ॥
 अद्धच्छिन्नो रुक्खो उवरिं रहकार-साहु-हरिणाण ।
 तित्थि वि मरिउं देवा उपन्ना पंचमे कप्पे ॥
 बलदेवो वरिससयं सामन्नं पालिउं सुरो जाओ ।
 आरुग्ग-सुक्ख-बल-रुव-संपयाहिं पहाणघरो ॥

सो कण्हं गुरु-नेहेण ओहिनाणेण दहुमाढत्तो ।
 तइयाए पुढवीए पेच्छह दुक्खं अणुहवंतं ॥
 तो वेउव्विय-देहं काळं कण्हस्स अंतियं पत्तो ।
 रहं रयणुज्जोर्यं दिव्वं गंधं व सो दिट्ठो ॥
 भणियं बलेण—बंधव कण्ह ! किमिण्हं करेमि ते कहसु ।
 पुव्व-कय-कम्म-पभवं सहेमि दुक्खं भणह कण्हो ॥
 तत्तो बलदेवेणं कण्हो दोहि वि सुयाहिं उक्खित्तो ।
 तावेण व नवणीयं विलाइ सो उद्धरिज्जंतो ॥
 कण्हो जंपइ—मुंचसु सुट्ठयरं होइ भाय ! मह दुक्खं ।
 ता गच्छ तुमं भरहे दुण्ह वि अम्हाण रूवाइं ॥
 दंससु जहट्टियाइं जणस्स, तो आगओ बलो भरहे ।
 दिव्व-विमाणाख्खो चक्क-गया-संख-खग-धरो ॥
 कंचण-पिसंग-वत्थं गरुडाख्खं पयासए कण्हं ।
 नीलंबर-परिहाणं हल-मुसल-धरं च अप्पाणं ।
 सविसेसं वेरिपुरे सुदंसए अक्खए य सव्वत्थ ।
 कारेह अम्ह रूवाइं नमह अब्बेह भत्तीए ॥
 आगच्छामो सग्गाओ सग्ग-संहार-कारिणो अम्हे ।
 काऊण विविह-कीलाओ पुण वि तत्थेव गच्छामो ॥
 वारवई अम्हेहिं विहिया अम्हेहिं चेव संहरिया ।
 तो राम-वयणमेयं लोएण तह त्ति पडिबन्नं ॥
 एवं परंपराए इमा पसिद्धी जयंमि संजाया ।
 रामो वि गओ सग्गं दिव्व-सुहं मुंजए तत्थ ॥
 एवं नरिंद ! जाओ मज्जाओ जायवाण सव्व-क्खओ ।
 ता रत्ता नियरज्जे मज्जपवित्ती वि पडिसिद्धा ॥

इति सुराव्यसने यादवकथा ॥

इण्हं नरिंद ! निस्तुणसु कहिज्ज-भाणं मए समासेणं ।
 वसणाण सिरो-रयणं व सत्तमं चोरियावसणं ॥
 पर-दव्व-हरण-पाव-हुमस्स धण-हरण-मारणाइंणि ।
 वसणाइं कुसुम-नियरो नारय-दुक्खाइं फलरिद्धी ॥

जगंतो सुत्तो वा न लहइ सुक्खं दिणे निसाए वा ।
 संका-छुरियाए छिज्जमाण-हियओ धुवं चोरो ॥
 जं चोरियाए दुक्खं उव्वंघण-सूलरोवण-प्पसुहं ।
 एत्थ वि लहेइ जीवो तं सव्व-जणस्स पच्चक्खं ॥
 दोहगगमंगच्छेयं पराभवं विभव-भंसमन्नं पि ।
 जं पुण परत्थ पावइ पाणी तं केत्तियं कहिमो ॥
 हरिऊण परस्स घणं कयाणुतावो समप्पए जइ वि ।
 तह वि हु लहेइ दुक्खं जीवो वरुणो व्व परलोए ॥
 रत्ता भणियं—को सो वरुणो ? । गुरुणा वुत्तं सुण—
 इत्थेव भरह-खित्ते नयरी नामेण अत्थि मायंदी ।
 मायंद-पसुह-पायव-अभिरामा-रामरमणिज्जा ॥
 तत्थ निवो नरचंदो अरि-वहु-सुह-कमल-पुत्तिमा-इंदो ।
 मायंदु व्व दुमाणं सिरोमणी सव्व-निवईणं ॥
 सोहगग-भंजरी मंजरि व्व पसरंत-सील-सुरहि-गुणा ।
 नयण-भमराण-वीसाम-मंदिंरं से महादेवी ॥

क्याइ तीए ससुप्पन्नो पुत्तो । करावियं रत्ता वद्धावणयं । कयं से 'नरसिंहो'
 त्ति नामं । पत्तो सो कुमार-भावं । गहाविओ कला-कलावं । पवन्नो अणत्त-
 सामत्त-लायत्त-पुत्तं तारुत्तं ।

सा तस्स रूव-सोहा संजाया पिच्छिऊण जं मयणो ।

लज्जाए विलीणंगो नूणमणंगत्तणं पत्तो ॥

अन्नया विन्नत्तो कुमारो पडिहारेण—देव ! दुवारे चिट्ठंति कुमार-दंसण-
 त्थिणो कुसल-निउण-नामाणो चित्तयर-दारया । कुमारैण वुत्तं—सिग्घं पवे-
 सेहि । पावेसिया पडिहारेण । पणमिऊण कुमारं उवविट्ठा ते । समप्पिया चित्त-
 वट्ठिया ।

अह पेच्छिऊण एयं परिओस-विसट्ट-लोयण-जुएण ।

भणियं नरसिहेणं का एसा देवया एत्थ ? ॥

हसिऊण तेहिं भणियं—न देवया किंतु माणुसी एसा ।

तो कुमारैणं वुत्तं—न एरिसी माणुसी होइ ॥

अह माणुसी वि जइ होज्ज एरिसी ता कुणंति जं कट्टं ।

के वि हु सग्ग-निमित्तं तेसिं सव्वं पि तं विहलं ॥

ता तुम्ह नृणामेयं अणुत्तरं चित्त-कम्म-चउरत्तं ।
 इय मज्झ फुरइ चित्तं, तो भणियं कुसल-निउणेहिं ॥
 अम्हाणमिह न किंचि वि चित्तकरं चित्त-कम्म-चउरत्तं ।
 दहुं पि पडिच्छंदं न जेहिं सम्मं इमा लिहिया ॥
 एकस्स पयावइणो वन्नसु विन्नाण-कोसलं एत्थ ।
 जेण पडिच्छंदयमंतरेण बाला विणिम्मविया ॥
 इय तच्चयणं सोउं वियसिय-मुह-पंकएण कुमरेण ।
 भणियं—कहेह भद्दा! का एसा कस्स वा धूया ॥

तेहिं भणियं—कुमार ! सुण । अत्थि कणगउर-नयरे कणगळओ राया,
 कणगावली से भज्जा, ताण कणगवई नाम धूया ।

पसरंतेण समंता कणगुज्जल-काय-कंति-पडलेण ।
 कणयाभरणाइं पि वजा दिसइ दिसा पुरंधीणं ॥

सा य रुवाइसएण मुणीण वि मणहारिणी कला-कुसलत्तणेण असरिसी
 अन्न-कन्नयाणं पत्त-जोव्वणा समागया पिउ-पाय-पणमत्थमत्थाणमंडवे । आय-
 न्नीयं तीए वंदिणा कीरंतं कुमार ! तुह गुण-कित्तणं । तप्पभिइं च परिचत्त-
 सेस-वावारा अट्टाण-दिन्न-सुन्न-हुंकारा कंठ-लोलंत-पंचमुग्गारा गरुय-पसरंतनी-
 सासा कुमार-गुण-संकहा-मेत्त-पत्त-आसासा संजाया सा । सुणियमिणं से स-
 हीहितो रत्ता । किं इमीए ठाणे अणुराओ, कुमारस्स वि केरिसं इमं पइ चित्तं
 ति जाणणत्थं कुमारस्स पडिच्छंदयं आणेउं, इमं कणगवई-पडिच्छंदयं च
 दंसिउं पेसिया इत्थ अम्हे । कुमार ! नगरुज्जाणे राहावेहेण धणुव्वेयमवभ-
 संतो पुरपरिसरे विविह-तुरंग-वग्ग-वग्गण-विणोयमणुहवंतो सीह-डुवारे चार-
 णारोह-कीलं कुणंतो य दिट्ठो तुमं । तओ सरीर-सुदैर-दलिय-कंदप्प-दप्पस्स
 कुमारस्स अहो अविकलं कला-कोसलं ति पत्ता विम्हयं अम्हे । इमं च सोऊण
 मयण-सर-गोयरं गओ कुमारो । तहा वि नियमागारं गइंतेण तेण भणियं—
 भण भो महसार ! किं पि समस्सा-पयं । पइसिय-मुहेण जंपियं महसारेण—

‘ करि सफलउं अप्पाणु ’

सिग्घमेव भणियं कुमारेण—

‘ पडिच्चज्जि वि दय देव गुरु देवि सुपत्तिहि दाणु ।
 विरइ चि दीण-जणुद्धरणु करि सफलउं अप्पाणु ॥’

कुसलेण वुत्तं—अहो कुमारस्स कव्व-करण-सत्ती ! कुमारेण जंपियं—
बुद्धिसार ! तुमं पढसु । तेण पढियं—

‘ इहु भल्लिम पज्जंतु ’

कुमारेण भणियं—

‘ पुत्तु जु रंजइ जणय-मणु थी आराहइ कंतु ।

भिच्चु पसन्नु करइ पहु इहु भल्लिम पज्जंतु ॥ ’

अहो अइसुओ त्ति भणियं निउणेण—कुमार ! मए वि समस्सा चित्तिया
अत्थि तं पूरेसु । कुमारेण वुत्तं—पढसु । पढिया निउणेण—

‘ मरगयवन्नह पियह उरि पिय चंपयपहदेह ! ’

तक्कालमेव कुमारेण भणियं—

‘ कसवट्टइ दिन्निय सहइ नाइ सुवन्नह रेह ॥ ’

निउणेण भणियं—जं चेव चित्तियं उत्तरद्धं मए तं चेव कुमारस्स वि
फुरियं अहो बुद्धि-पगरिसो ! । कुसलेण वुत्तं—ममावि समस्सं पूरेसु । पढि-
या तेण—

‘ वूडउ चुन्नी होइसइ सुद्धिकवोलि निहित्तु । ’

कुमारेण भणियं—

‘ सासानल्लिण झलक्खियउ वाहसल्लिलसंसित्तु ॥ ’

कुसलेण वुत्तं—अहो अच्छरियं ! पच्चक्ख-सरस्सई कुमारो । भणिओ
कुमारेण कुबेरो नाम भंडागारिओ—भो ! एयाणं देहि दीणार-लक्खं । कुवे-
रेण वुत्तं—जं देवो आणवेइ त्ति । चित्तियं च—अहो ! सुद्धया कुमारस्स जं
अलक्खं दाणमेव नत्थि । नूणं न याणइ लक्ख-परिमाणमिमो । ता तं संपाडे-
मि एएसिं कुमारपुरओ चेव जेण लक्खो महा-पमाणो त्ति सुणिऊण न पुणो
थेव कज्जे एवमाणवइ त्ति । तओ तेण तत्थेव आणाविओ दीणार-लक्खो,
पुंजिओ कुमार-पुरओ । भणियं कुमारेण—भो कुवेर ! किमेयं ति ? तेण
वुत्तं—देव ! एस सो दीणार-लक्खो, जो पसाईकओ कुमारेण एएसिं कुसल-
निउणाणं । कुमारेण चित्तियं—हंत ! किमेयं संपयं संपयाण दंसणं, नूणं पभूओ
खु लक्खो एयस्स पडिहाइ । ता मं सुहित्तणेण किर पडिवोहिऊण एयस्स
दंसणेण नियत्तेइ । इमाओ अपरिमिय-महादाणाओ नेच्छइ य मज्झ संपया-
परिब्भंसं ति । अहो ! सुद्धया कुवेरस्स । एगंतवज्जे अणाणुगामिए सह

जीवेण साहारणे अग्नि-तक्रराईणं पयाण-मित्तफले परमत्थओ आवयाकारए अत्थे वि पडिबंधो । ता पडिबोहेमि एयं । तओ भणियं—अज्ज कुबेर ! किमैसो लक्खो ? । कुबेरेण भणियं—देव ! एसो । कुमारेण वुत्तं—भो ! किं दोण्हं एगमित्तेण कित्तिओ वा एगलक्खो ? , न खल्ल एएण इत्थं पि जम्मे एए चित्तदारया परिमिण्णावि वएण सुहिणो भवंति । नय असंपयाणेण अपरिभंसो संपयाए । अवि य खीणे य पुन्नसंभारे नियमा विणस्सइ ।

तहा—

अणुदियहं दिंतस्स वि झिज्जंति न सायरस्स रयणाइं ।

पुन्न-क्खएण झिज्जइ ता रिद्धी न उण चाएण ॥

अदिज्जमाणा वि अन्नोसिं अपरिमुज्जमाणा वि अत्तणा गोविज्जमाणा वि पच्छन्ने रक्खिज्जमाणा वि पयत्तेण असंसयं नस्सइ एसा । किं, वा दाण-भोग-रहियाए अविस्ति-कम्म-यर-मेत्ताए संपयाए त्ति ता वीयं पि लक्खं देहि । कुबेरेण वुत्तं—जं देवो आणवेह । अहो ! उदारया कुमारस्स त्ति विन्धिया कुसल-निउणा । चित्तवट्ठियं पुणो पुणो पिच्छंतेण पदियं कुमारेण—

मयण-घरिणी नूणं दासी-दसं पि न पावए ।

ति-णयण-पिया पत्ता लोए तणं व लहुत्तणं ॥

सलिल-निहिणो घूया घूली-समा वि न सोहए ।

अमर-महिला हीला-ठाणं इमीए पुरो भवे ॥

चित्तिं कुसल-निउणेहिं—कयत्था कणगवई कुमारी जा कुमारेण एवं बहु मणिज्जइ । संपत्तमस्हाण समीहियं । एत्थंतरे मज्जण-समउ त्ति उट्ठिओ कुमारो । गया नियावासं कुसल-निउणा । एवं कुमार-सेवा-परा ठिया कित्तिं पि कालं । कुमार-रूवं आलिहिउण चित्त-वट्टए पत्ता कणगपुरं । दंसिओ कुमार-पडिच्छंदओ कणगद्धयस्स । कहिओ कुमार-वुत्तंतो । भणियं रत्ता—ठाणे अणुराओ कुमारीए । इमं पइ अणुरत्तो य कुमारो । तओ चउरंग-बल-कलिया पेसिया कणगवई ।

पत्ता मायंदीए इंदीवर-लोयणा पसत्थ-दिणे ।

परिणीया कुमारेण एसा लच्छि व्व कणहेण ॥

अह नरचंदो राया रज्जंमि निवेसिउण नरसिंहं ।

पव्वज्जं पडिवन्नो मुणिचंद-मुणीसर-समीवे ॥

ता नरसिंहो राया अणुराय-परव्वसो विसय-गिद्धो ।
 चिद्धइ पेच्छंतो चिय कणगवइए वयण-कमलं ॥
 सो नट्ट-गीय-धाइत्त-चित्तकम्माइणा विणोएण ।
 तीए चिअअक्खित्तो तणं व रज्जं पि मत्तेइ ॥
 करि-तुरय-कोस-चित्तं न कुणइ न महायणं पलोएइ ।
 निय-देसं पि न रक्खइ पच्चंत-निवेहिं भज्जंतं ॥
 तो गुत्तिएण सूरेण मंतिडं सह पहाण-पुरिसैहिं ।
 गहिडं रज्जं निस्सारिओ अ एसो पिया-सहिओ ॥
 सो भमइ महीवल्लयं छुहा-पिवासाइ-डुह-भरक्कंतो ।
 कामाडराणमहवा कित्तिमेयं मणुस्साणं ॥
 अह काणणंमि एक्कंमि मग्ग-खिन्नस्स वीसमंतस्स ।
 दइच्छंग-निवेसिय-सिरस्स तस्सागया निहा ॥
 एत्थंतरंमि हरिया कणगवई खेयरेण केणावि ।
 हा नाह ! रक्ख रक्ख त्ति करुणसइ विलवभाणी ॥
 रत्ता वि विबुद्धेणं कड्ढिय-खग्गेण जंपिओ खयरो ।
 सुत्तस्स मे पिययमं तुमं हरंतो न लज्जेसि ॥
 ता मुंच पियं मह होसु संसुहो जइ तुमं मणुस्सोसि ।
 जेण तुह सिक्खमिभिणा करेमि तिक्खग्ग-खग्गेण ॥
 इय तस्स भणंतस्स वि खणेण खयरो अदंसणं पत्तो ।
 तत्तो विसण्ण-चित्तो नरसिंहो विलवए एवं ॥
 हा ! कमल-विडल-नयणे ! मयंक-वयणे ! सुहा-महुर-वयणे ! ।
 तुमए विणा विणासो सुहस्स मह संपयं जाओ ॥
 अमओवमेण तुह दंसणेण परिओसमुव्वहंतस्स ।
 मह न मणुव्वेगकरं रज्ज-परिभंस-डुक्खं पि ॥
 करि-तुरय-रह-समिद्धं रज्जं हरिऊण किं न तुट्ठोसि ।
 जं ह्यविहि ! हरसि तुमं मह हिययासासणं दइयं ॥
 वसणंमि ऊसवंमि य अभिन्न-हियया हवंति सप्पुरिसा ।
 इय चित्तिऊण एसो नरसिंहो धरइ धीरत्तं ॥
 अजिइंदियत्तणेणं भंसं रज्जस्स अहमिणं पत्तो ।
 तत्तो विवज्जइस्सं अओ परं रमणि-संभोगं ॥

जा पुण वि रज्जलाभो न होइ इय नियमणंमि संठविडं ।
सो बहु-विह-देसेसुं परिभमंतो गमइ कालं ॥
अह सिरिउरंमि नयरे वीसंतो नयर-देवयाययणे ।
सो तत्थ नियं दइयं दहुं परिओसमावन्नो ॥
जंपइ तुमं पिययमे कहमिह पत्ता अणभम-वुट्ठि व्व ? ।
सा भणइ खेयरेणं नीयाऽहं तेण निय-नयरे ॥
अणुराय-परवसेणं बहुसो अब्भत्थिया य भोगत्थं ।
नय मन्निओ मए सो जणय-सुयाए व्व दह-वयणो ॥
तत्तो विलक्ख-चित्तेण तेण इह आणिऊण सुक्काऽहं ।
रत्ता भणियं—को कुणइ परिभवं सीलवंतीणं ॥
अह वल्लहं पि मिल्हाविऊण नहलच्छि-संगमं सूरु ।
हय-दिव्व-निउगेणं गमिओ अत्थगिरि-सिहर-वणं ॥
तो पयडिडं पवत्ता पढमं संज्झासु निभरं रायं ।
खुइ-महिल व्व पच्छा, संजाया तक्खण-विराया ॥
रयणीए पत्थिवो तत्थ पत्थरे विहिय-सत्थरे सुत्तो ।
एसा वि सुवत्ता तस्स चेव आसन्न-देसंमि ॥
तम्मि समयंमि वट्टइ हेमंतो काम-वसिय-रणमंतो ।
अग्घविय तेल्ल-कुंकुम-कामिणी-थण-जल्लण-पावरणो ॥
अह जंपियं इमीए—नाह ! दढं पीडियम्मि सीएण ।
निय-पड-पेरंतेणं पावरिया तो इमा रत्ता ॥
सा पाणि-पल्लवेहिं आढत्ता फरिसिडं निवस्स तणुं ।
तह पीडिडं पवत्ता थण-कलस-भरेण वच्छयलं ॥
तो रत्ता पडिसिद्धा सा जंपइ—नाह ! किं निवारेसि ।
विरहानल-संतत्तं चिराड मं किं न निव्ववसि ॥
सो भणइ—रज्ज-लाभं जाव मए वज्जिओ जुवइ-संगो ।
सा वि विलक्खा तं भेसिडं कुणइ अत्तणो वुट्ठि ॥
तं दहुं वडुंतिं दहया-विसरिस-वियार-जुत्तं च ।
मज्झ पिया कणगवई न इम त्ति विणिच्छियं रत्ता ॥
हियडा संकुडि मिरिय जिम्ब इंदिय-पसरु निवारि ।
जित्तिउ पुज्जइ पंगुरणु तित्तिउ पाड पसारि ॥

एयं पि तए न सुअं आ पावे ! फिट्सु त्ति चित्तेण ।

हणिकुण मत्थए सा हत्थेण गलत्थिया दूरं ॥

तओ देवया-रुवं पयडिकुण भणियो तीए राया—भइ ! अहं नयरदेवया,
तुह रुवक्खित्त-चित्ताए चित्तिर्यं मए—मयणो व्व मणहरो कि एस एयागि-
त्ति जाणिया य ते भज्जा खेयरेण अवहरिया । ता तीए रुवं काऊण भोगत्य-
मम्भत्थियो तुमं । सत्त-सारत्तणेण तुमए न खंडियो नियमो । पच्छा तुह
भेसणत्थं वड्डिउं पवत्ता । तहावि खोहिउं न सक्कियो तुमं । ता महासत्त ! तुह
तुद्दाऽहं । किंपि पत्थेसु । पत्थिवेण वुत्तं—अउन्न-जण-दुल्लहं दिव्व-दंसणं दिंतीए
तुमए किं न दिन्नं । अओ परं कि पत्थेमि ? । अमोहं दिव्व-दंसणं ति भणं-
तीए देवयाए ब्रह्मं रत्तो भुआए अणप्प-माहप्प-भणिसणाहं रक्खा-कडयं, भणियं
च—इमिणा बाहु-वद्धेण न पहवंति जक्ख-रक्खसाइणो ।

ता वव कंचणउरे तुह होही तत्थ रज्ज-संपत्ती ।

इय जंपिकुण पत्ता अदंसणं देवया झत्ति ॥

सो पच्चूसे चळियो क्रमेण कंचणउरंमि संपत्तो ।

रज्ज-प्पयाण-पडहं वज्जंतं तत्थ निसुणेह ॥

तो विम्हिएण इमिणा वत्थव्वो तत्थ पुच्छियो पुरिसो ।

किं दिज्जंतं पि इमं रज्जं न ह्यु को वि गिण्हेइ ? ॥

तेण कहियं—जो एत्थ रज्जे निविसइ सो पढम-निसाए चव विणस्सइ ।
नरसीहेण छित्तो पडहो । नीओ सो भवणं । निवेसियो रज्जे । विविह-विणो-
एहिं अइकंतं दिणं, आगया रयणी । जगंतस्स भयं नत्थि त्ति पल्लंके सुत्तूण
दीवच्छायाए गहिय-खग्गो जगंतो ठियो राया । मज्झ-रत्ते पत्तो रक्खसो ।
दिट्ठो तेण खग्ग-घाओ पल्लंके जाव न कोइ विणासियो, ताव जोइया दिसाओ ।
दिट्ठो राया । रत्ता वुत्तं—को तुमं जो सुतेसु पहरसि ? । तेण वुत्तं—अहं
रक्खसो । को पुण तुमं ? रत्ता वुत्तं—अहं भेक्खसो । तो रक्खसेण हसिकुण
जंपियं—भइ ! अवितहं जायं जं हुंति रक्खसाणं पि भेक्खसा लोयवयण-
मिणं । अनं च सुण नरेसर ! इह नयरे आसि दुम्मई राया । तत्थ विमलस्स
वणिणो भज्जा रइसुंदरी नामा । रइसम-रुव त्ति निवेण तेण अंतेउरंमि सा ह्वा ।
तव्विरहे नेह-वसेण भोयणं चउविहं चइवं विमलो मरणं पत्तो संजाओ
रक्खसो । इमो सोहं । संभरिय-पुव्व-वेरेण दुम्मई सो मए निहओ । जो को
वि तस्स रज्जंमि निवसए तं पि झत्ति निहणेमि । भइ ! तुमं तु परित्थी पर-
म्मुहो तेण तुद्दाऽहं ।

ता कुणसु इमं रज्जं तुमं ति वुत्तं तिरोहिओ रक्खो ।
 कय-लोय-चमक्कारो नरसीह-निवो कुणह रज्जं ॥
 अह तत्थ समोसरिओ संतिजिणो तस्स वंदण-निमित्तं ।
 राया गओ जिणिदं नमिडं परिसाए विणिविट्ठो ॥
 अह कणगवइं देवि समप्पिडं खेयरेण नरसीहो ।
 भणिओ एवं—नरनाह ! जं मए मयण-वसणेण ॥
 अवहरिया तुह देवी तमहं कुलदेवयाइ सिक्खविओ ।
 तुमए कयं अजुत्तं जं आणीया इमा देवी ॥
 एयं महासइं खलु खलीकरंतो लहिस्ससि अणत्थं ।
 ता संति-समोसरणे नेडं अप्पसु इमं तस्स ॥
 संति-समोसरण-ठिओ तुममेत्तिय-कालाओ मए दिट्ठो ।
 ता खमसु मे महायस ! देवी-अवहार-अचराइं ॥
 कम्मण एस दोसो न तुह त्ति खमा-परो भणइ राया ।
 जम्हा चयंति वेरं विरोहिणो जिण-समोसरणे ॥
 अह भणइ संतिनाहो सच्चमिमं एस कम्म-दोसो त्ति ।
 पत्तोसि रज्जविगम-प्पसुह-दुहं तच्चसेण जओ ॥
 तं पुण सुण पत्थिव ! इत्थ अत्थि वित्थिन्न-वावि-कूब-सरं ।
 सीहउरं नाम पुरं तत्थ वणी गंगणागो त्ति ॥
 जो वीथराय-भत्तो सुणि-जण-पय-पज्जुवासणासत्तो ।
 नीसेस-दोस-वत्तो गुरु-सत्तो सुणिय-नव-तत्तो ॥
 तस्सासि पयइ-भद्दो वरुणो नामेण गेह-कम्मयरो ।
 सो पत्तो सह इमिणा सुणीण पासे सुणइ एयं ॥
 पर-दोह-वट्ट-वाडण-वंदग्गह-खत्त-खणण-पसुहाइं ।
 परघण-लुब्धो जो कुणइ लहइ सो तिक्ख-दुक्खाइं ॥
 वरुणो गिण्हइ नियमं जा जीवं चोरिया मए चत्ता ।
 गेह-गएण सिरीए घरिणीए तेण कहियमिणं ॥
 जुत्तं विहियं तुमए ममावि नियमो इमो त्ति भणइ सिरी ।
 इय नियम-पराणं ताण नेह-पवराणं जंति दिणा ॥
 अह गंगणाग-गेहे वरुणेण सुवन्न-संकलं दिट्ठं ।
 चलय-मणेणं गहिऊण अप्पियं तं निय-पियाए ॥

सुगिञ्ज गंगणागो तं नट्टं सोग-निम्भरो भणइ ।
 हा ! निक्खिवेण केण वि हरियं मह जीवियं व इमं ॥
 तं विलवंतं दट्टं दयापरा जंपए पिया वरुणं ।
 एयं सुवत्त-संकलमप्पसु पिय ! गंगणागस्स ॥
 एयं कयंमि सत्थो होइ नियम-पालणं च भवे ।
 वरुणेण अप्पियं तं इमस्स जाओ थ सो सत्थो ॥
 वरुणो कमेण मरिडं जाओसि तुमं नरिंद ! नरसीहो ।
 तुह पुव्व-जम्म-भज्जा जाया एसा उ कणगवई ॥
 जं चोरियाए नियमो गहिडं तं पावियं तए रज्जं ।
 जं संकलं तु गहियं रज्जाओ तेण चुक्कोसि ॥
 जं पुण समप्पियमिणं साणुक्कोसेण गंगणागस्स ।
 तं नरसीह नराहिव ! पुणो वि पत्तोसि रज्ज-सिरिं ॥
 इय सोडं संभरिओ पुव्व-भवो तो पर्यपियं रत्ता ।
 देवीए थ अबित्तहं नाह ! तए अक्खियं एयं ॥
 दोहिं पि देसविरई पडिवन्ना संतिनाह-पय-मूले ।
 भव-भय-हरणो भयवं विहरिओ अन्न-ठाणेसु ॥
 पालिय जिणधम्माइं दुत्ति वि समए समाहिणा मरिडं ।
 सोहम्म-देवलोयं पत्ताइं कमेण मोक्खं च ॥

इति चौर्य-व्यसने वरुण-कथा ।

रत्ता भणियं—भयवं ! पुव्वं पि मए अदिन्नमन्नघणं ।
 न कयावि हु गहियव्वं निय-रज्जे इय कओ नियमो ॥
 ज उण कयाइ कस्स वि कयावराहस्स कीरए दंडो ।
 सो लोय-पालण-निमित्तमव्वथत्था हवइ इहरा ॥
 जं च रुयंतीण घणं महंत-पीडा-निबंधणत्तेण ।
 बहु-पाव-बंध-द्वेडं अओ परं तं पि वज्जिस्सं ॥
 गुरुणोक्तं—

न यन्मुक्तं पूर्वं रघु-नद्युष-नाभाग-भरत-
 प्रभृत्युर्व्वीनाथैः कृतयुगकृतोत्पत्तिभिरपि ।

बिभ्रन् संतोषात्तदपि रुदतीवित्तमधुना

कुमार-क्षमापाल ! त्वमसि महतां मस्तकमणिः ॥

इय सोमप्पह-कहिए कुमारनिव-हेमचंद-पडिबद्धे ।

जिण-धम्मप्पडि-बोहे समत्थिओ पढम-पत्थावो ॥

इत्याचार्यश्रीसोमप्रभविरचिते कुमारपालप्रतिबोधे

प्रथमः प्रस्तावः ॥

॥ ३१ ॥

अथ द्वितीयः प्रस्तावः ।

अन्नं च सुणसु पत्थिव ! जीव-दया-लक्खणो इमो धम्मो ।
जेण सयं अणुचिन्नो कहिओ अ जणस्स हिअ-हेउं ॥
सो अरहंतो देवो असेस-रागाइ-दोस-परिचत्तो ।
सव्वन्नू अवितह-सयल-भाव-पडिवायण-पहाणो ॥
रागाइ-जुओ रागाइ-परवसं रवित्खउं परं न खमो ।
नहि अप्पणा पलित्तो परं पलित्तं निवारेइ ॥
धम्माधम्म-सरूवं सक्कह कहिउं कहं असव्वन्नू ।
रूव-विसेसं वोत्तुं अत्थि किमंघस्स अहिगारो ॥
परमत्थं अकहंतो वि होइ देवो त्ति जुत्तिरित्तमिणं ।
गयणस्स वि देवत्तं अणुमन्नह अन्नहा किं न ॥
जो अरहंतं देवं पणमइ झाएइ निच्चमचेइ ।
सो गयपावो पावेइ देवपालो व्व कल्लाणं ॥
रत्ता भणियं—भयवं ! कहेह को एस देवपालो त्ति ।
शुरूणा वुत्तं—पत्थिव ! सुणसु तुमं सावहाणमणो ॥
जंबुद्दीवे दिवे भरहे वासंमि मज्झिमे खंडे ।
सुर-पुर-पराजय-समत्थमत्थि हत्थिणउरं नयरं ॥
रेहंति अ-रूक्खाइं मणाइं वयणाइं तह सरीराइं ।
लोयस्स जत्थ मज्झे उज्जाणाइं न उण बाहिं ॥
तत्थत्थि भुयग-पुंगव-गरुय-भुय-क्खंभ-धरिय-भूवलओ ।
नीह-लया-नव-मेहो सीहरहो नाम नरनाहो ॥
जस्स करवाल-दंढेण खंडिया निवडिया रणमहीए ।
अरि-कुंजर-दंता अंकुर व्व छज्जंति जस तरुणो ॥
कंचण-भणुज्ज-कंती कंचणमाल त्ति से महादेवी ।
रइ-रंभा-पमुहाओ वहंति दासी-दसं जीए ॥
तह तत्थ अत्थि सेट्ठी जिणदत्तो नाम जिण-वल्लण-भत्तो ।
सुणि-जण-सेवासत्तो दाणाणंदिय-सयल-सत्तो ॥

ददूण जस्स विह्वं समणं व जणा मुणंति वेसमणं ।
जो तस्स पत्थिवस्स वि थप्पण-उत्थप्पण-समत्थो ॥
तस्सत्थि घरे पडिवन्न-वत्थु-निव्वहण-विहिय-गुरु-सत्तो ।
खत्तिय-गुत्तुप्पन्नो गोवालो देवपालो त्ति ॥
सो जिणदत्तं ददुं धम्म-परं किंचि भद्दओ जाओ ।
पंच-परमेट्ठि-मंतं च सिक्खए मुणि-समीवंमि ॥
अह वित्थारिय-रंभो निरुंभिओ गाढ-गिंभ-सरंभो ।
तडिकय-घण-परिरंभो विर्यंभिओ पावसारंभो ॥
जत्थ घण-धूम-संगय-नहंगणो गरुय-विज्जुल-पजालो ।
खज्जोय-फुल्लिग-जुओ पहिय-दुमे दहइ मयण-दवो ॥
जत्थ लह्जिण उदयं पाडंति तडहुमे गिरि-नईओ ।
दूमंति कं न नीया वित्थरिया महिहरेहिंतो ॥

तंमि पाउसे गावी-चारणत्थं गओ गोवालो गिरिनिगुंजे । दिट्ठं तत्थ नह-
पूर-खणिय-खोणि-प्पएसे पसरंत-कंति-चुंवण-चउरेहिं चिहुरेहिं अंसत्थल-वि-
लसिरेहिं रेहंतं हरिणकमंडल-मणहरं जुगाइ-देवस्स वयणं । तइंसणाओ समुप्पन्नो
देवपालस्स समुदस्स व समुल्लासो । तओ तेण खणिज्जण पासाइं अवणीओ चउ-
दिसं पंसु-पूरो । पयडी-कया सव्वंगं पडिमा । काज्जण पेढं ठविया तत्थ एसा ।
उवारि विरइया कुडी, चित्थियं च—धन्नोहं जस्स मे परपेसण-वावडत्तणेण परव-
सस्स सयं देवाहिदेवेण दंसिज्जण अप्पाणं पसाओ कओ ता मए जावळीवं
इमं ददूण पुज्जिज्जण य जहासत्ति भुत्तव्वं ति कओ निच्छओ । तओ गोवालो
गावी-चारणत्थं गओ । कल्हार-सिंदुवार-कुसुमाईहिं पुज्जिज्जण जिणं पणमेइ ।
पव्व-दिणे पुण संनिहिय-नई-नीरेण प्हुवेइ । एवं कुणंतस्स तस्स अइक्कंतो कोइ
कालो । इओ य सीहरह-नरिंदस्स निरवच्चत्तणेण दूमिय-मणस्स मणोरह-सएहिं
देवीए कंचणमालाए समुप्पन्ना मणोरमा नाम कन्ना । गहिय-कला-कलावा
जाया जोव्वणाभिमुही ।

वयण-नयणेहिं जीए चिणिज्जिया लज्जिय व्व ससि-हरिणा ।

गयणंमि गया मिलिज्जण दो वि भमडंति रयणीए ॥

कयाइ वासासुं सत्तरत्तं निविड-निविडंत-नीर-संचाया संजाया बुट्ठी ।
नयरस्स वणस्स य अंतराले पडंत-पउर-पयपूर-वसेण नई अपारा संपन्ना । बाहिं
गंतुं अपारयंतो देवपालो देवस्स अदंसणेण अकय-भोअणो ठिओ सत्त-दिय-

हाहं । अट्टम-दिणे नियत्ते नई-पूरे गओ नाहिं । जुगाइदेवं दट्टण अमय-सित्तो
 व्व समुप्पन्न-परिओसो तं पुज्जिऊण महि-निहिय-निडालवट्ठो पणमेइ । एत्थंतरे
 तन्नभत्ति-रंजिय-मणेण गयणंगण-गएण अहासंनिहिय-वंतरेण भणिओ सो—
 वच्छ !

इउं तुह तुट्टउ निच्छइण मग्गि मणिच्छिउ अज्जु ।

तो गोवालिण वज्जरिउ पहु मह वियरहि रज्जु ॥

थेव दिणन्नंतरे भविस्सइ त्ति वुत्तं वंतरेण । सविसेस-तुट्ट-चित्तो पूहए देवं
 देवपालो । तंमि समए समुप्पन्नं तत्थ नगरूज्जाणे तिब्ब-तव-खविय-घाइ-कम्मस्स
 दमसार-साहुणो केवलन्नाणं । तियसेहिं आहयाओ गयणे दुंदुहीओ, वरिसियं
 गंधोदयं, पवंचिया पंचवन्न-कुसुम-चुट्ठी । कयं कणय-कमलं । निसन्नो तत्थ भयवं
 पयट्ठो य पयडिय-परम-पय-पहं धम्मकहं काउं । इमं वुत्तं तमायन्निऊण गओ गय-
 वरारूढो सीहरहो राया । पणमिऊण केवलिं निसन्नो पुरओ, भणियं केवलिणा—

लह्ण दुल्लहमिणं राहावेहोवमाइ-मणुयत्तं ।

विस-विसम-विसय-वासंग-परवसा किं मुहा गमह ॥

करि-तुरय-कोसरिउं नरिंद-चूलग-लग-पयवीढं ।

सरणं न होइ रज्जं पि मरण-समए मणुस्साणं ॥

ता मुत्तूण पमायं असेस-दुह-कारणं पिसायं व ।

संसार-सागरुत्तरण-संकमं संजमं कुणह ॥

अह राया संविग्गो जंपइ पहुं मज्झ कित्तिर्यं आउं ।

मुणिणा भणियं—नरवर ! तुह आउं तित्ति-दियहाहं ॥

एवं सोऊण निवो जल-गय-मट्ठियमयामकुंभो व्व ।

सीर्यंत-सव्व-गतो जंपिउमेवं समाढत्तो ॥

किं चेव जीविओऽहं करेमि धम्मं तओ गुरू भणइ ।

धम्म-परस्स मुट्टत्तो वि दुल्लहो किं पुण ति-रत्तं ॥

नमिऊण केवलि-मुणिं नरनाहो मंदिंरंमि संपत्तो ।

गुरू-खेय-विट्ठर-चित्तो चित्तिउमेवं समाढत्तो ॥

रज्जमणाहं मुत्तुं न तरेमि मुणेमि जीवियं थेवं ।

ता किं करेमि हा ! वग्घ-दुत्तडी-संकडा-वडिओ ॥

इय चिंताए आलिं गियस्स रत्तो न मज्झ-रत्ते वि ।

निहा समीवमल्लियइ जाव ईसा-वसेणं व ॥

ताव कुलदेवयाए भणिओ राया—करेसु मा खेयं ।
 करिपमुहाइं अहिसिच पंच दिव्वाइं पच्चूसे ॥
 जं पुरिसं पडिवज्जंति ताइं तं ठविऊण रज्जंमि ।
 परिणावसु निय-कन्नं परलोय-धियं कुणसु पच्छा ॥
 इय देवयाइ वयणेण पत्थिवो किंचि निव्वुओ जाओ ।
 वसणे वयणं पि सुहं खु कुणइ किं पुण हिया बुद्धी ॥
 तो गोसे अहिसित्ताइं पंच दिव्वाइं ताइं पुरमज्जे ।
 भमिउं गयाइं वाहिं दिवायरे गयण-मज्झ-गए ॥
 गोदोहियाहिं गावीसु दुज्झमाणासु जत्थ गोवालो ।
 वित्थिण्ण-बड-विडविणो छायाए अच्छइ पसुत्तो ॥
 तं दद्वूण गयंदेण गज्जियं हेसियं तुरंगेण ।
 सयमेव ससि-सवत्तं छत्तं उवरि ठियं तस्स ॥
 ढलिया य चामरा करिवरेण कलसोदएण प्हविऊण ।
 खंधे चडाविओ सो विहिओ लोएहिं जय-सद्धो ॥
 वत्थाहरणेहिं विभूसिऊण नयरे पवेसिओ एसो ।
 अहिसिचिऊण रज्जे रन्ना परिणाविओ धूर्यं ॥
 तो सीहरहो गंतुं केवलि-पासे पवज्जिउं दिक्खं ।
 पच्चक्खेइ चउविहमाहारं जाव जीवं पि ॥
 सम-सुह-दुक्खो सम-कणय-पत्थरो सम-सपक्ख-पडिवक्खो ।
 आउक्खए मओ सो चउत्थ-दिवसे दिवं पत्तो ॥
 कंबल-लट्ठि-करंबय-मडक्किया-दंडि-खंड-पभिईणि ।
 गो-दोहियाहिं वेत्तुं घरम्मि सेट्ठिस्स नीयाइं ॥

गोवालो त्ति काउं मंति-सामंताइणो तस्स आणं न कुणंति । महायण-
 प्पहाणो त्ति मंतणत्थं हक्कारिओ अणेण जिणदत्त-सेट्ठी । सो वि अवन्नाए
 नागच्छइ । केवलं मम गोवालो इमो त्ति पयडणत्थं कंबलि-मडक्किया-दंडि-
 खंडाईणि रयणीए सीहदुवारे सेट्ठिणा तोरणीकयाणि । ताई दद्वूण चित्तियं
 देवपाल-देवेण—जेण मे रज्जं दिन्नं तमेव देवं विन्नवेमि किं अन्नेणं ? ति गओ
 जुगाइ-देव-पडिमा-पासं । कप्पूरागुरु-कुसुमुच्चएहिं तं अचिऊण विन्नवेइ—भयवं !
 जहा तुमए मह महारज्जमेयं दिन्नं तहा आणिस्सरियं पि देहि जेण रज्जं थिरी
 होइ । वंतरेणंतरिक्ख-ट्टिएण भणियं—मट्ठिय-मय-मयगलारूढो रायवाडियं

करिञ्ज, सो य मज्झ पभावेण चालिस्सइ । तओ सब्बो वि जणो तुहाणं करि-
स्सइ । एवं सोऊण तुट्ठो देवपालो समागओ रायभवणं । आणवेइ कुलाले,
जहा—करेह रायवाडिया-जुगं उदगं मयगलं । जं देवो आणवेइ त्ति वुत्तूण
सिग्घमेव कओ सो तेहिं । मट्ठिय-मय-मयागलारूढो रायारायवाडियं करिस्सइ
त्ति जाओ जण-प्पवाओ । सामंत-मंति-मंडलियाइणो इणमत्थं सोउं हसिउं
पयहा, जो मट्ठिय-मय-मयगलारूढो रायवाडियं राया काउं वंछइ, सो एस
अवितहं चेव गोवालो ।

कोउग-वसेण बहुओ गामेहितो समागओ लोओ ।

देउल-गोउर-घरसिर-गवक्ख-रूक्खेसु आरूढो ॥

जोइसिय-विणिच्छिय-सुह-दिणंमि कम्मयर-नियर-उक्खित्तो ।

सालंगणी-समीवे हत्थी आणाविओ रत्ता ॥

चित्तिओ विचित्त-वन्नएहिं चित्तयरगणेण, अलंकिओ मणि-कणय-भूस-
णेहिं, सज्जिओ कंचण-गुडासारीहिं, कओ विचित्त-चिघचिचइओ, अवरे वि स-
ज्जिया कुंजरा, पट्टविया नरिंदाईणं, पक्खरिया तुरया, सन्नद्धा सुहडा, पडणी-
कया रहवरा । पडिहारं पेसिऊण हक्कारिओ सेट्ठी । अप्पणो समं कराविओ
सिंगारं । अंकुसं धित्तूण राया निविट्ठो अग्गासणे, पच्छासणे निवेसिओ सेट्ठी ।

एत्थंतरंमि चलिओ सुवन्न-सेलो व्व जंगमो हत्थी ।

विहिओ महंत-विम्हय-वसेण लोएण जय-सदो ॥

वज्जंताउज्ज-निनाय-भरिय-शुवणो समग्ग-सिन्न-जुओ ।

ठाणे ठाणे कीरंत-भंगलो निग्गओ राया ॥

पत्तो जुगाइदेवस्स अग्गओ गयवराओ ओइत्तो ।

तं अविऊण पणमइ नरिंद-सामंत-मंति-जुओ ॥

पुणरवि गयमारूढो ढलंत-सिय-चामरो धरिय-छत्तो ।

पुर-सुंदरीण तण्हाउरेहिं नयणेहिं पिज्जंतो ॥

नचंत-रमणि-चक्कं तैणेव कमेण मंदिंरं पत्तो ।

उत्तरिऊण गयाओ जिणदत्तं जंपए सेट्ठिं ॥

तुह गोवालेण मए एसो नयरंमि भामिओ हत्थी ।

पत्तो परं तुमं पुण खंभे अग्गलसु गयमेयं ॥

तत्तो सिट्ठी गहिऊण अंकुसं कुणइ गमण-संनाओ ।

एकं पि पयं न चलइ गओ गओ सो विलक्खत्तं ॥

ददुं इमं पभावं असंभवं देवपाल-देवस्स ।
 सव्वे वि निवा आणं वहंति सीसेण कुसुमं व ॥
 कणय-मय-पासायं जुगाहदेवस्स कारिज्जण इमो ।
 ण्हवण-विलेवण-बलि-मीय-नट्ट-पमुहं कुणह पूयं ॥
 लच्छी जणहणस्स व मणोरमा तस्स वल्लहा देवी ।
 तीए सह सो निबं वच्चइ जिण-अच्चण-निमित्तं ॥

अन्नया रत्ता समं वचंतीए मणोरमाए देवीए जिण-भवणासन्ने दिट्ठो खंध-
 द्विय-कट्ट-क्वाडि-सणाहो कव्वाडिओ । तं दट्टण कत्थ मए एस दिट्ठपुव्वो त्ति
 चिंतंतीए देवीए समागया मुच्छा, हा ! किमेयं ति विसत्तेण रत्ता कया सि-
 सिरोवयारा, सत्थी हूया देवी भणियमणाए—

अडविहि पत्ती नइहि जल्लु तो विन वूहा हत्थ ।

अव्वो तह कव्वाडियह अज्ज विसज्जिय वत्थ ॥

रत्ता वुत्तं—देवि ! को एस वुत्तंतो ? देवीए भणियं—देव ! देव-मंदिर-
 दुवार-देस-मंडणे मंडवे उवविसह जेण कहेमि वुत्तंतमेयं । तत्थ गंतूण सम-
 त्त-सामंत-मंति-परियरिओ निविट्ठो राया । अगगओ उवविसिज्जण भणियं
 देवीए—देव ! सहावेह कोहलं नाम कव्वाडियं । रत्ता पुरिसं पेसिज्जण
 सहाविओ । आगओ सो देवीए भणिओ—भइ ! सिंहला नाम ते
 भज्जा आसि ? तेण वुत्तं—एवं ! देवीए वुत्तं—कयाह तुमए समं एत्थ
 पएसे सा आगया । दिट्ठो तीए जुगाह-देवो परिओस-वस-वियसिय-व-
 णाए भणिओ तुमं—पिययम ! इमं देवाहिदेवं जहासत्ति पुज्जिज्जण पणमामो
 जेण जम्मंतरे वि एरिसाणं दालिह-दुक्खाणं ठाणं न भवामो । तुमए वुत्तं
 पिये ! धम्म-गहिला तुमं किं पि न जाणसि, अहं पुण पर-पेसत्त-दुत्थिओ न स-
 क्केमि किं पि काउं । तओ तुमं धम्म-विसुहं मुणंतीए सयं चेव नई-नीरेण ण्हवि-
 ज्जण कल्हाराईहिं पुज्जिज्जण य पणमिओ देवो । बद्धं सुह-मणुस्साउयं । एत्थं-
 तरे देव ! दिट्ठो तीए तुमं । अपत्तरज्जो पुज्जंतो पणमंतो य देवं, चिंतियं च धनो
 एसो जो तुल्ले वि परपेसत्तणे पुज्जेइ एवं देवं न उण मे पइ त्ति । तओ इमस्स
 परमप्पणो पुज्जणेण जीविय-फलं मए पत्तं ति चिंतंती गया सा गिहं । निसाए
 विसूहया-वसेण तेणेव सुहज्जवसाणेण मरिज्जण समुप्पन्ना रायधूया एसा अहं ।
 संपयं इमं कव्वाडियं दट्टूण मे संजायं जाईसरणं । तओ पढियं मए 'अडविहि
 पत्ती' इच्चाइ । कोहलेण वुत्तं—देव ! देवीए जं आणत्तं तं सव्वं सव्वं ति ।

एवं सोऽं विन्ध्य-भणेण रत्ना पर्यपियं एवं ।
 पेच्छह अहो! अणप्पं माहप्पं देव-पूजाए ॥
 एत्थ वि भवंमि जाओ रायाऽहं वीयराय-पूयाए ।
 देवी पुण परलोए संपत्ता रत्न-सुक्खमिमा ॥

एत्थंतरंमि देवस्स वंदणत्थं समागओ तत्थ धम्मो व्व मुत्तिमंतो मुणि-
 चंदो नाम आयरिओ । तं पणमिऊण राया सपरियरो तस्स देसणं सुणह । देव
 गुरु-पडिवज्जणेण गिण्हैइ सम्मत्तं ।

जिणधम्म-परो गमिऊण जीवियं अह समाहिणा मरिडं ।
 पत्तो सग्गं मोक्खं च देवपालो पिया-सहिओ ॥

इति देवपूजायां देवपालदृष्टान्तम् ।

जह वि गय-राय-दोसो त्ति वंदणे निंदणे य समरूवो ।

तह वि जिणिंदो चिंतामणि व्व भिन्नं फलं देह ॥

जिणचंदं वंदंता लहंती जीवा समीहियं सुक्खं ।

निंदंता पुण पावंति दुहभरं सोम-भीम व्व ॥

रत्ना भणियं—मुणिनाह! के इमे सोम-भीम-नामाणो ।

गुरुणा भणियं—नरवर! सुणसु तुमं सावहाण-मणो ॥

अत्थि जंबुदीवे भारहखेत्तस्स मज्झिमे खंडे ।

घरणि-रमणी-मणि-कुंडलं व मणिमंदिरं नयरं ॥

मणिमय-पासाय-पहाहिं खंडिए तिमिर-मंडले जत्थ ।

संचारो रयणीसुं पि दुक्करो तक्कराईणं ॥

पुर-परिह-दीह-वाहो नरनाहो तत्थ मणिरहो नाम ।

रमणीण मत्थय-मणी मणिमाला से महादेवी ॥

सोमो भीमो य दुवे वसंति कुल-पुत्तया तहिं नयरे ।

तत्थ पढमो विणीओ थेव-कसाओ सहावेण ॥

वीओ तच्चिवरीओ दुत्ति वि पर-पेसणेण जीवंति ।

अन्न-दिणे रमणिज्जं इमेहि जिणमंदिरं दिट्ठं ॥

सोमेण जंपियं—भाय! भीम! सुकयं कयं न पुक्ख-भवे ।

अग्हेहि तेण एवं परपेसत्तेण जीवामो ॥

तुल्ले वि माणुसत्ते एके पद्दुणो पयाइणो अत्ते ।
 सुकयं विण कहमिणं अकारणं होइ नहि कर्ज्जं ॥
 ता पणमामो देवं न जेण पुण दुक्ख-भायणो होमो ।
 अह भणियं भीमेणं केणावि हु विप्पलद्धोसि ॥
 जम्मा न कोइ देवो न गुरु न य पर-भवाणुगो जीवो ।
 ता सुकय-कए खिज्जसि तुमं किमेवं मुहा सोम ! ? ॥
 एवं वारंतस्स वि भीमस्स इमो गओ जिणाययणं ।
 ददूण वीयरायं परमं परिओसमावन्नो ॥
 घेत्तूण रूवएणं कुसुमाइं कुणह तेहिं जिणपूयं ।
 भत्तीए तं पणमइ मत्तेइ कयत्थमप्पाणं ॥
 पुत्ताणुबंधि-पुण्णं बंधइ तेणेव पुत्त-जोएणं ।
 अकय-तहाविह-पावो एसो आउक्खए मरिउं ॥
 जाओ एत्थेव पुरे मणिरह-रायस्स मणहरंगीए ।
 मणिमाला-देवीए पुत्तो नामेण मणिचूलो ॥
 सोऽलंकिओ कलाहिं अबलाहिव-विहिय-पाडिसिद्धीहि ।
 पडिवन्नो तारुत्तं अणत्त-सामत्त-लायत्तं ॥

अन्नया वियड्डु-गुट्टीए वट्टमाणस्स कुमारस्स पुरओ भणियं एककेण पुरि-
 सेण जहा—सरीरस्स लक्खणाइं सरीरेण सह वच्चंति, सब्बमेयं नव त्ति परि-
 क्खणत्थं रयणीए नयराओ निग्गओ खग्ग-सहाओ कुमारो । परिब्भमंतो पत्तो
 सिरिवरं नाम नयरं । तत्थ समर-निज्जिय-सयलारिसेणो सिरिसेणो राया । तस्स
 हरिणो सिरि व्व सिरिकंता देवी । ताण तइलोकालंकार-भूया कामलेहा धूया
 सा जुव्वाणत्था पत्ता पिउ-पणमणत्थं अत्थाणमंडवं । तत्थ पयट्ठो नट्टविही ।

तं पेच्छंतीए तीइ पसरिओ गायणांमि अणुराओ ।

पाएण परिसेसुं पुरिसेसु रमंति रमणीओ ॥

तीए कओ निसीहे कामाययणे विवाह-संकेओ ।

जुत्ताजुत्त-वियारो न होइ कामाउराण जओ ॥

तओ विवाहसुयत्तणेण असंजाए वि मज्जरत्ते विवाहोवगरण-हत्थाए
 माहवीए सह समागया काम-भवणे कामलेहा । कया कुसुमाउहस्स पूया ।
 माहवीए भवणवभंतरं परामुसंतीए भवियव्वया-वसेण पुव्व-पसुत्तो पत्तो
 मणिचूलो । पुव्वुत्त-गायण-संकाए सवणमूले ठाऊण भणिओ सो—कि

विलंबसि, करेसु विवाहनेवत्थं । एयं सोऊण चित्तिं मणिचूलेण—मन्ने एस
कावि पुव्व-कय-संकेय-पुरिस-बुद्धीए ममं एवमुल्लवइ । ता पिच्छामि विहि-
विलसियं ति उट्ठिओ सो । परिहाविओ माहवीए पसत्थ-वत्थाहरणाईणि ।
कराविओ कामलेहाए करग्गहणं । भणिओ य तीए—अज्जउत्त! जइवि
अविरुद्धो एस विही, तहावि गुरुयण-अणाउच्छाए सयं कीरंतो न संतोसं
जणइ, ता संपयं इत्थावत्थाणं अणुचियं ति । तओ मणिचूलो चलिओ ताहि
समं । पहाय-समए दिट्ठो कामलेहाए सुहय-चूडामणी मणिचूडो । किमेयं ति
पलोइयं सुहं माहावीए, असमिक्खियं कयं ति विसन्ना सा । भणिया
कामलेहाए—

मा कुणसु किं पि खेयं कायमणिं पइ पसारिए हत्थे ।
जइ चडइ मरगय-मणी पुन्न-वसा किं तओ नट्टं ॥
भोत्तुं शुडमोयगसुल्लयाइ जइ खंडमोयगो लद्धो ।
ता किं हरिसावसरे कायव्वो होइ मणखेओ ॥
मणिचूलेण वि दिट्ठा पगिट्ठ-रूवा रइ व्व राय-सुआ ।
तो चित्तिं इमेणं अहो अणव्भा इमा बुट्ठी ! ॥
इय अन्नोन्न-पलोयण-पहिट्ठ-चित्ताइं ताइं पत्ताइं ।
जयउर-नयरं तत्थ य ठियाइं वेत्तूण आवासं ॥
अन्न-दिणे षण-लच्छि पिच्छंतो कोउगेण हय-हियओ ।
कुमरो पत्तो दूरं, अह अत्थमिओ दियह नाहो ॥
आसन्न-गिरि-निगुंजे कुमरेण निसामिओ करुण-सद्धो ।
रमणीइ रुयंतीए तत्तो सद्धानुसारेण ॥
वचंतेण अणेणं दिट्ठा सुर-सुंदरि व्व रूवेण ।
अविरल-बाह-जलाविल-विलोल-लोयण-जुया जुवई ॥
तीए पुरो निविट्ठो दिट्ठो जोगी कयंजलीए एक्को ।
दिट्ठं तेसिं पासंमि जलण-कुंडं च पजलंतं ॥
होऊण लयंतरिओ मणिचूडो जाव चिट्ठए निहुओ ।
तो सुणइ जोगिणं तं जंपंतं चाडुवयणाइं ॥
पसयच्छि ! पसीयसु कुरु पमोयमेवं किसुव्वहसि खेयं ।
किं न पलोयसि मं पेम्म-पसर-पुत्तेहिं नयणेहिं ॥
साहिय-अणेग-विज्जो जोऽहं कणगाइ-सिद्धि-लद्ध-जसो ।

तं परिणेऊण समं विसय-सुहं सेवसु विसिद्धं ॥
 अह बाला रुयमाणी भणह विकत्थसि किमेवमप्पाणं ।
 जइ वि तुमं तियस-पइ तहावि तुमए न मे कळं ॥
 तो जोगिणा पलत्तं मयंक-वयणे ! करेसु मह वयणं ।
 अन्नह नियय-समीहियमहं करिस्सं हडेणावि ॥
 जो होइ हसंताणं रोयंताणं च सुयणु ! पाहुणओ ।
 ता सो वरं हसंताण किं न एयं सुयं तुमए ॥
 बिंबोद्धि ! किं विलंबसि उट्टसु सकरेण गिण्ह मज्झ करं ।
 जेणेह जलण-कुंडंमि मंडलाइं परिब्भमिमो ॥
 इय जंपतो जोगी करेण तं जाव वेत्तुमाहत्तो ।
 ता पुक्करियं तीए अहो ! अणाहा इमा पुहवी ॥
 भो ! सुणह लोग-पाला ! वियरह वणदेवयाओ अवहाणं ।
 सीहपुर-नयर-पहुणो सीहरह-निवस्स धूयाऽहं ॥
 नामेण चंदलेहा मणिरह-नरवइ-सुयंमि मणिचूडे ।
 गुण-सवणओणुरत्ता दिन्ना पिडणा वि तस्सेव ॥
 तं सुत्तुं मह अंगे अग्गि चिय लग्गए न वण अन्नो ।
 इय मे निच्छय-भंगेण कुणइ जोगी पुण अखत्तं ॥
 एत्थंतरे कुमारो उवसप्यंतो भणेह खग्ग-करो ।
 किं होइ अखत्तं खत्तियंमि मह सुयण ! संनिहिए ॥
 तो जोगिणा पडत्ता इंतस्स इमस्स थंभणी विज्जा ।
 सा तम्मि मुहा जाया तरुणी-दिद्धि व्व नीरागे ॥
 एसो महापभावो त्ति चित्तिउं लज्जिओ भणइ जोगी ।
 द्दुं पगिइ-रूवा अणंग-विहुरेण जं एसा ॥
 विज्जा-बलेण इह आणिऊण अब्भत्थिया मए एवं ।
 तं कयमिणं अजुत्तं न पुणो एवं करिस्सामि ॥
 कुमारो जंपइ गहिय-व्वयस्स ते अणुचिया सयल-रमणी ।
 अन्नस्स विवाहे विहिय-निच्छया किं पुणो एसा ॥
 नयणाण पडउ वज्जं अहवा वज्जस्स वट्टिलं किपि ।
 असुणिय-सबभावंमि वि अणुरायं जाइं कुव्वंति ॥
 जोगिणा वुत्तं—सप्पुरिस ! परमोवयारी तुमं जेण नियत्तिओऽहं वुत्त-

याओ । ता किं ते कीरइ । तहावि अत्थि मे ख्व-परिवत्तिणी विज्जां तं कोळ-
ग-मित्त-फलं गिण्ह तुमं । पर-पत्थणा-भंग-भीरुणा गहिया सा कुमारेण । जो-
गिणा वुत्तं—भइ ! जहा तुम सुह-पंकए पुणरुत्तं वलइ दिट्ठी इमीए, तहा
तक्केमि तुमं चेव मणिचूडो । मणिचूडेण वुत्तं—

सच्चमिणं जं तुमए वियक्कियं नियय-बुद्धि-विहवेण ।

जं इंगिएहिं निउणा परस्स ख्वं विघाणंति ॥

जोगिणा वुत्तं—कुमार ! जइ एवं ता इमीए कर-ग्गहणेण पूरेसु मणो-
रहे । तओ कुमारेण जोगि-समक्खं कयं तीए कर-ग्गहणं । भमियाइं तत्थेव
जलण-कुंडे मंडलाइं ।

मज्झ अनओ वि एसो अणेण तुम्हाण पाणिगहणेण ।

जाओ सुह-परिणामो समए घम्मो व्व बुद्धि-फलो ॥

एवं भणिऊण गओ जोगी । वेत्तूण चंदलेहं समागओ कुमारो वि निया-
वास-दुवारं । एत्थंतरे गयणंगण-गएण विज्जाहरेण भणियं—सप्पुरिस ! परोवया-
रुज्जओ तुमं सुव्वसि ता करेसु मह विवक्ख-साहणे साहिज्जं । सत्तसारत्तणओ
वुत्तं कुमारेण—भइ ! एवं करेमि । खयरेण वुत्तं—जइ एवं, ता आरोहसु
विमाणमेयं । तओ आरूढो विमाणं कुमरो । नीओ खयरेण वेयड्डु-गिरि-मंडणं
वज्जसालं नाम नयरं । समप्पिओ विज्जाहर-सामिणो वज्जवेगस्स । तेणावि
सागय-पड्वित्ति-पुव्वं भणिओ—कुमार ! अत्थि मे कणयसाल-नयर-सा-
मिणा कणयकेउ-विज्जाहरेण सह विरोहो । उक्कड-परक्कमं न सक्केमि तं अक्क-
मिडं । तओ मए आराहिया रोहिणी देवया । तीए विवक्ख-पराजय-निमित्तं
आइट्ठो मे तुमं । अओ सुवेग-विज्जाहरं पेसिऊण इहाणीओसि । ता कुमार !
कमल-दल-दीह-लोयणं सुलोयणं नाम परिणेसु मे धूर्यं । कुमारेण वुत्तं—

कज्जमिणं मणइट्ठं एक्कं तुम्हाण पत्थणा वीयं ।

सयमेव सुक्खियाए निमंतणेणं समं जायं ॥

तओ तेण परिणीया सुलोयणा । साहियाओ गयण-गामिणिप्पमुहाओ
विज्जाओ । तं सेल-नायगं काऊण वज्जवेगेण निज्जिओ कणयकेउ । विज्जाहरेहिं
कय-सक्कारो कुमारो कित्थियं पि कालं ठिओ तत्थेव । इओ य कामलेहा कुमार-
चिरहे ख्यंती ठिया सयल-रयणिं । पहाए निय-घरासन्ने ख्यंती-दिट्ठा तीए चंद-
लेहा, पुच्छिया य—भइ ! किं ख्यसि ? त्ति । तीए क्कहियं—मह पईं मं मुत्तूण
कत्थवि-गओ त्ति । कामलेहाए सम-दुक्ख त्ति धरिया सा अत्तणो प्रासे । दोवि

दुस्सहं विरह-दसं अणुहवंतीओ चिद्वृत्ति । कुमारो वि बज्जवेग-विज्जाहरिद-
 विसज्जिओ सुलोयणाए समं आगओ जयपुरं । वीसंतो नियघरा-
 सल्लुज्जाणे । तिण्हं पि भज्जाणं चित्त-परिक्खणत्थं कयं कुमारेण खुज्ज-
 ख्वं । पुरओ ठियं पि तं अन्नं व मत्तंती सुलोयणा—हा अज्जत्त ! मं मुत्तूण
 कत्थ गओसि त्ति रोविडं पवत्ता । दिट्ठा कामलेहा-चंदलेहाहिं । पइविरहिय-
 त्तणओ तइया अम्ह एसा होउ त्ति भणंतीहिं नीया नियसमीवं । कुमारो वि
 कय-खुज्ज-ख्वो विविह-विणोएहिं विम्हावंतो नयर-लोयं पसिद्धो जाओ । सदा-
 विओ रत्ता जयसेणेण । रंजिओ तेण राया कला-कोसल्लेण । अन्नया रत्तो सहाए
 जाओ संलावो, जहा, इत्थ पइ-विउत्ताओ तिन्नि तरुणीओ चिद्वृत्ति । ताओ अन्न-
 पुरिसेण समं न जंपंति । रत्ता बुत्तं—अत्थि को वि जो ताओ बुल्लावेइ । जाव
 न को वि किं पि जंपइ ताव भणियं खुज्जेण—देव ! देहि मे भाएसं, जेण बुल्ला-
 वेमि । रत्ता बुत्तं—एवं करेसु । कइवय-वयंस-संगओ गओ सो तासिं आवासे ।
 आढत्तो विचित्ते काडं कहालावे । भणिओ एक्केण मित्तेण किमझेहिं, कहेसु
 कन्न-मुहावहं चरिय-कहं । कहियं खुज्जेण, जहा—मणिरहराय-पुत्तो मणिचूडो
 सिरिउर-सामिणो धूयं कामलेहं परिणिऊण इहागओ । तहा एक्को राय-पुत्तो
 सीहरह-रायधूयं जोगिणा परिणिऊणं रक्खिऊण परिणिऊण य इहागओ ।
 तहा एक्को राय-पुत्तो विज्जाहर-धूयं सुलोयणं परिणिऊण इहागओ त्ति । अम्ह
 चरियमेयं ति तुट्ट-चिताहिं ताहिं भणियं—पच्छा ते काहिं गय ? त्ति ।
 राय-सेवा-समओ मे संपयं ति पयंपंतो गओ खुज्जो । नाय-बुत्तंतेण अहो !
 सब्ब-कला-कुसलो त्ति पसंसिओ रत्ता ।

मंतंति ताओ तिन्नि वि खुज्जस्स इमस्स वयण-सवणेणं ।

अमय-रसेण व सित्तं गत्तं जं अम्ह ऊससइ ॥

जं सब्वासिं अम्हाण एस्स परिणयण-वइयरं मुणइ ।

तं विहिय-खुज्ज-ख्वो एसो चिय नूणमम्ह पई ॥

अन्नया रत्तो कत्ता कत्तावयंसभूया भुवणलच्छीए, संभवा जयलच्छी
 नाम कुट्टिम-तले कंदुगेण कीलंती दिट्ठा कामंकर-विज्जाहरेण । जायाणुराएण
 हरिउमाढत्तो । अक्कदियं परियणेण । अत्थि को वि सप्पुरिसो जो अम्हसा-
 मिणिं विज्जाहरेण हीरमणिं रक्खेइ । एयं सोऊण आउलीभूओ राया । देव ! न
 कायव्वो खेओ, कित्तियमेत्तमेयं ति बुत्तूण उप्पइओ गयणयलं खुज्जो । नि-
 ज्जिऊण विज्जाहरं नियत्तिया तेण जयलच्छी । विम्हिएण भणिओ रत्ता खु-

ज्जो—अहो ! ते लोओत्तरं चरियं । नृणं तुमए दिव्व-पुरिसेण होयव्वं । ता पयडेसु अप्पणो सरूवं । तओ जाओ सो सत्थावत्थो ।

तं दहुं मयणं पिव पगिट्ठ-रूवं पर्यंपए राया ।

नृणं गुणाण एसिं पर्यं चिय रूवमणुरूवं ॥

एत्थंतरंमि उवलक्खिज्जण एककेण बंदिणा पढियं ।

एसो सो मणिरह-राय-नंदणो जयइ मणिचूडो ॥

तुट्ठो जंपइ राया—अहो ! इमा पुत्त-परिणई मज्झ ।

जं तुममिहागओ तमलसस्स घरमागया गंगा ॥

तुह दायवा एस त्ति अम्ह चिंता पुरावि आसि इमा ।

निय-विक्रमेण किणिया कुमार ! संपइ इमा तुमए ॥

ता एयं जयलच्छि मह धूर्यं रायपुत्त ! परिणेतु ।

एवं ति जंपिज्जणं परिणीया सा कुमारेण ॥

अह खुज्जो पत्थिव-पत्थाणइ अमरो व्व मणहरो जाओ ।

परिणाविओ स धूर्यं निवेण इय वइयरं सोढं ॥

पत्ताओ कामलेहा-पमुहाओ हरिस-वियसिय-मुहाओ ।

तं दहुं विति इमं अम्हं तिण्हं पि एस पई ॥

मुणिक्खण इमं राया तुट्ठो तुम्हे वि मज्झ धूयाओ ।

इय भणित्ठं संमाणइ तिन्नि वि आहरण-वत्थेहिं ॥

सरीरस्स लक्खणाइं सरीरेण सह ववन्ति त्ति निच्छियं कुमारेण ।
अन्नया निय-जणणि-जणय-दंसणुक्कंठिओ कुमारो विसज्जाविज्जण जयसेणरायं
विडव्विज्जण मणि-दिप्पमाणं महप्पमाणं विमाणं । आरोविज्जण तम्मि चत्तारि
वि धरिणीओ आगओ नियनयरं । पणओ भज्जा-समेओ जणणि-जणघाणं ।
आसीसादाण-पुव्वं आणंदिओ तेहिं ।

जो एगागी नयराओ निग्गओ आगओ य रिद्धीए ।

सो कुमरो पुत्त-निहिं त्ति जाणित्ठं हरिसिओ जणओ ॥

अह सीलंघर-गुरुणो पयमूले वम्म-दंसणं सोढं ।

मन्नइ विसं व विसमं विसय-मुहं मणिरहो राया ॥

निय-रज्जे मणिचूलं निवेसित्ठं गिणहए इमो दिक्खं ।

मणिचूडो पुण पालइ अप्पडिहय-सासणो रज्जं ॥

तत्थन्नया मणिरहो रायरिसी जाय-केवल्लणाणो ।

उज्जाणे संपत्तो तं मुणिं हरिसिओ राया ॥
 मणिचूडो करि-कंधरमारूढो धरिय-धवल-धर-छत्तो ।
 चलिओ चलंत-सिय-चारु-चामरो अमर-नाहो व्व ॥
 गच्छंतेण य रत्ना दिट्ठो चलिं पि अक्खमो खामो ।
 वयण-विणिग्गय-दसणो मसि-कसिणो लूण-कर-चलणो ॥
 किमि-कुट्ठ-विणट्ठ-तणू भमडंत-असंख-मच्छिया-जालो ।
 दमगो पहंमि एगो पच्चक्खो पाव-पुंजो व्व ॥
 अह च्चितियं निवेणं फुरंत-कारुण-पुल्ल-हियएणं ।
 पुव्व-कय-दुक्कय-फलं अणुहवइ इमो वराओ त्ति ॥
 अह उज्जाणे पत्तो राया मुत्तूण राय-धिंघाई ।
 सुरकय-कमल-निसन्नं मणिरह-केवलि-मुणिं नमइ ॥
 उवविसिंढं भव-निव्वेय-कारणं तस्स देसणं सुणइ ।
 तं पुच्छइ समए दमग-वह्यरं, अह गुरू कहइ ॥
 जिं जिणु पुज्जिउ पुव्व-भवि तिणि तुहु पालइ रज्जु ।
 इहु पुणु जिणनिंदा-फलिण दुक्खिउ भमइ अणज्जु ॥
 भणइ निवो कहमेयं कहइ गुरू पुव्व-जम्म-विहियाए ।
 सोमो जिणपूयाए फलेण राया तुमं जाओ ॥
 भीमो उण जिण-निंदा-फलेण दमगो इमो समुप्पन्नो ।
 बहु-विह-दुक्ख-कंतो भमिही संसार-कंतारं ॥
 तो जाय-जाइसरणो राया जंपेइ सच्चमेयं ति ।
 संवेग-परिगय-मणो करेइ संमत्त-पडिवत्ति ॥
 जिणमंदिर-जिणपडिमा-जिणरहजत्ता-करावणुज्जुत्तो ।
 मुणि-पय-सेवासत्तो सो परिपालइ चिरं रज्जं ॥
 मुय-संकामिय-रज्जो दिक्खं गहिऊण अणसणेण मओ ।
 मणिचूल-मुणी पत्तो सगं च कमेण मुक्खं च ॥
 इति देवपूजाऽपूजायां सोम-भीमयोः कथानकम् ।

धर-कुसुम-गंध-अक्खय-फल-जल-नेवज्ज-धूव-दीवेहिं ।
 अट्ठ-विह-कम्म-हणणी जिण-पूआ अट्ठहा होइ ॥
 एएसिं लेसेण वि काडं पूयं जिणस्स भत्तीए ।

नंदण-पमुहा बहवे कल्लाण-परंपरं पत्ता ॥
 रत्ना भणियं—भयवं ! कहमेयं, तो गुरु भणइ एवं ।
 अत्थित्थ कासि-विसए नयरी वाणारसी नाम ॥
 विबुह-जण-सेवणिज्जा पुत्तोदय-सालिणी सरिच्छ त्ति ।
 जीए सहि व्व नेहेण सन्निहि सेवए गंगा ॥
 तत्थ निवो जयवम्मो जस्स वसीकय-समग्ग-अरि-वग्गो ।
 खग्गो जयलच्छीए छज्जइ मयणाहितिलओ व्व ॥
 तत्थत्थि असंखघणो संखो संखो व्व निम्मलो सेट्ठी ।
 आएस-करो तस्सत्थि नंदणो नाम कुल-पुत्तो ॥
 अन्न-दिणे गामाओ आगच्छंतो सरंमि सो ण्हाओ ।
 पवरं सहस्स-पत्तं दहुं घेतुं च तं चलिओ ॥

दिट्ठो चउहिं कन्नगाहिं भणिओ य ताहिं—अहो ! उत्तममेयं सहस्सवत्तं
 उत्तमस्सेव जुग्गं । नंदणेण भणियं—तंमि चेव जोजइस्सामि । कन्नगाहिं बुत्तं—
 जुत्तमेयं । नंदणेण चित्थियं—महं ताव उत्तमो सेट्ठी, ता तंमि जोजइस्सामि ।
 गओ सिट्ठि-गेहं । निवेइयं सहस्सवत्तं । सिट्ठिणा भणियं—उत्तमं खु एयं ति
 उत्तमस्सेव जुग्गं । नंदणेण भणियं एवं । किंतु तुमं चेव मे उत्तमो । सिट्ठिणा
 भणियं—ममावि उत्तमो अमच्चो । नंदणेण भणियं—ता मे तं दंसेहि । सिट्ठिणा
 चित्थियं—घसो त्ति दंसिओ अमच्चो नंदणस्स । एवं अमच्चेण राया, रत्नावि गुरु,
 गुरुणावि जिणाययणे भयवं । सहस्सवत्तेण पुज्जिओ भयवं तित्थयरो नंदणेण ।
 साहिया गुरुणा गुणा भयवओ । बहुमया नंदणार्हणं । हल्लय-कम्मग त्ति कओ
 अणेहिं बीय-संगहो, अज्जियं भोगफलं । कन्नगाणं पि जायं अणुमइ-पच्चयं पुत्तं ।
 अहकंतो कोह कालो । मओ आउक्खएणं नंदणो । समुप्पन्नो परिसराराम-रमणि-
 ज्जया निज्जिय-नंदणे नंदणपुरे जणिय-अरि-नरिंद-पीडस्स तारापीडस्स रत्तो स-
 यलंतैवर-साराए सुताराए देवीए गब्भे पुत्तो । दिट्ठं अणाए तीए चेव रयणीए
 सुविणे रंगंत-तरंग-पसरं पडमसरं । सुहविउच्चाए साहियं रत्तो । भणिया तेण—
 देवि ! पहाण-पुत्तो ते भविस्सइ । पडिसुयमिमीए । समए संजाओ से दोहलो
 देमि दीणार्हणं महादानं, कीलेमि पडमसरेसु । संपाडिओ रत्ता । उच्चिय-कालेण
 पसूया एसा । जाओ देह-प्पहा-पसरेण गब्भ-वर-तिमिर-दारओ दारओ । कर्यं
 गरुय-रिद्धीए वधावणं । पडिपुत्ते मासे विहियं पडमुत्तरो त्ति नामं । वड्ढिओ देहो-

वचण कला-कलावेण य एसो । ताओ वि चत्तारि कलागाओ मरिऊण
 आयामुहीए नयरीए दुन्नि जायाओ जयनरिंद-धूयाओ पडमिणी कुमुहणी य ।
 एवं दुन्नि हत्थिणाउरे सीहनरिंद-धूयाओ विब्भमवई विलासवई य । अन्नया
 पवन्न-तारुत्ताओ निरूवम-रूव-लावन्न-पुत्ताओ कला-कलावालंकिय-पन्नाओ
 कलाओ पेच्छिऊण जाया जयनरिंदस्स को एयासिं पवरो वरो होज्ज ति
 चिंता । ताओ जयनरिंदेण देसंतरेहिंताओ आणाविऊण रायपुत्त-पडिच्छंद्या
 दंसिया पडमिणी-कुमुहणीणं । न वीसंता कहिं पि-तासिं दिट्ठी । पडमुत्तर-
 कुमार-पडिच्छंद्यं पुण ददूण भणियं एयाहिं—

किं को वि एस तियसो अमय-तरंगो व्व नयण-तोस-करो ।

संभवइ न जम्हा माणुसेसु एयारिसं रूवं ॥

कहियं निउण-सहीहिं कुमरीण न एस सुरवरो किं तु ।

नंदणपुर-पहु-पुत्तो एसो पडमुत्तर-कुमारो ॥

तं सोउं कुमरीणं वियंभिओ माणसम्मि अणुराओ ।

पुलयच्छलेण एसो सव्वंग-निग्गओ बाहिं ॥

सेय-जल-बिंदु-संदोह-सुंदरं भाल-मंडलं जायं ।

मयण-सर-विसर-ताडिय-गत्ताण व पसरिओ कंपो ॥

तं चियं चिंतंतीओ लहंति ताओ निसासु वि न निदं ।

दीवसिहा-पडिपिल्लण-मल्ले मिळ्ळंति नीसासे ॥

वचंति चंद-चंदण-जलइ-जल-संगमे वि संतावं ।

नहि कुसुम-सत्थरे पत्थरे व्व तत्ते लहंति रइं ॥

जंपंति पुरो, निय-निय-सहीणं, रूवेण विजिय-तियसं पि ।

अन्नं न विवाहेमो मुत्तुं पडमुत्तर-कुमारं ॥

बुत्तंतमिणं मुणिऊण जयनरिंदेण निव्वुय-मणेण ।

दाऊण भूरि-कोसं समप्पिडं परियणं पडरं ॥

परिणयणत्थं पडमुत्तरस्स पडमोवमाण-वयणाओ ।

पडवियाओ कुमरीओ पडमिणी-कुमुहणीओ दुवे ॥

इओ य सीहनरिंदस्स पिउणो पणमणत्थं अत्थाण मंडवे समागयाओ
 विब्भमवई-विलासवईओ । ताओ ददूण जंपियं रत्ता—अहो ! एयासिं सुवण-
 च्छरिय-भूयं रूवं । अणन्न-सामन्नं लायन्नं । चंगिम-निवासो अंग-विन्नासो ।
 परिओस-जणण-सीला लीला । पेसलं कला-कोसलं । ता मल्ले नत्थि को वि पु-

रिसो जो एयासि सरिसो । अओ अचंत-गहणं कर-गहणं ति चिंताए अनिबुयं
मे हियं । एयं सोऊण विमलमङ्गणा पहाण-पुरिसेण भणियं—देव ! देवाएसे-
ण नंदणउरं गएण मए मयंक-वयणो कमल-दल-नयणो कणय-सिला-विसाल-व-
च्छयलो परिह-दीह-बाहु-जुयलो कंकेलि-पल्लवारत्त-कर-वल्लणो सुर-सुंदर-दप्प-
दलणो दिट्ठो तारावीड-रायपुत्तो पउमुत्तर-कुमारो ।

रह-पीईणं मयणो व्व चंदचूडो व्व गोरि-गंगाणं ।
सो एयासि कुमरीण देव ! जुज्जइ वरो काउं ॥
एयंतरंमि भणियं कुमरीण सहीइ कामसेणाए ।
एक्कंमि दिणे मागह-वहूइ पढिया इमा गाहा ॥
' विणएण गुरू सद्धाइ देवया बुह-यणो विवेएण ।
सव्भावेणं सुयणो वेप्पइ हियएण वर-महिला ॥ ' ।
गाहं सोउं कुमरीहिं पुच्छियं केण निम्मिया एसा ।
मागह-वहूइ कहियं एसा पउमुत्तरेण कया ॥
भणियं इमीहिं गाहा अहो ! महत्था मणोहरा सरसा ।
गाहाणुमाणओ सयल-गुण-निही नज्जइ कई सो ॥
तप्पमिहं चिय पउमुत्तरस्स शुण-संकहं कुणंतीओ ।
कालं गमंति परिचत्त-सैस-कज्जाओ कुमरीओ ॥
रत्ता वुत्तं जुत्तं जं सो पउमुत्तरो गुणेक्कनिही ।
कुमरीणं पि इमाणं संजाओ तंमि अणुरागो ॥
सो एस कहिय-दुद्धंमि निवडिओ कहवि सक्करुक्केरो ।
अहमवि विवाह-चिंताइ विव्वमलो निव्वुओ जाओ ॥
तत्तो पसत्थ दियहं रत्ता करि-तुरय-कोस-कलियाओ ।
कुमरीओ पेसियाओ पउमुत्तर-परिणयण-हेउं ॥
एवं संपत्ताओ चत्तारि वि ताओ नंदणपुरंमि ।
कुमरीओ अमरीओ व्व मणहरंगीओ एक्क-दिणे ॥
सोउं समागयाओ इयाओ परिओस-पसर-पडिहत्थो ।
तारावीड-नरिंदो पडिबत्ति कुणइ सव्वासि ॥
कुमरीणं अणुरायं मुणिउं पउमुत्तरो वि संजाओ ।
तासु अणुरत्त-चित्तो रत्ते रच्चिज्जए जम्हा ॥
जुगवं कुणइ चउणहं ताण दिसाणं व सो कर-गहणं ।

ताहिं समं विसय-सुहं सेवंतो गमह् दियहाई ॥
 अह तारावीड-नीवो धम्मं सोऊण पर-भव-सहायं ।
 मुत्तुं तणं व रज्जं गुरु-पासे गिण्हए दिक्खं ॥
 पउमुत्तरो वि पत्थिव-पणमिय-पय-पंकओ कुणह रज्जं ।
 विरयंतो आसत्तिं पत्तीसु व चउसु नीईसु ॥
 जाया इमा पसिद्धी अन्नस्स न एरिसीओ पत्तीओ ।
 सुयमेयमउज्झानयरि-सामिणा देवगुत्तेण ॥
 पउमुत्तरो अणेणं भणिओ—अप्पेसु मे निय-पियाओ ।
 पउमुत्तरेण वुत्तं—अहो ! अजुत्तं किमायरसि ? ॥
 पर-महिला-अहिलासो मणंमि काउं पि अणुचिओ चेव ।
 पुरिसस्स कुसल-मइणो किं पुण वयणेण वज्जरिउं ॥
 उम्मग्ग-विलग्गाणं कुणह निवो निग्गहं समग्गाणं ।
 पर-महिलं मग्गंतो तुमं तु लज्जसि न किं मूढ ! ॥
 अह भणह देवगुत्तो—किं इमिणा ? मज्झ देहि एयाओ ।
 जइ सोहणेण कज्जं अन्नह रज्जं पि गिण्हस्सं ॥
 पउमुत्तरेण वुत्तं—वरमंघो जो परोवएसेण ।
 उम्मग्गाओ नियत्तह न उण तुमं राय ! रायंघो ॥
 जइ अजसाओ न बीहसि परलोय-भयं च वहसि नो हियए ।
 किं तह्वि जीवियाओ निव्विन्नो वट्टसि जमेवं ॥
 जो एरिसो तुमं खलु न तेण सह जंपिउं पि मे जुत्तं ।
 एवं दूयमुद्देहिं संलावो ताण संजाओ ॥
 पउमुत्तरस्स उवरिं कुविय-मणो पत्थिओ इमो सहसा ।
 पउमुत्तरो अवन्नाह संमुहो तस्स संचलिओ ॥
 मिलिया स-विसय-सीमाह दो वि दप्पंघ-गंघहत्थि व्व ।
 पउमुत्तरेण समरे विणिज्जिओ देवगुत्त-निवो ॥
 गहिओ महाविमहेण कइवि दियहाई एस धरिऊण ।
 संपूहऊण मुक्को दीहो गरुयाण नहि कोवो ॥
 संजाय-साहु-वाओ पत्तो पउमुत्तरो नियं नयरं ।
 दंडेहिं चिय इमिणा वसीकया निवइणो अन्ने ॥
 अन्न-दिणे नरवइणो सहा-निसन्नस्स को वि अप्पाणं ।

माया-पओग-पवणं पडिहार-मुहेण वित्तवह् ॥
 तस्स नरस्स नरिंदो सुद्धमणो नाणुमन्नइ पवेसं ।
 मारिण उज्जुयाण थ न संगयं संगयं जम्हा ॥
 सो पडिसेह-विलक्खो कइया वि ह्नु विहिय-रूव-परिवत्तो ।
 असि-फल्लग-करो पवरंगणाए सहिओ नहपहेण ॥
 पत्तो पत्थिव-पासे सो रत्ता पुच्छिओ तुमं कोऽसि ? ।
 का वा एसा, कल्लेण केण वा इत्थ पत्तोऽसि ? ॥
 सो भणइ खेयरोऽहं इमा पिया मज्झ अह छलं लहिउं ।
 विज्जाहरेण हरिया एक्केण अणंग-विद्धुरेण ॥
 पन्नाणीया थ मए मह वेरमुवट्ठियं च तेण समं ।
 दुव्विसहो नीएहि वि नारीण परामवो जम्हा ॥
 सूरुओऽसि परित्थी-सोयरोऽसि पडिच्चन्न-पालण-परोऽसि ।
 उत्तम-सत्तोऽसि तुमं पत्थिव । पत्थेमि तेणाहं ॥
 सन्निहियाए पियाए बद्धो व्व न जुज्झिउं अहं सक्को ।
 ता रक्ख ताव एयं जिणेमि तं खेयरं जाव ॥
 तो पत्थिवेण भणियं थेवमिणं पत्थिओ अहं तुमए ।
 कप्पहुओ व्व पत्ताणि पत्थरं रोहणगिरि व्व ॥
 खयरो भणइ न थेवं एयं थेवेवि जेण वीसासे ।
 नासी किज्जइ दव्वं तम्मिओ गरुए वि न कल्लत्तं ॥
 राया जंपइ एसा चिट्ठउ मह मंदिरे पिइहरे व्व ।
 तो खग्ग-फल्लग-पक्खो खगो व्व खयरो गओ गयणे ॥
 तत्थेव ठिओ राया सुणेइ गयणे धणोहगज्जि व ।
 रणसइ उहामं सपरियरो नियइ उड्डुमुहं ॥
 अह पडिओ गयणाओ मणि-कंचण-भूसणो सहाइ सुओ ।
 तं दहं खयर-वहू रुयभाणी भणित्तात्ता ॥
 जो कंठेऽलंकारो जाओ गंडत्थलेसु उवहाणं ।
 कल्लेसु थ अवयंसो सो मज्झ पियस्स एस सुओ ॥
 अह नह-यलाओ चलणो मणि-कणयाहरण-भूसिओ पडिओ ।
 तं पिक्खिउं स-खेया खेयर-रमणी भणइ एवं ॥
 अब्भंगिउण उव्वट्ठिओ चिरं खालिओ विलित्तो थ ।

निय-हृत्थेण मए जो सो पाओ एस मह पङ्गो ॥
 पडिओ बीओ वि भुओ खणेण पाओ वि निवडिओ बीयो ।
 पडिया य मुंड-रुंडा ते ददुं खेयरी रुयइ ॥
 जं मंडियं मए कुंडलेहिं तं मे पडस्स मुहमेयं ।
 तं हिययमिणं जरिंस मज्झे वाहिं च वसियमिह ॥
 हा नाह सत्त-सत्तम ! दह-विक्रम ! पवल-बाहु-वल-कलिय ! ।
 छलिओसि छल्लेसण-परेण अरिणा विहि-वसेण ॥
 हा ! किं करेमि, कस्स च कहेमि, सरणं च कं पवज्जामि ।
 तुमए विणा अणाहा अहं अहन्ना इमा जाया ॥
 अहवा किं रुद्धेणं उचियमिणं न मह वीर-घरिणीए ।
 खणमित्तं तरिड च्चिय पियसंगो अप्प-वसगाए ॥
 इय विलविऊण खयरीइ खेय-विद्धुरो पर्यपिओ राया ।
 जइ भाउगोऽसि सच्चं ता मह कुरु भाइ-करणिज्जं ॥
 रत्ता भणियं किं कीरउ त्ति सा भणइ देहि मह अग्गि ।
 अत्थमियंमि मयंके वियंभए किच्चिरं जुण्हा ॥
 समए इमंमि उचियं एयं चेव त्ति चिंतिडं रत्ता ।
 सिरिखंडागरु-कट्टेहिं कारिया नइतडे चियगा ॥
 सक्कारिऊण पङ्गो अंग-इं तेहिं सह रहारुढा ।
 रत्ताऽणुगम्ममाणा चिया-समीवे गथा खयरी ॥
 नमिऊण लोगवाले जलणं दाडं सयं चिय चियाए ।
 विज्जाहरी पविट्ठा उच्छंग-निविट्ठ-रमणंगा ॥
 अह जलणो पज्जलिओ जाला-पल्लविय-नहयलाभोगो ।
 छारी भूया खयरी खणेण सह खेयरंगेहिं ॥
 जाव न देइ नरिंदो जलंजलिं ताव आगओ खयरो ।
 रुहिरुद्धेणं काएण भणइ हसिऊण नर-नाह ! ॥
 कोहो व्व उवसमेणं दुट्ठो सो निज्जिओ मए खयरो ।
 उवरोहिओ तुमं पि ह्हु कलत्त-संरक्खण-निमित्तं ॥
 संपह अप्पसु तं मे कलत्तमेवं नरेसरो सुणिडं ।
 सोग-विवसो विलीओ चितेह अहो ! अकज्जं त्ति ॥
 अद्ध-गओ संभोहं तओ अवत्थं निवत्स तं सुणिडं ।

वायाविया पडहिया माया-खयरेण पढियं च ॥
 पणमह चलणे इंदस्स इंदयालंमि लद्ध-लक्खस्स ।
 तह अट्टसंवरे संवरस्स सुपहट्टिय-जसस्स ॥
 परिभाविं निवेणं अहो इमं सयलमिंदजालं ति ।
 तो इंदजालिओ सय-सहस्स-दाणेण तोसविओ ॥
 जाया रत्तो चिंता संसारो इंदजाल-सारिच्छो ।
 इह बहु-विहाइं जीवो नद्धो व्व रुवाइं गिण्हेइ ॥
 किं तत्थ कारणं ताव आगओ तत्थ दलिय-भव-दुक्खो ।
 दुक्खंतो नाम गुरु तन्नमणत्थं गओ राया ॥
 पत्तीहिं चउहिं सहिओ नमिऊण गुरुं पुरो निसत्तो सो ।
 गुरुणा भणियं—नरवर ! संसारे इंदजाल-समे ॥
 धम्मेण सुहं रूवं असुहमहम्मेण गिण्हए जीवो ।
 रत्ता भणियं—भयवं ! पुव्व-भवे किं मए विहियं ॥
 जस्सेरिसो विवागो, पुव्व-भवो साहिओ तओ गुरुणा ।
 रत्ता वुत्तं—भयवं ! अओ परं किं लहिस्सामि ॥
 गुरुणा वुत्तं—एत्तो अणंतर-भवंमि पिययमाहिं समं ।
 पाविस्ससि सुरलोयं सत्तमजम्मंमि पुण मोक्खं ॥
 तो हरिसिओ नरिंदो गंठि-विभेएण गहिय-संमत्तो ।
 पडिवन्न-गिहत्थ-वओ गुरुवइइं लहइ सव्वं ॥

इति देव-पूजायां पद्मोत्तर-कथा ।

दाऊण दीवयं जा जिणस्स पुरओ पराइ भत्तीए ।
 पत्ता सुक्खं अक्खेमि गंधभद्दाइ तीइ कइं ॥
 अत्थ इत्थेव भरहे खेत्ते सेयविया नाम नयरी ।
 जत्थुन्नय-घर-कुट्टिम-गयाओ हरिणंक-हरिण-नयणाइं ।
 दइं व सविम्मम-पिच्छरीओ रमणीओ जायाओ ॥
 तत्थ विजयवम्मो नाम राया ।
 आरामिओ व्व आराम-वीरुहाओ पयाओ पालेइ ।
 जो पवरनीइ सारणि-पयट्ट-धम्मंबु-पूरेण ॥
 तस्स जया नाम देवी ।

सीलेण जीह रूवं विणएण पट्टत्तणं समेण मइं ।
 दाणं पणएण विह्वसिऊण विहिया गुणा सगुणा ॥
 नामेण गंधमहा तत्थेव पुरीह अत्थि कम्मयरी ।
 अन्नदिणे तीह सुयं पुन्नं जिण-दीव-दाणस्स ॥
 चंगं अंगं सुद्धा बुद्धी अविलक्खयाइं अक्खाइं ।
 सब्बुत्तमं पट्टत्तं जिणिंद-दीवय-पयाण-फलं ॥
 संजाया से सद्धा तत्तो नायज्जिएण तेह्णेण ।
 दीवूसवम्मि तीए दिन्नो जिणमंदिरे दीवो ॥
 वाघाय-विरहिओ सो जलिओ सद्धा-भरेण दिन्नो त्ति ।
 एत्थंतरंमि तीए उवज्जियं परभवालक्खं ॥
 कालेण मया एसा इहेव नयरीए विजयवम्मस्स ।
 नरवइणो देवीए जयाइ गब्भे समुप्पन्ना ॥
 पुत्तत्तणेण तत्तो दिट्ठो देवीइ तीइ रयणीए ।
 वयणंमि पविसमाणो सिही जलंतो सुविणयंमी ॥
 तीए वि सुहविउद्धाइ साहिओ सो निवस्स विहिपुब्बं ।
 भणिया अणेण—सुंदरि ! तुह पुत्तो उत्तमो होही ॥
 तीए पडिस्सुयं तं परितुट्ठा सा समुब्बहइ गब्भं ।
 वसुह व्वंनिहिं तुहिणंसु-मंडलं मेहमाल व्व ॥
 सरसि व्वं कणय-कमलेण तेण मज्झे पवट्टमाणेण ।
 देवी सहावओ सुंदरा वि सुंदरयरा जाया ॥
 कणय-पहा-गोरं पि हु तीए गन्भाणुभावओ वयणं ।
 उव्वहइ पंडुरत्तं करि-दंत-च्छेय-छवि-सरिसं ॥
 कल्लंतं पत्ताइं नयणाइं निसग्गओ वि देवीए ।
 सरयंमि पंकयाइं व दढं वियासं पवत्ताइं ॥
 तत्तो तहए मासे जयाइ देवीए दोहलो जाओ ।
 माणिकक-खंड-मंडिय-भूसण-भूसिय-सरीराऽहं ॥
 गुरु-देवयाओ पुज्जेमि देमि दीणाइयाण तह दाणं ।
 संपाडिओ य रत्ता धन्नाण न दुल्लहं किंचि ॥
 समयंमि सा पसूया सूरं पुव्व व्व भासुरं पुत्तं ।
 दीवसिहा-सरिसेणं सहजेण निडाल-रयणेणं ॥

जणणी-जणया लोगा य विम्हिया विहियमुचिय-करणिज्जं ।
 वित्ते मासंभि कयं अह ' दीवसिहो 'त्ति से नामं ॥
 चंदो व्व सुक्क-पक्खे पइ-दियहमुवागओ इमो बुद्धिं ।
 गुरु-सक्खिमेत्तओ तह सयमेव कलाहिं पडिच्चओ ॥
 अह कंचीपुर-पहुणो विक्कमत्तेणस्स अत्थि रूवेण ।
 तइलोक-तिलय-भूया धूया गंधव्वदत्त त्ति ॥

सा कला-गन्धिया न अत्तारणं पुरिसमत्तेण परिणावेइ, जंपेइ य इमं—जो
 मं वीणा-विन्नाणेण जिणइ सो परिणेइ त्ति । रत्ता कराविओ सयंवर-मंडवो ।
 आहूया देसंतरेहिंतो अणेगे वीणा-विणोय-पत्त-पगरिसा राय-पुत्ता । दीव-
 सिहो वि आगओ तत्थ । पसत्थ-दियहे रत्ता निवेसिया सयंवर-मंडवे राय-
 पुत्ता । हक्कारिया गंधव्वदत्ता । अमय-बुद्धि व्व जण-नयण-तुट्ठिं कुणंती आ-
 गंतूण निसत्ता एसा । तं दइण चितियं दीवसहेण—कयत्थो विही जस्सेरिसं
 रूव-निम्माण-विन्नाणं । दीवसिहं दइण चित्तीयं इमीए—

वीणा-विणोय-विन्नाण-वज्जिओ वि ह्हु इमो पुरिस-रयणं ।
 परिणेयव्वो सोहग्ग-गुण-निही निच्छएण मए ॥
 तं चेव नियइ तं चेव चितए वंछए य तं चेव ।
 जाया खणमेत्तेणं सा कुमरी तम्मया तइया ॥

तओ भणियं कञ्जुइणा—

भो भो नरिंद-त्तणया ! एयाए इत्थ रायधूयाए ।

जहा—

सुगुणापुराणिणीए कया पइत्ता इमा पुव्वं ॥
 सव्व-कलाणं परमा विलोभणिज्जा सम्मत्त-जीवाणं ।
 विक्खाय-गुणा लोए एगा वीणा-विणोय-कला ॥
 जो एआइ कलाए अहिओ मे को वि इह कुमाराणं ।
 सो चेव मज्झ दइओ होही नत्थित्थ संदेहो ॥
 ता पयदेह नियं खल्लु विन्नाणं एत्थ जस्स जावंतं ।
 पावेह जेण एयं विजय-पढायं व कामस्स ॥

तओ एककेण कला-गन्धिएण गहिया वीणा । सारिया अणेण । धरिओ
 पच्चासत्ते मयगलो । मणहर-सरेण वीणं चाइऊण सोविओ तेण एसो । जाओ
 साहु-वाओ । चितियं रायकलाए—हन्दी ! न याणिज्जइ किं पि भविस्सइ । एए

वि राय-पुत्ता अईव कला-कुसला दीसंति, ता जइ अंभग्ग-पइत्ता पावेमि
हिय-इच्छियं दइयं ता सोहणं हवेज्ज । एत्थंतरे गहिया अन्नेण वीणा । घराविओ
पचासन्ने विरहो नाम तरु । वाइऊण वीणं फुल्लाविओ सो । तओ गहिया अ-
न्नेण वीणा । वाइऊण मणहरं दूर-देस-ट्टिओ वि आगरिसिओ हरिण-जुवाणो ।
तओ गहिया अन्नेण, दिन्नो गयवरस्स इट्ठो कवल्लो । वाइऊण वीणं मोयाविओ
सो अद्ध-भुत्तं कवलं । इच्चाइ अन्नाणि वि बहूणि दंसियाइं अन्नेहिं वि कुमारेहिं
कोऊहलाइं । तओ गहिया गंधव्वदत्ताए वीणा, वाइया अणाए जाव तक्खणा
पसुत्तो मत्त-करी । दूराओ चल्लण-मूले पत्तो मुद्ध-मिगो । आमूलं फुल्लिओ
विरहदुमो । मूलाओ वि मोयाविओ कवलं करी ।

इय वाइया इमीए तह वीणा जह कुमार-विहियाइं ।

सव्वाइं कोडगाइं जायाइं किंचि अहियाइं ॥

तो लज्जिया कुमारा मुक्क-तयासा इमं विंचितंति ।

जरहर-तक्खय-चूडामणि व्व दुलहा इमा बाला ॥

राया वि विसन्न-मणो चिंतइ—एवं कए वि जइ कह वि ।

लहइ न निव्वुइ मे सा धूया ता देव! किं कुणिमो ॥

अह पेम्म-परवसाए सविलास-वलंत-तार-नयणाए ।

कुमरीए मणेण समं कुमरस्स समप्पिया वीणा ॥

महुर-सरा गुण-पवरा करगिज्झा तुंबयत्थणी वीणा ।

कंठ-विणिवेस-जुग्गा गहिया कुमरि व्व कुमरेण ॥

संठविऊण आसारिया कुमारेण वीणा तओ भणिया भद्दाभिहाणाए
सहीए कुमरी—पियसहि! आसारो चेव अउव्वो । उवलक्खिज्जमाण-पयड-भेयं
सर-मंडलं । विचित्तो गामराग-प्पवेसो । हिययहारिणो मुच्छणुब्भेया । ता
अहिओ एस एयाए कलाए तिहुयणस्स वि भविस्सइ त्ति लक्खेमि ।

एत्थंतरम्मि लोओ निच्चल-नयणो विमुक्क-वावरो ।

वीणा-मणहर-झंकार-मोहिओ सुविउमादत्तो ॥

तं सव्वं रंग-जणं सुत्तं दट्ठूण उट्टिओ कुमरो ।

गिणहेइ मुहियाओ कुमरीएँ करंगुलीहितो ॥

गहिओ विक्कमसेण-पत्थिव-हत्थाओ कणय-कडगो । अन्नेसिं पि राय-पु-
त्ताण गहियं कुंडलाइयं । कओ रंग-मज्झे आभरण-पुंजो । स्वणंतरेण जग्गिओ
रंग-लोओ, दिट्ठो आभरणरासी । विम्हिय-मणेण भणियं जणेण—अहो ! अ-

णन्न-सामन्नं इमस्स वीणा-विन्नाणं । परितुट्ठा गंधव्वदत्ता । खित्ता तीए दीवसि-
 हस्स कंठे गंध-ल्लुद्ध-भमंत-भमर-माला वर-माला । कयं पव्वंवेण पाणि-ग्गहणं ।
 कय-सक्कारो ठिओ केत्तियं पि कालं कुमारो । गंधव्वदत्तं वेत्तूण चलिओ नि-
 यदेसं । पत्तो, पइट्ठाणं, आवासिओ परिसरे । एत्थंतरंमि तत्थ कक्कराय-धूया
 लीलावई नाम कला अहिणा दट्ठा मय त्ति नीसारिज्जइ । सुओ वाइत्त-सहो
 कुमारेण । भणिया गंधव्वदत्ता—पिए ! सजीवं माणुसं नीसारिज्जइ । तीए भ-
 णियं—कहं जाणसि । कुमारेण वुत्तं—पिए ! सर-विसेसओ । तीए भणियं—
 कहमेयं । कुमारेण वुत्तं—अहिणा दट्ठं ति । तीए भणियं—अवि जीवावेहि एयं
 कुमारेण वुत्तं—अत्थि ताव मंतो । तीए भणियं—अज्जउत्त । जइ एवं ता जी-
 वावेहि । पेसिओज्जेण निय-पुरिसो । घरावियं मडगं लिंपावियं चिया-समीवे ।
 गओ पच्छा दीवसिहो । दिट्ठो कक्कराएण । अहो आगिइ त्ति विम्हिओ एसो ।
 जीवाविया लीलावइ त्ति समासत्थो चित्तेण । कओ दीवसिहेण सिहावंधो ।
 मोयाविया सा लित्त-मंडले । मंतं सरिज्जण भणिया य—उट्ठेहि जणणीए मुह-
 सोयं देहि त्ति । उट्ठिया एसा गहिया सुवन्नाल्लुगा । दिन्नं मुहसोयणं । हरिसि-
 याणि सन्वाणि । अओ वायावियं तूरं । वारावियं कुमारेण । नणु किमणेण ?
 सविसा खु एसा । मए मंत-सामत्थं दंसियं । न उण अज्ज वि कम्मं करेमि ।
 तेहिं-भणियं—महापभावो तुमं ता जीवावेहि । पाडिया पुणो उत्तरिज्जाह-
 रण-विस-संकामणेण, दंसियं किंचि वेळं जणाण खेड्डं । पच्छा जीवाविया पर-
 मत्थेण । कयं वद्धावणयं । दिट्ठो साहिलासं तीए कुमारो । सा वि सविम्हयं
 कुमारेण ।

अवरुप्परं नियंताण ताण सो मयण-पन्नगो फुरिओ ।

डक्काइ जेण जायाइ दो वि सुन्नाइ सहस्स त्ति ।

तो विजयवम्म-पुत्तो त्ति कक्कराएण जाणिडं कुमारो नीओ सगिहं । सा
 चैव तस्स लीलावई दिन्ना । महाविभूर्इए पवत्तो विवाहो । ठिओ तत्थ कह वि
 दिणे सो । पुणो पयट्ठो स-विसयं । कमेण पत्तो उज्जेणिं । आवासिओ तत्थ ।
 दिव्वजोगेण दिणावसाणे मसाणे तेण दिट्ठा जलंती चिया । स-जीवाहिट्ठिया त्ति
 लक्खिया जाला-विसेसाओ । असाहिज्जण देवीणं खग्ग-इत्थो गओ तत्थ सो ।
 निसाए ठिओ जाव पायव-समीवे ताव जालारूवं करेमाणो आगओ विज्जा-
 साहगो । नट्ठा चिया-बाला । आलिहियमणेण मंडलं । मंत-सरण-पुरस्सरं वा-
 हओ इमरणो । तओ खुइया चिया । संभंता उट्ठिया कन्नगा । हा ताय ! त्ति

रुयंती भय-कंपंत-हियया, केसेसु कङ्कित्वा निवेसिया मंडल-मञ्जे । भणिया साहगेण—इदं देवयं सुमरसु । एय पञ्जवसाणो तेऽजीव-लोगो । गहिया अणेण कत्तिगा । अक्कंदिडं पवत्ता कल्लगा ।

तो कङ्कित्वा खगं मयच्छि ! मा वीहसु त्ति जंपंतो ।

करुणिक-निही कुमरो पुरओ होडं इमं भणइ ॥

विज्जा-साहग ! रे नराहम ! भओभंतच्छि-पंकेरुहं

सुत्तारन्न-गयं अणाहमबलं बालं वहंतो इमं ।

अंगे जाणि वसंति पंच भवओ भूयाणि नो लज्जसे

किं ताणं पि अणत्थ-सत्थ-भवणं हा ! इदु ते चिट्ठियं ॥

गय-सुत्तरिय-पाणे पाव-कम्म-प्पहाणे

जइवि हु पहरंतो तुज्ज एयंमि अंगे ।

करुडि-दलण-सज्जो लज्जए मे क्वाणो

तहवि जुवइ-रक्खं काउमव्भुज्जओऽहं ॥

एवं पर्यपमाणं कुमरं ददूण साहगो खुहो ।

गरुएण हक्कियाणं संभवइ भयं हि पावाण ॥

वीसरिय-सयल-विज्जो न खमो कुमरस्स विप्पियं काडं ।

सप्पो व्व निव्विसो सो को वा पभवइ स-पुत्ताण ॥

साहगेण भणियं—भो महासत्त ! न जुत्तं भवओ मम विग्घकरणं, अहं खु भारसूई नाम विज्जा-साहगो, पारद्धं मए इत्थी रयणा-करिसणास्स मंतस्स साहणं । बारस-मासिया कया पुव्व-सेवा, अज्ज पारद्धा पहाण-सेवा । एत्थ पुण राय-कल्लाए बलि-दाणं ति तदत्थं अवप्फेरि-प्पओगेण संनिरुद्ध-चेयणा करिय-मंतेण आणिया इहेसा । थंभिओ भयवं हूयासणो, संपाडेमि समीहियं, एवं कए पहाण-सिद्धी हवइ, ता मे मा विग्घं करेहि । दीव-सिहेण भणियं, भो ! गरहिओ इत्थि-वहो अचंत-पाव-हेऊ; तहा—

किं मंतसिद्धीइ विसुद्ध-धम्म-पच्चत्थि-भूयाइ इमाइ भइ ! ।

समग्ग-लोगागम-निदणिज्जो इत्थी-वहो कीरइ जत्थ एवं ॥

कल्लाणा गिई य तुमं ता किं जुत्तमिणं भवउ ववसिडं ति एवं भणिओ विलिओ साहगो । भणियं अणेण—भो ! महाणुभाव ! एवमेयं, नणु कओ तुमए मे अणुगहो । पावकम्मोऽहं जो एवमप्पाणं विडंबेमि, ता परिचत्तमेयं मए अ-सदणुद्धानं, अओ गच्छामि, तुमए वि समप्पियव्वा एसा अचंतितवद्धानस्स रत्तो

अवंतिणी नाम धूया । दीवसिहेण भणियं—संपाडिस्सामि अहं भवओ आणत्ति ।
गओ साहगो । दीवसिहेण वि नीया कल्लगा नियावासं । साहिओ बुत्तंतो दे-
वीणं, विम्हियाओ एयाओ, गोसे समप्पिया अवंतिवट्टणस्स । साहियं जहा-
वत्तं । परितुट्ठो राया । दिन्ना से अवंतिणी । उच्चिय-समए पवत्तो विचाहो ।

ठाऊण कइ वि दियहे निय-देसं पत्थिओ कमेण इमो ।
पडमावई-पुरीए पत्तो आवासिओ वाहिं ॥
मुणिओ य मंचिराएणं गोरवेण पवेसिओ मज्झे ।
अह नरनाह-सहाए संलावो एरिसो जाओ ॥
पत्तंमि देवया किं फुडमवयरिऊण जंपह नव त्ति ।
न ह्यु जंपह त्ति पक्खो मम ताव, इमं भणइ राया ॥
भणियं दीवसिहेणं—मा एवं भणइ, घडइ ताव इमं ।
अवयरइ माणुसे कहममाणुसी इय निवो भणइ ॥
कुमरो जंपह—जइ तुह कुड्डं अहमेव ता करेमि इमं ।
भणियं निवेण दुक्करमिणं अनेलाउगे पत्ते ॥
जंपइ दीवसिहो मह न दुक्करं, जइ परेसि, तो रत्ता ।
आणीया तत्थ लड्डं कामलया नाम निय-धूया ॥
कणगुज्जलाए देह-प्पहाए धवलेहिं तह कडक्खेहिं ।
रंजंती रायसहं कुंकुम-चंदण-रसेहिं व ॥
कुमरेण मंडले सा निवेसिया सुमरिओ मणे मंतो ।
आविट्ठं पत्तं पवण-पहय-पत्तं व घुम्मेइ ॥
नवरि न जंपइ तं जाव ताव कुमरो वि बाहमुवउत्तो ।
तत्तो खणंतरेणं आदत्तं जंपिडं पत्तं ॥
भणियं दीवसिहेणं—ओ ! चिट्ठ ताव अवरमक्खेसु ।
किं एत्थ काल-हरणं तो बुत्तं पत्त-देवीए ॥
मूयगमेयं पत्तं इह परकरणेहिं जंपियव्वं मे ।
करण-पडुत्तण-हेडं हिमवंत-गिरिंमि पत्तोहं ॥
दिव्वोसहिमाणेडं अओ इमं इत्थ कालहरणं ति ।
कहियं च तीए सव्वं जं पुट्ठं मंचिराएण ॥
तो परितुट्ठो राया, दीवसिहो देवयं विसज्जेइ ।
तप्पभिइ फुडक्खरसुल्लवेइ वाणीइ कामलया ॥

पल्लवियं व करोहिं नयणेहिं कुसुमियं व कामलयं ।
 थोर-त्थणेहिं फलियं व एस परिणाविओ रत्ता ॥
 कय-सक्कारो य ठिओ दीवसिहो तत्थ कइ वि दियहाइं ।
 अह सेयवियं पत्तो परियरिओ चउहिं पत्तीहिं ॥
 विहियं वद्धावणयं पिडणा ठविओ कमेण सो रज्जे ।
 निय-भुय-परक्कम-क्कंत-राय-चक्को गमइ कालं ॥
 विसय-सुहं सेवंतस्स तस्स पुत्ता गुणुत्तमा जाया ।
 अन्न-दिणे सो चित्तइ किं पुव्व-भवे मए विहियं ॥
 जस्सेरिसो विवागो सो ईहापोह-परिगओ एवं ।
 संभरइ पुव्व-जाइं जाणइ य जिणालए दिओ ॥
 जं पुव्व-भवंमि मए दीवो तस्सेरिसं फलं पत्तं ।
 मिलिओ पभास-सुरिस्स देवजोगेण दीवसिहो ॥
 तस्स समीवे धम्मं सोऊण विसुज्झमाण-परिणामो ।
 कुणइ चरणाहिलासं जिट्ठं पुत्तं ठवइ रज्जे ॥
 कय-जिणमंदिर-महिमो दिक्खं गिणहइ समं पिययमाहिं ।
 तिव्व-तवच्चरण-परो दीवसिह-मुणी गओ सगं ॥

इति देवपूजायां दीपशिख-कथा ।

जंपइ कुमर-नरिंदो—मुणिंद ! तुह देसणामयरसेण ।
 संसित्त-सव्व-तणुणो मह नट्टा मोह-विस-सुच्छा ॥
 मुणियं मए इयाणिं जं देवा जिणवरा चऊव्वीसं ।
 जे राग-दोस-मय-मोह-कोह-लोहेहिं परिचत्ता ॥
 नवरं पुव्वं पि मए भद्दग-भाव-प्पहाण-च्चित्तेण ।
 पडिहय-पाव-पवेसं लद्धं तुम्हाण उवएसं ॥
 सिरिमाल-वंस-अवर्यंस-मंति-उदयण-समुह-चंदस्स ।
 मह-निज्जिय-सुरगुरुणो धम्म-हुम-आलवालस्स ॥
 नयवंत-सिरो-मणिणो विव्वेय-भाणिकक-रोहणगिरिस्स ।
 सच्चरिय-कुसुम-तरुणो बाहूददेवस्स मंतिस्स ॥
 जय-पायड-वायडकुल-गयणालंकार-चंद-सूराणं ।
 गग-तणयाण तह सव्वदेव-संवाण-सेट्ठीण ॥

दाऊण य आपसं 'कुमरविहारो' कराविओ एत्थ ।
 अद्दावओ व्व रम्मो चउवीस-जिणालओ तुंगो ॥
 कणयामलसार-पहाहिं पिंजरे जम्मि मेरुसारिच्छे ।
 रेहंति-केउदंडा कणय-मया कप्प-रुक्ख व्व ॥
 स्तम्भैः कन्दलितेव काञ्चनमयैस्तकृष्टपद्मांशुको-
 ल्लोचैः पल्लवितेव तैः कुसुमितेवोच्चूलमुक्ताफलैः ।
 सौवर्णैः फलितेव यत्र कलशैराभाति सिक्ता सती
 श्रीपार्श्वस्य शरीरकान्तिलहरीलक्ष्णेण लक्ष्मीलता ॥
 पासस्स मूलपडिमा निम्मविया जत्थ चंदकंतमई ।
 जण-नयण-कुवलउल्लास-कारिणी चंद-मुत्ति व्व ॥
 अन्नाओ वि बहुयाओ चामीयर-रुप्प-पित्तलमईओ ।
 लोयस्स कस्स न कुणांति विम्हयं जत्थ पडिमाओ ॥
 संपइ देव-सरुवं मुणिऊण समुल्लसंत-सुह-भावो ।
 तित्थयर-मंदिराहं सब्वत्थ वि कारविस्सामि ॥
 तत्तो इहेव नयरे कारविओ कुमरवाल-देवेण ।
 गरुओ 'तिहुण-विहारो' गयण-तल्लुत्तंभण-क्खंभो ॥
 कंचणमय-आमलसार-कलस-केउप्पहाहिं पिंजरिओ ।
 जो भन्नइ सब्वं चिय जणेण मेरु त्ति पासाओ ॥
 जस्सिं महप्पमाणा सव्वुत्तम-नीलरयण-निम्माया ।
 मूल-पडिमा निवेणं निवेसिया नेमिनाहस्स ॥
 कुसुमोह-अधिया जा जणाण काउं पवित्तयं पत्ता ।
 गंगा-त्तरंग-रंगंत-चंगिमा सहइ जउण व्व ॥
 वटंताण जिणाणं रिसह-प्पमुहाण जत्थ चउवीसा ।
 पित्तलमय-पडिमाओ काराविया देवउल्लियासु ॥
 एवमइक्कंताणं तह भावीणं जिणाण पडिमाओ ।
 चउवीसा चउवीसा निवेसिया देवउल्लियासु ॥
 इय पयडिय-धय-जसडंबराहिं बाहत्तरीइ जो तुंगो ।
 सप्पुरिसो व्व कलाहिं अलंकिओ देवकुल्लियाहिं ॥
 अन्नेवि चउवीसा चउवीसाए जिणाण पासाया ।
 कारविया तिविहार-प्पमुहा अवरे वि इह बहवो ॥
 जे उण अन्ने-अन्नेसु नगर-गामाइएसु कारविया ।

तेसिं क्लमर-विहारण को वि जांगइ न संखं पि ॥
 अह गुरुणा वागरियं देव-सरुवं जहद्वियं तुमए ।
 मुणियं, नरिंद ! संपइ गुरु-तत्तं तुज्झ अक्खेमि ॥
 अत्थमिएसु जिणेसुं सूरुसु व हरिय-मोह-तिमिरेसु ।
 जीवाह-पयत्थे दीवओ व्व पयडइ गुरु च्चेय ॥
 गुरु-देसणावरत्तं वर-गुण-गुच्छं विणा गहीराओ ।
 संसार-क्खव-क्खहराउ निग्गमो नत्थि जीवाणं ॥
 गुरुणो कारुण-घणस्स देसणा-पय-भरेण सित्ताण ।
 भविय-डुमाणं विज्झाह ज्झत्ति मिच्छन्त-दावग्गी ॥
 जो चत्त-सव्व-संगो जिइंदिओ जिय-परीसह-कसाओ ।
 निम्मल-सील-गुणद्धो सो च्चेय गुरु न उण अन्नो ॥
 नरय-गइ-गमण-जुग्गे कए वि पावे पएसिणा रत्ता ।
 जं अमरत्तं पत्तं तं गुरु-पाय-प्पसाय-फलं ॥
 निव-पुंगवेण भणियं—को एस पएसि-पत्थिवो भयवं ! ? ।
 पीयूस-पसर-पेसल-वयणेण पर्यपियं गुरुणा ॥
 अत्थित्थ जंबुदीवे भारहवासस्स मज्झिमे खंडे ।
 नयरी आमलकप्पा सिरीइ अमरावई-कप्पा ॥

तत्थय आगास-गएणं अक्क-मंडल-सम-प्पहेणं पुरओ चंक्रमतेणं घम्मचक्के-
 णं, आगास-गएणं तिहुअण-सामित्त-सूयगेणं संपुन्न-ससि-सच्छहेणं छत्त-त्त-
 एणं, आगास-गएणं फलिहमएणं विविह-रयण-भूसिएणं सपायवीडेणं सिंहास-
 णेणं, आगास-गएहिं महग्घ-मणि-खंड-मंडिय-पिसंडि-दंडुद्धामरेहिं सेय-वर-
 चामरेहिं, अणेग-सुर-कोडि-समुक्खित्तेण पुरओ पयट्टेणं पवण-पणचंन-महाप-
 डाएण पडाइया सहस्स-परियरिएणं रयणवभएणं । चउइसहिं समण-साहस्सेहिं
 छत्तीसाए अज्जिया-सहस्सेहिं य समेओ समागओ भयवं वद्धमाण-सामी ।

तत्तो सुरेहिं विहियं साल-त्तय-सुंदरं सलोसरणं ।
 भावारि-वार-विहुरिय-जगत्तय-त्ताण-दुग्गं व ॥
 अह नवसु सुर-कएसुं कंचण-कमलेसु कंति-विजिएसु ।
 सेवं कुणमाणेसु व सत्तसु पुरओ पयट्टेसु ॥
 दोसु पुण चलण-जुयलं कमेण भयवं ठवंतओ तत्थ ।
 सुर-कोडीहिं परिगओ पुव्व-दारेण पविसेइ ॥

चेइय-द्रुमस्स काळं पयाहिणं पणमिऊण तह तित्थं ।
 सीहासणे निसन्नो पुब्बाभिमुहो जिणो वीरो ॥
 तो सूरियाभ-देवो सूरुो व्व दिसा-मुहाइं पयडंतो ।
 पत्तो महाविभूईइ वंढिळं जंपए एवं ॥

भयवं ! गोयमार्हेण समणाणं नट्ट-विहिं दंसेमि । तुसिणीओ चिट्ठइ
 भयवं । तओ सो उत्तर-पुरत्थिमं दिसा-भागं गंतूण सीहासणं विउव्वइ ।
 तत्थ निविट्ठो दाहिण-भुयाओ दिव्वाउज्ज-गंधव्व-नट्ट-विहि-सुंदरं देव-कुमाराण
 अट्टुत्तरं सयं नीसारेइ । वीयाओ तहेव देवीणं । तओ अदिट्ट-पुव्वं नट्ट-विहिं
 दंसिऊण सगं गओ । गोयमेण पणमिऊण पुच्छिओ—भयवं ! को एस
 देवो ?, केण वा कम्मणा अणेण दिव्वा देविट्ठी पत्ता ?, कत्थ वा पडिबन्नो
 मोक्ख-मग्गो ? । सामिणा भणियं—गोयमा ! सोहम्मे कप्पे सूरियाभे विमाणे
 चउपल्लोवम-ठिईओ सूरियाभो नाम देवो एसो ।

सो उण पुव्वम्मि भवे कएण सुकएण जेण संपत्तो ।

एयं दिव्वं रिद्धिं कहेमि तं संपयं सुणह ॥

अत्थि पुरी सेयविया अवयंस-समा मही-महेलाए ।

तत्थ पएसी राया नरिद-संदोह-नय-चलणो ॥

सयलंतैउर-सारा सूरियकंत त्ति से महादेवी ।

तेय-विणिज्जिय-सुरो सूरियकंतो सुओ तीए ॥

आसि पएसि-निवइणो मंती चित्तो त्ति चित्त-विणिविट्ठो ।

सो अन्नया निवेणं पट्टविओ राय-कज्जेण ॥

सावत्थी-नयरीए जियसत्तु-नराहिवस्स पासम्मि ।

दिट्ठो य पास-गणहर-सीसो केसि त्ति तेण तर्हिं ॥

तं चउदस-पुव्व-घरं चउ-नाण-जुयं च पेच्छिळं चित्तो ।

परितुट्ठो पणमइ पज्जुवासए सुणह धम्मं च ॥

यः प्राप्य दुष्प्रापमिदं नरत्वं धर्मं न यत्नेन करोति मूढः ।

क्लेशप्रबन्धेन स लब्धमन्धौ चिन्तामणिं पातयति प्रमादात् ॥

सम्मत्त-मूलमणुवय-गुणवय-सिक्खावएहिं पडिपुव्वं ।

गिणहइ गिहत्थ-धम्मं मंती केसिस्स पय-सूले ॥

जंपह य इमं भयवं ! सेयवियाए पुरीए विहरेह ।

जह तत्थ तुम्ह परिणाम-पेसलं देसणं सुणिडं ॥
 कहमवि अम्हाण पहू पएसि-राओ पवज्जए धम्मं ।
 तो सोहणं हविज्जा, अह केसी गणहरो भणइ ॥
 सो चंडो निक्करुणो निद्धम्मो पाव-कम्म-कय-चित्तो ।
 इह-लोय-प्पडिवद्धो पर-लोय-परम्मुहो कूरो ॥
 सो कह पडिबुज्जिज्जा, तो चित्तो भणइ तुम्ह किं इमिणा ।
 चिट्ठंति तत्थ सत्थाह-सेट्ठि-पमुहा जणा बहवो ॥
 जे वंदंति मुणिंदे तह सक्कारंति पज्जुवासंति ।
 पडिलाहंति पसत्थेहिं वत्थ-भत्तोसहाईहिं ॥
 धम्म-पडिवज्जणेणं तेसिं च अणुगगहो कओ होज्जा ।
 तो जंपियं भयवया जाणिस्सामो जहाजुत्तं ॥
 अन्न-समयम्मि केसी कुणभाणो भविय-कमल-पडिबोहं ।
 भाणु व्व विहरमाणो सेयवियं वर-पुरिं पत्तो ॥
 इह केसि-गणहरो आगओ त्ति वद्धाविओ निउत्तेहिं ।
 चित्तो पत्तो हरिसं रोरो व्व निहाण-लाभेण ॥
 तत्थ ट्ठिओ वि वंदइ तं चित्तो चित्तए य चित्तम्मि ।
 एसो राया रुद्धो वहु-पावो पबल-मिच्छत्तो ॥
 जीव-वहे विहिय-मणो जह मइ सचिवे वि वच्चिही नरयं ।
 ता मज्झ मई विहला अओ इमं नेमि गुरु-पासं ॥
 केणावि उवाएणं ति चित्तिउं तुरय-वाहण-मिसेण ।
 नीओ राया सचिवेण वाह-वाहण-परिस्संतो ॥
 तत्तो खेयस्स विणोयणत्थमुववेसिओ तर्हिं देसे ।
 जत्थत्थि वागरंतो धम्मं परिसाइ केसि-गुरू ॥
 स्सरिं दृष्ट्वा भूपतिः प्राह चित्रं किं मुण्डोऽसौ साम्प्रतं शरटीति ? ।
 चित्रेणोक्तं देव ! सम्यक् न जानेऽभ्यर्णी भूयाकर्ण्यते किं विनश्येत् ॥
 ततो वृषः प्राप गुरोः समीपं कृपासुधाब्धिर्गुरुप्युवाच ।
 मुक्त्वा प्रमादं परमार्थशात्रुं विधत्त धर्मं परलोकपथ्यम् ॥
 राजा बभावे भगवन्निदं मे न चेतसः सम्मदमादधाति ।
 यन्नास्ति जीवः श्रुथिबीजलाग्निवातानिरिक्तः परलोकयायी ॥

तथाहि—जीवो नास्ति, प्रत्यक्षगोचरातीतत्वात्, आकाशकुसुमवत्; यच्चास्ति न तत्प्रत्यक्षगोचरातीतं, यथा भूतचतुष्टयम् । गुरुणोक्तम्—भद्र ! किमर्थं जीवो भवतः प्रत्यक्षगोचरातीतः, उत सर्वेषाम् ?; तत्र यदि भवत्प्रत्यक्षगोचरातीतत्वात् नास्ति, तदा देश-काल-स्वभाव-विप्रकृष्टानां प्रभृतभू-भूधरा-दीनामप्यभावप्रसङ्गः, तेषामपि भवत्प्रत्यक्षेणाग्रहणात् । अथ सर्वजन-प्रत्यक्षगोचरातीतत्वाद्वास्तीत्युच्यते, तदसिद्धं, सर्वजनप्रत्यक्षाणां भवदप्रत्यक्षत्वात् । अथ तान्यपि ते प्रत्यक्षाणि तदा तवैव सर्वज्ञजीवत्वप्रसङ्गः । किञ्चेदं चैतन्यं किं भूतानां स्वभावः, उत कार्यम् ?; न तावत्स्वभावस्तेषामचेतनत्वात्, न च कार्यं भूतानुरूप्याभावात् । अथ समुदितेभ्यो भूतेभ्यश्चैतन्यमुत्पद्यते, यथा मद्याङ्गेभ्यो मदशक्तिः, तदप्ययुक्तम् ; यतो यद्येषु प्रत्येकं नास्ति, तन्न तेभ्यः समुदितेभ्योऽपि स्याद्, यथा सिक्ता-कणेभ्यस्तैलं; मद्याङ्गेषु च प्रत्येकमपि मदशक्तिसद्भावात् ; सर्वानुभवसिद्धं चेदं चैतन्यं यस्य कस्य चित् स्वभावः स भूतचतुष्टय-व्यतिरिक्तः पर-लोकयायी जीवः ।

रत्ना भणियं—जइ पर-लोय-जाई जीवो अत्थि ता मे पिया पाणि-वह-प्पमुह-महा-पाव-निरओ निरए समुप्पन्नो तुम्ह मएणं, सो कहं ममं पावाओ न नियत्तेइ ? गुरुणा वुत्तं—जहा कोइ महावराह-कारी गुत्तीए खित्तो न निय-बंधवे पिच्छिउं पि पावइ, किं पुण जंपिउं; एवं नारगा वि कम्म-परतंता नरगाओ निग्गंतुं पि न लहंति । रत्ना वुत्तं—जइ एवं ता मे जणणी जिण-घम्म-परा जीव-दया-निरया सगं गया; सा कहं ममं न पडिबोहेइ ? गुरुणा वुत्तं—सग्गे निसग्ग-सुंदर-सुरंगणा-पेम्म-परवसां गरुय-रिद्धि-अक्खित्त-चित्ता अस्समत्त-पओयणा मणुयाणहीण-कज्जा हुग्गंधयाए य तिरिय-लोयस्स जिण-पंच-कल्लाण-समोसरणाइ-वज्जं निच्छंति अवयरणं सुरा । रत्ना भणियं—मए एगो चोरो खइरो व्व सुद्धम-खंडी-कओ, न थ दिट्ठो तत्थ कोइ भूय-वइरित्तो जीवो । गुरुणा वुत्तं—केणावि अरणि-कट्टं खंडीकयं न दिट्ठो तत्थ अग्गी अवरेण महण-प्पओगेण उट्ठविओ । जइ मुत्तावि पयत्था संता वि न दीसंति, ता असुत्तस्स जीवस्स अदंसणे को विरोहो ? । रत्ना भणियं—एगो चोरो मए जीवंतओ चेव लोह-मंजूसाए पक्खित्तो ढक्खिया मंजूसा, जओसारिया पयत्तेण, अइक्कंतो कोइ कालो, जाव सो तत्थेव विवन्नो, किमि-पुंजो जाओ, तत्थ देहो चेव विणट्ठो; जइ पुण कोइ जीवो घइ-घडग-तुल्लो तओ निग्गओ पविट्ठो वा

होज्ज, तो लोह-मंजूसाए तदणुख्वं छिड्हुं हवेज्ज, न य तं दिट्ठं, ता नज्जइ न भूय-
 वइरित्तो जीवो । गुरुणावुत्तं—एगम्मि नथरे कोइ संखिगो संखं घमेइ, तस्स
 एरिसो विन्नाणाइसओ जेण गोयर-गयाणं कत्ते वि य घमेइ । अन्नया रत्तो वच्च-
 हर-काले धमिओ संखो, कत्ते विय घमेइ त्ति आसंकाए वच्च-निरोहेण रुद्धो से
 राया, वज्जो सो आणत्तो, तेण भणियं—देव ! दूरे घमेमि परं कन्न-मूले विय
 पडिहाइ, विसिद्धा खल्ल मे लट्ठी अत्थि जइ न पच्चओ ता विन्नासेउ देवो । तओ
 रत्ता खित्तो कुंभीए संखिगो ढक्किऊण जओसारिया एसा । पच्छा घमाविओ,
 सुओ संख-सद्धो सव्वेहिं । निरुविया कुंभी, न दिट्ठं निग्गमण-छिड्हुं । तहा लोह-
 पिंढे धमिए केण वि छिड्हेण आग्गी पविट्ठो, जेण सो अग्गि-वत्तो जाओ । एव-
 मिहावि सद्दाओ अग्गीओ य सुद्धुमस्स जीवस्स निग्गमे पवेसे वा न
 विरोहो । रत्ता भणियं—अन्नो चोरो वावायण-काले तोलिओ, पच्छा गलक-
 मोडणेण वावाइओ, पुणो वि तहेव तोलिओ, जाव जत्तिओ पुव्वं तत्तिओ
 पच्छावि, अओ नज्जइ न तत्थ घड-चडगोवमो कोइ मओ त्ति । गुरुणा वुत्तं—
 एगेण गोवालेण कोउगेण एगो दिइपुडो वायस्स भरिऊण तोलाविओ
 पच्छा विरिक्को, पुणो वि तोलाविओ, जाव अचिरिक्को जत्तिओ विरिक्को वि
 तत्तिओ । जइ फासिंदिय-गव्वमत्तणेण मुत्तस्स पवणस्स सव्वभावासव्वभावेसुं
 न तोल्ल-विसेसो ता अमुत्तस्स जीवस्स तोल्ल-विसेस-विरहे को विरोहो ?
 तम्हा सव्व-पाणिणं सरीराइरित्तो सव्व-संवेयणाणुभव-पच्चक्खो वेयन्न-रूवो
 गमणाइ-चिट्ठा-लिंणो पवणो व्व पडागा-पयलण-लिंणो अत्थि जीवो त्ति सद्द-
 हियव्वं । रत्ता वुत्तं—

भयवं ! मोह-पिसाओ मह नट्ठो तुम्ह वयण-मंतेहिं ।

नवरं नाहिय-वार्यं कमागयं कह विवज्जेमि ? ॥

गुरुणा वुत्तं—एयं न किंचि नरनाह ! सह विवेगम्मि ।

वाही दालिहं वा कमागयं मुच्चए किं न ॥

किं च पुरिसा भभंता घणत्थिणोऽणुक्कमेण दट्ठूण ।

लोह तओ रूप्य-करणयाइँ पुव्व-गहियाइँ मिह्लंति ॥

रयणाइँ गिण्हऊण य एगे संपत्ति-भायणं जाया ।

अवरे तहा अकाऊण दुत्थिया सोयमणुपत्ता ॥

तह मा तुमं पि होहिसि कमागयं कुग्गहं अमेह्लंतो ।

इय सोउं नरनाहो नाहिय-वार्यं परिच्चयइ ॥

पडिवज्जइ समत्तं गिहत्थ-धम्मं च बारस-विहं पि ।
 पालेइ निरइयारं संविग्ग-भणो चिरं राया ॥
 जिण-भवणाइं नवाइँ कारवइ ससुद्धरेइ जिन्नाइं ।
 सव्वत्थ वित्थरेणं जिण-रह-जत्ताओ विरएइ ॥
 पूएइ साहु-वग्गं पव्व-दिणे पोसहं कुणइ सम्मं ।
 जिणधम्मम्मि परं पि ह्हु जणं पयट्ठावए वहुअं ॥
 मन्नंतो विसय-सुहं विसं व सो चयइ जुवइ-संभोगं ।
 तत्तो सूरियकंता चित्तइ कामाउरा एवं ॥
 विसए सयं न सेवइ निवो ममं धरइ निच्चमायत्तं ।
 तं सच्चमिणं जायं न मरइ न य मंचयं चयइ ॥
 तोःनिहणाभि नरिंदं केणावि विसाइणा उवाएण ।
 पुत्तं रज्जे ठवित्तं भोगे भुंजामि इच्छाए ॥
 तो पोसहोववासस्स पारणे असण-पाण-मज्झम्मि ।
 रन्नो विसं पडत्तं विसय-पसत्ताइ कंताए ॥
 तेण य नरिंद-देहम्मि दुस्सहा दाह-वेयणा जाया ।
 सूरियकंताइ विसं दिन्नमिणं जाणए राया ॥
 सुणिऊण मरण-समयं कय-पंचाणुव्वयाइ-उच्चारो ।
 अणुसासइ अप्पाणं—कुण मित्तिं सव्व-सत्तेसु ॥
 मा कम्मि धरसु रोसं सूरियकंताइ उवरि सविसेसं ।
 एवं काऊण इमीइ तोडियं नेह-निगळं ते ॥
 जम-वस्स-वेयणिज्जं नरयाइसु तं उईरिडं कम्मं ।
 इह चेव निट्ठवंती एसा उवयारिणी तुज्झ ॥
 जइ षण इमाइ उवरिं करेसि रोसं चिरं तवं तविडं ।
 ता हारिहिसि सुवन्नं धम्मियं पि ह्हु एक्क-फुक्काए ॥
 संसारम्मि अणंतं अणंतसो नरय-तिरिय-जम्मेसु ।
 जाएण तए सहियाइँ जाइं तिक्खाइँ दुक्खाइं ॥
 तय विक्खाए दुक्खं थोवमिणं धीरिमं तओ धरिडं ।
 सहसु सयं-कय-कडु-कम्म-ललियमेयं ति चित्तंतो ॥
 एवं समाहि-पत्तो पंच-नसुक्कार-समरण-पहाणो ।
 आलोइय-पडिक्कंतो यएसि-राओ-चयइ देहं ॥

सोहृन्मकप्प-तिलयम्मि सूरियाभे सुरो विमाणम्मि ।
 सूरु व्व भासुरो सो संजाओ सूरियाओ त्ति ॥
 पलिओवमाइं चत्तारि आउयं तत्थ पालिही एसो ।
 तत्तो चुओ समाणो महाविदेहम्मि सिञ्जिहिह ॥
 इति गुरुसेवायां प्रदेशिकथा ।

कज्जाकज्ज-पयासण-निउणस्स गुरुस्स देसणं सुणिउं ।
 जीवो पाव-विमुद्धो पावइ लच्छि व्व कल्लणं ॥
 रत्ता भणियं—भयवं ! का एसा लच्छी ? गुरुणा वुत्तं—महाराय ! सुण,
 अत्थित्थ भरह-खित्ते नयरं नामेण जयपुरं पवरं ।
 जं सुरपुरं व बहु-विबुह-संज्जुलं केवलमणिंदं ॥
 तत्थ नरसुंदरो नाम नरवई मंदरो व्व वर-कडओ ।
 पर-वल-जलहिं महिउण जेण आयड्डिया लच्छी ॥
 तस्सत्थि भाणणिज्जो समग्ग-नायर-जणाभिगमणिज्जो ।
 देव-गुरु-चलण-भत्तो सेट्ठी नामेण जिणदत्तो ॥
 तस्स नयस्स व लच्छी धम्मस्स व सव्व-सत्त-अणुकंपा ।
 सुजसा नाम सहयरी निम्मल-गुण-लद्ध-सुद्ध-जसा ॥
 पुव्व-भवारोविय-सुकय-कप्प-तरुणो फलं व मण-इट्ठं ।
 विसय-सुहं सेवंताण ताण कालो अइक्कंतो ॥
 अन्न-दिणे सुजसाए निसाए सुत्ताए सुविणए दिट्ठा ।
 हिमवंत-महापव्वय-पउमदह-वासिणी देवी ॥
 नामेण सिरी गेहं समागया जाव जग्गिया सुजसा ।
 परितुट्ठ-भणा तं कहइ सेट्ठिणो सो भणइ एवं ॥
 तणुयंमि ! तुज्झ तणया पुत्तिक्क-निही गुणुत्तमा होही ।
 तं बहुमन्नइ सुजसा हरिसेण समं वहइ गव्वं ॥
 गव्व-पभावेण इमा सविसेसं मणहरत्तणं पत्ता ।
 किं न सरएण बाढं ससिलेहा लहइ लावन्नं ॥
 धम्मे रया वि सुजसा विसेसओ तम्मि उज्जुया जाया ।
 गव्वभाणुभावओ खल्लु महिलाण मणोरहा हुंति ॥
 लच्छीए वित्थरिओ सेट्ठी गव्वम्मि तम्मि संपत्ते ।
 संपुन्न-चंद-मंडल-उदए जलहि व्व वेलाए ॥

अह समयम्मि पसूया सुजसा घूर्यं धरा-तिलय-भूर्यं ।
 आणंदिय-सयल-जणं सज्जण-जीह व्व महुर-गिरं ॥
 परिओस-परवस-मणो वद्धावणयं करावए सेट्ठी ।
 नहि सुकय-सहायाणं जीवाण असंभवं किं पि ॥
 जं सुविणयम्मि दिट्ठा सुजसाए सिरी अओ विभूर्ईए ।
 मासम्मि गए जणओ सिरी त्ति नामं कुणह तीए ॥
 बाला लहेइ वुड्ढिं कमेण मण-वंछियत्थ-जोगेण ।
 कित्ति व्व गुण-कलावेण सुयण-संगेण सुमइ व्व ॥
 लिवि-गणिय-प्पमुहाहिं कलाहिं सालंकिया सहीहिं व ।
 एईएँ उवज्झाया संजाया सक्खिणो च्चेय ॥
 जिणधम्मे पडिवत्ती इमीएँ मूलाओ च्चेव जं जाया ।
 तत्थ निमित्तं पुत्तोदएण सावय-कुलुप्पत्ती ॥
 सज्झायं पढइ सुणेइ तस्स अत्थं गुरूण पय-सूले ।
 पुजेइ जिणे ढोएइ ताण पुरओ विचित्त-वल्लिं ॥
 साहूण देइ दाणं कारेइ साहम्मियाण वच्छल्लं ।
 कम्मप्पयडि-वियारे दुरवगमे कहइ अत्तेसि ॥
 देव-गुरूणं गुण-कित्तणेण लोयाण कुणह धम्म-मई ।
 इय बहु-विह-कीलाहिं बालत्तं गमइ सा थाला ॥
 अन्न-दिणे जिणदत्तो दिट्ठो चिंता-परायणो तीए ।
 तो पुच्छिओ किमेवं ताय ! तुमं चिद्धसि विसन्नो ? ॥
 जणओ जंपइ वच्छे ! रायउले राय-अग्गओ मज्झ ।
 विणिविद्धस्स सहाए पडिहार-निवेइओ पत्तो ॥
 फल-पुप्फ-करो पुरिसो रायाणं पणाभिज्जण विन्नवइ ।
 अत्थित्थ जय-पसिद्धो गामो सिद्धावहो नाम ॥
 तत्थासि गिहत्थो पाव-कम्म-विमुहो विमुद्ध-ववहारो ।
 विसयासत्ति-विमुक्को धम्म-परो धम्मदेवो त्ति ॥
 तस्स सुओऽहं मुद्धो न तारिसो जारिसो पिया मज्झ ।
 नणु कारणाणुरूवं कज्जं ति कर्यं मए वि तहं ॥
 अन्न-दिणे पवणाहय-वयग-तरलत्तणेण भावाणं ।
 परल्लोय-पत्थिएणं पिडणा मह एयमुवइहं ॥

सव्वाहमं विमुक्तुं पुत्तय ! सव्वुत्तमं निसेविज्जा ।
जम्हा वरं कयञ्चू न पुणो एयं कयग्घं ति ॥
इय कहिउं मज्झ पिआ अत्थमिओ, तो अहं पि संजाओ ।
कालेण अप्प-सोगो उवएसत्थं विभावेमि ॥

किं तु नावगच्छामि तस्स परमत्थं, तज्जाणणत्थं परिव्वभमिओ देसंतरेसु ।
पुच्छिया सत्थ-परिकम्मिय-महणो मए महापुरिसा । परं न केणावि कहिओ मे
हिययंगमो अत्थो । सुयं मे जयउर-सामिणो नरसुंदरस्स रत्तो विसुद्ध-बुद्धि-
विहवा पहाण-पुरिसा चिट्ठंति । ते मुणिस्संति उवएसत्थं । तो देव ! अहं इहा-
गओ । अणुगहं काऊण कहावेह तं मे । तओ रत्ता पलोइयं मे मुहं, पच्छा
अत्तेसिं पहाण-पुरिसाणं । भणियं च—भो ! परिभाविऊण कहेह उवएसत्थं ।
अम्हे वि देव ! एवं करेमो त्ति भणिऊण जाव परिभावेमो तस्सत्थं ताव न
किंचि सम्मं मुणेमो ।

तो रत्ता अम्हाणं मुणिऊण मणं पर्यपियं एवं ।
गच्छह गिहाइं इण्हिं अवरण्हे कहेह इणमत्थं ॥
नमिऊण निवं निय-निय-गिहेसु सयमागया पहाण-नरा ।
तमिमं विसाय-कारणमतुच्छमवगच्छ मह वच्छे ॥
तत्तो सिरी पर्यपइ संपइ काऊण देव-गुरु-पूयं ।
देव-गुरु-संविभत्तं भत्तं मुंजह चयह चित्तं ॥
उवएसत्थमहं पुण कहिस्समह तुट्ठ-माणसो सेट्ठी ।
काउं तहेव सव्वं एगंते पुच्छए धूर्यं ॥

तीए कहिंयं परिणाम-दारुणत्तणेण सव्वाहमं विसय-सुहं मुत्तूण उभय-
लोय-हियत्तणेण सव्वुत्तमं जिण-धम्मं सेवसु । जं पुण विसय-सुह-सेवाए
सरीरं पालेसि तं अजुत्तं । जओ वरं कयञ्चू सुणाहो जो थेव-दाणे वि दायारमणु
गच्छइ, न उण एयं कयग्घं सरीरं जं चिर-लालियं पि परलोय-पह-पयट्ठस्स
पाणिणो विहडइ ।

जं चिरमुवगरियं पि हु पर-भव-चलिएण सह न जीवेण ।
एक्कं पि पर्यं वच्चइ तं चिय देहं कयग्घमिणं ॥
सोऊण इमं सेट्ठी तुट्ठ-मणो उट्ठिऊण अवरण्हे ।
पत्तो निव-अत्थाणे अमच्च-सामंत-संकिञ्जे ॥

पत्ने य तस्मि पुरिसे रायाणं पणमिडं निसन्नो सो ।
 तो रत्ना आणत्तं उवएसत्थं कहसु सेट्ठि ! ॥
 तेणावि सुया-कहिओ उवएसत्थो निवेहओ सव्वो ।
 तो पुरिसेणं भणियं—देव ! इमो जुज्जए अत्थो ॥
 मज्झ पिया धम्म-परो अहं च विसएसु निच्चमणुरत्तो ।
 तेण हिय-कामिणा खलु उवएसो मह इमो दिन्नो ॥
 ता देव ! तुमं धन्नो सेट्ठी जस्सेरिसो विमल-बुद्धी ।
 भमिऊण सयल-पुहविं न मए एसो सुओ अत्थो ॥
 जाओम्हि कयत्थोऽहं संपइ वच्चाभि नियय-ट्टाणं ति ।
 सक्कारिऊण रत्ता विसज्जिओ निग्गओ पुरिसो ॥
 परितुट्ठ-मणो राया वत्थाहरणाहं देइ सेट्ठिस्स ।
 सेट्ठी वि गओ गेहं गिहिणीए सह समुल्लवइ ॥

एसा बुद्धिमई धूया इहेव परिणावेयव्वा जेण इमीए महं उवजीविऊण
 वट्ठेमि । सुजसाए बुत्तं जुत्तं । तओ तत्थेव नयरे पियमित्त-पुत्तस्स पियंकरस्स
 दिन्ना सिरी । वत्तो वीवाहो । तिवग्ग-सेवण-परा सिरी गमेइ कालं । अन्नया
 कुमित्त-संसग्गओ गलिय-सुह-बुद्धिणा पियंकरेण दिट्ठा अन्न-वणिय-घरिणी,
 साहिलासं निज्झाइया चिरं । कुमित्तेण तच्चित्तं नाऊण भणियं—किमेवं चित्ता-
 वरोसि ? अहं ते संपाडेमि एयं । पियंकरेण बुत्तं—एवं करेसु । कुमित्तेण
 कामाययणे रयणीए आणीया सा । नीओ तत्थ पियंकरो । पविट्ठाहं दो वि भव-
 णब्भंतरं । भवियव्वया-वसेण सुणियमेयं तलारेण । ढक्किऊण रुद्धं दुवारं । कु-
 मित्तो वि तं असमंजसं दट्ठण कहेइ सव्वं सिरीए, भणइ यतुह महं मुत्तूण
 नत्थि अणत्थ-नित्थरणोवाओ । तओ चितियं सिरीए—

पइणा विमाणिआ वि ह्नु विरयंति न विप्पियं कुल-वहूओ ।
 पीलिज्जंतीओ वि ह्नु महुरच्चिय उच्छु-लट्ठीओ ॥
 तो मेलिऊण महिलाओ ज्झत्ति वज्जंतएण तूरेण ।
 पूओवगरण-हत्था कामाययणे सिरी चलिया ॥
 पत्ता दुवार-देसं देइ पवेसं न तलवरो मज्झे ।
 तह तीए सो भणिओ जह मुक्का तेण सा एक्का ॥
 सा पविसिऊण मज्झे समप्पए नियय-वेसमसईए ।
 तं वाहिं निस्सारइ चिट्ठइ पुण अप्पणा मज्झे ॥

गोसम्मि तलारेणं रत्नो पासं पियंकारो नीओ ।
 सहिओ सिरीए रत्ना वि पुच्छिओ भो ! किमेयं ति ? ॥
 भणियं पियंकरेणं अहं खु जणयावमाणओ चलिओ ।
 देसंतरं इमा वि हु मज्झ पिया सह मए चलिया ॥
 इह रयणीए वसिउं पिया-समेओ पगे गमिस्सामि ।
 तो कह वि तलचरेणं दिट्ठो रुद्धो य मूदेणं ॥
 भणियं महायणेणं जिणदत्त-सुया इमा सिरी नाम ।
 एसो इमीए भत्ता पियंकारो इत्थ किमजुत्तं ? ॥
 तो रत्ना सो मुक्को सिरी-समेओ गओ नियय-गेहं ।
 लज्जोणओ पयंपह पिए ! अहत्तो कु-पुरिसोऽहं ॥
 जो गुण-रयणिक्क-निहिं तुमं विमुत्तुं महामि पर-महिलं ।
 अहवा नीयस्स जणस्स होह नीयं चियं चरित्तं ॥
 ता खमसु मज्झ एकं अवराहमओ परं पर-महिलं ।
 मणसा वि न पत्थिस्सं जावज्जीवं तुमं मुत्तुं ॥

सिरीए जपियं पिययम !—

जे परदार-परम्मुहा ते बुच्चहिं नरसीह ।

जे परिरंभहिं पर-रमणि ताहं फुसिज्जह लीह ॥

ता जुत्तं कयं पिएण, जं संपयं पि परदार-निवित्ती विहिया । एवं परुप्परं
 सिणेह-पराण ताण बोलीणो कोह कालो । नरसुंदरो य राया अच्चंतं ईसाळू घरे
 वारे य विरुद्ध-पुरिसत्थीणं जोइयं पि न सहइ । कहं चि तदिट्ठीए हसंतं सहो-
 यरं पुरिसत्थी-जुगं गहियं दंडवासिएहिं । निजए रायकुलं जाव ताव मच्छिग-
 हट्ट-समीवे कहकहाए हसियं एक-मच्छेण, भणियं च न कोह सदोसे पेक्खइ ।
 निवेहयमिणं दंडवासिगेहिं रत्नो । विम्हिओ एसो । को एत्थ परमत्थो त्ति
 जाणणत्थं दवाविओ नगरे पडहओ, जो एयं अत्यं कहेइ तस्स राया अमच्च-पयं
 पयच्छेइ । सुयमिणं सिरीए, भणिओ य पियंकारो एयमत्थं अहं कहिस्सं, अओ
 छिवेसु तुमं पडहयं । छित्तो अणेण पडहओ । सुणिय-बुत्तंतेण रत्ना आहूओ पियं-
 कारो । तेणावि भणिया सिरी—पिये ! किं इण्हं कायव्वं ? । सिरीए बुत्तं—परिस-
 मिणं कज्जं, जं मए चेव साहियव्वं, ता उदिस ममं ति । पीयंकरेण गंतूण राया
 भणिओ—देव ! मम महिला कहिस्सइ । सोहणतरं ति तुट्ठो राया । आगओ
 पियंकर-घरं निसन्नो सिंहासणे । आगमाणुसारिणा पाइभेण चित्तिज्जण भणिओ

सिरीए—देव ! एक्क-मच्छ-जुयलेण हसियं ति तं असंभवं तुह पडिबोहणत्थं देवयाए कयं । तत्थ एगतथ जले उप्पन्नं मच्छ-जुयलं एगतथ उअरे उप्पन्नाणं पुरि-सत्थीणं गहणं कहेइ । जं च हसियं तं तेसिं हास-मेत्तं दोसं पयासेइ न पाव-कारित्तणं । जं पुण न कोइ सदोसे पिक्खइ त्ति, तं तुज्झ अंतेउरे गरुओ दोसो त्ति पयडेइ । तओ रत्ता माणुसं पेसिऊण निरूवावियं जाव पुरिसो इत्थी इय दुन्नि वि भाइहंडाईं मोगावियाईं च । परितुट्टेण रत्ता भणियं—मम अंतेउरे दोसो न संभवइ, जओ महंतं इत्थ जत्तं करेमि । सिरीए वुत्तं—किं ते इमिणा, न अन्नहा होइ । रत्ता वुत्तं—कहं दोसो जाणियन्वो ? सिरीए भणियं—इत्थी जं न लंघिउं सकेइ तं खाइयं तुमं अंतेउर-समीवे खणावेहि, भणसु य मम दुस्सु-विण-विघायणत्थं अंतेउरेण सह तन्निवासि-इत्थिगा-जणो खाइउं लंवेउ । तं च जे लंघिस्संति ते पुरिसा । तओ रत्ता स-गिहं गंतूण सम्मं तन्निवासिणं इत्थी-जणं अवधारिऊण निउणं करावियमिणं । न लंघिया एसा इत्थियाहिं, लंघिया इत्थी-रूवेहिं पुरिसेहिं । साहिया ते रत्तो । निरूवाविया अणेण जाव पुरिसा चेव त्ति । कुविओ तेसिं राया । भणियं अणेण—अरे ! नगरे हिंडाविऊण अप्प-मंसाइं खावेह । सिरीए वुत्तं—न जुत्तमेयं, एवं कीरमाणे कुलमालिन्नं । एवं पि एयं रक्खियं न सुरक्खियं होइ ।

जओ—

भवियन्वं सुहमसुहं च होइ जीवस्स किं पयत्तेण ।

जलण-विरोहि-जलत्था वि जलण-दड्ढा झसा नायं ॥

एवमेयं ति पडिवन्नं रत्ता । परिचत्तमीसालुगत्तणं । पुणो वि सिरीए कहिओ जिणिंद-धम्मो, गाहिओ राया सावगत्तं । तुट्टेण रत्ता पूजिया सिरी । सिरीं पुच्छिऊण तए वट्टियन्वं ति भणिऊण दिन्नं मंति-पयं पियंकरस्स ।

जं जं मणुन्नमन्नं वत्थं पत्तं च समय-अणुकूलं ।

पुव्व-भव्वभासेणं शुरुण तं तं सिरी देइ ॥

अन्न-दिणे शुरु-पासे पियंकरो सह सिरीए संपत्तो ।

भणइ भयवं । सिरीए किं पुव्व-भवे कयमिमीए ? ॥

जं इमीए निरूवमं रूवं, विसुद्धा बुद्धि, निम्मला धम्म-सद्धा, उत्तमा देव-शुरु-भत्ती । शुरुणा वुत्तं, सुण—कुसत्थले नयरे केसवो गिहत्थो । तस्स कमल-दलच्छी लच्छी भज्जा । केसवस्स रूवो मित्तो । कयाइ केसवे वार्हिं पत्ते आगओ गिहं रूवो विसय-सुहत्थं अन्न-भत्थिया तेण लच्छी । कोव-पल्लाउल-

च्छीए लच्छीए भणिओ सो—आ ! पाव ! पावं कह चित्तियं तए, कहं च वाया-
ए पर्यपियं इमं, इमं पि बुत्तूण कहं च मे पुरो दंसेसि निल्लक्खण-अप्पणो मुहं ।

ताओ सर-दिट्ठि-पहाओ होइ तुह दंसणे वि खल्लु पावं ।

इय धिक्करिओ सो तक्करो व्व गेहाउ निक्खंतो ॥

दिट्ठो य केसवेणं गो-हच्चा-कारओ व्व मलिण-मुहो ।

भणिओ मित्त ! निमित्तेण केण दीससि विसन्नो व्व ? ॥

सो जंपइ नीससिउं जइवि अजुत्तं इमं कहिज्जंतं ।

तह वि तुह कुसल-हेउं कहेमि अन्ना गई न जओ ॥

वज्जिय-कुल-क्कमाए लच्छीए लज्जमाण-चित्तोहं ।

पयडिय-मयण-वियारं सुहरं असमंजसं भणिओ ॥

सयमेव लज्जिऊणं कयाइ विरमिस्सई इमा मूढा ।

इय चिंततेण मए उवेक्खिया एत्तियं कालं ॥

नवरं दियहे दियहे असइत्तण-समुच्चिएहिं वयणेहिं ।

भणइ ममं नय विरमइ असग्गहो अहह ! महिलाण ॥

अज्ज तुह दंसणत्थं गओ गिहं मित्त ! रक्खसीइ व्व ।

रुद्धो अहं छल्लेसिणीइ सहस ति लच्छीए ॥

हरिणो व्व वागुराओ गरुयाओ तग्गहाओ अप्पाणं ।

कहमवि विमोइऊणं भीय-मणो इत्थ पत्तोहं ॥

तो चिंतियं पवत्तो नणु जीवंतस्स नत्थि मे मुक्खो ।

एईए सयासाओ ता अत्ताणं हणेमि अहं ॥

एयं पि न जुत्तं जं एसा मित्तस्स अन्नहा कहिही ।

मित्तो य मह परुक्खे तह ति तं मन्निही सव्वं ॥

अहवा कहेमि सव्वं मित्तस्स जहट्ठियं इमं जेण ।

न लहेइ सो अवार्यं एईए अकय-वीसासो ॥

एयं पि न जुत्तं मे जं एईए अपूरियासाए ।

हुस्सीलत्तण-कहणं खयम्मि सो खार-निक्खेवो ॥

एवं विचित्त-चिता-पवन्न-चित्तो तए अहं दिट्ठो ।

तेणेस विसन्नोऽहं तं सोढं केसवो कुविओ ॥

बहुहा कयत्थिऊणं लच्छि निस्सारए निय-गिहाओ ।

सा निव्विण्णा मरणत्थमारुहइ तुंग-गिरि-सिहरं ॥

दिद्वा सुणि-कलिपणं गुरुणा विमलोहि-नाण-जुत्तेणं ।
 भणिया किमक्खमिणं मुद्धे ! काउं ववसियासि ॥
 जम्हा दुहं न पिट्ठिं सुयह मयाणं पि अकय-धम्मणं ।
 ता सुत्तुं मरणमहं दुह-विगम-कए कुणसु धम्मं ॥
 कम्मयरीए य सुयं कुडुंतरियाए रुह-दुच्चरियं ।
 द्दुं कयत्थणं तुह तं कहियं तीए तुह पइणो ॥
 सो पच्छाथाव-हओ कमेण एही तुमं गवेसंतो ।
 तो मरण-महं सुत्तुं लच्छी पड्विज्जए धम्मं ॥
 अह केसवो वि पत्तो खमाविउं नेइ निय-गिहं लच्छि ।
 उमय-भव-सुक्ख-जणगे गुरुम्मि सा वहइ बहुमाणं ॥
 गुरुणा अहं मरंती निवारिया कारिया य जिण-धम्मं ।
 तो मज्झ दो वि लोगा सहला जाय त्ति चित्तेइ ॥
 वर-वत्थ-पत्त-भत्तोसहाइं निच्चं गुरुण सा देइ ।
 जिण-धम्म-परा मरिउं पत्ता सोहम्म-सुरलोयं ॥
 तत्तो चविज्जण इमा सिरि त्ति नामेण तुह पिया जाया ।
 तो जाय-जाइसरणा भणइ सिरि सच्चमेयं ति ॥
 अह जाय-जुग-पुत्ता गिहत्थ-धम्मं सिरि चिरं काउं ।
 पत्ता सणकुमारं महाविदेहम्मि सिज्झिहिइ ॥

इति गुहसेवार्था लक्ष्मीकथा ।

तविओ वि तवो तिब्बो चिर-कालं सेविओ वि वण-वासो ।
 इह कूलवालयस्स व विहलो गुरु-भत्ति-रहियस्स ॥
 रत्ता भणियं—को इमो कूलवालो ? । गुहणा भणियं सुण—
 केणावि अकय-रोहस्स जस्स पुरओ सुरोह-कलियं ति ।
 अमरपुरं पि वरायं रायगिहं अत्थि तं नयरं ॥
 तत्थ नरिंदो नामेण सेणिओ जस्स घाउणो सत्त ।
 जिण-वयण-निग्गएहिं सत्तहिं तत्तेहिं संभिन्ना ॥
 तस्स य नंदा-देवीइ अंगओ संगओ गुरु-गुणेहिं ।
 पुत्तो अभय-कुमारो जिण-धम्म-पभावणा-सारो ॥

देवीए चेल्लणाए आसोयचंदो त्ति अत्थि जेह्द-सुओ ।
 तह अन्ने दुन्नि सुआ हल्ल-विहल्ल त्ति विक्खाया ॥
 अन्नासिं देवीणं पुत्ता कालाहया तथा बहवे ।
 जिण-पूयण-प्पहाणो परिपालइ सेणिओ रज्जं ॥
 अभओ पुच्छइ सार्मि—को राय-रिसी य पच्छिमो भयवं ! ।
 उद्दायणो जिणेणं रायरिसी पच्छिमो कहिओ ॥
 एत्तो परं नरिंदा न बद्ध-भउडा वयं गहिस्संति ।
 तो वय-विग्घ-भएणं अभएण न इच्छियं रज्जं ॥
 तो सेणिएण अभओ भणिओ तुमए मए अमुक्केण ।
 दिक्खा न गिण्हियव्वा तह त्ति अभएण पडिवन्नं ॥

अह सिंसिर-पवण-कंपंत-गत पिकखेविणु भुवणि समत्त-सत्त ।
 वियसंत-कुंद-कलिया-मिसेण जो हसइ गरुय-विम्हय-वसेण ॥
 हिम-पीडिय-पंधिय जहिं असेस भुय-मंडल-भीडिय-हियय-देस ।
 निय-कंत निहु मणि निवसमाण पडिहासहिं नं परिरंभमाण ॥
 जहिं तरुणिहिं घण-धुसिणंगराओ निम्मविओ सीय-संगम-विघाओ ।
 मण मज्झि अमंतु पियाणुराओ नं निग्गओ बाहिरि निव्विवाओ ॥
 संताव-करु वि जहिं जलह जलणु हिम-पीडहरो त्ति पमोय-जणणु ।
 जं कहवि अणिट्टु वि होइ इट्टु सियवाओ जिणिदिहिं तेण दिट्टु ॥
 तम्मि सिंसिरे पयट्टे वीरजिणं वंदिउं चरम-जामे ।
 सह सेणिएण भवणे संचलिया चेल्लणा-देवी ॥
 काउस्सगोवगर्यं गिरि-नइ-कूलम्मि पेच्छिउं समणं ।
 चिंतइ कहं महप्पा गमिही रयणिं निरावरणो ॥
 सुत्ता निसाइ एसा पासाए मणिमयम्मि पल्लंके ।
 अह कहवि करो तीए विणिग्गओ आवरण-बाहिं ॥
 सीएण पीडिए तम्मि जग्गिया भणइ चेल्लणा देवी ।
 सो कह रयणिं गमिहि त्ति सेणिओ सुणइ वयणमिणं ॥
 नूणं कय-संकेया कस्स वि एसा जमेवमुल्लवइ ।
 इय चिंतिऊण कुविओ गोसे अभयं भणइ एवं ॥
 अंतेउरं समगं दहसु त्ति सयं गओ जिण-सयासं ।
 नमिऊण सेणिय-निवो कयंजली पुच्छए एवं ॥

भयवं ! किमोग-पत्नी अणोग-पत्नी वा चेच्छणा-देवी ? ।

तो जंपह जिण-नाहो निव-पुंगव ! एगपत्ति त्ति ॥

जं पुण कहं सो तवस्सी भविस्सह त्ति वयणं तं सुणिं पडुच्च वुत्तं । संजाय-पच्छायावो नियत्तो राया । अभओ वि सुन्नं हत्थि-सालं पलीविऊण जिण-वंदणात्थं पत्थिओ । दिट्ठो रत्ता । भणिओ य—पलीवियं अंतेउरं ? तेण वुत्तं एवं । रत्ता वुत्तं—सयं किं न पविट्ठो ? अभएण वुत्तं—ताएण अमुक्को कहं पविसामि । रत्ता वुत्तं—मुक्को मए । अभएण वुत्तं—जइ एवं ता अलं मे दव्वग्गि-पवेसेण, भावग्गि संजमं पविसामि । तओ नंदाइ समं महाविभू-इए अभओ पव्वइओ । कोणियस्स रज्जं दिज्जिहि त्ति चिंतिऊण सेणिएण हल्ल-विहल्लाण सेयणगो हत्थी दिन्नो । चेच्छणाए देव-दिन्नो हारो दिन्नो । नंदाए खोम-जुयलं च दिन्नं । कोणिओ वि दसहिं कालाइएहिं कुमारेहिं समं मंतिऊण सेणियं शुत्तीए खिबइ । पुव्वण्हे अवरण्हे य कस-सएण हणइ भत्तं पाणं च वारे-इ । तओ चेच्छणा कह वि कुम्मासे केसेसु यंघिऊण सयावं च सुरं पवेसेइ । तीए सुराए गुंडिएहिं केसेहिं धुव्वंतेहिं सयवारे सव्वं पाणियं सुरा होइ । तप्प-भावाओ किर सो कसाघाए वि सहइ । अन्नया तस्स पडमावईए देवीए पुत्तो उदाई कुमारो जेमंतस्स उच्छंगे ठिओ थाले मुत्तेइ । मा दूमिज्जिहि त्ति तं राया न चालेइ । मुत्त-भीसियं कूरं अवणेइ । मायं भणइ—अम्मो ! अन्नस्स वि कस्सइ पुत्तो एवं पियो अत्थि ? मायाए भणियं—दुरायार ! सुण—
तह गव्व-गए निव-मंस-भक्खणे मज्झ दोहलो जाओ ।
सो पूरिओ य रत्ता पर-मंसं बंधिउं उयरे ॥

दुट्ठो त्ति जाय-मेत्तो वि तुमं मए छड्ढाविओ असोगवणियाए । सुणिय-मिणं रत्ता । गंचूण तत्थ दिट्ठो असोगवणियं चंदो व्व उज्जोयंतो तुमं । वेत्तुं असोगचंदो त्ति ते नामं कयं । तत्थ कुक्कड-पोयगेण ते अंगुली विन्हा । सा कूणिया जाया । तओ दारगेहिं कूणिओ त्ति ते नामं कयं । तं तुह अंगुलिं पूहं गर्लतिं राया सुहे करेइ तथा तुमं न रोयसि, इहरहा रोयसि । ता तुह न तेत्तियं पिओ पुत्तो जेत्तियं तुमं निय-जणयस्स । तह वि तुमए पिया एवं वसणं पाविओ । तओ सो जाय-पच्छायावो मुत्तुं गएसु कम्मयरेसु सयं चेव लोह-दंडं वेत्तूण निगडाणि भंजामि त्ति पहाविओ । रक्खगा नेहेण भणंति—एस सो लोह-दंडं धित्तूण एइ त्ति । न नज्जइ केणावि कु-मारेण मारेहि त्ति चिंतिऊण सेणिओ तालउडं विसं भक्खेइ, जाव एइ कूणिओ ताव मओ सेणिओ । पढम-पुढवीए

पढम-पत्थडे चउरासीइ-वास-सहस्साऊ नारओ जाओ । तओ उच्चद्वो इहेव
भारहे वासे महापउम-नामा पढम-तित्थयरो होहि त्ति ।

सेणिय-सोग-परवसो रायगिहे अत्थिउं असकंतो ।

चंपापुरिं निवेसइ तहिं कुणइ कूणिओ रज्जं ॥

अह खोम-जुयल-कुंडल-वर-हार-विराइया नयर-मज्जे ।

सेयणग-गयारूढा हल्ल-विहल्ला परिभमंति ॥

तियसे व्व सब्ब-लट्ठे ते दट्ठं कूणियं भणइ भज्जा ।

एएसिं तुह भाऊण देव ! परमत्थओ रज्जं ॥

जं एवमलंकरिया करि-खंध-गया पुरीए कीलंति ।

तुह पुण मुत्तुं आयासमेक्कमन्नं फलं नत्थि ॥

ता मग्गेसु कुमारे हत्थि-प्पमुहाइं, तो भणइ राया ।

पिउ-दिन्नाइं इमाइं मग्गतो किं न लज्जामि ॥

सा जंपइ का लज्जा तुह नाह ! निरग्गलं विहवमन्नं ।

दाउं इमाइं मग्गतयस्स करि-पमुह-रयणाइं ॥

इय पुणरुत्तं तीए भणिओ मज्जायमुज्झिउं राया ।

भणइ कुमारे अप्पह मह सेयणगाइ-रयणाइं ॥

गिण्हह अन्नं जं हत्थि-तुरय-रयणाइं तुम्ह पडिहाइ ।

तो मंतिऊण देमो त्ति जंपिउं निय-गिहं पत्ता ॥

हट्ठेणावि एसो गिण्हिहि त्ति चिंतिऊण रयणीए निग्गया गयावाराऊढा ।
पत्ता वेसालीए नयरीए चेडगराय-पासं । मुणिय-वुत्तंतेण कूणिएण दूय-वय-
णेहिं भणिओ चेडगो—पेसेहि सिग्घं हल्ल-विहल्ले । चेडगेण वुत्तं—एए तुमं च
मम धूया-पुत्तत्तणेण तुल्ल-सिणेहा, इमे पुण सरणागया, ता न सक्केमि तुह
पासे पेसिउं हट्ठेण । जइ पुण तुमं संबोहिऊण नेसि तो नेहि न निवारेमि । एवं
सोऊण रुद्धो कूणिओ, भणिओ अणेण चेडगो—पट्टवेसु कुमारे, अहवा जुज्झ-
सज्जो होसु । पडिवन्नं जुज्झं चेडगेण । कूणिओ वि समग्ग-सामग्गी-संगओ
गओ वेसालीए । पारद्धं जुउं । चेडगस्स रत्तो किर एस नियमो जहा एकम्मि
दिणे एक्को चैव सरो अप्प-सरिसस्स खिवियव्वो । सो य देवयाए अमोहो कओ ।
तओ चेडगेण कूणियस्स भाडगा दस कालाइया दसहिं दिवसेहिं विणासिया ।
भयत्त-चित्तेण चिंतियं कूणिएण—नूणं एक्कारसमे दिणे जुज्झंतस्स मे विणा-
सेण होयव्वं, तो न जुज्झइ जुज्झिउं ति ओसरिऊण अट्टम-भत्तं करेइ । तओ

पुष्प-कथ-संकेया सोहृम्मिदो चमरिंदो य दोवि समीवमागया, भणंति कूणि-
यं—भो नरिंद ! कहसु, कि ते पियं करेमो ? रत्ना भणियं—विणासेह चेडयं ।
तेहि जंपियं परम-सम्मदिट्ठिं चेडयं कहं विणासेभो ?, तुज्झ पुण जुज्झंतस्स
पाणे रक्खेमो । रत्ना भणियं—एवं होउ । तओ कूणिओ चेडगेण समं समर-
संरंभं करेइ । चमरिंद-विहिण्हि रह-मुसल-सिला-कंदक-संगामेहि पडिक्ख-
पक्खं विक्खित्तं पत्तो चेडग-समीव । चंड-भुयदंड-कुंडलिय-चावेण चेडगेण
सुक्को कयंत-दूओ व्व कूणियं पडुच्च वाणो । सो य अंतरा रहज्जण फलिह-सिलं
पडिक्खलिओ सक्केण । तं ददूण चिंतियं चेडगेण—नूणं खीणो मे पुन्न-पसरो
जं पडिक्खलिओ अमोहो सरो, ता न जुज्झइ अओ परं जुज्झिअं ति
पविट्ठो पुरीए वेसालीए चेडगो ।

तं कूणिओ निरुंभिय चिट्ठइ सा तह वि तुंग-पायारा ।

न परेण अक्कमिज्झइ नारि व्व विसुद्ध-सील-गुणा ॥

हल्ल-विहल्ला चडिअं सेयणगे निसि हणंति पर-चक्कं ।

तो भणइ कूणिओ—भो ! किमत्थि एसि जयोवाओ ? ॥

जंपंति मंतिणो सेयणग-हणणओ नावरो जयोवाओ ।

रत्ना बुत्तं—एयं पि कुणह, तो मंतिणो मग्गे ॥

अंगार-खाइयं कारवंति छन्नं तमोहिणा मुणिअं ।

तत्थ न हत्थी वच्चइ, कुमरा कुविया करि विति ॥

पसुओसि तुमं अम्हेहि तुह कए अज्ज-चेडगो एवं ।

वसणन्नवस्मि खित्तो, तुमं पि न चलसि वसण-भीरू ॥

इय तोरविओ हत्थी कुमरे उत्तारिज्जण खंधाओ ।

अंगार-खाइयाए पडिज्जण मओ गओ नरयं ॥

करि-मरण-दूमिय-मणे कुमरा विस-विसम-विसय-निव्विन्ना ।

नीया जिणपासे देवयाइ गिण्हंति दो वि वयं ॥

अन्नया अच्चंत-चिंता-पवन्नस्स कूणियस्स पढियं देवयाए—

समणे जइ कूलवालए मागहियं गणियं लगिस्सए ।

लाया य असोयचंदए वेसालिं नगलिं गहिस्सए ॥

तं सोऊण भणियं रत्ना—भो ! को एसो कूलवालगो ? सुणिय-बुत्तं-
तेण केणावि कहियं—वेव ! चत्त-सव्व-संगा हिययव्वंतर-फुरंत-नारसंगा
संगमसीहा नाम आयरिया । बहु-सीस-परिवाराण ताण एक्को सीसो तिच्च-

तवचरण-परो वि रमणीण रूव-लावनाइ-वन्नणं करेइ, हरिसिज्जइ तइसणेण ।
चोर्यंति तं आयरिया—महासत्त ! अजुयमेयं मुणीणं ।

थेवो वि जह दवग्गी दहइ समग्गं पि उद्धत्ति कंतारं ।
तिव्वं पि तवं तह निट्टवेइ तरुणीण नामं पि ॥
तह वि न नियत्तए सो गुरुसु वेरं विसेसओ वहइ ।
तत्तं हि घयं सित्तं पि सलिल-पूरेण पज्जलइ ॥
अन्न-दिणे तेण समं आयरिया उज्जयन्तमारूढा ।
सिद्धसिला-नमणत्थं तं नमिउं जा अवयरंति ॥
तो चिंतए कु-सीसो पत्थावो एस ता हणामि गुरुं ।
अन्नह मं दुव्वयणेहिं पीडिही एस आजम्मं ॥
तो पिट्टओ अणेणं गुरु-हणणत्थं महासिला मुक्का ।
दिट्ठा गुरुणा एसा ओसरिउं जंपिओ सीसो ॥
रे ! रे ! दुरप्प ! गुरु-पच्चणीय ! किं ववसिओसि काउमिणं ? ।
लोग-ठिइं पि न याणसि गुरुसु जं वहसि वह-बुद्धिं ॥
जे उद्धरंति जीवं उवएस-गुणेण नरय-कूवाओ ।
तेसिं पच्चुवयारो न होइ तइलोक-दाणे वि ॥
के वि हु परोवयारं थेवं पि न वीसरंति आजम्मं ।
चिरमुवयरिया वि परे तुमं व हणणत्थमुट्ठंति ॥
अह्वाऽणत्थ-फलो चिय कओ कु-पत्तम्मि होइ उवयारो ।
सीहस्स अच्छि-दाणं जह वेज्ज-सुअस्स मरण-करं ॥
जो कुप्पसि मज्झ तुमं वेरग्ग-पहं पि उवइसंतस्स ।
होही तव-वन्नओ तस्स तुज्झ इत्थी-सयासाओ ॥

एवं कु-सीसं जंपिऊण पत्तो आयरिओ निय-गच्छं । कु-सीसो वि सूरिणे
वयणं असच्चं मए कायव्वं ति चिंततो गओ अरन्नं । गिरिनई-कूले तावसासमे
उग्गं तवं काउं पवत्तो । पत्ते पाउसे तस्स तवेण तुट्ठाए देवयाए मा हीरिही
जलेण एसो त्ति पवाहिया नई अन्न-कूलेण । तओ अन्न-कूल-वलियं नइं दट्ठण
तइसवत्तिणा जणेण कयं से कूलवालओ त्ति नामं । सो य तप्पएसागयाओ
सत्थाओ लट्ठाए भिक्खाए पाणे धरंतो पत्तो पसिद्धिं । एवं सोऊण भणिया
कूपिएण पणंगणा-चक्क-वूडामणी मागहिया—भइ ! इहाणेहितं कूलवालं समणं ।

एवं करोमि त्ति पडिवन्नं तीए । जाया सा कवड-साविगा । घेत्तूण सत्थं गया
तत्थ । सविणयं वंदिऊण समणं जंपिडं पवत्ता—

परलोय-गए नाहे जिणभवणाहं नमंसमाणाहं ।
सोऊण तुमं तुह वंदणत्थमित्थागया भयवं ! ॥
ता अज्ज दिणं सहलं जं दिट्ठो जंगमं तुमं तित्थं ।
संपइ कुणस्तु पसायं मह मुणिवर ! गिण्हइं भिक्खं ॥
लभंति पुत्त-वसओ जम्हा तुम्हारिसाइं पत्ताइं ।
किं होइ कणय-बुट्ठी घरंगणे पुण्ण-रहियस्स ? ॥
एवं भणिओ सो कूलवालओ जाइं गिण्हइं भिक्खं ।
तो दुट्ठ-दव्व-मिस्सा दिन्ना से भोयगा तीए ॥
भोयग-भोगाणंतरमुप्पन्नो तस्स दढमईसारो ।
उव्वत्तणं पि काडं न तरइ तेणाबलो एसो ॥
भणइ मुणिं मागहिया हहा ! मए पाडिओ तुमं कट्ठे ।
पावाहं तुह संपइ पडियारं काडमिच्छामि ॥
तं अणुजाणह अह फासुगेहिं दव्वेहिं मे कुणंतीए ।
जइ होज्ज को वि दोसो करेज्ज आलोयणं तस्स ॥

जओ—

सव्वत्थ संजमं संजमाउ अप्पाणमेव रक्खंतो ।
मुच्चइ अइवायाओ पुणो विसोही नयाविरई ॥
एवं पत्तविओ सो तीए सिद्धंत-सुत्त-जुत्तीहिं ।
तं अणुमन्नइ मूढो वेयाचच्चं विरइमाणि ॥
तो उव्वत्तण-धावण-निसियावण-पसुह-सव्व-किरियाओ ।
कुणइ समीव-ठिया सा निरंतरं तस्स परितुट्ठा ॥
इय कहवय-दियहाइं पडियरिडं ओसह-प्पओगेण ।
पगुणी कुणइ सरीरं मागहिया तस्स समणस्स ॥
अमरि व्व मणहरंगी पयडिय-सव्वंग-चंग-सिंगारा ।
सविलास-हासमेसा कयाइ समणं इमं भणइ ॥
किं दुक्कारेण इमिणा सत्तुं व तवेण तवसि अत्ताणं ।
सुहय ! सुहेक्क-निहाणं मं सेवसु गाढमणुरत्तं ॥
जइ पाण-नाह ! इमिणा तवेण तियसंगणाओ पत्थेसि ।

ता तार्हितो पवरं मं भयसु तवेण पज्जतं ॥
 अह परम-पर्यं वञ्छसि ता केण वि मुच्च! विप्पलद्धोसि ।
 का तत्थ सुहासा जत्थ नत्थि घोर-त्थणी तरुणी ॥
 ता मुत्तूण अरत्तं सपाव-सावय-समूह-संकिण्णं ।
 वच्चामो रइ-रमणीय-रमणि-गण-भणहरं नयरं ॥
 जम्हा तुज्झ वियोगं खणं पि सहिउं अहं न सक्केमि ।
 मुच्च तवं सेवामो विसय-सुहं जोव्वणं जाव ॥
 इय वयणाहं सोऊण तीइ परिचत्त-धीरिमो एसो ।
 मिच्छइ वयाभिमाणं महिलाहिं न गंजिओ को वा ॥
 चित्त-गयाओ वि चित्तं हरिणच्छीओ हरंति अच्चंतं ।
 किं पुण विलास-पेसल-चड्ड-कम्म-पयासण-पराओ ॥
 अह परितुड्ड-मणा सा तेण समं कूणियस्स पासम्मि ।
 गंतुं विहिय-पणामा करयंजली विन्नवइ एवं ॥
 देव ! मह जीविएसो एसो सो कूलवालगो समणो ।
 जं इमिणा कायव्वं इण्हि तं आइसउ देवो ॥
 भणइ निवो—भइ ! इमा जह भज्जइ पुरवरी तह करेसु ।
 तं पडिवज्जइ समणो तो कुणइ तिदंडिणो वेसं ॥
 पविसइ पुरीइ मज्झे मुणिसुव्वय-सामिणो नियइ थूभं ।
 थूभ-पहावेण पुरी भज्जइ न धुवं ति तक्केइ ॥
 ता तह करेमि थूभं अवणिति जहा जण त्ति चित्तेइ ।
 फिट्ठिहिइ नयरि-रोहो कहं ति पुच्छंति तं लोगा ॥
 भणइ इमो जइ थूभं अवणेह तओ अवेइ पर-चक्कं ।
 अन्नह नयरी-रोहो न कहं पि हु फिट्ठिही एसो ॥
 अवणिज्जंते थूभे ओसरियव्वं तए स-सिन्नेण ।
 इय संकेयं सो कूणिएण सह कुणइ कूड-मई ॥
 लोगा भणंति को इत्थ पच्चओ तो पर्यपए समणो ।
 ओसरिही पर-चक्कं थूभे थेवे वि अवणीए ।
 एसो खु पच्चओ इह, तो लोगा थूभ-सिहरमवणिति ।
 पर-चक्कमोसरंतं पिच्छंति य तम्मि समयम्मि ॥
 अह जाय-पच्चया तं थूभं अवणिति सव्वमवि मूढा ।

वलिऊण कूणिणं नयरी भग्गा समग्गावि ॥
 वेत्तुं जिणिंद-पडिमं पडिओ वावीए चेडय-नरिंदो ।
 धरणो पडिच्छिडं करयलेण तं नेह निय-नयरिं ॥
 सो तत्थ अरत्त-अदुट्ट-माणसो मासमणसणं कुणइ ।
 मरिऊण समुप्पज्जइ सग्गे सब्बुत्तमो तियसो ॥
 इय कूलवाल-समणो गुरु-पडिकूलो तव-क्खयं पत्तो ।
 तत्तो निउण-नरेणं गुरु-भत्ति-परेण होयव्वं ॥

इति गुरु-विराघनायां कूलवाल-कथा ॥

चिंतामणि-कप्पहुम-कामदुहाईणि दिव्व-वत्थूणि ।
 जण-वंछियत्थ-करणे न गुरुणि गुरु-प्पसायाओ ॥
 जो पेच्छिऊण पावंति पाणिणो मणुय-तियस-सिद्धि-सुहं ।
 करुणा-कुल-भवणाणं ताण गुरूणं कुणइ सेवं ॥
 दमगो वि पुव्व-जम्मे जं महिवइ-निवह-नमिय-पय-कमलो ।
 जाओ संपइ-राओ तं गुरु-वल्लणाण माहप्पं ॥
 रक्षा वुत्तं—भयवं ! कह दमगो संपई निवो जाओ ।
 भणइ गुरु—सुण नरवर ! संदेहं जेण अवणेमि ॥
 गुरु-थूलभइ-सीसा अज्ज-महागिरि-सुहत्थि-नामाणो ।
 सुवणे चिरं विहरिया दस-पुव्व-धरा जग-प्पहाणा ॥
 अह निप्पाइय-सीसो महागिरी नियय-गच्छमप्पेइ ।
 अज्ज-सुहत्थिस्स सयं जिणकप्पन्भास-कय-चित्तो ॥
 जिणकप्पे वुच्छिद्धे वि गच्छ-निस्साइ कुणइ तं एसो ।
 पाडलिउत्तं पत्ता कयाइ ते दो वि विहरंता ॥
 तत्थ वसुभूइ-सिद्धी अज्ज-सुहत्थिस्स देसणं सुणिडं ।
 जीवाजीवाइ-पयत्थ-जाणगो सावगो जाओ ॥
 अज्ज-सुहत्थि-पणीयं धम्मं सयणाण कहइ वसुभूई ।
 धम्मायरिएण विणा तं पडिवज्जंति तह्वि न ते ॥
 वसुभूई भणइ गुरुं न सक्किया बोहिडं मए सयणा ।
 तो मह गिहमागंतुं ते पडिबोहसु तुमं नाह ! ॥

बंधु-पडिवोहगत्यं गओ सुहृत्थी गिहृम्मि सिद्धिस्स ।
 मोह-दवानल-पसमण-घणाचलिं देसणं कुणइ ॥
 इत्थंतरे पविट्ठो भिक्ख-निमित्तं महागिरी तत्थ ।
 अज्ज-सुहृत्थी अब्भुट्ठिज्जण भत्तीए तं नमइ ।
 सिट्ठी जंपइ—भयवं ! तुम्हाण वि अत्थि किं गुरु को वि ।
 जं एवं नमइ इमं तुम्हे शुवणिक्क-नमणिज्जा ॥
 भणइ सुहृत्थी सिट्ठिं जिणकप्पभास-कथ-मणा एए ।
 मह गुरुणो जे भिक्खं गिण्हंति सया चइज्जंति ॥
 नामं पि पाव-हरणं इमाणमेवं महागिरिं थोउं ।
 पडिवोहिय-बहु-लोओ गओ सुहृत्थी नियं ठाणं ॥
 सिट्ठी जंपइ सयणे छड्ढिज्जंति पयासिउं भिक्खं ।
 दिज्जइ इमस्स मुणिणो सा तुम्ह महाफला होही ॥
 तं पडिवन्नं सयणेहिं अह पविट्ठो दुइज्ज-दियहम्मि ।
 भिक्खा-निमित्तमेसिं गेहेसु महागिरी भयवं ॥
 तं इंतं दट्ठुं सिट्ठि-बंधवा ते कुणंति तह चेव ।
 उवओगेण असुद्धं तं नाउं गिण्हए न गुरु ॥
 गंतुं वसहिं जंपइ इमो सुहृत्थि तए अईय-दिणे ।
 काज्जण मज्झ विणयं अणेसणा निम्मिया महई ॥
 जम्हा तुह उवएसेण तेहि सा मज्झ सज्जिया भिक्खा ।
 न पुणो एवं काहं ति भणिय तं खामइ सुहृत्थी ॥
 अह पाडलिपुत्ताओ उज्जेणि संपई गओ राया ।
 वच्चंति सम्भूमीए कयाइ कत्थ वि निवा जम्हा ॥
 तम्मि समयम्मि पत्ता अज्ज-महागिरि-सुहृत्थिणो तत्थ ।
 जीवंत-सामि-पडिमा-रह-जुत्ता दंसण-निमित्तं ॥
 घण-त्तूर-रवाजरिय-नहंगणो निग्गओ रहो तत्तो ।
 भावारि-वग्ग-विजओज्जयस्स जीवंत-सामिस्स ॥
 दोहिं वि आयरिएहिं संघेण चउच्चिहेण य समेओ ।
 ठाणे ठाणे कीरंत-मंगलो सो परिभमंतो ॥
 रायकुल-दार-देसं गओ तओ पत्थिवो गवक्ख-ठिओ ।
 दट्ठुं अज्ज-सुहृत्थि चिंतिउमेवं समाढत्तो ॥

दिद्वो कर्हि चि एसो मए मणाणंदकारओ सूरी ।
 इय विमरिसं कुणंतो मुच्छाए निवडिओ राया ॥
 संभंत-परियणेणं कथ-पवणो चंदणेण सित्तंगो ।
 संजाय-जाइसरणो सत्थ-मणो उट्टिओ राया ॥
 तो आगओ नरिंदो अज्ज-सुहत्थिस्स वंदण-निमित्तं ।
 भूमि-निहि-उत्तमंगो तं नमित्तं पुच्छए एवं ॥
 जिण-धम्मस्स फलं किं ?, कहइ सुहत्थी सिवं च सगो य ।
 पुच्छइ पुणो वि राया किं सामाइय फलं भयवं ! ॥
 सामाइयमव्वत्तं रज्जाइ-फलं जिणेहिं पन्नतं ।
 इय गुरुणा वागरिए राया दढ-पच्चओ जाओ ॥
 पुण वि सुहत्थिं नमित्तं भणइ निवो किमुवलक्खह ममं ति ? ।
 दाउं मुओवयोगं अज्ज-सुहत्थी भणइ एवं ॥
 उवलक्खेमि तुममहं पुव्व-भवं तुह क्खेमि सुणसु तुमं ।
 अत्थि पुरी कोसंबी जिणभवण-विभूसिया रम्मा ॥
 तत्थ महागिरि-सूरी अहं च गच्छेहि परिगया पत्ता ।
 गच्छ-गरुअत्तणेणं दो वि ठिया भिन्न-वसहीसु ॥
 तत्थ तथा दुब्भक्खं वट्टइ गय-मित्त-बंधवाविक्खं ।
 तह वि जणो साहूणं भत्ताइ विसेसओ देइ ॥
 अन्न-दिणे भिक्खत्थं मुणिणो धणसिट्ठिणो गिहम्मि गया ।
 तेण मणुन्नं अन्नं दिन्नं तेसिं स-बहुमाणं ॥
 दिद्वं च इमं सव्वं दमगेणिक्केण तो मुणीण इमो ।
 गिह-निग्गयाण जंपइ वियरह मम भोयणं एयं ॥
 मुणिणो भणंति अम्हे एयस्स न स्सामिणो अवि य गुरुणो ।
 सो वि मुणि-पट्टि-लग्गो पत्तो वसहीइ मह पासं ॥
 पत्थेइ भोयणं मं मुणिणो वि कहंति तस्स बुत्तंतं ।
 तो सद्य-मणेण मए उवओग-परेण मुणियमिणं ॥
 दमगो इमो पर-भवे पभावगो पवयणस्स होहिं त्ति ।
 भणिओ सो जइ दिक्खं गिण्हसि तो भोयणं लहसि ॥
 तं पडिचज्जइ दमगो मए सकरुणेण दिक्खिअओ एसो ।
 भुंजाविओ जहिच्छं भोयग-पसुहं वराहारं ॥

गिद्धि-वसेण सिण्णिद्धं बहुं च उवभुंजिऊण दमग-मुणी ।
 मज्झत्य-भाव-जुत्तो विसूइयाए निसाह मओ ॥
 अह अत्थि अत्थ-भर-विलसमाण-माणं व मणोहरं नयरं ।
 ललणाभरण-पहा-पडल-पाडलं पाडलीउत्तं ॥
 तत्थ नव-नंद-रज्जं उक्खणिउं जणिय-जण-मणाणंदो ।
 चंदो व्व चंदउत्तो चाणक्केणं कओ राया ॥
 तस्संगरुहो जाओ राया नामेण विंदुसारो त्ति ।
 रिउ-रमणि-वाह-विंदूहिं वड्डिया जस्स कित्ति-लया ॥
 तस्स सुओ संजाओ राया नारि-प्पिओ असोगसिरी ।
 पसरिय-पयाव-किसलो जणाण फल-दायगो किंतु ॥
 तस्स वि तणओ जाओ गुण-विवहालंकिओ कुणालो त्ति ।
 बालत्तणे वि ठविओ जुवराय-पर्यमि जो पिउणा ॥
 सो उवरय-जणणीओ त्ति इयर-माया-भएण पट्टविओ ।
 बहु-परियण-परियरिओ कुमारमुत्तीए उज्जेणि ॥
 अन्न-समए कुमारं राया नाउं कला-गहण-जोगं ।
 लिहइ सहत्थेण इमं लेहंमि 'अधीयतां कुमार' ॥
 पडिवाइऊण लेहं ज्झत्ति अणुव्वाण-अख्खरत्तणओ ।
 तत्थेव असंबत्तियमिमं विमुत्तुं गओ राया ॥
 काउं सरीर-चित्तं तो रत्तो पास-सन्निसन्नाए ।
 धित्तूण वाइओ सो कुमारस्स सबत्ति-जणणीए ॥
 रज्जस्स अजुगगमिमं करेमि इय चिंतिऊण सा देइ ।
 विंदुं अगार-उवरिं तहेव तं मिळ्ळए लेहं ॥
 खणमित्तेण नरिंदो समागओ हत्थ-मिळ्ळिओ लेहो ।
 पडिवाइओ वि पुव्वं पुणोवि पडिवाइयव्वो त्ति ॥
 वयणं असंभरंतो लेहं संबत्तिऊण मुदेइ ।
 अप्पेइ लेह-वाहस्स सो वि गंतूण उज्जेणि ॥
 दंसइ कुमारस्स इमो वि गिण्हिउं लेहयस्स अप्पेइ ।
 सो वाइऊण लेहं तुण्हिक्को चेव चिट्ठेइ ॥
 भणइ कुमारो वाएसि किं न लेहं ? न सो भणइ किं पि ।
 तो वेत्तूण सयं चिय कुमारो वाएइ तं जाव ॥

तो तत्थ लिहियमेयं पिच्छइ 'अंधीयतां कुमार' इति ।
 सो भणइ अह्म वंसे अखलिय-आणा निवा सब्बे ॥
 ता नूनमहं काहं लेहत्थं परियणो भणइ कुमरं ।
 पुण पुच्छिऊण कीरइ सो जंपइ किं वियारेण ? ॥
 तो तत्त-सलायाए अच्छि-जुयलं अंजए सयं कुमरो ।
 जाओ अंधो पुरिसो वि कहइ सब्बं इमं रत्तो ॥
 राया विसन्न-चित्तो विसमं विहि-विलसियं ति चितेइ ।
 रत्तेण किमंधस्स ? त्ति देइ गामं च तस्सेगं ॥
 उज्जेणिं पुण वियरइ सब्बक्कि-पुत्तस्स कुमरमुत्तीए ।
 अह गीय-कलव्भासे कय-चित्तो चिट्ठइ कुणालो ॥
 सो दमग-साहु-जीवो कुणाल-पुत्तो तुमं ससुप्पत्तो ।
 तुह रत्तं इच्छंतो कुसुमपुरे ववइ कुणालो ॥
 तत्थ पगिट्ठं गीयं गायंतो रंजए जणं सयलं ।
 पत्तो परं पसिद्धिं रत्ता सदाविओ एसो ॥
 तस्स पुरओ कुणालो गीयं गाएइ जवणियंतरिओ ।
 तुडो तं भणइ निवो मग वरं जंपइ कुणालो ॥
 चंदगुत्त-पपुत्तो य विंदुसारस्स नत्तुओ ।
 असोगसिरिणो पुत्तो अंधो जायइ काकिणिं ॥
 तो रत्ता सो नाओ निय-तणओ जवणियं अवणिऊण ।
 अंके ठविडं भणिओ पुत्त ! तए मग्गियं थोवं ॥
 मंती भणइ न थेवं जेण नरिंदाण कागिणी रत्तं ।
 भन्नइ तो भणइ निवो पुत्त ! किमंधस्स रत्तेण ? ॥
 भणइ कुणालो करिही रत्तं मह नंदणो, भणइ राया ।
 जाओ कथा तुह सुओ, संपइ जाओ त्ति सो भणइ ॥
 तो 'संपइ' त्ति नामं तुज्झ कयं आणिऊण समयम्मि ।
 ठविओ रज्जम्मि तुमं जाओसि तिखंड-भरह-वई ॥
 भणइ निवो पत्तोऽहं तुज्झ पसाएण इत्तियं रिद्धिं ।
 इण्हिं पि गुरु ! तुममेव मज्झ आइससु करणित्तं ॥
 भणइ गुरु जिणघम्मं उभय-भव-सुहावहं कुरु नरिंद ! ।
 जम्हा पुणो वि दुल्ला सुमाणुसत्ताइ-सामग्गी ॥

सम्मत्तं बारसविह-सावग-धम्मेण संगयं तत्तो ।
गिण्हइ संपइ-राओ अज्जसुहत्थिस्स पय-मूले ॥
अच्चइ जिणो ति-संझं पणमइ भुणिणो सुणेइ सिद्धंतं ।
सो महि-वलर्यं सयलं जिण-भवण-विभूसियं कुणइ ॥
अवर-वरिसे सुहत्थिम्मि आगए तत्थ जिण-भवण-जत्ता ।
द्विणि-विणिओग-विहिउज्जमेण संघेण पारद्धा ॥
तत्थ सुहत्थी जिण-मंडवम्मि निवसइ समग्ग-संघ-जुओ ।
आगंतुं गुरु-पुरओ कयंजली चिट्टए राया ॥
काडं जिणहर-जत्तं जिण-रह-जत्ता जणेहिं आहत्ता ।
भमइ रहो नयरीए पए पए विहिय-सक्कारो ॥
रायभवणम्मि पत्तो तं दट्टुं संपई फुरिय-हरिसो ।
अच्चइ सयं चिय जिणं अट्ट-पयाराइ-पूयाए ॥
तक्कालमेव हक्कारिऊण राया भणेइ सामंते ।
जइ इमं मन्नह सामिं तो जिण-भत्तिं कुणह तुब्भे ॥
समणाण सावगा होह जेण नाहं धणेण तूसेमि ।
इय विहिए खलु तोसो मज्झ महंतो कओ होइ ॥
अह ते वि जिणहराइं रहजत्ताओ जईण भत्तिं च ।
सब्बे कुणंति एवं पन्नविया आरिया रत्ता ॥
विहरंति जहा जहणो अणारिएसुं वि करेमि तह इण्हिं ।
इय चिंतिऊण राया अणारिए एवमाणवइ ॥
जह जह मग्गंति करं मज्झ भडा देह तहा तुब्भे ।
तो पट्टविया रत्ता सुणि-वेस-धरा नरा तत्थ ॥
एवं अणारिए ते भणंति वत्थन्न-पाणसम्हाणं ।
देयं रहियमिमेहिं बायालीसाइ-दोसेहिं ॥
पहियव्वं पुण एयं ता सामी तुम्ह तूसिहि नूणं ।
अन्नह करिही कोवं तहेव तं ते वि हु कुणंति ॥
इय जइ-जणोचियाचार-चउर-चित्तेसु तेसु विहिएसु ।
सूरी अज्जसुहत्थी संपइ-राएण विन्नत्तो ॥
विहरंति किं न भुणिणो अणारिएसुं ? , गुरु भणइ एवं ।
तेसु अनाणत्तणओ नाणाइ-गुणा न वडुंति ॥

रक्षा भणियं भयवं ! मुणिणो पेसह अणारिएसुं पि ।
 तो अंध-दमिल-पसुहेसु पेसिया साहुणो गुरुणा ॥
 दहुं अणारिया ते मुणिणो रन्नो भड त्ति मन्नता ।
 वियरंति भत्त-पाणाइ ताण पुव्वुत्त-सिक्खाए ॥
 मुणिणो कहंति एयं गुरुस्स, एवं अणारिया विहिया ।
 जइ-जण-विहार-जुग्गा संपइणा नियय-सत्तीए ॥
 सुमरिय-पुव्व-भवेणं पुरीइ रक्षा कराविया सत्ता ।
 तेसु स-पराणविक्खा लहंति वर-भोयणं लोआ ॥
 गिण्हंति महाणसिआ उव्वरियं तेसु भोयणं किं पि ।
 ते भणइ निवो देज्जह इमं समगं पि साहूण ॥
 तुम्हाण घणं दाहं तो भत्तं दिति ते वि साहूणं ।
 कंदविय-वणिय-पसुहे जंपइ संपइ निवो एवं ॥
 मंडग-भोयण-चोप्पड-कप्पड-पसुहं मुणीण वियरेह ।
 तम्मल्लमहं दाहं तुम्ह, तओ ते वि तं दिति ॥
 जाणंतो वि सुहत्थी तमजुत्तं सहइ सीस-राएण ।
 जंपइ महागिरी—किं सुहत्थि ! गिण्हसि असुद्धमिणं ॥
 रन्नो भत्तं ? , तत्तो भणइ सुहत्थी—मुणिंद ! किमसुद्धं ? ।
 रायाणुवत्तण-परा जम्हा लोआ इमं दिति ॥
 माइ त्ति तं स-कोवो महागिरी भणइ—अज्ज-पभिइ तुमं ।
 मह न हवसि संभोगी, संगो हि समेहिं सह कहिओ ॥
 बालो व्व भउव्वंमंतो भणइ सुहत्थी महागिरिं एवं ।
 खमह मह दोसमेयं भयवं ! न पुणो इमं काहं ॥
 जंपइ महागिरी अहव न तुह दोसो जओ जिणिंदेण ।
 वीरेण भणियमेयं अणंतरं थूलभद्दाओ ॥
 तित्थे इमम्मि समणा पडंत-गुण-पगरिसा भविस्संति ।
 तं सच्चमिणं जायं एवं ठविउं असंभोगं ॥
 उज्जेणी-नयरीओ गओ मुणिदो गयग-पय-तित्थे ।
 अणसण-विहिणा सुत्तुं सरीतमंभरालयं पत्तो ॥
 काऊण सावगतं मरिऊण सभाहिणा गओ सगं ।
 संपइ-निवो क्रमेणं लहिही निव्वण-सुव्वखं पि ॥

अण्ण-समए सुहत्थी उज्जेणीए मुणीहिं सह पत्तो ।
 भद्दाए सावियाए घरे ठिओ जाणसालाए ॥
 तत्थ कया वि पओसे अज्जसुहत्थी पसत्थ-सहेण ।
 परियट्ठिउमादत्तो नलिणीगुम्मं ति अज्जयणं ॥
 घर-सत्तम-भूमीए भद्दा-पुत्तो अवन्तिसुकुमालो ।
 वत्तीसाहिं वड्ढहिं सह विलसंतो तथा अत्थि ॥
 सो तस्स सवण-हेउं मुत्तुं पासायमागओ वसहिं ।
 कत्थ मए दिट्ठमिणं ति चिंतिउं सरइ पुब्ब-भवं ॥
 नमिज्जण भणइ सूरिं अहं खु भद्दा-सुओ पुरा तियसो ।
 नलिणीगुम्मे हुंतो जाइस्सरणेण जाणामि ॥
 तो मज्झ देहि दिक्खं जेण पुणो तत्थ होमि तियसोऽहं ।
 तेण वि सयणानापुच्छिय त्ति लोओ सयं विहिओ ॥
 गुरुणा वि दिक्खिओ सो मा होउ सयं गिहीय-लिंओ त्ति ।
 भयवं ! न चिरं काउं पव्वज्जमहं समत्थो त्ति ॥
 भणिउं गओ मसाणे कोमल-कम-तल-गलंत-रुहिरोहो ।
 विहियाणसणो चिट्ठइ कंथारि-कुडंग-मज्झ-गओ ॥
 लोहिय-गंधेण सिवा सिसु-परियरिया समागया तत्थ ।
 सा खाइ पायमेक्कं सिसूणि धीयं पढम-पहरे ॥
 बीए ऊरु तइयम्मि पोट्टमेवं गओ समाहि-जुओ ।
 सो तिअसो उपन्नो नलिणीगुम्मे विमाणम्मि ॥
 तियसेहिं कुसुम-वुट्ठी सुक्का एसो महाणुभावो त्ति ।
 पुच्छंति शुं तवभारियाओ तमपेच्छमाणीओ ॥
 उवओगेण सुहत्थी मुणिज्जण कहेइ तस्स वुत्तंतं ।
 सोग-भर-निवभराओ ताओ वि कहंति भद्दाए ॥
 भद्दा वड्ढहिं सहिया गया मसाणे पहाय-समयम्मि ।
 द्ढुं नेरइय-दिसाए कट्ठियं नंदण-सरीरं ॥
 उच्चसरेण रुयंती विलवइ एवं किमेक्कवारं पि ।
 गहिय-व्वएण न तए अलंकियं वच्छ ! मह गेहं ॥
 पुत्तय ! का वि भविस्सइ सा कल्लाणी अओ परं रयणी ।
 सुविणे वि तुमं जा दंसिज्जण जीवाविही अग्गे ॥

जइ सयणेसु सिणेहो मुक्को संजम-कए तए वच्छ । ।
 ता किं सो परिचत्तो गुरूसु वि जमित्थ पत्तोसि ॥
 इय विलविऊण बहुयं भदा सिप्पा-नई-तडे तस्स ।
 कुणइ परलोय-किच्चं संखुद्धरणं बहूओ वि ॥
 मुत्तुं एक्कं गेहम्मि गुच्चिणिं बहुयमन्न-बहु-सहिया ।
 भदा गिण्हइ दिक्खं भव-दुक्ख-समुक्खणण-दक्खं ॥
 कारवियं देवकुलं अवंतिसुकुमाल-मरण-ठाणम्मि ।
 तप्पडिम-सणाहं गुच्चिणीइ जाएण पुत्तेण ॥
 लोयम्मि 'महाकालो'त्ति तं पसिद्धं अवंति-अवयंसं ।
 अज्ज वि चिट्ठइ सिहरग्ग-रुद्ध-रवि-रह-तुरय-मग्गं ॥
 भयवं अज्जसुहत्थी सूरिपए ठाविऊण वरसीसं ।
 पज्जंत कयाणसणो सुत्तुं देहं गओ सग्गं ॥

इति गुरु-प्रभावे सम्प्रतिराज-कथा ।

इय संपइ-निव-चरियं निसामियं हेमसूरि-पहु-पासे ।
 राया कुमारवालो तद्देव कारवइ रहजत्तं ॥

तं जहा—

नच्चंत-रमणि-चक्कं विसाल-बलि-थाल-संकुलं राया ।
 कुणइ कुमार-विहारे सासय-अट्टाहिया-महिमं ॥
 नट्टइ-कम्ममट्ट वि दिणाइं सयमेव जिणवरं ण्हविडं ।
 गुरु-हेमचंद-पुरओ कयंजली चिट्ठइ नरिंदो ॥
 अट्टम-दिणम्मि चित्तस्स पुण्णिमाए चउत्थ-पहरम्मि ।
 नीहरइ जिण-रहो रवि-रहो व्व आसाओ पयडंतो ॥
 ण्हविय-विलित्तं कुसुमोह-अच्चियं तत्थ पासजिण-पडिमं ।
 कुमर-विहार-दुवारे महायणो ठवइ रिच्चीए ॥
 तूर-रव-भरिय-भवणो स-रहस-नच्चंत-चारु-तरुणि-गणो ।
 सामंत-मंति-सहिओ वच्चइ निव-मंदिरम्मि रहो ॥
 राया रहत्थ-पडिमं, पटंसुय-कणय-भूसणार्हहिं ।
 सयमेव अच्चिडं कारवेइ विविहाइं नट्टाइं ॥
 तत्थ गमिऊण रयणिं नीहरिओ सीह-वार-वाहिंमि ।

ठाह पवंचिय-धय-तंडवम्मि पढ-मंडवम्मि रहो ॥
 तत्थ पहाए राया रह-जिण-पडिमाइ विरइउं पूयं ।
 चउविह-संघ-समक्खं सयमेवारत्तियं कुणइ ॥
 तत्तो नयरम्मि रहो परिसक्कइ कुंजरेहिं जुत्तेहिं ।
 ठाणे ठाणे पढ-मंडवेसु विउलेसु चिट्ठंतो ॥

किञ्च—

प्रेङ्खन्मण्डपसुल्लसद् ध्वजपटं नृत्यद्वधूमण्डलं
 चञ्चन्मञ्चसुदञ्चदुच्चकदलीस्तम्भं स्फुरत्तोरणम् ।
 विष्वग्जैनरथोत्सवे पुरमिदं व्यालोकितुं कौतुका-
 ल्लोका नेत्रसहस्रनिर्मितिकृते चक्रुर्विधेः प्रार्थनाम् ॥
 एवं अट्ट-दिणाइं रह-जत्तं जणिय-जण-चमक्कारं ।
 कुणइ जहा कुमर-निवो तहेव आसोय-मासे वि ॥
 जंपइ निय-मंडलिए एवं तुब्भे वि कुणइ जिणधम्मं ।
 ते निय-निय-नयरेसुं कुमर-विहारे करावन्ति ॥
 विरयन्ति वित्थरेणं जिण-रह-जत्तं कुणन्ति सुणि-भत्तिं ।
 तत्तो समगमेयं जिणधम्म-मयं जयं जायं ॥
 अन्न-दिणम्मि सुणिदो कुमर-विहारे कुमारवालस्स ।
 चउ-विह-संघ-समेओ चिट्ठइ धम्मं पयासंतो ॥
 बहु-विह-देसेहितो धणवंतो तत्थ आगओ लोओ ।
 पटंसुय-कणय-विभूसणेहिं काऊण जिणपूयं ॥
 कणय-कमलेहिं गुरुणो च्चलण-जुयं अच्चिऊण पणमेइ ।
 तत्तो कयंजलि-उडो नरवइणो कुणइ पणिवायं ॥
 तो पत्थिवेण भणियं—किमत्थमेत्थागओ इमो लोओ ? ।
 एक्केण सावएणं भणियमिणं सुण महाराय ! ॥
 पूर्वं वीरजिनेश्वरेऽपि भगवत्याख्याति धर्मं स्वयं
 प्रज्ञावत्यभयेऽपि मन्त्रिणि न यां कर्तुं क्षमः श्रेणिकः ।
 अक्केदोने कुमारपालनृपतिस्तां जीवरक्षां व्यधा-
 ल्लुब्ध्वा घस्य वचःसुधां स परमः श्रीहेमचन्द्रो गुरुः ॥
 तत्पादाभ्युजपांशुभिः प्रथयितुं शुद्धिं परामात्मन-
 स्तद्वक्त्रेन्दुविलोकनेन सफलीकर्तुं निजे लोचने ।

तद्वाक्यामृतपानतः श्रवणयो राधातुमत्युत्सवं

भक्त्युत्कर्षकुतूहलाकुलमना लोकोऽयमत्रागतः ॥
 ता नरनाह ! कयत्था अम्हे, अम्हाण जीवियं सहलं ।
 जहिं नमिओ मुणिदो पच्चक्खो गोयमो व्व इमो ॥
 जिणधम्मो पडिवत्ती दूसम-समए असंभवा तुज्झ ।
 देसंतर-द्विएहिं सोउं दिट्ठा य पच्चक्खं ॥
 संपइ वच्चिस्सामो सुरद्व-देसम्मि तित्थ-नमणत्थं ।
 अन्न-समयम्मि होही मगोसु किमेरिसं सुत्थं ? ॥
 रत्ता भणियं—भयवं ! सुरद्व-विसयम्मि अत्थि किं तित्थं ? ।
 तो गुरुणा चागरियं—पत्थिव ! दो तत्थ तित्थाहं ॥
 जत्थ सिरि-उसभसेणो पढम-जिणिंदरस गणहरो पढमो ।
 सिद्धिं गओ तमेहं सत्तुंजय-पव्वओ तित्थं ॥
 वीयं तु उज्जयंतो नेमिजिणिंदस्स जंमि जायाइं ।
 कल्लणाहं निक्खमण-नाण-निव्वाण-गमणाइं ॥
 रत्ता भणियं—भयवं ! अहं पि तित्थाण ताण नमणत्थं ।
 वच्चिस्सामि अवस्सं, गुरुणा भणियं इमं जुत्तं ॥
 जं तित्थं-वंदणेणं सम्मत्त-थिरत्तमत्तणो होइ ।
 तप्पूयणेण जायइ अथिरस्स धणस्स सहलत्तं ॥
 अन्नेसिं पि जणाणं सद्धा-बुद्धी कया ह्वइ बाढं ।
 सेवंति परे वि धुवं उत्तम-जण-सेवियं मगं ॥
 इय गुरु-वयणं सोउं राया पसरिय-अतुच्छ-उच्छाहो ।
 सम्माणिउं विसज्झइ देसंतर-संतियं लोयं ॥
 सोहण-दिणे सयं पुण चलिओ चउरंग-सेन्न-परियरिओ ।
 चउ-विह-संघ-जुएणं गुरुणा सह हेमचंदेण ॥
 ठाणे ठाणे पटंसुएहिं पूयं जिणाण सो कुणइ ।
 किं तत्थ होइ थेवं जत्थ सयं कारओ राया ॥
 तत्तो कमेण रेचय-पव्वय-हिट्ठे ठियस्स नयरस्स ।
 गिरिनयरस्सासन्ने गंतुं आवासिओ राया ॥
 तत्थ नरिंदेण दसार-भंडवो भुवण-भंडणो दिट्ठो ।
 तह अक्खाडय-सहिओ आवासो उग्गसेणंसं ॥

विम्बिह्य-भणेण रत्ना मुणि-नाहो पुच्छिओ किमेयं ति ।
 भणइ गुरू गिरिनयरं ठाणमिणं उग्गसेणस्स ॥
 चारवईए पुरीए समुद्दविजयाइणो दस-दसारा ।
 आसि असि-भिन्न-अरिणो जायव-कुल-विज्झ-गिरि-करिणो ॥
 तत्थ दसमो दसरो वल्लुदेवो तस्स नंदणो कण्हो ।
 सो आसि तत्थ राया ति-खंड-महि-मंडलस्स पहू ॥
 पुत्तो समुद्दविजयस्स आसि कुमरो अरिद्धनेमि ति ।
 वावीसइमो तित्थंकारो त्ति चारित्त-कय-चित्तो ॥
 अविस्सय-तण्हो कण्होवरोहओ उग्गसेण-राय-सुयं ।
 रायमइं परिणेउं सो चलिओ रह्वराख्खो ॥
 करि-तुरय-रहाख्खेहिं कण्ह-पसुहेहिं पवर-सयणेहिं ।
 सहिओ समागओ उग्गसेण-निव-मंदिरासन्नं ॥
 सोऊण करुण-सइं जा दिट्ठिं देइ तत्थ ता नियइ ।
 रुद्धे पसु-सस-सूअर-उरव्व-हरिणाइणो जीवे ॥
 तस्सइ-जग्गिय-दओ किमिमे रुद्ध त्ति पुच्छए कुमरो ।
 तो सारहिणा भणियं—कुमार ! सुण कारणं एत्थ ॥
 हणिउं इमे वराए इमाण मंसेण भोयणं दाही ।
 तुज्झ विवाहे वेवाहियाण सिरि-उग्गसेण-निवो ॥
 तो भणियं कुमरेणं धिद्धी ! परिणयणमेरिसं जत्थ ।
 भव-कारागार-पवेस-कारणं कीरए पावं ॥
 भोगे भुयंग-भोगे व्व भीसणे दूरओ लहुं सुत्तुं ।
 संसार-सागरुत्तरण-संकमं संजमं काहं ॥
 तो वज्जरियं इमिणा इत्तो सारहि ! रहं नियत्तेसु ।
 चालेसु मंदिरं पइ तेणावि तहेव तं विहियं ॥
 दहुं कुमरमुवितं रविं व नलिणी विसट्ट-मुह-कमला ।
 जा आसि पुच्चमिणिह तु पिच्छिउं तं नियत्तां सा ॥
 राइमई खेय-परा परसु-नियत्त व्व कप्प-रुक्ख-लया ।
 मुच्छा-निमीलियच्छी सहस त्ति महीयले पडिया ॥
 सत्थी-कया सहीहिं वाह-जलाविल-विलोयणा भणइ ।
 हा ! नाह ! किमवरद्धं मए जमेवं नियत्तोसि ॥

जइ वि तुमए विमुक्का अहं अहन्ना तहा वि मह नाह । ।
 तुह चलण विय सरणं ति निच्छिडं सा ठिया बाला ॥
 दाऊण वच्छरं दाणमुज्जयंते पवन्न-चारित्तो ।
 चउ-पन्नास-दिणंते लहइ पइ केवलं नाणं ॥
 तो नगरागर-गामाइएसुं पडिबोहिऊण भविय-जणं ।
 सो-वास-सहस्साऊ इहेव अयले गओ मुक्खं ॥
 रत्ता भणियं भयवं ! अज्ज वि तक्काल-संभवं किमिमं ।
 चिइइ दसार-भंडव-पसुहं तो जंपियं गुरुणा ॥
 तक्काल-संभवं जं तं न इमं किं तु थेव-काल-भवं ।
 तमिमं पुण जेण कयं कहेमि तं तुज्ज नर-नाह । ॥
 गुरु-नागहत्थि-सीसो बालो वि अ-बाल-मइ-गुणो सुकई ।
 कहया वि कंजियं धेत्तुं-मागओ कहइ गुरु-पुरओ ॥
 अबं (?) तंवच्छीए अपुप्फियं पुप्फदंत-पंतीए ।
 नव-सालि-कंजियं नव-वइइ कुडएण मे दिन्नं ॥
 गुरुणा भणियो सीसो वच्छ ! पलित्तोसि जं पढसि एवं ।
 सीसो भणइ पसारं कुरु मह आघार-दाणेण ॥
 एवं ति भणइ सूरी तो पालित्तो जणेण सो वुत्तो ।
 जाओ य सुय-ससुहो आयरिओ विविह-सिद्धि-जुओ ॥
 काऊण पाय-लेवं गयणे सो भमइ नमइ तित्थाहं ।
 सुणइ सुरइ-निवासी भिक्खू नागज्जुणो एवं ॥
 सो पत्थइ पालित्तं पयच्छ ! निय-पाय-लेव-सिद्धिं मे ।
 गिणह मह कणय-सिद्धिं, तत्तो पालित्तओ भणइ ॥
 निक्खिणस्स किं कंचणेण किं चत्थि मे कणय-सिद्धी ।
 तुह पाय-लेव-सिद्धिं च पाव-हेड त्ति न कहेमि ॥
 तो कय-सावय-रूवेण भिक्खुणा आगयस्स गिरिनयरे ।
 गुरुणो गुरु-भत्तीए जलेण पक्खालिया चलणा ॥
 पय-पक्खालण-सलिलस्स गंधओ ओसहीण नाऊण ।
 सत्तुत्तरं सयं तेण पाय-लेवो सयं विहिओ ॥
 तव्वसओ गयणे कुक्कुडो व्व उप्पडइ पडइ पुण भिक्खू ।
 तो कहइ जहावित्तं गुरुणो तेणावि तुडेण ॥

भणिओ भिक्खु तंदुल-जलेण कुरु पाय-लेवमेयंति ।
 कुणह तह बिय भिक्खु जाया नह-गमण-लद्धी से ॥
 पालित्तयस्स सीसो व्व कुणह नागज्जुणो तओ भत्तिं ।
 नेमि-चरियाणुगरणं सब्वं पि कयं इमं तेण ॥
 तं सोडं भत्ति-परो नरेसरो नेमिनाह-नमणत्थं ।
 गिरिमारुहिडं वंछइ तो भणिओ हेमसूरीहिं ॥
 नर-वर ! विसमा पज्जा अओ तुमं चिट्ट चडड सेस-जणो ।
 लहहिसि पुन्नं संबो व्व भावओ इह ठिओ वि तुमं ॥
 तो रत्ता पट्टविया पड्डुणो पूया पहाण-जण-हत्थे ।
 तत्थ ठिणावि सयं गुरु-भत्तीए जिणो नमिओ ॥
 अह जिण-महिमं काडं अवयरिए रेवयाओ सयल-जणे ।
 चलिओ कुमारवालो सत्तुंजय-तित्थ-नमणत्थं ॥
 पत्तो तत्थ कमेणं पालित्ताणंमि कुणइ आवासं ।
 अह कुमरनरिंदो हेमसूरिणा जंपिओ एवं ॥
 पालित्ताणं गामो एसो पालित्तयस्स नामेण ।
 नागज्जुणेण ठविओ इमस्स तित्थस्स पुज्जत्थं ॥
 पुइइ-पइट्टाण-भरुयच्छ-भन्नखेडाइ-निवइणो जं च ।
 धम्मे ठविया पालित्तएण तं कित्तियं कहिमो ॥
 सत्तुंजयमारुढो राया रिसहस्स कुणइ गुरु-भत्तिं ।
 सो पासायं दट्टूण विम्हिओ जंपिओ गुरुणा ॥
 वाहड-महत्तमेणं उद्धरिओ एस तुह पसाएण ।
 तिहुयण-भरणुद्धरिड व्व पुंजिओ सहइ तुज्झ जसो ॥
 तो उत्तरिडं सत्तुंजयाओ निय-नयरमागओ राया ।
 उज्जिते नेमिजिणो न मए नमिओ त्ति झूरेइ ॥
 जंपइ सहा-निसन्नो सुगमं पज्जं गिरिम्मि उज्जिते ।
 को कारविडं सक्को ?, तो भणिओ सिद्धवालेण ॥
 प्रष्टा वाचि प्रतिष्टा जिनगुरुचरणाम्भोजभक्तिर्गारिष्टा
 श्रेष्ठानुष्ठाननिष्टा विषयसुखरसास्वादसक्तिस्त्वनिष्टा ।
 बंहिष्टा त्यागलीला स्वमतपरमतालोचने यस्य काष्टा
 धीमानाम्नः स पद्यां रचयितुमचिरादुज्जयन्ते नदीष्णः ॥

युक्तं त्वयोक्तमित्युक्त्या पद्यां कारयितुं नृपः ।
 पुत्रं श्रीराणिगस्याङ्गं सुराङ्गाधिपतिं व्यधात् ॥
 यां सोपानपरम्परापरिगतां विश्राममृषीयुतां
 स्वष्टं विष्टपसृष्टिपुष्टमहिमा ब्रह्मापि जिह्वायितः ।
 मन्दस्त्रीस्थविराभेकादितुगमां निर्वाणमार्गोपमां
 पद्यामाङ्गचमूपतिर्मतिनिधिर्निर्मापयामास तां ॥
 इय सोमप्पह-कहिण कुमारनिव-हेमचन्द-पट्टिबद्धे ।
 जिणधम्म-प्पट्टिवोहे समत्थिओ वीय पत्थाचो ॥

इत्याचार्यश्रीसोमभविरचिते कुमारपालप्रतिबोधे
 द्वितीयः प्रस्तावः ॥



॥ ३३ ॥

अथ तृतीयः प्रस्तावः ।

अह जंपह मुणि-नाहो जीव-दया-लक्खणस्स धम्मस्स ।
कारण-भूअं भणियं दाणं पर-दुक्ख-दलणं ति ॥
नो तेसिं कुवियं व दुक्खमखिलं आलोयए सम्मुहं
नो मिल्लेइ घरं कम्मं कवडिया दासि व्व तेसिं सिरी ।
सोहग्गाइ-गुणा चयंति न गुणाबद्ध व्व तेसिं तणुं
जे दाणंमि समीहियत्थ-जणणे कुव्वंति जत्तं जणा ॥
दाणं पुण नाणा-ऽभय-धम्मोवट्ठंभ-भेयओ तिविहं ।
रयण-त्तयं व सग्गापवग्ग-सुह-साहणं भणियं ॥
नाणं तत्थ दु-भेयं मिच्छा-नाणं च सम्म-नाणं च ।
जं पाव-पवित्ति-करं मिच्छा-नाणं तमक्खायं ॥
तं च इमं वेज्जय-जोइसत्थ-रस-घाउवाय-कामाणं ।
तह नह-सत्थ-विग्गह-भिगयाण परूवगं सत्थं ॥
जं जीव-दया-भूलं समग्ग-संसार-भग्ग-पडिकूलं ।
भाव-रिउ-हियय-सूलं तं सम्मं नाणमुद्धिं ॥
तं पुण दुच्चालसंगं नेयं सब्वन्नुणा पणीयंति ।
मोक्ख-तरु-बीय-भूओ धम्मो चिय बुच्चए जत्थ ॥

किञ्च—

सम्मत्त-परिग्गाहियं सम्म-सुयं लोहयं तु मिच्छ-सुयं ।
आसज्जड सोआरं लोहय-लोउत्तरे भयणा ॥
नाणं पि तं न नाणं पाव-मई होइ जत्थ जीवाणं ।
न कयावि फुरइ रयणी सूरंमि ससुग्गए संते ॥
नाणं मोह-महंघयार-लहरी-संहार-सूरुग्गमो
नाणं दिट्ठ-अदिट्ठ-इट्ठ-घडणा-संकप्प-कप्प-डुमो ।
नाणं दुज्जय-कम्म-कुंजर-घडा-पंचत्त-पंचाणणो
नाणं जीव-अजीव-वत्थु-विसरस्सालोयणे लोअणं ॥
नाणेण पुन्न-पावाइं जाणिउं ताण कारणाइं च ।

जीवो कुणइ पविर्त्ति पुन्ने पावाओ विणियत्तिं ॥
 पुन्ने पवत्तमाणो पावइ सग्गापवग्ग-सोक्खाइं ।
 नारय-तिरिय-दुहाण य मुच्चइ पावाओ विणियत्तो ॥
 जो पढइ अउव्वं सो लहेइ तित्थंकरत्तमन्न-भवे ।
 जो पुण पढावइ परं सम्म-सुर्यं तस्स किं भणिमो ॥
 जो उण साहेज्जं भत्त-पाण-वर-वत्थ-पुत्थयाईहिं ।
 कुणइ पढंत्ताणं सो वि नाण-दाणं पयट्ठेइ ॥
 नाणमिणं दिंताणं गिण्हंताणं च सुक्ख-परदारं ।
 केवल-सिरी सयं चिय नराण वच्छत्थले लुढइ ॥
 सम्मं नाणेण वियाणिरुण एगिंदियाइए जीवे ।
 तेसिं तिविहं तिविहेण रक्खणं अभय-दाणमिणं ॥
 जीवाणमभय-दाणं जो देइ दया-वरो नरो निच्चं ।
 तस्सेह जीवलोए कत्तो वि भयं न संभवइ ॥
 जं नव-कोडी-सुद्धं दिज्जइ धम्मिय-जणस्स अविरुद्धं ।
 धम्मोवग्गह-हेउं धम्मोवट्ठंभ-दाणमिणं ॥
 तं असण-पाण-ओसह-सयणासण-वसहि-वत्थ-पत्ताई ।
 दायव्वं बुद्धि-मया भवन्नवं तरिउकामेण ॥
 तं दायग-गाहग-काल-भाव-सुद्धीहिं चउहिं संजुत्तं ।
 निब्बाण-सुक्ख-कारणमणंत-नाणीहिं पन्नत्तं ॥
 जो देइ निज्जरत्थी नाणी सद्धा-जुओ निरासंसो ।
 मय-सुक्को जुगं जइ-जणस्स सो दायगो सुद्धो ॥
 जो देइ घणु-खेत्ताइं जइ-जणाणुचियमेअ-विवरीओ ।
 सो अप्पाणं तह गाहगं च पाढेइ संसारे ॥
 जो चत्त-सव्व-संगो गुत्तो विजिइंदिओ जिय-कसाओ ।
 सज्झाय-ज्झाण-निरओ साहू सो गाहगो सुद्धो ॥
 कम्म-लहुत्तणेण सो अप्पाणं परं च तारेइ ।
 कम्म-गुरु अतरंतो सयं पि कह तारए अन्नं ॥
 पुव्वुत्त-गुण-विउत्ताण जं धणं दिज्जए कु-पत्ताण ।
 तं खल्ल धुव्वइ वत्थं रुहारेणं चिय रुहिर-लित्तं ॥
 दिन्नं सुहं पि दाणं होइ कु-पत्तंमि असुह-फलमेव ।

सप्पस्स जहा दिन्नं खीरं पि विसत्तणमुवेइ ॥
 तुच्छं पि सु-पत्तंमि उ दाणं नियमेण सुह-फलं होइ ।
 जह गावीए दिन्नं तिणं पि खीरत्तणमुवेइ ॥
 दिन्नेण जेण जइया जइ-जण-देहस्स होइ उवयारो ।
 भत्तीए तम्मि काले जं दिज्जइ काल-सुद्धं तं ॥
 अप्पाणं मन्नंतो कयत्थमेगंत-निज्जरा-हेउं ।
 जं दाणमणासंसं देह नरो भाव-सुद्धं तं ॥
 महया वि हु जत्तेणं वाणो आसन्न-लक्खमहिगि व्व ।
 सुक्को न जाइ दूरं इय आसंसाए दाणं पि ॥
 मोक्खत्थं जं दाणं तं पइ एसो विही मुणेयव्वो ।
 अणुकंपा-दाणं पुण जिणेहिं कत्थ वि न पडिसिद्धं ॥
 पत्तंमि भत्ति-जुत्तो जीवो समयंमि थोयमवि दिंतो ।
 पावेइ पावचत्तो चंदणबाल व्व कल्लाणं ॥

तं जहा—

अत्थि पुरी कोसंबी अलय व्व पभूय-पुन्न-जण-पुत्ता ।
 चित्तं अलंकिया जा निच्चमसंखेहिं धणएहिं ॥
 तत्थासि सयाणीओ राया समरंगणम्मि जस्स करे ।
 कमल-भम-मिलिय-भमरोह-सोहमुव्वहइ खग्ग-लया ॥
 चेडय-नरिंद-धूया मिगावई नाम से महादेवी ।
 जा निरुवम-रूव-गुणा जिणधम्मे निच्चला निच्चं ॥
 तस्स सुशुत्तो मंती नंदा नामेण भंतिणो घरिणी ।
 सा साविय त्ति जाया मिगावईए सही पवरा ॥
 सेट्ठी घणावहो तत्थ अत्थि घणउ व्व विडल-घण-निवहो ।
 मूल त्ति तस्स घरिणी सयल-घरारम्भ-हुम-मूलं ॥
 अह तत्थ महावीरो छउमत्थो आगओ विहरमाणो ।
 सो पोस-वहुल-पडिवय-दिणंमि गिण्हइ नियममेवं ॥
 तिन्नि दियहाइं छुहिया रुयमाणी लोह-निगड-बद्ध-कमा ।
 मुंडिय-केस-कलावा पेसत्तं पर-गिहे पत्ता ॥
 कममेकं मज्झे देहलीइ बीयं निवेसिउं वाहिं ।
 भिक्खयरेसु गिहाओ सब्बेसु वि पडिनियत्तेसु ॥

जइ राय-सुया दाही कुम्मासे मज्झ सुप्प-कोणेण ।
 तत्तो हं पारणयं काहामि न अन्नहा नूनं ॥
 भमइ उचियम्मि समए गिहेसु सो निच्चमुच्च-नीएसु ।
 दिज्जंतं पि न भिक्खं गिणहेइ अभिग्गह-वसेण ॥
 अप्पाणं निंदंता तत्तो खेयं कुणंति नायरया ।
 एवं अगहिय-भिक्खो चउरो मासे गमइ भयवं ॥
 अन्न-दिणे भिक्खत्थं सुगुत्त-मंतिस्स मंदिरे पत्तो ।
 भयवं दिट्ठो नंदाइ जंगमो कप्प-रुक्खो व्व ॥
 वीरजिणिदो सो एस दिट्ठिया गेहमागओ मज्झ ।
 इय भणिरी साणंदा अब्भुट्ठाणं कुणइ नंदा ॥
 तो कप्पणिज्जमन्नं मणुन्नमेसा जिणस्स उवणेइ ।
 तं पि अभिग्गह-वसओ अगिणिहउं निग्गओ सामी ॥
 धिद्धी ! अहं अहन्ना मणोरहो मज्झ न परिपुण्णो त्ति ।
 स-विसाय-मणा नंदा दासीए जंपिया एवं ॥
 एसो उवेइ निच्चं अगहिय-भिक्खो य निक्खमइ निच्चं ।
 तो नंदाए भणियं अभिग्गहो को वि सामिस्स ॥
 तेण न गिणहइ भिक्खं मुणियव्वो सो अभिग्गहो कह णु ।
 इय चिंताए पेच्छइ मंती नंदं निराणंदं ॥
 पुच्छइ य किं विसन्नासि ? सा भणइ एइ इत्थ भिक्खत्थं ।
 वीरो भिक्खमवेत्तुं नियत्तइ अभिग्गह-वसेण ॥
 ता तं अभिग्गहं मुणसु अन्नहा अन्न-मण-मुणण-निउणा ।
 तुइ बुद्धी विहल चिय अमच्च ! तो जंपए मंती ॥

पिए ! तहा जइस्सामि जहा सामिणो अभिग्गहो मुणिज्जइ । तथा य
 तत्थागया भिगावईए विजया नाम पडिहारी, तीए सुयं सव्वमेयं । गंतूण
 साहियं देवीए । देवी वि तद्देव विसन्न-चित्ता संवुत्ता । संभंत-मणेण पुच्छिया
 सयाणीएण—देवि ! किं विसन्न व दीससि ? किं तुज्झ केणावि आणा खंडिया ?
 किं वा मए किं पि अवरउं ? देवीए वुत्तं—न खंडिया केणावि आणा, न य
 किं पि अवरउं तुमए; किंतु सयल-तइलोक्क-पुज्जं भयवंतं महावीरं इत्थ चिट्ठंतं
 पि तुमं रज्ज-सुक्ख-पर-वसो न याणसि । तस्स भिक्खा-वज्जियस्स वच्चए
 कालो । रत्ता वुत्तं—देवि ! किमित्थ न धणिणो न धम्मिणो वा जणा, जे न

दिति भिक्खं भयवओ । देवीए बुत्तं—देव ! दिति भिक्खं, किंतु कत्तो वि अभिग्गह-विसेसाओ सामी दिज्जंतं पि न गिण्हइ । तो जइ तुमं तं अभिग्गहं न याणसि ता किं ते रज्जेण ? जं इत्थं भयवं भिक्खं विणा इच्चिरं चिद्धइ । रत्ता बुत्तं—देवि ! सोहणं कयं, जं एवं पमाय-निहा-पसुत्तो पवोहिओऽहं तुमए । पहाए अभिग्गहं जाणिऊण पारणं कारइस्सामि सामिं । तओ हक्कारिओ रत्ता मंती, भणिओ य अमच्च ! मम पुरे चिद्धंतस्स सामिणो अलद्ध-भिक्खस्स चत्तारि मासा संवुत्ता । चिद्धी ! अम्म जीवियं । जाणेसु भयवओ अभिग्गहं, जेण अप्पणो पुन्न-हेळं तं पारणं करावेमो । मंतिणो भणियं-देव ! न याणिज्जइ सामिणो अभिग्गहो त्ति ममावि महंतो संतावो । ता हक्कारि-ज्जव धम्म-सत्थ-विद्यक्खणो सच्चवाई नाम उवज्झाओ । हक्कारिओ य सो, रत्ता भणिओ—भइ ! तुह सत्थे सब्ब-धम्माणं आयारा बुच्चंति, ता कहेसु जिणा-भिग्गहं । उवज्झाएणबुत्तं—महाराय ! महरिसीणं दब्ब-खेत्त-काल-भाव-भेएहिं बहवो अभिग्गहा । भयवया इमो अभिग्गहो गहिओ त्ति न नज्जइ विसिद्ध-नाणं विणा । ता सब्ब-प्पयारेहिं सब्बा भिक्खा भयवओ दायव्व त्ति नयरीए घोसावेह । तहेच कयं रत्ता । तओ सविसेसं दाणं दाडं पवत्तो जणो ।

दाउमणस्स सयं चिय रायाएस्तो जणस्स जं जाओ ।
 सयमेव मंकणीए घणीए तं कंकणी बद्धा ॥
 तह वि अगिण्हंतो भिक्खमपरि-पुत्ते अभिग्गहे भयवं ।
 विहरइ अमिलाण-तणू अविचल-चित्तो महासत्तो ॥
 अह नावा-कडगेणं गंगाए गंतुमेक्क-रयणीए ।
 रत्ता सयाणिएणं रुद्धा चंपापुरी पुब्बं ॥
 चंपाहिबो पणट्ठो भएण दहिवाहणो असत्तो त्ति ।
 बलिणा खल्लु रुद्धाणं पलायणं चिय परित्ताणं ॥
 जो जं गिण्हइ तस्से व तं ति घोसावए सयाणीओ ।
 तो सेणा-सुहडेहिं सब्बत्तो लुंठिया चंपा ॥
 एक्केण उट्टिएणं देवी दहिवाहणस्स नरवहणो ।
 नामेण धारिणी वसुमर्हएँ पुत्तीएँ सह पत्ता ॥
 गहिय-घण-कणय-कोसो कोसंबिं आगओ सयाणीओ ।
 रूवेण धारिणीए विमोहिओ उट्टिओ भणइ ॥
 पोढा पगिद्ध-रूवा रमणी मह गेहिणी इमा होही ।

कन्नाह इमीए विक्कणण होही धणं च तहा ॥
 तं सुणिऊण विसन्ना चिन्हा चित्तंमि धारिणी देवी ।
 हा ह्य-विहि मह काहिसि तुममज्ज वि केत्तियं दुक्खं ॥
 संपत्तस्सि विओगं पट्टणो गुण-रयण-जलहिणां रत्तो ।
 निस्सीम-समीहिय-कारयस्स रज्जस्स सुक्कस्सि ॥
 जायस्सि भायणं सयल-सयण-परियण-सट्टाण-भंसस्स ।
 इच्छाह-दुक्खमखिलं सहियमिणं दुस्सहं पि मण ॥
 जं पुण सील-विणासं मह काउं महसि तं ग्वलु न जुत्तं ।
 जं विमल-कुले जाया जाणिय-जिण-वयण-त्तत्ताहं ॥
 असमंजसं पि सोउं अज्जवि जीवामि अहह ! निब्भग्गा ।
 ह्य मत्तु-भिन्न-हिययाह तीह पाणा विणिक्कत्ता ॥
 दट्टण मयं देविं विचित्तियं उट्टिणण धी मज्ज ॥
 एसा भज्जा होहि त्ति जंपियं तं इमा सोउं ॥
 जह पत्ता पंचत्तं विवज्जिही कल्लयावि तह एसा ।
 ह्य चित्तिऊण अणुक्कलमालवंतेण तेणेसा ॥
 आणीया कोसंवि चउप्पहे मत्थए तणं दाउं ।
 आढत्ता विक्किणिउं दिव्व-वसा सिट्टिणा दिट्ठा ॥
 चित्तियमणेण एसा उत्तम-पुत्ती इमीह सुत्तीए ।
 माह-पिउ-परिबभट्टा एणण दुरप्पणा पत्ता ॥
 हरिणि व्व लुद्धएणं जूह्वभट्टा पलं व विक्किणिउं ।
 इह ठविया हा ! कस्स वि हीणस्स चडिस्सह करम्मि ॥
 दाउं बह्वं पि दव्वं गिणहामि इमं जओ न सक्केमि ।
 निय-पुत्ति पि व एयं उविविक्खयं दुहसा-वडियं ॥
 मह मंदिरे इमीए चिट्ठीए अणत्थ-वत्ताए ।
 होही कमेण सयणेहि संगमो ह्य विचित्तेउं ॥
 सिट्ठी घणावहो उट्टियस्स दाउं मणिच्छियं सुल्लं ।
 परसुल्लसंत-करुणो निय-गेहे वसुमहं नेह ॥
 सो पुच्छइ पुत्ति ! तुमं कस्स सुया सा वि उत्तमत्तणओ ।
 कहिउं निय-कुलमखमा अहो सुही मोण-मल्लीणा ॥
 मूला घणावहेणं भणिघा एसा पिए ! सुया अम्ह ।

पुष्पं व पालणिज्जा जत्तेण निरंतरं तुमए ॥
 एवं सिद्धि-गिराए सा बुत्था तत्थ नियय-गेहं व्व ।
 जण-णयणाणंद-करा बाला बालेंदु-लेह व्व ॥
 तीए चंदण-सरिसेहिं रंजिओ विणय-वयण-सीलेहिं ।
 सेट्ठी सपरियणो चंदण त्ति नामं कुणइ उचियं ॥
 तं ददुं ख्ववइं सहावओ जुव्वणेण पुण बाढं ।
 मूला समूलमुच्छलिय-मच्छरा चित्तए एवं ॥
 पुत्तिं व मन्नमाणो वि जइ इमं ख्व-मोहिओ सेट्ठी ।
 परिणेइ कह वि तो हं मयम्हि हा ! जीवमाणावि ॥

एवं इत्थी-यण-सुलहेण तुच्छत्तणेण तम्मंत-चित्ता निच्चं पि चिट्ठए
 मूला । अन्नया गिम्हुम्ह-पीडिओ हट्ठाओ आगओ गिहं सेट्ठी । दिव्व-वसेण
 न अन्नो कोवि कम्मयरो अत्थि त्ति वारंतस्स वि सेट्ठिणो पाए पक्खा-
 ल्लिं पयट्ठा विणीयत्तणओ चंदणा । तीए य निस्सहंगीए अकय-कम्म-
 व्भासाए ल्हसिओ सिणिद्ध-कसिणो केसपासो । वच्छाए केसपासो पंकिले
 खिइत्तले पढंतो पंकेण मा लिप्पउ त्ति घरिओ लीला-लट्ठीए सेट्ठिणा । संज-
 मिओ य सायरं । तं ददुण गवक्ख-गयाए मूलाए चित्तियं जं मए पुव्वं
 वियक्कियं तं संवयइ सव्वं । अन्नहा कहं सेट्ठिणा सयं संजमिया इमीए
 केसा । एरिसं खु लक्खणं न होइ पिउणो । ता मए मूलाओ वाहि व्व
 छिंदियव्वा इम त्ति निच्छिउण ठिया मूला । सेट्ठी वि वीसमिउण खणं पुणो
 वि गओ बाहिं । मूलाए कासवं सहाविउण मुंडाविया चंदणा । पाएसु
 निगडिउण ताडिया चिरं । खित्ता उअयरए । तत्थ दाउण कवाड-संपुढं
 भणिओ परियणो । सेट्ठिणो पुच्छंतस्स वि इमं न केणावि कहणीयं । जो
 उण को वि कहिस्सइ, सो मज्झ वेरिओ । सेट्ठिणा वि संझाए आगएण
 पुच्छियं—कत्थ चंदण त्ति । मूला-भयाओ न केणावि कहियं । पच्छा घरोवरिं
 रमंती चिट्ठइ त्ति चित्तियं सेट्ठिणा । रयणीए वि पुच्छियं न केणावि कहियं । प-
 सुत्ता चंदण त्ति चित्तियं इमिणा । वीय-दिणे वि न दिट्ठा । तहेव तइय-दिणे तं
 अपेच्छंतेण तेण भणिओ परियणो—रेरे ! कहेह, कहिं मे नंदणा चंदणा ।
 जइ जाणंता वि न कहिस्सइ ता निग्गहिस्सामि तुम्हे । इमं सोउण एक्काए
 बुद्ध-चेडीए चित्तियं जीविया अहं चिरं । संपयं पच्चासन्नो मे मच्चू । कहिए
 चंदणाए दुत्तते किं करिस्सइ मे मूला ।

तहा—

काळं परोवयारं इमेहिं जर-जजरेहिं पाणेहिं ।
 विहवंति जसं धम्मं च जे जणा ते धुवं धन्ना ॥
 तो मूला-वुत्तंतो सिद्धो सिद्धिस्स तीए सब्बो वि ।
 तं दंसियं च गेहं अत्थि जहिं चंदणा खित्ता ॥
 उग्घाडियं दुवारं तस्स सयं सिद्धिणा तओ तत्थ ।
 छुह-तिस-वूमिय-देहा दावानल-फरिसिय व्व लया ॥
 पाय-जुगे निगलेहिं वद्धा तक्काल-गहिय-करिणि व्व ।
 मुंडिय-मुंडा नव-भिक्षुणि व्व सा चंदणा दिट्ठा ॥
 वाह-सलिलाविलच्छो वच्छे ! सत्था-हव त्ति जंपंतो ।
 तीए भोयण-हेउं झत्ति गओ रसवइं सिट्ठी ॥
 तत्थ मणुज्जं सुज्जं अपिच्छमाणो इमो विहि-वसेण ।
 अप्पेइ चंदणाए कुम्मासे सुप्प-कोणम्मि ॥
 मुंज तुमं ताव इमं जाव अहं निगड-भंजणत्थं ते ।
 आपोमि लोहकारं इय भणिउं निग्गओ सेट्ठी ॥
 अह चंदणा रुयंती विचित्तए अहह एस संसारा ।
 सुविणिंदयाल-सरिसो निव्वेयं कुणइ नहु कस्स ॥
 जेणाहं पुत्ती वि हु नरवइणो तारिसस्स होऊण ।
 पत्ता इमं अबत्थं ता इण्हि किं करेमि हहा ! ॥
 कुम्मासा संपत्ता संपइ छट्ठस्स पारणंमि मए ।
 जइ कोवि एइ अतिही ता दाउं तस्स मुंजेहं ॥
 एवं विचित्तयंती दिट्ठि दारम्मि चंदणा देइ ।
 तइया वीरो भयवं भिक्खत्थं आगओ तत्थ ॥
 धन्ना अहं अहो ! मे पुज्जं जीविय-फलं मए लद्धं ।
 धम्मो व्व मुत्तिमंतो जं एसो महुरिसी पत्तो ॥
 इय चित्तिऊण चलिया कममेक्कं देहलीइ मज्झम्मि ।
 वीर्यं तु ठवइ बाहिं बाला कुम्मास-सुप्प-करा ॥
 सा किस-देहा नियलेहि देहली लंघिउं असक्कंती ।
 तत्थ ट्ठिया वि सामि पुरंत-भत्ती भणइ एवं ॥
 भयवं ! जइवि न जुग्गं भोयणमेयं तहावि गिण्ह तुमं ।

मह करुणं कुणमाणो परोवयारुज्जओसि जओ ॥
 दब्बाह-भेय-सुद्धं अभिग्गहं जाणिऊण परिपुब्बं ।
 भयवं पसारइ करं तीए कुम्मास-भिव्खाए ॥
 कयकिच्चं अप्पाणं मन्नंती चंदणा जिणिंदस्स ।
 निक्खिवइ पाणि-कमले कुम्मासे सुप्प-कोणेण ॥
 पुत्तो अभिग्गओ भयवउ त्ति तुट्ठा समागया तियसा ।
 वसुहारा-पसुहाइं कुणंति तो पंच-दिब्बाइं ॥
 कणयमय-नेउराइं नियल-ट्टाणे रयंति ते तीए ।
 पुब्बं व केस-पासं देहं पिहु अमय-सित्तं व ॥
 रयणालंकारेहिं सब्बंगं चंदणं अलंकरिउं ।
 उक्किट्ठ-नायममरा कुणंति गायंति नच्चंति ॥
 सोऊण दुंदुहि-रवं राया तत्थागओ सयाणीओ ।
 सहिओ मिगावईए नंदाए सह सुगुत्तो थ ॥
 पत्तो सक्को वि पमोय-निब्भरो वीर-जिण-पणमणत्थं ।
 अह दहिवाहण-रायस्स कंचुगी संपुलो नाम ॥
 चंपाए आणीओ धाडीह सयाणीए जो पुब्बं ।
 सुक्को तइया सो तत्थ आगओ वसुमइं दइं ॥
 तच्चलणेसु विलग्गो उच्चसरं रुयइ तं रुयावंतो ।
 किं रोयसि त्ति वुत्तो रत्ता सो कंचुगी कहइ ॥
 दहिवाहणस्स देवीइ धारिणीए सुया वि जं एसा ।
 दासि व्व अन्न-गेहे हा निवसइ तेण रोयामि ॥
 तो वागरियं रत्ता धन्नाण सिरोमणी इमा बाला ।
 पडिलाभिओ जिणिंदो संपुत्ताभिग्गहो जीए ॥
 भणियं मिगावईए मह देवी धारिणी हवइ बहिणी ।
 तीए धूया एसा निस्संदेहं मम वि धूया ॥
 पंच-दिण-ऊण-छम्मास-तव-समत्तीए पारणं काउं ।
 सेट्ठी धणावह-गेहाओ निग्गओ वीर-जिण-नाहो ॥
 वसुधारं गिण्हंतो लोभ-वसेणं सयाणिओ राया ।
 भणिओ सक्केण इमं न एत्थ अन्नस्स सामित्तं ॥
 जं रयण-कणग-बुट्ठिं वेत्तुं वंछसि तुमं महाराय ! ।

सो चैव लहइ एयं जस्सेसा कन्नगा देइ ॥
 को गिण्हउ त्ति बुत्ता नरवइणा चंदणा भणइ एवं ।
 गिण्हओ सेट्ठी एसो पिया हि मे पालण-गुणेण ॥
 तत्तो घणावहेणं वसुहारा सहरिसेण संगहिया ।
 वज्जरइ सयाणीयं पुणोवि सोहम्म-सुर-नाहो ॥
 वीरस्स समुप्पन्ने केवल-नाणे इमा चरम-देहा ।
 विसय-विणियत्त-चित्ता बाला होही पढम-सीसा ॥
 ता रक्ख इमं जत्तेण जाव वीरस्स केवलुप्पत्ती ।
 इय जंपिऊण सक्को पत्तो सोहम्म-सुर-लोकं ॥
 कन्नंतेउर-मज्झे नेइ तयं चंदणं सयाणीओ ।
 सा तत्थ ठिया पहुणो चित्तंती केवलुप्पत्तिं ॥
 मूला अणत्थ-मूलं निच्छूढा सेट्ठिणा निय-गिहाओ ।
 रुइज्झाणोवगया सा वि हु मरिउं गया नरथं ॥
 गिण्हइ दिक्खं पासंमि सामिणो केवले समुप्पन्ने ।
 सब्ब-समणीण होउं पवत्तिणी चंदणा सिद्धा ॥
 इति दाने चंदना-कथा ।

जो चारित्त-निहीणं निम्मल-तव-नियम-नियमिय-विहीणं ।
 साहूण देइ दाणं सो सुक्खं लहइ घन्नो व्व ॥

तं जहा—

अत्थि नयरं पइइं पगिइ-सर-वावि-कूव-कय-सोहं ।
 अब्भंलिइ-सुर-मंदिर-मिस-दंसिय-सग्ग-सोवाणं ॥
 तम्मि निवो जियसत्तू नय-विक्कम-चाय-पमुह-गुण-कलिओ ।
 जय-लच्छी सच्छंदं रमिया भुय-तरु-तले जस्स ॥
 घणवंतमासि पुवं संजायं निद्धणं विहि-वसेण ।
 उज्जंतमन्न-नयराओ आगयं तत्थ कुलमेक्कं ॥
 पथेइए विणीओ दाण-लालसो तस्स दारओ वरुणो ।
 जण-संतियाइ वित्तीइ पालए वच्छरुवाइं ॥
 अन्न-दिणे संजाओ महुसवो तत्थ तो नयर-लोगो ।
 विविहाइ भोयणाइं घेतुं उज्जाणमणुपत्तो ॥

तं ददुं छणकरणो मणोरहो दारयस्स संपन्नो ।
 पुर-परिसरम्मि वच्छे सुत्तुं सो मंदिरं पत्तो ॥
 भणिया इमेण माया कुणसु छणं अन्नहा न होमि अहं ।
 तं सोढं सुय-वयणं संभरिडं पुब्ब-रिद्धिं च ॥
 मन्नुभर-भरिय-कंठा कलुण-सरं रोविडं पयट्ठा सा ।
 रुद्धं विणा न अन्नं पायं इत्थीण अत्थि बलं ॥
 सोऊण रुद्ध-सदं सएज्झियाहिं परंपिया एसा ।
 किं रोयसि त्ति तीए निय-खेय-निमित्तमक्खार्यं ॥
 जाय-करुणाहिं ताहिं समप्पियं दुद्ध-तंदुल-गुलाइं ।
 पुत्त-परिओस-हेडं इमीए तो पायसं रद्धं ॥
 पायस-घय-गुल-कलियं अप्पह पुत्तस्स भायणं एसा ।
 सो तं पुरओ काडं डण्हं ति पडिक्खए जाव ॥
 ताव तव-भूसियंगो जिहंदिओ जिय-परिसहो साहू ।
 भिक्खत्थमागओ तत्थ जंगमो पसम-रासि च्व ॥
 ददूण दारओ तं चित्तइ हियए अहो ! अहं धन्नो ।
 पुत्तिक्क-निही य अहं जं एसो आगओ साहू ॥
 तो पायसेण समणो इमिणा पडिलाभिओ पहिट्ठेण ।
 सुणि-दाण-पुत्त-वसओ सुहं मणुस्साउयं बद्धं ॥

सो वि य भुत्तो घय-गुल-संपुत्तं अन्नं परमन्नं । पच्छिम-दिसा-रमणिकन्न-
 पूरे संजाए सूरे भणिओ जणेण—कत्थ तुमए मुक्काइं वच्छस्वाइं ? सो वि सिग्घं
 गंतूण पुर-परिसरे पयट्ठो गवेसिडं । गवेसिऊण जाव नयर-मज्झे पविसेइ ताव
 ढक्कियाइं नयर-दाराइं । दारओ ठिओ बाहिं । तस्सेव सुणिणो पासे पाणिवहाइ-
 विरमण-पहाणं धम्म-देसणं सुणंतो रयणीए आउक्खएण मओ । ससुप्पन्नो
 तत्थेव नयरे वणिय-भज्जाए गम्भे । तप्पभिहं चेव पवड्ढिओ सो वाणिओ विह-
 वेणं । पसत्थ दियहे जाओ जणाणंदयारओ दारओ । तस्स नाहि-नाल-निक्ख-
 णण-काले लद्धं रयण-सुवन्न-पुण्णं महानिहाणं । निव्वत्ते जम्म-महे देव-गुरु-पूया-
 पुब्बं कयं शुण-निप्पन्नं धन्नो त्ति से नामं । समए समप्पिऊण कलाघरियस्स
 सिक्खविओ कला-कलावं । तस्स चत्तारि जेट्ठा सहोयरा ते तं पइ पओसं कुणंति,
 भणंति ते जणणि-जणए, किं इमस्स महंतं आयरं कुणह । जंपंति जणणि-
 जणया जारिसो एस बहु-गुणो न तारिसा तुम्भे, अओ इमंमि अम्ह आयरो ।

पुत्तेहिं वुत्तं परिक्खं करेह । तओ एक्केक्खस्स वत्तीसा वत्तीसा ख्वगा तेहिं दिन्ना,
भणिया इमे—करेह इमेहिं वाणिज्जं । पयद्दा ते ववहरिडं । घन्नेण पुण सव्व-क-
ला-कुसलेण किणिडं बलिद्धो मिढओ । दीणार-सहस्सं पणे काऊण जुज्झाविओ
रायपुत्त-मिढेण समं । भग्गो अणेण रायपुत्त-मिढो । तओ दीणार-सहस्सं घेत्तू-
ण मिढय-हत्थो झन्ति आगओ गिहं घन्नो । अन्ने पुण अकय-पुत्ता अलद्ध-लाभा
विवन्न-वयणा दिवसावसाणे आगया । वीय-दिणे भणंति ते पुणो परिक्खं
करेह । तओ एक्केक्खस्स सट्ठी सट्ठी करिसावणा अप्पिया । ते वि पयत्तेण कय-
विक्रयं कुणंता न लहंति लाहं किं पुण छेयं ।

अह आसि तत्थ नयरे महाघणो किविण-सेहरो सेट्ठी ।

सो विविहे आरंभे काऊण उवज्जए दव्वं ॥

धम्मत्थमत्थ-नियरं न देह न वि देह सयण-उवयारं ।

न कयावि कुणइ एसो घण-व्वयं निय-सरिरे वि ॥

पत्थिज्जंतो एसो कुप्पह जंपेह परूस-वयणाइं ।

दिते परेवि दिट्ठे सत्त-मुहो से जरो एइ ॥

मुच्छा-वसेण खणिऊण तेण दव्वेण पूरिया खड्डा ।

अंतो सुसिरा काडं भरिया रयणेहिं तह खट्ठा ॥

खड्डाइ तीइ उवरिं खट्टं ठविऊण सुयइ सो तीए ।

न य सुणइ इमं मूढो न वच्चिही पर-भवे किं पि ॥

सो मिच्छाविज्जंतो न अंत-समए वि सुयइ तं खट्टं ।

तत्तो मओ वि तीए खट्टाए पिड-वणं नीओ ॥

तं खट्टं चउहट्ठे विक्किज्जंतं मसाण-वालेण ।

दक्खो घन्नो गिण्हेइ लक्खिखडं रयण-गव्वं ति ॥

जओ—

दूर-निहितं पि निहिं तण-वड्ढि-समुच्छयाइ भूमीए ।

नयणेहिं अपेच्छंता निडणा बुद्धीइ पेहंति ॥

सा अप्पिया पिऊणं खट्टाओ खीलियाओ अवणेडं ।

रयणाइं कड्डियाइं तो तेसिं वड्ढिओ विहवो ॥

घन्नं हंतुं मंतंति भाउणो भूरि-मच्छर-च्छन्ना ।

तं सोडं जाय-दया भाउज्जाया कहइ तस्स ॥

घन्नो चितइ न मए इमाण बंधुण किंचि अवरद्धं ।

ता किं कुणन्ति कोवं निष्कारण-वेरिणो हि खला ॥ .

किञ्च—

नाकारणरूषां सङ्ख्या सङ्ख्याताः कारणक्रुधः ।
 कारणेऽपि न कुप्यन्ति ये ते जगति पञ्चषाः ॥
 ता मे इमाण मण-दुक्ख-कारणमजुत्तमिह अवत्थारणं ।
 पर-पीडा-परिहारं कुणन्ति जम्हा महापुरिस्ता ॥
 इय चिन्तिऊण धन्नो एगागी निग्गओ निय-पुराओ ।
 भमइ महिं नगरागर-गिरि-सरियाराम-रमणिज्जं ॥
 अन्न-दिणे मग्गासन्न-वत्ति-खित्ते ठिएण एक्केण ।
 दिट्ठो कुड्डुविणं अहो ! विसिद्धागिई एसो ॥
 इय परितुद्ध-मणेणं भणिओ भो एहि भुंजसु इह त्ति ।
 तत्थ निसन्नो धन्नो निय-भज्जं करिसगो भणइ ॥
 भुंजावसु पहियमिणं परमन्नं मज्झ भत्तमाणीयं ।
 तीए दिन्नं धन्नो परमन्नं भुंजए जाव ॥
 दीणार-कलस-कंठे ताव हलं करिसगस्स संलग्गं ।
 तं उक्खणिजं धन्नस्स अग्गओ करिसओ भणइ ॥
 तुह पुत्तेहिं पत्तं मए निहाणं इमं अओ गिण्ह ।
 धन्नो उदार-पयई जंपइ गिण्हसु तुमं चेव ॥
 धन्नोवि परिभमंतो कमेण रायगिह-पुरवरं पत्तो ।
 बाहिं तस्सारामे सहयार-तलम्मि वीसमिओ ॥
 ददूण कुसुम-वाल्लो मालागारो मणोहरं धन्नं ।
 हरिसवसा नेइ गिहं सपरियणो से कुणइ भत्ति ॥
 तत्थासि सेणिय-निवो जस्स फुरंत-प्पयाव-फण-रयणो ।
 करवाल-काल-सप्पो पियइ रणे वेरि-जस-दुद्धं ॥
 निम्मल-सील-गुणाभरण-धारिणी तस्स धारिणी देवी ।
 जण-मण-हरं पसूया धूर्यं नीइ व्व सा कित्ति ॥

रत्ना घोसाविद्यं नयरे—अज्ज जा कावि धूया जाया सा मे कहियव्वा । तत्थ
 गोभद्धो इव्वओ तस्स भारिया भद्दा तंमि दिणे जाया तीए धूया । तथा तस्सेव
 कुसुमपालस्स भज्जाए जाया धूया । ते दोवि घोसणं सुणिऊण कहन्ति रत्तो
 अम्ह जायाओ धूयाओ । रत्ता सम्माणिऊण भणिया ते मम धूयाए दो वि

सहीओ हुंतुं । रायाएसं ते गहिऊण गया स-गिहेसु । कयं इब्भेण रिद्धि-संद-
ब्भेण धूयाए सुमहं त्ति नामं, मालागारेण पुण पुप्फवइ त्ति ।

रत्ता निय-कन्नाए रिद्धि-पबंधेण निम्मियं नामं ।

सोमसिरि त्ति अहेसा वड्डइ सह दोहिवि सहीहिं ॥

तिन्नि वि परोप्परं पीइ-निब्भराओ लहंति तारुन्नं ।

चिंतंति अकह अम्हं तिणहवि एक्को पई होब्जा ॥

पुप्फवईए धन्नं दट्टूण विचंभियाणुरायाए ।

चित्तिमिणं सुखो अहो इमो पुन्नवंतो य ॥

जं इमिणा मह पिडणो गिहागएणं दुमाण कुसुमाइं ।

जायाइं बड्डयाइं जेसिं एक्कं पि नासि पुरा ॥

तो तिण्हं पि अम्हं जुत्तो भत्ता अओ केणावि उवाएण जाणावेमि इमं
राय-कन्नाए त्ति । तओ तीए घन्नाओ कराविया विचित्त-भंगि-संगया कुसुम-
माला । सा समप्पिया सोमसिरीए । विन्ध्य-मणाए भणियमणाए, सहि रय-
णावलि व्व विविह-रयणालंकिया केण कया एसा ? पुप्फवईए कहियं—सुंदरि !
को वि जुवाणो पंचवाणो व्व मणहरो सयल-कला-कुलहरं अम्हं घरे चिट्ठइ । सो
निय-कोसल्लेणं विविह-भंगीहिं कुसुमाभरणं विरएइ । तेण कया एसा । तन्नामं
पि सोऊण सोमसिरीए चित्तिं—तं विणा न मए अन्नो परिणेषव्वो । तओ
वाम-करयल-कलिय-कबोला दीहुण्ह-नीसास-विसोसियाहरा परिचित्त-सेस-
कजा तमेव चिंतंती चिट्ठइ । परियणाओ सुणियमिणं रत्ता । पेसिऊण पडि-
हारं हक्कारिओ कुसुमवाल-गेहाओ घन्नो । कय-पणामो निविसिओ उचि-
यासणे । तं सुर-कुमारोवमं दट्टूण चित्तिं रत्ता । ठाणे अणुराओ मम धूयाए ।
उचियं चेव नागवल्लीए पूग-पायवारोहणं ति । हक्कारिया रत्ता कन्ना, आगया
सा तिरिच्छच्छि-विच्छोहेहि विच्छुरंती सहा-मंडवं ।

विन्ध्य-वसेणे दुन्नि वि अणमिस-नयणाइं पिच्छमाणाइं ।

ख्वं परोप्परं ताइं अमर-मिहुणं विडंबं ति ॥

भणिओ रत्ता घन्नो कन्ना दिन्ना इमा मए तुज्झ ।

हरिस-भर-निब्भरेणं घन्नेण पडिच्छिया एसा ॥

अह सोमसिरी-पियरं नमिऊण कयंजली भणइ एवं ।

एवं दुण्हं वि मज्झ सहीणं एसो चिय होइ भत्तारो ॥

रत्ता भणियं ख्वइ जइ एवं तुम्हं ता हवउ एवं ।

तत्तो सोमसिरीए सहीण कहियं निवइ-वयणं ॥
 तासिं जणया तुट्ठा तो ताओ दोवि दिंति धन्नस्स ।
 राया गुरु-रिद्धीए तिन्नि वि परिणावए घन्नं ॥
 गोभइ-कुसुमपाला कुणंति अत्थ-व्वयं बहुं तत्थ ।
 धन्नो नरिंद-दिन्ने धवल-हरे रमइ ताहि समं ॥
 करि-तुरय-कणय-कप्पड-पमुहं दिंत्तं बहुं घणं रत्ता ।
 निहिणो गिहे पभूया पाउवभूया य धन्नस्स ॥
 अह गेह-गवक्ख-गओ जणणी-जणए पलोयए धन्नो ।
 मगंगमि परिभमंते दुत्थावत्थे मलिण-वत्थे ॥
 सो भणइ नियय-पुरिसे दो वि इमे मह समीवमाणेह ।
 ते ण्हविउं दिव्वंसुय-विभूसिए दोवि आणंति ॥
 घन्नं दट्ठुं दुन्नि वि तक्कंठे लग्गिऊण रोयंति ।
 नमिउं सुहासणत्थे संगगयं ते भणइ धन्नो ॥
 दारिइमविद्दाणं नज्जइ आयारमित्तओ तुम्ह ।
 ता कहह कहं तुट्ठं ताय ! तयं तेत्तियं दव्वं ॥
 जणओ जंपइ पुत्तय ! तइ भवणाओ विणिंगए अम्ह ।
 परुस-वयणाओ व्व तवो सव्वो वि खयंगओ विहवो ॥
 चोरेहिं को वि हरिओ पलीवणे को वि अग्गिणा दड्ढो ।
 को वि विलुत्तो रत्ता पुत्तेहिं कयंमि अवराहे ॥
 इय तुट्ठे सयल-धणे लज्जाए तत्थ वसिउमतरंता ।
 इह अम्हे संपत्ता बाहिं चिट्ठंति तुह जेट्ठा ॥
 तो पुरिसं पइविउं आणीया, सुट्ठु न कयमम्हेहिं ।
 खमसु गुणागर-गरुओ तुमं ति घन्नं खमावति ॥
 धन्नो दाऊण घणं अन्न-पुरे ते विसज्जए सव्वे ।
 घन्न-पभावेण इमे पुव्वं व महाधणा जाया ॥
 जणणि-जणयाण सव्वं घर-बावारं समप्पिउं धन्नो ।
 तियसो व्व अच्छराहिं पियाहिं सह भुंजए भोए ॥
 अन्न-दिणम्मि सुभदा रूयमाणा निव्वभरं ण्हवइ घन्नं ।
 धन्नेण पुच्छिया पंकयच्छि ! रोयसि किमेवति ? ॥
 तीए वुत्तं पिययम ! सहोयरो मज्झ सालिभदो त्ति ।

शुरु-धम्मघोस-पासे धम्मं सोऊण संविग्गो ॥
 चारित्तं घेत्तुमणो भणिओ जणणीह वच्छल-मणाए ।
 दुक्करमिणं चरित्तं तुमं च सुह-लालिओ वच्छ ! ॥
 ता जइ ते निब्बंघो, ता थेवं थेवमुज्झ विसय-सुहं ।
 जेण तुह होइ देहं कमेण संजम-वहण-जोगं ॥
 तो जणणी-वयणेणं दिणे दिणे सो करेइ संखेवं ।
 भोयण-भूसण-तूली-तंबोल-विलेवणार्हणं ॥
 इय भोग-निरीहो सो जा अलवणं अबिलेण भुंजेइ ।
 एक्केण निवसणेणं महीयले केवले सुअइ ॥
 संपइ असंसयं चिय संजम-भारं पवज्जिही एसो ।
 इय सालिभइ-चरियं खेय-निमित्तं सुणसु मज्झ ॥
 हसिऊण भणइ घन्नो सुयणु ! धुवं कायरो न सो सूरु ।
 जो सहस त्ति न सक्कइ तव-संजम-भारसुक्खिविडं ॥
 अह सोमसिरी जंपइ—सो सुक्कुमालो न कायरो सामि ! ।
 दुक्कर-संजम-जुगं सणियं सणियं कुणइ देहं ॥
 घन्नेण पुणो भणियं—किमत्थि घीराण दुक्करं किंपि ।
 जं सो बद्ध-परियरो झत्ति स-क्कं न साहेइ ॥
 तो सोमसिरी परिहास-पेसलं जंपए पुणो घन्नं ।
 जइ दुक्करं न एयं तुम्हे वि न किं कुणइ नाह ! ॥
 घन्नो जंपइ तुम्भे तिण्णि वि मं भणइ जइ कुणसु धम्मं ।
 ता किं करेमि न करेमि व त्ति पेच्छइ दुयं तुम्हे ॥
 ताहि भणियं सहासं जइ गिण्हसि संजमं तुमं सामि ! ।
 तित्थयर-पाय-मूले अम्हे वि ह्हु तं गहिस्सामो ॥
 अह तत्थ समोसरिओ वीरजिणो जणिय-जणमणाणंदो ।
 तस्सागमणं क्कहियं घन्नस्स निडत्त-पुरिसेण ॥
 पुरित्तुह-मणो घन्नो सिवियारूढो महंतरिद्धीए ।
 भज्जाहि तिहि वि जुत्तो निक्खंतो सामि-नमणत्थं ॥
 अह गरुय-विभूर्इए सुरो व्व मणि-भूसणोहिं सोहंतो ।
 वय-गहणत्थं गेहाओ निग्गओ सालिभदो वि ॥
 सुत्तूण वाहणां ते दुन्नि वि पविसिडं समोसरणे ।

नमिडं जिणं सठाणे ठाऊण सुणंति धम्म-कहं ॥
 अपारे संसारे कथमपि समासाद्य नृभवं
 न धर्मं यः कुर्याद्विषयसुखतृष्णातरलितः ।
 ब्रुडन् पारावारे प्रवरमपहाय प्रवहणं
 स मुख्यो मूर्खाणामुपलमुपलब्धुं प्रयतते ॥
 तं सोडं संविग्गो केसे उप्पाडिऊण सयमेव ।
 गिणहेइ सालिभद्दो दिक्खं सह अट्ट-भज्जाइं ॥
 अह वेरग्ग-पवन्नो घन्नो भज्जाओ जंपए एवं ।
 वेत्तुं चारित्त-भरं करेमि मणुयत्तणं सहलं ॥
 तो सोमसिरी जंपइ पिय ! परिहासो मए कओ एसो ।
 जइ दुक्करा न दिक्खा तुमं पि ता किं न कुणसि इमं ॥
 सब्बमिणं मन्नंतो तुमं तु वेत्तुं समीहसे दिक्खं ।
 परिहासे वि कए किं जुज्जइ निव्वक्करं काडं ॥
 घन्नो जंपइ न पिए ! दिक्खं गिण्हामि तुज्ज वयणेहिं ।
 किंतु पट्ट-द्वेसणाए भवस्स रुवं मए नायं ॥
 तत्तो पलीवणाओ व निक्खमिड मणो करेमि पव्वज्जं ।
 भज्जाहिं तिहिं वि भणियं जइ एवं तुज्ज निव्वंधो ॥
 अग्हे वि तं करेमो, तो घन्नो सह तिहिं पि भज्जाहिं ।
 गिण्हइ दिक्खं दुन्नि वि पढंति थेरंतिए सुत्तं ॥
 अज्जाए चंदणाए दुण्हवि भज्जाओ अप्पए भयवं ।
 अब्भत्थ-दुविह-सिक्खाओ ताओ साहंति सिद्धि-पहं ॥
 कय-तिव्व-तवा सुइरं पज्जंते विहिय-अणसणा मरिडं ।
 मुणि-सालिभद्द-धन्ना सब्बट्टे सुरवरा जाया ॥

इति दाने धन्य-कथानकम् ।

साहारणत्थ-दाणे बहूण साहारणं फलं होइ ।
 तत्थ वि कुरुचंदस्स व उत्तम-फल-साहगो भावो ॥

तं जहा—

इह जंबुदीव-भरहे नयरं नामेण गयपुरं अत्थि ।
 गय-संगयं पि अगयं केण वि अहयं पि जं सुहयं ॥

तत्थ कुरुचंद-नामो राया जेणारिणो रणे भग्गा ।
 शुरु-साल-संगएसुं गया वणेसुं न भवणेसु ॥
 अह तत्थ समोसरिओ संतिजिणो तस्स वंदण-निमित्तं ।
 सामंत-मंति-कलिओ कुरुचंदो निग्गओ राया ॥
 धम्मं सोऊण निवो समए पुच्छइ कथंजली एवं ।
 पुब्ब-सुकएण केणं नाह ! मए पावियं रज्जं ? ॥
 वत्थ-फल-प्पसुहाइं पवराइं पंच पंच वत्थूणि ।
 दुक्कंति ढोयणे मह पइ-दियहं केण कम्मेण ? ॥
 इट्ठाण ताणि दाहं ति च्चित्तिडं अप्पणा न उवभुंजे ।
 वियरामि न अन्नस्स वि कह भयवं ! केण कम्मेणं ? ॥
 भयवं पि कहइ तुमए रज्जमिणं साहु-दाणओ पत्तं ।
 तत्तो च्चिय तह दुक्कंति ढोयणे पंच-वत्थूणि ॥
 ताण अभोगादाणे सुपुन्न-साहारणत्तणं हेऊ ।
 एक्केण न खलु सुज्जइ बहूण साहारणं वत्थुं ॥
 इट्ठाणं दाहामि त्ति तुज्ज च्चिता वि हेउणा तेण ।
 साहुस्स जहा दाणं पुब्बं दिन्नं तह कहेमि ॥
 पुरमत्थि भरह-वसुहा-रमणी-मणि-नेडरं सिरिपुरं ति ।
 तत्थ पयईइ भद्दा परप्परं पीइ-संजुत्ता ॥
 सुघण-घणवइ-घणेसर-घणया चत्तारि वाणिया मित्ता ।
 ते अत्थ विढवणत्थं कयाइ च्चलिया रयण-दीवं ॥

दोणगो तेसिं कम्मयरो संबल-वाहगो य । अन्नया अरन्न-उत्तिञ्जेहिं तेहिं
 खीण-प्पाए पाहेए पडिमा-पडिवन्नो दिट्ठो साहु, च्चित्तिर्यं च—अहो ! अम्ह पुन्नं
 उवट्ठियं जं एस पसम-रासिं व्व दिट्ठि-गोयरं गओ । ता एयस्स किं पि दाणं
 दाऊण अणुग्गहेमो अत्ताणं । गोयर-समओ य रिसिणो । भणिओ य सुघ-
 णाईहिं दोणागो—भइ दोणाग ! देहिं सुणिणो किं पि । तेहितो अहिग-सब्बाए
 पडिलाहिओ तेण सुणी । बद्धं महाफलं कम्मं । पत्ता ते रयण-दीवं । तत्थ अत्थं
 विढविऊण आगया सदेसं । तेणेव पुन्न-धीएण पाविया सब्बया वि ते रिद्धिं ।
 लडुं साइ-जलं एक्कसो वि जीवंति धन्नाइं, किंतु मायाविणो घणवइ-घणेसरा
 ववहरंति सुहुम-मायाए । दोणगो वि अहियं सुद्ध-चित्तो आउक्खए मरिऊण
 उप्पन्नो गयडर-नयरे दुप्पसहस्स रत्तो सिरिसुंदरीए देवीए पुत्तो तुमं । देवीए

सुविणे चंदो दिट्टो त्ति कयं कुरुचंदो त्ति ते नामं । एत्थंतरे मया सुधण-धणया
समुप्पन्ना वणिय-पुत्ता । एगो कंपिल्लपुरे बीओ कत्तियपुरे । पइद्दावियाइं
नामाइं एगस्स वसंतदेवो अन्नस्स कामवालो । विवन्ना धणवइ धणेसरा समुपन्ना
वणिय-धूयत्ताए एगा संखजरे अन्ना जयंतीए । कयाइं नामाइं एगाए महरा
अन्नाए केसरा । कमेण मयण-वियारुव्वणं जोव्वणं संपत्ता ते सब्बे । कयाइ
कंपिल्लाओ अत्थोवज्जणत्थं गओ जयंतीए वसंतदेवो । तत्थ वि चिट्ठंतेण
वसंतदेवेण दिट्ठा अट्टमी-चंद-महेरइ नंदणुज्जाणे रह व्व केसरा, तीए वि
वसंतदेवो । पुव्व-भववभासेण सिणेह-सारं दुण्हं पि मिलिया दिट्ठी । का एस
त्ति पुच्छिओ वसंतदेवेण जयंति-वत्थव्वो संजाय-मित्त-भावो पियंकरो नाम
वणिय-पुत्तो ।

कहियं तेणं एसा धूया सेट्ठिस्स पंचनंदिस्स ।

भइणी जयंतदेवस्स कन्नगा केसरा नाम ॥

तत्तो वसंतदेवो जयंतदेवेण सह कुणइ मेत्ति ।

अन्न दिणे सो नीओ जयंतदेवेण निय-भवणे ॥

दिट्ठा वसंतदेवेण नयण-कुसुयाण चंदलेह व्व ।

अच्चंती कुसुम-सरं कुसुमेहिं केसरा तत्थ ॥

तीए वसंतदेवो जयंतदेवस्स हत्थ-कमलाओ ।

कुसुमाइं पडिच्छंतो दिट्ठो गरुयाणुरायाए ॥

इणमणुकूलं सउणं ति दोवि हरिसं गयाइं निय-चित्ते ।

लक्खेइ धावि-धूया पियंकरा नाम सब्बमिमं ॥

पवरं जयंतदेवो वसंतदेवस्स कुणइ उवयारं ।

तत्तो पियंकराए पर्यपिया केसरा एवं ॥

तुज्झ वि जुज्झइ काउं सुयणस्स इमस्स कावि पडिवत्ती ।

जुगवं लज्जा सब्बस-हरिस-परा केसरा भणइ ॥

पियंकरे ! तुमं चेव जाणसि जंमित्थ उच्चियं ति । पियंकरा वि भवणुज्जा-
णगयस्स तरुस्स पियंशुमंजरीओ कक्कोलफलाइं च समप्पंती जंपेइ-सुंदर सह-
त्थारोविय-रुक्ख-समुप्पन्नाइं इमाइं इट्ठ-देयाइं मह सामिणीए केसराए तुज्झ पे-
सियाइं । इट्ठो अहं ति हरिसिएण गहियाइं ताइं वसंतदेवेण । दाऊण नामसुइं
भणिया एसा, वत्तव्वा तुमए सामिणी, सोहणं कयं । तुमए वट्ठियव्वं सयावि
इट्ठाणुरुवं । पियंकराए गंतूण सब्बं कहियं केसराए । परितुट्ठा सा हियएण ।

रयणीए वरम-जामे दिहो इमीए सुविणो, किलाहं परिणीया वसंतदेवेण । तेणावि सुविणे कर्यं केसरा-परिणयणं । तुह-चित्ताए केसराए कहिओ सुविणो पियंकराए । इत्थंतरे निय-कल्ल-गयं जंपियं पुरोहिण—एवं चेव एयं भविस्सइ ति इमं सोऊण परितुह्ठाओ दोवि । जंपियं पियंकराए सव्वहा वसंतदेवो तुह्झ भत्तारो त्ति बद्धो सडण-गंढी केसराए । कहिओ सुविण-वुत्तंतो वसंतदेवस्स । सो वि निय-सुविण-संवायाओ सिद्धं समीहियत्थं मन्नंतो पत्तो पमोयं । भणिओ पियंकराए—दिहो तुह्झ अप्पा सडण-गंढिं बंधंतीए सामिणीए । ता करेसु विवाह-संजुत्ति । वसंतदेवेण वुत्तं कया चेव विहिणा संजुत्ती । एवं पइ-दिणं पवड्डुमाणाणुरायाण अइकंतो कोइ कालो । अन्नया स-गिह-गएणेव सुओ पंचनंदि-गेहे मंगल-तूर-सहो वसंतदेवेण । किमेयं ति गवेसावियं इमिणा । कहियं कम्म-यरीए जहा दिना केसरा कल्लज्ज-वत्थव्व-वसुदत्त-सेट्ठि-पुत्तस्स वरदत्तस्स । तन्निमित्तमेयं वद्धावणयं ति । तं सोऊण मुच्छिओ वसंतदेवो । एत्थंतरे आगया पियंकरा आसासिओ तीए, भणियं च—पेसिया अहं केसराए, संदिहं तीए, न तए खेओ कायव्वो, मम चित्तं अजाणंतेहिं गुरुहिं पारडमेयं, अहं पुण न पुब्बाणुराग-विसरिसं चिट्ठामि । सव्वहा मम तुमं चेव भत्ता । अन्नहा मरियव्वं । एवं सोऊण परितुह्ठो वसंतदेवो । भणिया अणेण पियंकरा—भहे ! एत्थ बइयरे ममावि एस निच्छओ ।

गंतुं पियंकराए कहियमिणं केसराइ सा तुह्ठा ।
 ताण विवाहोवायं चित्तंताणं गया दियहा ॥
 तंमि असंपत्ते चेव जन्न-जत्ता समागया तत्थ ।
 तत्तो वसंतदेवो सुए विवाहो त्ति निसुणेइ ॥
 सो दूमिओ मणेणं नयराओ निग्गओ गओ य वणं ।
 धितेइ—अहो ! केरिसमसुंदरं विलसियं विहिणो ॥
 नूणं मह परिणयणे विहिय-पइन्ना गुरुहिं अन्नेण ।
 सा परिणाविज्जंती करिही जीविय-परिचचार्यं ॥
 तीए मरणं निसुणेमि जाव अहमेव ता मरामि त्ति ।
 तो बंधिऊण पासं असोग-रुक्खस्स साहाए ॥
 जा उव्वद्धो अप्पा वसंतदेवेण तत्थ उव्वतहिं ।
 बंधु व्व ताव पत्तो को वि नरो तरु-निडंजाओ ॥

मा कुणसु साहसमिणं ति जंपमाणो असोगमारुहिडं ।
 छिंदेह तस्स पासं कंकिल्लि-तले तमाणेह ॥
 अंपह भो ! भो ! तुमए किमेवमागिह-विरुद्धमारुडं ? ।
 सो भणह आगिईए किमिमीए दुक्ख-बहुलाए ॥
 निय-वहयरं च साहह, अह पुरिसो जंपए जह वि एवं ।
 तहवि न जुज्जह एवं पुरिसस्स विवेगिणो मरणं ॥
 किंतु उवाओ जुत्तो अत्थि य सो इत्थ दुग-परिन्नाए ।
 जत्थ य नत्थि उवाओ तत्थ वि धुवमणुचियं मरणं ॥
 जीवामि दुक्खिओऽहं उवाय-विरहे वि इत्थ वत्थुमि ।
 भइं लहह जियंतो जो य मओ सो मओ चेय ॥

जओ—

कत्तियपुर-वत्थव्वो वणिय-सुओ कामपाल-नामोऽहं ।
 देसाण दंसणत्थं विणिग्गओ जोव्वणुम्मत्तो ॥
 पत्तो परिब्भमंतो संखउरं तत्थ संक्ख-जक्खस्स ।
 जत्ताए नीहरिओ जणो अहं पि हु गओ तत्थ ॥
 सहकार-वणमि मए रइ व्व रूवेण कल्लगा दिट्ठा ।
 तीए वि कमल-दल-विब्भमेहिं नयणेहिं दिट्ठोऽहं ॥
 तत्थ ठिओऽहं वाजेण दिट्ठि-पासेहिं तीह बद्धो व्व ।
 दिन्नं च सही-हत्थेण मज्झ तंबोलमेईए ॥
 किं काउमेत्थ जुत्तं ति जाव चित्तेमि ताव मत्त-करी ।
 सच्छंदं वियरंतो पत्तो चूयहुमासन्नं ॥
 नट्ठो भएण कल्लाह परियणो कल्लगा उण न नट्ठा ।
 कंपल-सव्व-गत्तं तं हत्थी जाव गिण्हेह ॥
 ताव मए लउडेणं पच्छिम-भायम्मि आहओ हत्थी ।
 शुयगो व्व पुच्छ-पुट्ठो कन्नं मुत्तूण सो चलिओ ॥
 तं वंचिडं मए सा कल्ला वेत्तूण अन्नओ नीया ।
 निब्भय-ट्ठाणे मुक्का मिल्लह सा मं न हियएण ॥

समागओ से परियणो । पसंसिओ अहं तेण । नीया एसा चूय-तरु-तलं ।
 इत्थंतरे समागयं नाग-वरिसं तेण दिसो दिसं पलाणो जणो । तओ न नार्य

कहिं गया सा कलग ति । कइ वि दियहे हिंडिओ अहं तम्मि नयरे । अलझूण तीए पडति सुन्न-चित्तो समागओ एत्थ । अत्थि मे तीए उवरि सिणेहो, किंतु तीए सुद्धिं अयाणंतस्स नत्थि मे उवाओ तस्संपत्तीए, तहावि नाहं मरणमंगी-करेमि । तुह उण केसरा-संपत्तीए अत्थि उवाओ । सुए सा परिणिज्झिही तओ अज्ज कायन्वा तीए रइ-सहियस्स भयवओ भयणस्स पूया । तं च एगामिणी करेइ ति कप्पो । तो अम्हे अणागर्यं चेव ति पविसामो नयर-भयण-देवउलं । तओ तीए पविट्ठाए तस्संगगएणेव तव्वेस-गहणेण गमिस्सामि अहं तीए गेहं । तुमं पुण बहु-बोलीणेसु अम्हेसु वेत्तूण केसरं लहुं अचक्कमिज्जासि ति । जुत्ति-संगर्यं ति सोऊण हरिसिओ वसंतदेवो, भणियं अणेण जुत्ति-जुत्तमेयं, किं तु तुहेत्थ वसणं ति । तथा य छिक्खियं बुद्ध-माहणीए । कामपालेण वुत्तं न मज्झ तत्थ वसणं किं तु तुज्झ कज्ज-करणेण महंतो अब्बुदओ ति । इत्थंतरे निय-कज्ज-संबद्धमेवं जंपियं बुद्ध-माहणेणं—न एत्थ संदेहो ति । गहिय-सउणत्थेण पडिवन्नमिणं वसंतदेवेणं । पविट्ठा दो वि नयरिं । काऊण उचिय-किच्चं निग्गया संझाए । पविट्ठा भयण-देवउलं । ठिया पडिमा-पिट्ठओ । थेव-वेलाए सुओ तूर-रवो, केसरा आगच्छइ ति हरिसिया चित्तेणं । कमेण आगया एसा । सा वि पाढ-सिद्धं पिय-समागम-मंतं चिंतती उइन्ना जंपा-णाओ । चडिया भयण-देवउलं । वेत्तूण पियंकरा-कराओ पूओवगरणं पविट्ठा तत्थ । आयारो ति ढक्खियं तीए दुवारं । कया कामस्स पूया । भणियं च—भयवं ! रइ-रमण ! पबक्खाणि तुज्झ सयल-पाणि-चित्ताणि ता किं जुत्तमेयं जं मसं अणिट्ठेण भत्तुणा जोजेसि । किं न याणसि तुमं वसंतदेवं विणा अन्नत्थ न मे रमइ मणं । किं वा इयाणि इमिणा उवालंभेण । सव्वहा जम्मंतरे वि तुह पसाएण सो चेव भत्ता हवेज्ज ति भणिकण तत्तोरणे उव्वद्धो अप्पा । निगंतूण रक्खिआ सा वसंतदेवेण । कुओ एसो ति विम्हिया एसा ।

भणियं वसंतदेवेण—पत्थिओ वम्महाओ जो तुमए ।

भत्ता भवंतरे वि हु सो एस वसंतदेवोऽहं ॥

मित्तेण सह पविट्ठो पुव्वं चिय-एत्थ तुज्झ हरणत्थं ।

ता निय-नेवत्थं पंकयच्छि ! अप्पेसु एयस्स ॥

जेण तुह वेसधारी सपरियणो एस जाइ तुज्झ घरं ।

अम्हे पुण गयपाए इमम्मि देसंतरं जामो ॥

इय भणिया निय-वेसं समप्पए सा वि काम-पालस्स ।

धेत्तूण तस्स वेसं ठिया इमा मयण-पिट्ठमि ॥
 सो गिण्हिऊण पत्तिं नीरंगी-पिहिय-वयण-सयवत्तो ।
 उग्घाडिडं दुवारं विणिग्गओ मयण-भवणाओ ॥
 पत्तिं पियंकराए समप्पिउं लग्गिऊण तीए कारे ।
 सो चडिओ जंपाणे तं कम्मयरेहिं उक्खित्तं ॥
 पत्तो अलक्खिओ परियणेण सो पंचनंदि-गेहंमि ।
 मुणहं न मज्झं बंभा वि सुप्पउत्तस्स दंभस्स ॥
 जाणाओ उत्तिन्नो पियंकराए बहू-हरं नीओ ।
 कणयासणे निविट्ठो, पियंकराए इमं बुत्तो ॥
 चित्तेशु पिय-समागम-भंतं तो निग्गया पियंकरिया ।
 तो काम-रइ-समागम-भंतं सरिडं पवत्तो सो ॥
 अहं केसराइ माउल-धूया संखउर-वासिणी महरा ।
 पत्ता तत्थ विवाहे पुव्वं एएण जा दिट्ठा ॥
 तस्स पुरो उवविट्ठा नीससिडं जंपिडं पवत्ता सा ।
 सहि ! अवसरो त्ति जंपेमि किं पि परिहरसु उव्वेयं ॥
 जं अवहिओ विहि च्चिय इट्ठाणिट्ठेसु सव्व-पाणीणं ।
 संखउरे वि ठियाए मए सुओ तुज्झ बुत्तंतो ॥
 मुत्तुं वसंतदेवं न रमेइ नरंतरम्मि तुह चित्तं ।
 पिय-विरह-दुहं दुसहं सयमणुभूयंति जाणेमि ॥
 धन्ना य तुमं जीए पिएण सह दंसणाइ-संभवइ ।
 मज्झ पुणो बुत्तंतो सहि ! सुव्वउ दारुणो बाढं ॥
 नीहरियाहं सह परियणेण जत्ताइ संखवालस्स ।
 मयणु व्व मए तरुणो असोग-तरुणो तले दिट्ठो ॥
 तस्स मए पट्टवियं सहिए कर-पंकएण तंबोलं ।
 तेणावि रक्खियाहं मत्तगयाओ जमाओ व्व ॥
 पुणरवि करि-संकाए नट्ठाहं सह सहीहिं सव्वाहिं ।
 कहिं वि गओ सो वि जुवा मए गविट्ठो न दिट्ठो य ॥
 कत्थ वि रइमलहंती अलि-दट्ठा मक्काडि व्व तप्पभिई ।
 तम्मि षणम्मि गयाहं तंमदट्ठं परूहया सुहरं ॥

अज्ज मए सुविणे च्चिय सो दिट्ठो न उ कयाइ पच्चक्खं ।
 अत्थि मम तम्मि पेमं होही जोगो उ विहि-वसओ ॥
 एयम्मि बह्यरे जं मह दुक्खं तं मुणामि अहमेव ।
 अत्ताण निच्चिसेसा तुमं ति तुह जंपियं पुरओ ॥
 ता बहिणि ! मुंच खेयं अणुयत्तसु गुरु-यणं ह्वसु धीरा ।
 अणुकूल-विहि-वसेणं सव्वं पि ह्हु सुंदरं होही ॥
 अह भणइ कामपालो मयच्छि ! जक्खूसवम्मि जो तुमए ।
 दिट्ठो सो एसोऽहं तुह मण-मयरायर-मयंको ॥
 अणुकूल-दिव्व-वसओ वसंतदेवस्स केसराए य ।
 संजोगो संजाओ अम्मं पिव मुंच तच्चितं ॥
 तं नीरंगी-रहियं महरा उवलक्खिऊण परितुट्ठा ।
 भयवसओ सम्मूढा तो भणिया कामपालेण ॥
 मुंच पिए ! भयमिण्हिं दंससु मे किं पि निग्गमण-दारं ।
 महराइ धरुज्जाणस्स पच्छिमं दारमुवइट्ठं ॥
 नीहरइ कामपालो सहिओ महराइ तेण वारेण ।
 वच्चंतो सो पत्तो गयडर-नयरम्मि एयम्मि ॥
 पुव्वागयस्स सह केसराए मिलिओ वसंतदेवस्स ।
 ते दंसिया जिणेणं वसंतदेवाइणो रत्तो ॥
 कहियं जिणेणं पंचहिं जणेहिं दिन्नं मुणिसस्स जं दाणं ।
 तं पंच पंच वत्थूणि ढोयणे तुज्झ हुक्कंति ॥
 एत्तो च्चिय एएसिं ताणि अदाळं सयं न मुंजेसि ।
 इय जिण-कहियं सोळं पुव्व-भवो सुमरिओ तेहिं ॥
 नमिऊण जिणं रत्ता नीया नीय-सोयर व्व ते गेहं ।
 तेहि सह विहिय-रत्तो सो धम्म-परो गओ सुगइं ॥

इति दाने कुरुचन्द्र-कथा ।

रत्ता भणियं—भयवं ! निरंतरं सुक्ख-भागिणो एक्के ।
 दीसंति नरा अवरे न तारिसा एत्थ को हेऊ ? ॥
 शुरुणा भणियं—जे दिंति दाणमच्छिन्न-भाव-संपत्ता ।

ते अन्न-भवे पावंति सुक्खमच्छिन्नमाजम्मं ॥
 जेसिं पुण दिंताणं नराण दाणंमि अंतरं होइ ।
 कयउन्नउ व्व सुक्खं निरंतरं ते न पावंति ॥

तं जहा—

अत्थि पुरी सावत्थी जत्थ वियंभंत-सुरयणा तुंगा ।
 कणयमया पासाया सुमेरु-पुत्त व्व रेहंति ॥
 तत्थ गुण-संगओ संगड त्ति सिट्ठी महा-धणो आसि ।
 से बंधुल त्ति भज्जा रमणो त्ति मणोहरो पुत्तो ॥
 पुच्च-कय-कम्म-परिणाम-दोसओ तस्स विहडिओ विहवो ।
 जम्हा न पडिखलिज्जइ सुरासुरेहिं पि पुच्च-कयं ॥
 कालेण मओ सिट्ठी अनिच्चहता य बंधुला तत्थ ।
 सुलह-जलिघण-धम्मंमि सालिसीसे गया गामे ॥
 अक्खिय-निय-वुत्तंता गामीण-जणेहिं अब्भुवगया सा ।
 विहिओ य वच्छ-वाल्लो से पुत्तो अप्पिउं वच्छे ॥
 सो दाण-व्वसणी देइ दारगाईण लहइ जं किं पि ।
 नहि अत्थि नत्थि चिंता पयह-उदाराण संभवइ ॥
 अह मास-खमग-साहू इमस्स दिट्ठिपहमागओ बाहिं ।
 जाया य तम्मि भत्ती तवेण रंजिज्जइ न को वा ॥
 अन्नम्मि वासरे ऊसवो त्ति लोणेण पायसं रद्धं ।
 तं जेमंते डिंमे दहं रमणो भणइ जणणि ॥
 धियरसु ममा वि पायसमिमा वि नत्थि त्ति निच्चरा रुयइ ।
 संपन्न-दयाहिं पाडिवेसियत्थीहिं सा भणिया ॥
 मा रुयसु पायसं रंधिऊण रमणस्स देसु सिग्घं ति ।
 तीसे समप्पियाइं च खीर-तंदुल-गुल-घयाइं ॥
 रद्धं च पायसं तीइ दारओ भोयणत्थसुवविट्ठो ।
 घय-गुल-पायस-भरियं तस्स पुरो भायणं ठविउं ॥
 अह बंधुला पविट्ठा घर-मज्जे इत्थ अबसरे पत्तो ।
 घम्मु व्व मुत्तिमतो सो भिक्खत्थं खमग-साहू ॥
 चिंतामणी मह-करे चडिओ जं आगओ मुणी गेहं ।

दाउं इमस्स भिक्खं करेमि मणुयत्तणं सहलं ॥
 इय चित्तिउं ति-भागं देइ इमो पायसस्स तुट्ठ-मणो ।
 धेवमिणं ति विचिंतिय दुइय-ति-भागं पयच्छेइ ॥
 मा अन्नेण विणस्सउ इमं ति परिभाविऊण पुण एसो ।
 देइ तइयं ति-भागं भोग-फलं बंधए कम्मं ॥
 तस्स निसन्नस्स पुणो अन्नं जणणीए पायसं दिन्नं ।
 गिद्धि-वसेण अणेणं भुत्तं परिणइ-अमाणेण ॥
 तम्मि दिणे वहल्यं इमस्स वाहिं गयस्स संजायं ।
 रयणीए अजिन्नेणं विसूइयाए मओ एसो ॥
 मगह-विसयावयंसे रायगिहे वर-पुरे समुप्पन्नो ।
 सो सेट्ठि-धणावह-भारियाइ भदाइ गढम्मि ॥
 काल-क्कमेण जाओ पुत्तो वत्तीस-लक्खणाणुगओ ।
 परितुट्ठ-मणो सेट्ठी करेइ जम्मूसवं तस्स ॥
 कयउच्चु त्ति जणेणं भणिओ सो जो गिहे धणडुंमि ।
 जाओ इमो त्ति विहितं तो कयउच्चो त्ति से नामं ॥
 चंदो व्व सुक्क-पक्खे दिणे दिणे जणिय-जण-मणाणंदो ।
 पावइ बुद्धिं एसो सयणाण मणोरहेहि समं ॥
 समयम्मि कलायरियस्स अप्पिओ कारिओ कला-गहणं ।
 सो तरुणि-नयण-छप्पय-कमलवणं जोव्वणं पत्तो ॥
 कणयावदाय-देहं निव्वत्तिय-तियस-तरुणि-संदेहं ।
 परिणाविओ गुरूहिं रूवमइं नाम इव्व-सुर्यं ॥
 तह वि कलव्भास-परो पसत्थ-सत्थत्थ-संथव-विहत्थो ।
 रमणीसु मणं पि मणं सुणि व्व न करेइ कयउच्चो ॥
 तो भणिओ भदाए सिट्ठी तह कुणसु मज्झ जह वच्छो ।
 सेवेइ विसय-सुक्खं अह बुत्तं सेट्ठिणा एवं ॥
 आहार-भय-परिग्गह-भेड्डण-सन्नाओ अणुवदिट्ठाओ ।
 गिण्हंति सव्व-सत्ता सुद्धे ! किं तदुवएसेण ॥
 पुणरुत्तं भदाए भणिज्जमाणेण सिट्ठिणा पुत्तो ।
 विसयासत्ति-निमित्तं खित्तो दुल्ललिय-गोटीए ॥

सो तेहिँ सह भमंतो देवउलाराम-पमुह-ठाणेसु ।
 काम-घरिणी-सरिच्छं कामलयं पिच्छए गणियं ॥
 किं एसा तियस-वहू स-कोव-सुर-नाह-साव-पवढ्हा ।
 पत्ता मणुस्स-लोयं ति चितए जाव कयउन्नो ॥
 अब्भुद्धिऊण भणिओ सो तीए कमल-मणहर-मुहीए ।
 काऊण पसायमलंकरेसु चलणेहिँ मह गेहं ॥
 तं सोउं मुद्ध-मणो कामलयाए गिहं पविट्ठो सो ।
 तीए कला-कुसलाए विविह-विणोएहि अक्खित्तो ॥

पवत्तो तीए सह भोगे भुंजिउं । सिद्धिणो कहिऊण वुत्तंतं गया स-द्वारं
 मित्ता । सिद्धिणा भणिओ भंडारिओ, जं किंचि मग्गए दव्वं मे वच्छो तं तए
 पेसियव्वं । अक्काए वि कयउन्नय-कराओ गहििया नाम-मुद्दा । तं अप्पिऊण
 चेडीए आणावए अक्का भंडारिय-पासाओ मणोरहाइरित्तं वित्तं । सुह-सागरा-
 वगाढस्स वीसरिय-सयण-सिणेहस्स तस्स अइक्कंता वारस वरिसा । मया माया-
 पियरो । अणायगो विणट्ठो विहवो । तहावि संवच्छरं जाव संवाहियं सेवागरणं
 रुववईए । अन्नदियहे पेसियं तीए नियाभरणेहिँ सह पुन्न-वत्तयं । झीणो विहवो
 त्ति लक्खिअं अक्काए । पडिपेसियं आहरणेहिँ सह दीणार-सहस्सं । अन्न-दिणे
 अक्काए भणिया कामलया, घोय-कुंसुंभ-सरिसो कओ एसो । ता किं इण्हि
 अणेण ? तीए वुत्तं म मा एवं भण । दिन्नं इमिणा मणोरहाइरित्तं वित्तं ।
 अक्काए वुत्तं—

जं दिन्नं तं गहियं इण्हिं से नत्थि तेण नीणेसो ।
 अम्ह इमो कुलधम्मो तं वच्छे ! मा अइक्कमसु ॥
 कामलयाए वुत्तं अम्मो ! अम्हाण एस कुल-धम्मो ।
 गणियाण पहाणाण उ अईव लज्जाकरं एयं ॥
 अन्नं च पुणो दाही एसो चिय चित्तियं धणं समए ।
 ता दुद्ध-चित्तिएणं अयस-निमित्तेण अलमिमिणा ॥

एयं सोऊण ठिया तुण्हिका अक्का । चित्तियं अणाए, अच्चंत-रत्ता इमंमि
 मे धूया । ता परिहवज्जओ एसो, जेण सयंचिय वच्चइ । पारद्धो पराभवो ।
 लक्खिओ कयउन्नेण निग्गओ तग्गेहाओ । आगओ स-गिहं । दिट्ठं तं सडिय-
 पडियं । पुच्छिया रुववई किमेयं ति ? । साहिओ तीए सब्बो वुत्तंतो ।
 सोगाउन्नो कयउन्नो जंपिउं पवत्तो—

जो पिय-पियामह-प्पसुह-पुन्व-पुरिसेहिं संचिओ विहवो ।
 अहह ! मए सो मेहु व्व पवल-पवणेण निट्ठविओ ॥
 जेसि मणोरहेहिं तह ओवाइय-सएहि जाओम्हि ।
 जणणि-जणयाण तेसिं मरणं पि मए न विन्नायं ॥
 संत-जण-वज्जणिज्जं धम्मत्थ-पणासणं अकित्ति-करं ।
 काउं वेसा-वसणं मए कुलं कल्लसियं निययं ॥
 हा ! जाओम्हि किमत्थं गन्म-गओ वि हु अहं न किं गलिओ ? ।
 जो अकय-पुत्त-कज्जो एवं गणिया-गिहे वसिओ ॥
 धणवंतो त्ति पिया मे आसी सव्वत्थ माणणिज्जो जो ।
 तस्स सुओऽहं अघणो दंसिस्सं कह जणस्स मुहं ॥
 एवं संतप्पंतो पियाए सो जंपिओ चयसु खेयं ।
 तइं पिय ! अक्खय-देहे सव्वं लट्ठं पुण वि होही ॥

ठिओ कह वि दियहे कयउत्तो तत्थ । जाया आवन्न-सत्ता रूववई ।
 भणिया अणेण, पिए ! चंचा-पुरिसो व्व अकय-पुरिसत्थो अत्थ-हीणो नरो न
 रेहए । ता देसंतरं गंतूण करेमि घणज्जणं । रूववईए वुत्तं तुमं जाणसि । पयट्ठो
 तदियहमेव तामलित्तिं सत्थो । तेण सह पत्थिओ कयउत्तो । वुत्थो देवउले
 महिलोवणीय-सिज्जाए । इओ य तत्थ इन्म-पुत्तो परिणिज्जण इन्मदारियं
 अकय-विसय-संगो चेव पर-तीर-गमणुज्जए मए पिउम्मि गओ घणोवज्जणत्थं
 परतीरं । भवियव्वया-वसेण विवन्नं जाणवत्तं । मओ सो तत्थ । जाणियमिणं
 जणणीए चित्तियं अणाए—उवट्ठिओ कुलक्खओ । किमित्थ जुत्तं । खित्तज-
 सुएणावि कुलं वट्ठउ त्ति सुव्वए सत्थ-वयणं । ता आणेमि कंचि बहुगाए
 उच्चियं पुरिसं । न मम वयणं लंघइ त्ति जाणाविया बहुगा । गया एसा पुरिसं
 निरूविउं । दिट्ठो देवउले पसुत्तो भवियव्वया-वसेण कयउत्तो । नेयाविओ
 गिहं । मुक्को वासहरे, विउद्धो समए, साहिओ वुत्तंतो थेरीए । परित्थि-संगो
 परलोय-विरुद्धो त्ति नाणुमओ कयउत्तस्स । उच्चिओ एस त्ति परितुट्ठा सा
 अकय-पुरिस-संगा बहुग त्ति साहियं रहस्सं । अत्थि पुणभू-कप्पो त्ति विवा-
 हिया पच्छन्नं । अइकंता बारस वरिसा, थेरीए चित्तियं—

जाया वट्ठइ पुत्ता अलमिमिणा संपयं परिठवेमि ।

निप्पत्ते सयले करिसणम्मि को हालियं धरइ ॥

थेरीह कया कयउन्नयस्स अद्धाण-कप्प-संजत्ती ।
 लक्खियमिणं वड्डए इमंमि निब्भर-सिणेहाए ॥
 तो संबलस्स मज्झे वहुगाए रयण-मोयगा छ्वा ।
 सुह-सुत्तो उक्खिविउं सो मुक्को तंमि देवउले ॥
 तम्मि दिणे सो सत्थो समागओ कम्म-धम्म-जोगेण ।
 बुत्तंतमिमं मुण्डं संपत्ता तत्थ से घरिणी ॥
 दिट्ठो तीह विउद्धो सो सत्थाओ त्ति हरिसिया एसा ।
 वेत्तूण संबलं भारियाए निय-मंदिंरं नीओ ॥
 पुत्तो पिउस्स पाएसु पाडिओ मोयगो य से दिट्ठो ।
 तं खायंतेणं तेणं तस्स मज्झे मणी दिट्ठो ॥
 सो तेण लड्डुयारस्स अप्पिओ देसु लड्डुए निचं ।
 इय भणिउं भज्जाए मोयगे भिदमाणीए ॥
 दिट्ठाणि पवर-रयणाणि तेसु अह पुच्छिओ पई एयं ।
 कि इत्तियाणि एयाणि ? इत्तियाणि त्ति तेणुत्तं ॥

तओ गरुय-सिणेह त्ति सुसरिया पुणब्भू । कओ रयणाण विणिओगो
 वित्थरिओ विहवो । अन्नया रन्नो सेणियस्स सेयणग-इत्थी गहिओ तंतुगेण ।
 जलकंतेण मुच्चइ त्ति भणियं अभयेण, जो तं जलकंतं समप्पइ तस्स राया निय-
 धूर्यं देइ त्ति भसाडिओ पडहो । आणिओ सो लड्डुयारेण । खित्तो जले । तस्सा-
 लोएण थलं ति मन्नंतो पणट्ठो तंतुगो । उच्चट्ठिओ लड्डुयारो राय-कन्ना विवाहत्थं,
 लज्जिओ राया । किमित्थ जुत्तं ति पुच्छिओ अभओ । अभएण भणियं, नाध-
 न्नस्स रयणाणि त्ति मूल-सुद्धी किज्जड । रन्ना पुच्छिओ लड्डुयारो, कुओ ते रयण-
 मेयं ? निब्बंवे तेण कहियं, कयउन्न-पुत्तेण मे अप्पियं ति । जुज्जइ इमं ति वुत्तूण
 रन्ना दिन्ना कन्ना कयउन्नस्स । वत्तो महाविच्छडेण विवाहो । अभएण सह
 संपन्ना पीई । भणिओ अभओ कयाइ कयउन्नेण—भो ! बुद्धिमंतो तुमं, अत्थि
 य ममेत्थ पुणब्भू महिला दुवे दारया य, ता तं लहाहि । अभएण भणियं—
 एवं । कारियं नगर-वाहिं देवउलं, तत्थ कया कयउन्न-सरिसी जक्ख-पडिमा ।
 घोसावियं नगरे—पुज्जेह चित्तियत्थ-संपाडण-दक्खं जक्खं त्ति । निग्गओ
 लोगो तप्पूरणत्थं । दु-दुवारं च तं देवउलं । एगेण पविसइ लोगो, अन्नेण नीह-
 रइ । गवक्ख-गओ अभएण सह ठिओ कयउन्नो । आगया तत्थ दारगेहिं सह

पुणन्मू । तं ददूण कयउन्नोण भणियो अभओ, एसा सा मे महिला । अभएण
 वुत्तं किं इमं लद्धरिं ददूण भणसि एवं । कयउन्नोण वुत्तं—जइ न पत्तियसि ता
 पेच्छसु । पिउ त्ति चड्डिया उच्छंगे जक्खस्स दारगा । कयउन्नो त्ति मन्नंतीए
 तीएय चंदोदए ससुहु व्व ससुल्लसिओ हरिसो । सुरूगमे कमलाइं व वियसि-
 थाइं लोयणाइं । घणागमे कयंब-कुसुमं व ससुग्घुसियं सरिरं । पओसे गयणं व
 तारएहिं मंडियं निडालं सेय-जल-विंदूहिं । पवण-संसग्गे वण-लयाए व्व
 सव्वंगं वियंभियो कपो । निच्चलत्तणओ तं जक्खो त्ति जाणिकण जंपिंडं
 पवत्ता पुणन्मू ।

पिय-रूवं जक्ख ! पयासिकण आणंदियमिह ताव तए ।
 जइ कुणसि चित्तिर्यं ता दंससु तं मज्झ पच्चक्खं ॥
 तो पुञ्जिकण जक्खं पच्छिम-दारेण जाव नीहरइ ।
 ता नियइ गघक्ख-गयं कयउन्नयं हरिस-पडिपुत्तं ॥
 तेहिं चेव पएहिं सा चिद्धइ तो भणेइ कयउन्नो ।
 एहि मयच्छि ! किमज्जावि विलंबसे सा गया पासे ॥
 अह पत्ता कामलया जक्खं ददूण विमिहया भणइ ।
 जाया वारस-वरिसा मह पिययम-विरह-विहुराए ॥
 भरणम्मि शुवो विरहो जीवंताणं तु घइइ जोगो वि ।
 इय चित्तिरं ठियाहं पइव्वयाए वयं वित्तुं ॥
 अज्ज रथणी-विरामे दिट्ठो पिय-मेलगो मए सुविणो ।
 मह आगच्छंतीए जाया सुह-सूयगा सवणा ॥
 तह वामा अच्छि-सुया फुरंति ता मज्झ अज्ज पिय-जोगो ।
 तुह जक्ख ! पसाएणं नूणं होहि त्ति तक्केमि ॥
 तइ पिय-सरिसे दिट्ठे हरिसो जो मज्झ सो भविस्संतं ।
 पिययम-जोगं सुरूगमं व अरुणोदओ कहइ ॥
 तो पणमिकण जक्खं पच्छिम-दारेण नीहरंती सा ।
 पेच्छइ अभएण समं महुणा मयणं व कयउन्नं ॥
 तो हरिस-निवभराओ बुद्धि वि कयउन्नएण नीयाओ ।
 निय-मंदिरम्मि ताओ नियनिय-धरसार-जुत्ताओ ॥
 इय चउहिं सह पियाहिं तिक्क-सारं सुहं अणुहवंतो ।

सो पुत्र-भव-भासेण दाण-धम्मज्जुओ बाढं ॥
 अभएण चित्तिमिणं एसो धम्मस्स निच्छयं जुगो ।
 जम्हा कहिज्जमाणं अभिनंदइ भयवओ वयणं ॥
 अह पत्तो वीरजिणो सहिओ चउदसहिं मुणि-सहस्सेहिं ।
 परियरिओ अज्जाणं छत्तीसाए सहस्सेहिं ॥
 चउविह-देवेहिं कयं साल-त्तयं सुंदरं समोसरणं ।
 तत्थ निविट्ठो भयवं वागरइ चउच्चिहं धम्मं ॥
 अह पुच्छइ कयउत्तो भयवं ! भोगाण अंतरं मज्झ ।
 जायं केण निमित्तेण वज्जरइ जिणवरो एवं ॥
 पुत्र-भवे तिहिं भागेहिं पायसं साहुणो तए दिन्नं ।
 एएण कारणेणं भोगाण तुहंतरं जायं ॥
 संभरिउं पुत्र-भवं कयउत्तो विन्नवेइ संविग्गो ।
 पुत्रं खु मंद-सत्तेण दाणमेवं मए दिन्नं ॥
 संपइ पुण दह-सत्तो होउं वज्जेमि सब्बमवि संगं ।
 भणइ जिणो जुत्तमिणं मणुयस्स विवेग-जुत्तस्स ॥
 अह विहिय-उचिय-किच्चो पडिवज्जइ संजमं जिण-सयासे ।
 कय-तिव्व-तवच्चरणो वच्चइ कयउत्तओ सगं ॥
 इति सान्तरदाने कृतपुण्यकथा ।

एवं सोउं मुणि-दाण-धम्म-माहप्पसुल्लवइ राया ।
 भयवं ! गिणहइ मह वत्थ-पत्त-भत्ताइयं भिक्खं ॥
 तो वज्जरइ मुणिदो इमं महाराय ! राय-पिंडो त्ति ।
 भरहस्स व तुह भिक्खा न गिण्हिउं कप्पइ जईणं ॥
 रत्ता भणियं भयवं ! को सो भरहो पयंपिओ तुमए ? ।
 गुरुणा जुत्तं नरवर ! कहेमि जइ कोउगं तुज्झ ॥
 इह आसि रिसह-सामी नीइ-कला-सिप्प-देसओ पढमो ।
 राया पढमो ओसप्पिणीइ पढमो य तित्थयरो ॥
 कुमरत्तणंमि गमिउं जिण-नाहो वीस-पुत्र-लक्खाइं ।
 परिवाल्लिज्जण रज्जं पुत्राण तिसट्ठि-लक्खाइं ॥
 अहिसिचिज्जण रज्जे कोसल-देसे अउज्झ-नयरीए ।

जेठं पुत्तं भरहं सुमंगला-देवि-अंगरुहं ॥
 तक्कसिलाइ पुरीए वहली-विसयावर्यंस-भूयाए ।
 रज्जंमि सुनंदा-नंदणं च ठविऊण बाहुबलिं ॥
 बंगंग-भगह-कुंकण-कुणाल-कुंतल-अवंति-पमुहाण ।
 सेस-सुयाणं दाऊण सेस-देसाण सामित्तं ॥
 सुरकय-निकलमण-महो चउहिं सहस्सेहिं सह नरिंदाणं ।
 सामन्नं पडिवन्नो छट्ट-त्तवेणं रिसह-सामी ॥
 बाहुबलि-पुत्त-सोमप्पहस्स पुत्तेण वरिस-पज्जंते ।
 सेज्जंसेणिककुरसं दाउं पाराविओ भयवं ॥
 सामी पवन्न-भोणो बहु-विह-देसेसु दंसणेणावि ।
 संजणइ भइगतं अणारियाणं पि विहरंतो ॥
 सो वरिस-सहस्संते वड-विडवि-त्तलंमि पुरिमताल-पुरे ।
 खविय-घणघाइ-कम्मो उप्पाडइ केवलं नाणं ॥
 अह आसण-कंपाओ मुणिकण जिणिंद-केवलुप्पत्तिं ।
 निय-निय-परिवार-जुया सुरेसरा आगया सब्बे ॥
 चहु-विह-देवेहिं कयं साल-त्तय-सुंदरं समोसरणं ।
 भावारिवार-विहुरिय-जगत्तय-त्ताण-डुगं व ॥
 तत्थ निसन्नो सामी उदय-गिरिंदे रवि व्व पुव्व-मुहो ।
 पडिबिंवाइ सुरेहिं कयाइं सेसासु तिसु दिसिसु ॥
 महि-निहिय-निडाल-यला नमिऊण जिणं पराह भत्तीए ।
 सब्बे सुर-नर-निवहा निय-निय-ट्ठाणेसु उवविट्ठा ॥
 एत्थंतरंमि पत्ता पडिहार-निवेइया दुवे पुरिसा ।
 जमग-समगाभिहाणा भरह-नरिंदस्स पासंमि ॥
 जमगेण जंपियं पुरिमताल-पुर-काणणंमि सगड-मुहे ।
 लोयालोय-पयासं पहुणो नाणं समुप्पन्नं ॥
 समगेण पुणो भणियं छक्खंड-भही-पसाहण-सहायं ।
 संपइ आउह-सालाइ चक्क-रयणं समुप्पन्नं ॥
 पसरंत पमोय-भरो भरहो थितइ करेमि किं पूयं ।
 तायस्स साहु-सारस्स चक्क-रयणस्स वा पहमं ॥
 अह फुरियं हियए तस्स कत्थ मुवणाभयंकरो ताओ ।

कथं च चक्रं संहार-कारणं पाणि-चक्रस्स ॥
 धिद्धी ! मए अजुत्तं विमरिसियं अहह ! मोह-विवसोऽहं ।
 जं कप्प-हुम-धत्तूरयाण चित्तेमि तुल्लत्तं ॥
 एवं फुरिय-विवेगो करिम्मि आरोविऊण मरुदेविं ।
 चलिओ चउरंग-वलोह-रूढ-विस्संभरो भरहो ॥
 अह भरहो मरुदेविं जंपइ द्दुं समोसरण-रिद्धिं ।
 अम्मो ! तए रुयंतीइ जंपियं मह पुरो एवं ॥
 मह पुत्तो रज्ज-सुहं तणं व मुत्तुं अकिंचणो जाओ ।
 सीउणह-वाय-तणहा-छुहा-हओ भमइ एगागी ॥
 बुत्ता मए पुण तुमं मणं पि मा अंय ! खेयमुच्चहसु ।
 अन्नस्स तारिसी नहि सुयस्स ते जारिसी रिद्धी ॥
 आसी न पच्चओ ते मह वयणे अंय ! एत्तियं कालं ।
 संपइ पेच्छ सुरेहिं चिहियं पड्डणो समोसरणं ॥
 पड्ड-वंदणागयाणं सुच्चइ तियसाण जयजयारावो ।
 पेच्छ सुरा पड्ड-पुरओ धुणंति नच्चंति गायंति ॥
 जा देवीए जाया नीली नयणेसु सामि-सोएण ।
 सा भरह-वयण-सवणे आणंद-जलेण अवणीया ॥
 ता पेच्छइ मरुदेवी सुयस्स तित्थयर-रिद्धिसुद्धामं ।
 तदंसण-हरिस-वसेण झत्ति सा तम्मया जाया ॥
 तत्तो अउच्च-करण-कमेण सा खवग-सेणिमारूढा ।
 कम्माहं अट्ट जुगवं निट्टविडं केवलं लहइ ॥
 सा करि-बंध-गय च्चिय सिद्धा अंतगड-केवली जाया ।
 तदेहमच्चिऊणं खित्तं तियसेहिं खीरोए ॥
 हरिस-विसाएहिं जुओ अब्भच्छायायवेहिं सरओ व्व ।
 भरहो विमुक्क-पत्थिव-चिंधो पविसइ समोसरणे ॥
 चउ-विह-सुर-परियरियं ति-पयाहिण-पुव्वयं जिणं नमिडं ।
 निय-ठाणंमि निविट्टो भरहो पड्ड-देसणं सुणइ ॥
 दुल्लहमिणं मणुयत्तं विवाग-डुक्खावहं विसय-सुक्खं ।
 जीयं चलं च सुणिडं सुणि-धम्मं कुणह मुक्ख-कए ॥
 तं सोडं पड्डिवज्जंति संजमं उसभसेण-पमुहाणं ।

पुत्ताणं पंचसयाहं सत्त नत्तुय-सयाहं च ॥
 बंभी-पमुहाओ साहुणीओ तह सावया भरह-पमुहा ।
 सुंदरि-पमुहाओ सावियाओ विहिया जिणिंदेण ॥
 तो चउरासीईए साहणं उसभसेण-पमुहाणं ।
 कहइ पहू लप्पाओ वओ धुवत्तं च तत्तं ति ॥
 तिन्नि-पयाहं लह्दिऊण ते वि चिरयंति बारसंगाहं ।
 ते चुन्न-खेव-पुव्वं भयवं गणहर-पए ठवइ ॥
 पुण वि पहू सिंहासणमारुहिउं ताण देइ अणुसट्ठिं ।
 पहु-देसणाइ अवही पडिपुन्ना पोरिसी ताव ॥
 तो आढय-प्पमाणो अखंड-कलम-कण-निस्मिओ विमलो ।
 सुर-खित्त-सुरहि-वासो निवेसिओ मणिमए थाले ॥
 घण-त्तूर-रवाऊरिय-दियंतरो तरुण-पुरिस-उक्खित्तो ।
 पविसेइ बली भरहेण कारिओ पुव्व-दारेण ॥
 दाउं पयाहिणं सो खित्तो पुरओ पहुस्स तिक्खुत्तो ।
 तस्सद्धं संगहियं तियसेहिं नहंगणे चेव ॥
 अद्धद्धं धरणि-गर्यं भरहो गिण्हेइ सैसमियर-जणो ।
 लोयस्स सब्ब-रोगा पसमंति बलि-प्पभावेण ॥
 अह उट्टिऊण भयवं उत्तर-दारेण निग्गओ तत्तो ।
 वीसमइ देवउंदे सुवन्न-पायार-भज्झ-गए ॥
 तो कहइ उसभसेणो घम्मं पहु-पायवीढ-विणिविट्ठो ।
 तम्मि कहणाउ विरए निय-निय-ठाणे जणा जंति ॥
 अह भविय-वग्ग-पडिबोहणत्थमन्नत्थ विहरिओ भयवं ।
 मोह-त्तमोह-निरोहं सहस्सरस्सि व्व कुणमाणो ॥
 भरहो गंतूण गिहं चक्कं पूएइ तं पि निक्खमइ ।
 पुव्वाभिमुहं चिद्धइ दिणे दिणे जोयणं गंतुं ॥
 चक्काणुमग्ग-लग्गो चउरंग-बलेण वचए चक्की ।
 साहइ सयलं भरहं वास-सहस्सेहिं सट्ठीए ॥
 पत्तो स-गिहं भरहो तणुयंगिं गिंम-काल-सरियं व ।
 दहूण सुंदरिं रोस-परवसो पुच्छए पुरिसे ॥
 किं मज्झ नत्थि अज्जवि जं एसा दुब्बला मिलाण-मुही ।

पुरिसा भणंति—देवस्स अत्थि सक्कस्स व समग्गं ॥
 नवरं विसय-विरत्ता पट्टु-पासे आइमे समोसरणे ।
 पव्वज्जं गिण्हंती देवेण निवारिया एसा ॥
 तप्पभिइ कुणइ आयंबिलाइं भरहेण पुच्छिया तत्तो ।
 दिक्खं घेत्तुं वंछसि तुमं ति ?, एवं ति सा भणइ ॥
 भरहेण अणुत्ताया सा दिक्खं गिण्हए पट्टु-समीवे ।
 तत्तो सहोयराणं दूया भरहेण पट्टविद्या ॥
 जइ रज्जं काडमणा तुब्भे ता कुणइ भरह-पय-सेवं ।
 एवं भणिया दूएहिं ते वि मिलिऊण मंतंति ॥
 अम्हाणं भरहस्स य रज्जं ताएण विभइडं दिन्नं ।
 भरहो पुण दप्प-वसा अम्हे कारवइ निय-सेवं ॥
 ता किं तं सेवामो किं वा जुद्धेण तं निराकरिमो ।
 इय पुच्छिऊण सामिं जं जुत्तं तं करीहामो ॥
 इत्थंतरंमि सामी अट्टावय-पव्वए समोसरिओ ।
 गंतूण इमे तं पणमिऊण पुच्छंति पुव्वुत्तं ॥
 भयवं जंपइ सेवइ एकं सिव-सुक्ख-साहगं धम्मं ।
 इंदिय-सुइडे तइलुक्क-दुज्जए जिणइ जुज्जेण ॥
 किं च पुरा न नियत्ता जा तणहा तुम्ह तियस-सुक्खेहिं ।
 अंगार-कारगस्स व नियत्तिही नर-सुइेहिं न सा ॥
 अंगार-कएऽरत्ते कोवि गओ सलिल-दिइ-पुडं घेत्तुं ।
 अंगारानल-तवणायवेहिं से वड्डिया तणहा ॥
 सो पियइ दिइ-पुड-जलं सव्वं तेण वि अतुट्ट-तणहो सी ।
 सुत्तो सुविणे गिह-गय-गगगरि-नंदा-जलं पियइ ॥
 तो वावी-कूव-तडाग-सरि-समुद्धान पाणियं पाउं ।
 निट्टवइ सो समग्गं तइ वि न से तुट्टए तणहा ॥
 तो मरु-कूवे पत्तो तण-पूलं रज्जुबद्धमंबु-कए ।
 सो खिवइ कड्डिउं तं निच्चोयइ दूर-गलिय-जलं ॥
 सरि-सायर-पमुद्दाणं विडलेहिं जलेहिं जा न हु नियत्ता ।
 सा किं पूल-जलेणं तुच्छेण नियत्तए तणहा ॥

तह तुम्ह सुर-सुहेहिं अच्छिन्ना छिज्जिही न रज्जेण ।
 अक्खय-सुक्ख-निमित्तं ता जुज्झइ संजमो कावं ॥
 इय धम्म-देसणं ते सुणिऊण समुल्लसंत-संवेगा ।
 गिण्हंति पडु-समीवे अट्टाणवई वि पव्वज्जं ॥
 तं ददूण चमक्खिय-मणेहिं दूएहिं कहिय-वुत्ततो ।
 भरहो तेसिं पुत्ते निवेसए तेसु रज्जेसु ॥
 भरहो सहा-निसन्नो सुसेण-सेणाहिवेण विन्नत्तो ।
 जिणिउं पि दिसा-चक्कं चक्कं पविसइ न देव ! पुरिं ॥
 भरहो जंपइ अज्ज वि अणिज्जिओ अत्थि को वि किं वीरो ।
 भणइ अमच्चो तुमए न को वि अजिओ जए अत्थि ॥
 किं तु कणिट्ठो भाया तुज्झ सुणंदाइ नंदणो अत्थि ।
 बाहुबलि त्ति पसिद्धो विवक्ख-बल-दलण-चाहु-बलो ॥
 तुमए अणिज्जिओ सो तेण न पविसइ पुरीइ चक्कमिणं ।
 ता ह्कारण-हेउं पेसिज्जउ झत्ति से दूओ ॥
 भत्तो व अभत्तो वा सो तुम्हं देव ! नज्जए जेण ।
 तत्तो सुवेग-नामा दूओ भरहेण पडुविओ ॥
 गंतूण तेण वयणेहिं कोमलेहिं च निट्टुरेहिं च ।
 चिर-दंसणूसुय-मणं पेच्छसु भरहं ति संलत्तो ॥
 दूय-वयणं न मन्नइ बाहुबली पबल-बाहु-बल-दप्पो ।
 तं विग्गहिउं भरहो चलिओ चउरंग-बल-कलिओ ॥
 तं सोउं बाहुबली वि पत्थिओ पत्थिवोह-परियरिओ ।
 मिलिया विमुक्क-मेरा ते पुव्वावर-समुद व्व ॥
 सुर-सिद्ध-जक्ख-विज्जाहरेहिं रुद्धं नहंगणं सयलं ।
 जायं जयं स-कंपं अकाल-कप्पंत-संकाए ॥
 तं असमंजसमालोइऊण तियसेहिं दो वि संलत्ता ।
 तिहुयण-पडुणो रिसहस्स नंदणा उत्तमा तुम्हे ॥
 ता उत्तमेण जुज्झइ जुद्धेण जण-खयं कुणह किमिमं ।
 पर-उवयार-परो चिय जम्हा गरुयाण आरंभो ॥
 तत्तो सुर-वयणाओ उत्तम-जुद्धेण दोवि जुज्झंति ।
 तियसा तह रायाणो ताण ठिया सक्खिणो सव्वे ॥

तेसिं जुज्झंताणं दिट्ठि-गिरा-बाहु-मुट्ठी-लट्ठीहिं ।
 पबलेण बाहुबलिणा सव्वत्थ वि जिप्पए भरहो ॥
 भरहो विसन्न-चित्तो किमहं चक्की नव त्ति चित्तेइ ।
 तो फुरिय-किरण-चक्कं भरहस्स करे चडइ चक्कं ॥
 बाहुबलिस्स वहत्यं तं सो मिल्हइ पयाहिणं दाउं ।
 चडइ पुण भरह-हत्थे चक्कं पहवइ न हि सगोत्ते ॥
 अह बाहुबली बुल्लइ अणेण चक्केण तुज्झ को दप्पो ।
 सबलं सचक्कमेक्को अहं तुमं चूरिउं सक्को ॥
 किं तु विसएहिं कज्जं न मज्झ जेसिं कए मम पहन्नं ।
 लुंपसि तुमं विमूढो तेण उ मह बंधवा धन्ना ॥
 जे वज्जिऊण रज्जं पडिवन्ना ताय-मग्गमिय भणिउं ।
 उक्खणइ केस-पासं तणं व अह चित्तए एवं ॥
 किं जामि सामि-पासं अहवा पुव्वं पवन्न-दिक्खाण ।
 लहु-बंधवाण मज्झे मज्झ लहुत्तं धुवं होही ॥
 तत्तो लहिऊण इहेव केवलं पायमुक्खणिस्सामि ।
 इय चित्तिय पडिवन्नो पडिमं तत्थेव बाहुबली ॥
 अजिओ तुमं अहं पुण जिओ न एक्केण केवलं तुमए ।
 किं तु कसाएहिं वि जो करेमि जुळं विसय-गिद्धो ॥
 इय जंपंतो तं पणमिऊण भरहो निवेसए रज्जे ।
 तस्स सुर्यं सोमपहं पच्छा गच्छइ निय-पुरीए ॥
 सीउणह-वुट्ठि-पवण-प्पमुहं दुसहं दुहं वि सहमाणो ।
 तत्थेव निराहारो बाहुबली वच्छरं गमइ ॥
 अह बंभी-सुंदरि-साहुणीओ पहु-पेसियाओ बाहुबलिं ।
 करि-खंधारूढाणं न होइ नाणं ति जंपंति ॥
 तं सोउं सो चित्तइ माणो हत्थी अहं तमारूढो ।
 तं सुत्तं पहु-पासे जामि त्ति तओ चलइ जाव ॥
 ता तुट्ट-घाइ-कम्मस्स जायए तस्स केवलं नाणं ।
 गंतुं सो पहु-पासे केवलि-परिसाइ विणिचिट्ठो ॥
 अह अन्न-दिणे भयवं अट्ठावय-पव्वए समोसरिओ ।
 भरहो गुरु-रिद्धीए पहु-नमणत्थं गओ तत्थ ॥

सो पणमिऊण सामिं कयंजली धम्म-देसणं सुणह ।
 धम्म-कहा-पज्जते गहिय-वए बंधवे दहं ॥
 स-विसाय-मणो चिंतह धेत्तूण मए इमाण रजाहं ।
 किं साहियं हहा ! मे विसयामिस-लालसा-बुद्धी ॥
 बंधूहिं विणा भोए भुंजंतोहं धुवं गरहणिज्जो ।
 हक्कारिऊण काए काओ वि हू भक्खए भक्खं ॥
 जह पुण मह पुत्तेहिं एए भोए पुणो वि गिणहंति ।
 तो भरहो पट्ट-पासे भोगेहिं निमंतए बंधू ॥
 भणह पट्ट पुहवीसर ! सरलोसि सहोयरा इमे तुज्झ ।
 मुत्तूण सयं भोए पुण वि किमिच्छंति वंतं व ॥
 पंचहिं सगड-सएहिं भरहो आणाविऊण आहारं ।
 पुण वि निमंतह सब्बे वि साहुणो, तो भणह भयवं ॥
 आहाकस्मियमिणमाहडं च कप्पह नरिंद ! न सुणीणं ।
 पुणरवि अकय-अकारिय-असणेण निमंतए भरहो ॥
 भणह भयवं न कप्पह इमं पि साहुण राय-पिंडो त्ति ।
 इय पट्टणा पडिसिद्धो भरहो जाओ विलक्ख-मणो ॥
 उवलक्खिडं विलक्खं भरहं पुच्छह सुरेसरो सामिं ।
 पसिऊण कहसु भयवं ! अवग्गहो कइविहो होइ ॥
 तो कहह तित्थ-नाहो अवग्गहो पंचहा हवइ सक्क ! ।
 सुरवह-चक्कि-निवा-गारि-साहु-संबंधि-भेएहिं ॥
 हरिणा वुत्तं सुणिणो विहरंति अवग्गहंमि जे मज्झ ।
 जिणनाह ! अणुत्ताओ मए नियावग्गहो तेसिं ॥
 चिंतेह चक्कवट्ठी जह वि न गहियं सुणीहिं मह किं पि ।
 तह वि हू होमि कयत्थो निययमवग्गहमणुत्तविडं ॥
 तो पट्ट-पुरओ सको व्व कुणह चक्की अवग्गहाणुत्तं ।
 पुच्छह हरिं किमिमिणा कायव्वं भोयणेण मए ? ॥
 अह वागरियं हरिणा गुणुत्तराणं तुमं इमं देहि ।
 चिंतह चक्की गिहिणो गुणुत्तरा सावया मज्झ ॥
 दायव्वमिणं तेसिं ति निच्छिडं सावगे भणह चक्की ।
 मह मंदिरंमि तुब्बे निरंतरं भोयणं कुणह ॥

करिसण-वणिज्ज-पमुहं मुंचह निचं करेह सज्झायं ।
 पढह अउच्चं नाणं चिट्ठह घम्मेक्क-कय-चित्ता ॥
 वज्जरह मज्झ पुरओ जिओ तुमं वट्टए भयं जम्हा ।
 तम्हा माहण माहण तह चेव कुणंति ते सब्बं ॥
 तव्वयणं सुणित्तं सो चित्तेह जिओ अहं कसाएहिं ।
 तेहिं तो मज्झ भयं माहणित्तं पाणिणो तत्तो ॥
 हा ! पावोहं विसएहिं मोहिओ इय खणं सुहं ज्ञाणं ।
 होइ भरहस्स पच्छा पुणो वि सो सज्जए रज्जे ॥
 अह विन्नवंति भरहं सूआरा नज्जए नहि विसेसो ।
 सावग-असावगाणं कुणह परिक्खं भणह भरहो ॥
 ते वि हु विहिय-परिक्खे चक्कहरो कागिणीए लंछेइ ।
 एए रयण-त्तय-भूसिय त्ति रेहात्तिगं काउं ॥
 छट्ठे छट्ठे मासे परिक्खिया कागिणीह कय-चिंधा ।
 भुंजंति, तथा माहण-भणणाओ माहणा जाया ॥
 इय गुरु-वागरियं भरह-चरियमायत्तिउं कुणह राया ।
 जइ मह भिक्खा न सुणीण कप्पए राय-पिंडो त्ति ॥
 तत्तो भरहो व्व अहं पि भोयणं सावगाण विथरेमि ।
 गुरुणा वुत्तं जुत्तं अणुसरित्तं उत्तम-चरित्तं ॥
 अह कारावइ राया कण-कोट्टागार-घय-धरोवेयं ।
 सत्तागारं गरुयाइ भूसियं भोयण-सहाए ॥
 तस्सासन्ने रत्ता कारविया विथड-तुंग-वरसाला ।
 जिण-धम्म-हत्थि-साला पोसह-साला अइविसाला ॥
 तत्थ सिरिमाल-कुल-नह-निसि-नाहो नेमिणाग-अंगरुहो ।
 अभयकुमारो सेट्ठी कओ अहिट्ठायणो रत्ता ॥
 इत्थंतरंमि कवि-चक्कवट्ठि-सिरिवाल-रोहण-भवेण ।
 बुहयण-चूडामणिणा पर्यपियं सिद्धवालेण ॥
 देव-गुरु-पूयण-परो परोवयारुज्जओ दया-पवरो ।
 दक्खो दक्खिन्न-निही सब्बो सरलासओ एसो ॥

किञ्च—

क्षिप्वा तोयनिधिस्तले मणिगणं रत्नोत्करं रोहणो

रेणवावृत्य सुवर्णमात्मनि दृढं बद्ध्वा सुवर्णाचलः ।
 क्षमामध्ये च घनं निधाय घनदो विभ्यत्परेऽयः स्थितः
 किं स्यात्तैः कृपणैः समोऽयमखिलार्थिः यः स्वमर्थं ददत् ॥
 ता जुतं देव ! कथं तुमए जं इत्थ घम्म-ठाणंमि ।
 अभयकुमारो सेट्ठी एसो सध्वेसरो विहिओ ॥
 घय-कूर-भुग्ग-भंडग-वंजण-वडयाइ-कय-चमक्कारं ।
 सक्कार-पुव्वगं सावयाण सो भोयणं वेइ ॥
 वत्थाइं पसत्थाइं कुट्टं-ब-नित्थारणत्थमत्थं च ।
 एवं सत्तागारं कथं नरिं देण जिण-धम्ममे ॥
 इति सत्रागारवक्तव्यतायां भरत-कथा ।

इय जीव-दया-हेउं संसार-समुद्द-संतरण-सेउं ।
 दाणं मोक्ख-निदाणं कहिऊण गुरु भणइ एवं ॥
 जीव-दयं काउमणो मणुओ सीलं नरिंद ! पालिज्ज ।
 जम्हा जिणेहिं भणिओ मेहुण-सन्नाइ जीव-वहो ॥
 रमणीण संगमे होइ मेहुणं तं घणं विणा न हवे ।
 होइ घणं आरंभाओ तत्थ पुण नत्थि जीव-दया ॥
 अगणिय-कळाकळा निरग्गला गलिय-उभय-लोय-भया ।
 मेहुण-पसत्त-चित्ता किं पावं जं न कुव्वं ति ॥
 जलणो वि जलं जलही वि गोपयं पव्वओ वि सम-भूमी ।
 सुयगो वि होइ माला विसं पि अमयं सुसीलाण ॥
 आणं ताण कुणंति जोडिय-करा दास व्व सब्बे सुरा
 मायंगाहि-जलग्गि-सीह-पसुहा वटंति ताणं वसे ।
 हुज्जा ताण कुओ वि नो परिभवो सग्गापवग्ग-सिरी
 ताणं पाणि-तलं उवेइ विमलं सीलं न लुं पंति जे ॥
 विप्फुरइ ताण किन्ती लहंति ते सग्ग-मोक्ख-सुक्खाइं ।
 सीलं ससंक-विमलं जे सीलवइ व्व पालंति ॥
 तं जहा—

इत्थेव जंबुदीवे भारह-वासंमि वासवपुरं व ।
 कय-विबुह-जणाणंदं नंदणपुरमत्थि वर-नयरं ॥

पडिहय-पडिवक्ख-बलो हरि व्व अरि-महणो तर्हि राया ।
 गुण-रयण-निही रयणायरु त्ति सिट्ठी तर्हि अत्थि ॥
 तस्स सिरीनाम-पिया रूव-गुणेणं सिरि व्व पच्चक्खा ।
 तीए न अत्थि पुत्तो तेण दढं तम्मए सेट्ठी ॥

अन्नया भणिओ भज्जाए—अज्जउत्त ! अत्थि इत्येव नयरुज्जाणे अजिय-
 जिणिंद-मंदिर-दुवार-देसे अजियबला देवया अपुत्ताण पुत्तं, अवित्ताण वित्तं,
 अरज्जाण रज्जं, अविज्जाण विज्जं, असुक्खाण सुक्खं, अचक्खूण चक्खुं, सरो-
 याणरोय-क्खयं देइ एसा । कयं सेट्ठिणा तीए ओवाइयं । कमेण जाओ पुत्तो ।
 तस्स त्थं 'अजियसेणो' त्ति नामं । जाओ जिणधर गुज्जुओ सिट्ठी । जणय-
 मणोरइहिं सह वड्ढिओ अजियसेणो । सिवि लय-कला-कलावो लावन्न-
 लच्छि-ज्जं पवन्नो तारुन्नं । तस्स य सयल-जणभहिए रूवाइ-गुणे पिच्छिऊण
 चित्तिर्यं सेट्ठिणा—जइ एस मह नंदणो निय-गुणाणुरुवं कलत्तं न लहइ ता
 इमस्स अकयत्था गुणा ।

जओ—

सारी अविसेसन्नू अविणीओ परियणो पर-वसत्तं ।

भज्ज य अणणुरुवा चत्तारि मणस्स सल्लाइं ॥

इत्थंतरे अगओ एगो वाणिउत्तो । पणमिऊण सिट्ठिं निविट्ठो समीवे ।
 पुट्ठो य सेट्ठिणा व्वहार-सरुवं । कहियं तेण सव्वं । अन्नं च, तुहाएसेण गओहं
 कयंगलाए नयरीए । जाओ मे जिणदत्त-सिट्ठिणा समं ववहारो । निमंतिओ
 उहं तेण भोयणत्थं दिट्ठा मए तग्गिहे चंदकंतेणं वयणेणं पओमराएहिं हत्थ-
 पाएहिं पवाल्लेणं अहंसां दिप्पमाणेहिं रयणेहिं रयएणं नियंवेणं सुवत्तेणं अंगेणं
 मयण-महाराय-भंडार-जूस व्व संचारिणी एगा कन्नगा । पुट्ठो मए सिट्ठी का
 एस त्ति । सिट्ठिणा वुत्तभइ ! मह धूया-मिसेण मुत्तिमई एसा चिंता ।

जओ—

किं लट्ठं लहिही पं पिययमं किं तस्स संपज्जिही

किं लोयं ससुरइयं निय-गुण-ग्गामेण रंजिस्सए ।

किं सीलं परिपालिह पसविही किं पुत्तमेवं धुवं

चिंता मुत्तिमई फिण भवणे संवट्टए कन्नगा ॥

एसा य सरीर-सुंदरिम-दाय-देव-रमणी-महप्पा अणप्प-गुण-सोहिया
 हियाहिय-वियार-कुसला सलाहा ज्ज-सीला सीलमइ त्ति गुण-निप्पन्न नामा

बालत्तणओ वि पुच्च-कय-सुकय-वसेण सडण-रुय-पज्जंताहिं कलाहिं सहीहिं व पडिवन्ना। इमीए अणुरुवं वरं अलहंतस्स मे अब्बंतं चिंता। अबो मए एसा वि चिंतं त्ति बुत्ता। मए भणियं सिद्धिं! मा संतप्प, अत्थि नंदणपुरे रयणायर-सिद्धिणो विसिद्ध-रूवाइ-गुणो, पुत्तो अजियसेणो सो तुह धूआए अणुरुवो वरो त्ति। जिणदत्तेण बुत्तं भइ! तुमए मे महंत-चिंता-समुइ-भग्गस्स पवर-वरो-वएस-बोहित्थेण नित्यारो कओ त्ति भणिकण तेण अजियसेणस्स सीलमई दाउं पेसिओ जिणसेहरो निय-पुत्तो मए समं। सो इहागओ चिद्धइ। ता जहा जुत्तमाइसड सिद्धी। जुत्तं कयं तुमए त्ति भणिकण हक्काराविओ जिणसेहरो सिद्धिणा। सगोरवं दिन्ना तेण अजियसेणस्स सीलमई। अजियसेणेणावि. तणेव सह गंतूण कयंगलाए परिणीया सीलमई। चित्तूण तं आगओ स-नयरं अजियसेणो। मुंजए भोए। अन्नया मज्झ-रत्ते घडं चित्तूण गिहाओ निग्गया सीलमई। कित्थिय-वेलाए आगया दिद्धा समुरेण। चित्थियं नूणं एस कुसील त्ति गोसे गहिणी-समक्खं बुत्तो पुत्तो वत्थ! तुहेसा घरिणी कुसीला, जओ अज्ज मज्झ-रत्ते निग्गंतूण कत्थवि गया आसि, ता एसा न जुज्जइ गिहे घरिउं।

जओ—

घण-रस-वसओ उम्मग्ग-गामिणी भग्ग-गुण-कुमा कइसा।

महिला दो वि कुलाइं कूलाइं नइ व्व पाडेइ ॥

ता पराणेमि एयं पिइ-हरं। पुत्तेण बुत्तं—ताय ! नं जुत्तं तं करेसु।

भणिया बहुया—भदे! आगओ 'सीलवइं सीगयं पेसिज्जु' त्ति तुह जणय-संदेसओ। ता चलसु जेण तुमं सयं पराणेमि। सा रि 'रयणि-निग्गमणेण ममं कुसीलं संकमाणो एवमाइसइ समुरो, पिच्छामि ताव एयं पिग्गि चित्थि-ऊण चलिया रहारूढेण सिद्धिणा समं। वच्चंतो स्ठी पत्तो नइं। सेद्धिणा बुत्ता वइ—पाणहाओ मुत्तूण नइं ओयरसु। तीए नशुक्काओ ताओ। सेद्धिणा चित्थियं अविणीय त्ति। अग्गओ दिद्धं पढम-वत्तापइं अच्चंत-फलियं मुग्ग-खेत्तं। सेद्धिणा भणियं—अहो! सुफलियं मुग्ग-खेत्तं। सब्ब-संपया खेत्त-सामिणो। तीए भणियं एवमेयं, जइ न खइं ५। सेद्धिणा चित्थियं अक्खयं पेक्खंती वि खइं त्ति अक्खइ। अओ असंब-प्पलाविणी एसा। गओ एगं समिद्ध-पमुइय-जण-संकुलं नगरं। सेद्धिणा भणियं अहो! रम्मत्तणं इमस्स। तीए भणियं जइ न उच्चसं त्ति। सेद्धिण चित्थियं उल्लंठ-भासिणी इमा।

अगगओ गच्छंतेण सेट्टिणा दिट्ठो पस्सुवाणेग-प्पहारो पहरण-करो कुल-पुत्तओ ।
 सेट्टिणा बुत्तं—अहो ! सूरु एस पुरिसो । बहूए बुत्तं अत्थि ताव कुट्ठिओ ।
 सेट्टिणा चित्थियं किं न सूरु जो सत्थेहिं कुट्ठिज्जइ, परं अजुत्त-जंपिरी इमा ।
 गओ अगगओ नग्गोह-तले वीसंतो सेट्टी । बहू उण नग्गोह-च्छायं छड्ढिऊण
 ठिया दूरे । सेट्टिणा भणियं अच्छसु छायाए, न तत्थ ठिया । सेट्टिणा
 चित्थियं सव्वहा विवरीय त्ति । पत्तो गाममेक्कं । बहूए बुत्तो सेट्टी, एत्थ अत्थि
 मे माउल्लगो तं जाव पेच्छामि ताव तुम्भे पडिवालेह त्ति गया सा मज्झे ।
 दिट्ठा माउल्लगेण ससंभमं भणिया वच्छे ! कत्थ पत्थियासि ? । तीए भणियं—
 ससुरेण सह पिइहरं पत्थियमिह । तेण भणियं कत्थ ते ससुरो ? । तीए बुत्तं
 बाहिं चिट्ठइ । गंतूण, माउल्लेण हक्कारिओ सायरं सेट्टी । सकसाउ त्ति अणि-
 च्छंतो वि नीओ निब्बंघेण गेहं । भोयणं काऊण आगओ बाहिं । मज्झणह-
 समओ त्ति वीसमिओ रह्भंतरे । सीलमई वि निसन्ना रह-च्छायाए । एत्थं-
 तरे करीर-त्थंबावलंबी पुणो पुणो वासए वायसो । भणियं अणाए—अरे !
 काय ! किं न थक्कसि करयरंतो ।

एक्के दुन्नय जे कया तेहिं नीहरिय घरस्स ।

बीजा दुन्नय जइ करुवं तो न मिलुवं पियरस्स ॥

सुयमिणं सेट्टिणा भणिया सा—वच्छे ! किमेवं जंगसि ? बहूए भणियं
 न किंचि । सेट्टिणा भणियं—कहं न किंचि । वायसमुद्धिसिऊण ‘एक्के दुन्नय’
 त्ति जं पढियं तं साहिप्पायं । बहूए बुत्तं—जह एवं ता सुणेउ ताओ ।

सोरब्भ-गुणेणं छेय-घरिसणाईणि चंदणं लहह ।

राग-गुणेणं पावइ खंडण-कढणाइं मंजिटा ॥

एवं ममावि शुणो सत्तू संजाओ । जओ—सयल-कला-सिरोमणि-भूर्यं
 सउण-रूर्यं अहं सुणेमि । तओ अहंक्कंत-दिण-रयणीए सिवाए वासंतीए
 साहियं, जहा—नईए पूरेण बुब्भमाणं मडयं कड्ढिऊण सयं आहरणाणि
 गिण्हसु । मम भक्खं तं खिवसु । इमं सोऊण गयाहं वेत्तूण घडगं । तं हियए
 दाऊण पविट्ठा नइं । कड्ढियं मडयं । गहियाणि आभरणाणि । खित्तं सिंबं
 सिवाए । आगया अहं गिहं । आभरणाणि घडए खिविऊण निखियाणि खोणीए
 एवं एक्क-दुन्नयस्स पभावेण पत्ता एत्थियं भूमिं । संपयं तु वासंतो वायसो
 कहइ, जहा—एयस्स करीर-त्थंबस्स हेट्ठा दस-सुवण्ण-लक्ख-प्पमाणं निहाण-
 मत्थि तं वेत्तूण मम करंबयं देसु त्ति । इमं सोऊण सहसा उट्ठिओ सेट्टी

भणह—वच्छे ! सबमेयं ? बहूए जंपियं—किं अलियं जंपिज्जए ताय-पायाणं पुरओ । अहवा हत्थत्थे कंकणे किं दप्पणेणं ति निहालेउ ताओ । तओ तत्थेव ठिओ सेट्ठी गहियं निहाणं रयणीए । अहो ! सुत्तिमंती इमा लच्छि त्ति जाय बहु-माणो वहुं रहे आरोविऊण नियत्तो सेट्ठी । पत्तो नग्गोहं । पुच्छए वहुं—किं न तुमं इमस्स छायाए ठिया ? बहूए अक्खियं—एव ख-भूले अहि-दंसाह-भयं, चिरासणे चोराह-भयं, हेट्ठओ काग-जगाह-विट्ठा-पडण-भयं, दूर-ट्टियाणं तु न सब्वमेयं । पुणो पुट्ठं सेट्ठिणा सूरमुद्दिस्स—अत्थि ताव कुट्ठिओ त्ति तए जंपियस्स को परमत्थो ? तीए वुत्तं—नहि कुट्ठिओ त्ति सूरु, किंतु पढमं जो न पहरइ । नगरं दहूण सेट्ठिणा वुत्तं—कहमेयमुव्वसं ? तीए वुत्तं—जत्थ नत्थि सयणो सागय-पडिवत्ति-कारओ तं कहं वसिमं । खेत्तं दहूण सेट्ठिणा पुट्ठं—कहमेयं खद्धं ति ? तीए वुत्तं—ववहरगाओ दव्वं बुट्ठीए कहिऊण खेत्त-सामिणा खद्धं ति खद्धं । नइं दहूण भणियं सेट्ठिणा—किं तए नईए पाणहाओ न मुक्काओ ? तीए जंपियं—जल-मज्झे कीड-कंटगाह न दीसइ त्ति । पत्तो गिहं सेट्ठी । दंसियाइं तीए महि-निहिताहरणाइं । तुट्ठेण सेट्ठिणा भज्जाए सुयस्स सब्वं कहिऊण कया सा घर-सामिणी ।

अह जीवियस्स तरलत्तणेण पंचत्तमुवगओ सेट्ठी ।

निहणं गया सहयरी सिरी वि छाय व्व तव्विरहे ॥

अजियसेणो वि जिण-धम्म-परो कालं बोलेइ । अन्नया अरिमहण-नरिंदो एगूण-पंच-सयाणं मंतीणं पह्हाणं मंतिं मग्गेमाणो नायरए पत्तेयं पुच्छइ—भो ! भो ! जो मं पाएज पह्णइ तस्स किं कीरइ ? ते वि अविन्नाय-परमत्था जंपंति—देव ! किमन्नं आरोरो निग्गहो कीरइ । पुच्छिओ अजियसेणो । तेण वुत्तं—परिभाविऊण कहिस्सं । गिहागएण पुच्छिया तस्सुत्तरं सीलवई । तीए चउव्विह-बुद्धि-जुत्ताए जंपियं जहा—तस्स महंतो सक्कारो कीरइ । भत्तुणा भणियं—कहमेयं ? तीए वुत्तं—वल्लहाए विणा नत्थि अन्नस्स रायाणं पाएण पह्णेमि त्ति चित्तिं पि जोग्गया, किं पुण पह्णिउं । तओ गओ सो राय-सहाए, कहियं पुव्वुत्तं । तुट्ठो राया । कओ अणेण सब्व-मंतीण सिरोमणी सो । अन्नया रत्तो विउत्थिओ सीहरहो पचंतो राया । तस्सोवारिं चलंत-मय-गल-मय-जलासार-सित्त-महि-यलो तरल-तुरय-खुरूक्खय-खोणि-रेणु-घण-पडल-पूरिय-नहंगणो संचरंत-रह-घवल-धयवडाया-वलाय-पंति-मणोहरो गहि-खज्जिराउज्ज-गज्जि-जज्जरिय-वंमंड-भंडोचरो नव-पाउसु व्व चलिओ राया ।

अजियसेणो वि दिट्ठो सीलमईए चिंताउरो । पुच्छिओ चिंताए कारणं ।
तेण वुत्तं—गंतव्वं मए रत्ता समं । तुमं वेत्तूण वच्चंतस्स मे गिहं सुन्नं । तहा
जह वि तुमं अक्खलिय-सीला तहवि एगागिणीं गिहे सुत्तूण वच्चंतस्स मे न
मण-निव्वुई । अओ चिंताउरोम्हि । तीए वुत्तं—

जलणो वि होइ सिसिरो रवी वि उग्गमइ पच्छिम-दिसाए ।
मेरु-सिहरं पि कंपइ उच्छलइ धरणि-वीढं पि ॥
जायइ पवणो वि थिरो मिल्हइ जलही वि नियय-मज्जायं ।
तहवि मह सील-भंगं सक्को वि न सक्कए काउं ॥
तहवि तुमं मण-निव्वुइ-हेउं गिल्लसु इमं कुसुम-मालं ।
मह सील-पभावेणं अमिलाण च्चिय इमा ठाही ॥
जइ पुण मिलाइ तो सील-खंडणं निम्मियं ति जंपती ।
सा खिवइ निय-करेहिं पइणो कंठे कुसुम-मालं ॥
तो अजियसेण-भंती सीलमइं मंदिरंमि सुत्तूण ।
निव्वुय-चित्तो चलिओ सह अरिमइण-नरिदेण ॥
अणवरय-पयाणेहिं तस्मि पएसंमि नरवई पत्तो ।
जत्थ न हवंति कुसुमाइं जाइ-सयवत्तियाईणि ॥
दट्टूण कुसुम-मालं अमिलाणं अजियसेण-कंठंमि ।
तं भणइ निवो कत्तो तुह अमिलाणा कुसुम-माला ॥
अच्छरियमिणं गरुयं मए गवेसावियाइं सव्वत्थ ।
निय-पुरिसे पट्टविउं तहवि न पत्ताइं कुसुमाइं ॥
जंपइ मंती जह मह पियाइ पत्थाण-वासरे खित्ता ।
स च्चिय माला न मिलाइ तीइ सील-प्पभावेण ॥
तं सोउं नरनाहो विम्हिय-हियओ गए अजियसेणे ।
निय-नम्म-मंति-मण्डलमालवइ विद्यार-सारमिणं ॥
जं अजियसेण-सच्चिवेण जंपियं तं किमित्थ संभवइ ।
कामंक्कुरेण वुत्तं कत्तो सीलं महिलियाणं ॥
ललियंगएण भणियं सच्चं कामंक्कुरो भणइ एयं ।
रइ-केलिणा पलित्तं देवस्स किमित्थ संदेहो ॥
भणियमसोगेणं पट्टवेसु मं देव ! जेण सीलमइं ।
वियलिय-सीलं काउं देवस्स हरामि संदेहं ॥

तो नरवह्ना एसो आइटो अप्पिऊण बहु दब्बं ।
 पत्तो य नंदणपुरे सीलमईए गिहासन्ने ॥
 गिह्णइ गरुयं गेहं कंठ-पघोलंत-पंचसुग्गारो ।
 किन्नर-गीयाणुगुणं नायइ गीयं गवक्ख-गओ ॥
 पयडिय-उज्जल-वेसो पलोयए साणुराय-दिट्ठीए ।
 निच्चं पयासए चाय-भोय-दुल्लियमप्पाणं ॥
 एवं बहु-प्पयारे कुणइ वियारे इमो तओ एसा ।
 चिंतइ नूणं मह सील-खलणामिच्छइ इमो काउं ॥
 फणि-फण-रयणुक्खणणं व जलण-जालावली-कवलणं व ।
 केसरि-केसर-गहणं व दुक्करं तं न मुणइ जडो ॥

पिच्छामि ताव कोउगं ति विचिंतिऊण पयट्ठा तं पलोइउं । असोगो वि
 सिद्धं मे समीहियं ति मत्तंतो पट्टवेइ दूइं । भणिया तीए सीलमई—भदे ! कुसुमं
 व थेव-काल-मणहरं जुव्वणं । ता इमं विसय-सेवणेण सहलं काउं जुत्तं । भत्ता
 य तुह रत्ता समं गओ । एसो य सुहओ तुमं पत्थेइ । तीए चित्तियं सु-हओ
 त्ति सुह-हओ वराओ जो एरिसे पावे पयट्ठइ । दूईए भणियं ।

पसयच्छि ! पसीयसु भयण-जलण-जाला-कलाव-संतत्तं ।

निय-अंग-संगमामय-रसेण निव्ववसु मम गत्तं ॥

सीलमईए वुत्तं—जुत्तमिणं, किं तु पर-पुरिस-संगो ।

कुल-महिलाण अजुत्तो दब्ब-पसंगं व्व साहूणं ॥

नवरं इमो वि कीरइ जइ लब्भइ मगियं धणं कहवि ।

उच्चिट्ठं पि हु भत्तं भक्खिज्जइ नेह-लोहेण ॥

तीए वुत्तं—मग्गसि कित्तियमित्तं धणं तुमं भदे ! ।

सीलमई जंपइ अद्ध-लक्खमिहिं समप्पेउ ॥

गहिऊण अद्ध-लक्खं निसाइ पंचम-दिणे सयं एउ ।

जेण अपुव्वं वियरेमि रइ-सुहं तस्स सुहयस्स ॥

ए य कहियमेयं असोगस्स । तेणावि समप्पियं अद्ध-लक्खं । सीलम-
 झओयरए पच्छन्न-पुरिसेहिं खणाविया खड्डा । ठाविया तीए उवरि

अवुणिया खट्ठा । पंचम-दिण-रयणीए दाऊण अद्ध-लक्खं
 ह । निविट्ठो खट्ठाए । घस त्ति निवडिओ खड्डाए । सीलमई
 ने, दिणे दोर-बद्ध-सरावेण भोयणं देह । पुत्ते य मासे रत्ता

भणिया नम्म-मंतिणे—किं नागओ असोगो ? । तेहिं वुत्तं नयाणीयह कारणं । रइकेलिणा वुत्तं देह ममाएसं जेणाहं साहेमि सिग्घं चैव चिंति-यत्थं । रत्ता बहु-दब्बं अप्पिऊण विसज्जिओ सो । आगओ नयरं । सो वि लक्खं दाऊण तहेव निविट्ठो खड्दाए, पडिओ खड्दाए । एवं ललियंगय-कामंङ्कुरा वि लक्खं दाऊण पडिया खड्दाए । असोग-कमेण चैव स-सोगा चिट्ठंति । अरिमइण-नरिंदो वि वसीकाऊण सीहरहं समागओ निय-नयरं । भणिया सीलमई कामंङ्कुराईहिं—

जे अप्पणो परस्स य सत्तिं न मुणंति माणवा मूढा ।

वर-सीलवंति ! जं ते लहंति तं लद्धमग्घेहिं ॥

ता दिट्ठं तुह माहप्पं, सिट्ठा अग्घे । करोहिं पसायं । नीसारेहिं एक-वारं नरयाओ व्व विसमाओ इमाओ अगडाओ । तीए वुत्तं—एवं कारिस्सं, जइ मह वयणं करेह । तेहिं वुत्तं समाइससु जं कायव्वं । तीए वुत्तं—जयाऽहं एवं होउ त्ति भणेमि, तथा तुव्भेहिं पि एवं होउ त्ति वत्तव्वं । पडिवन्नमणेहिं । तीए वुत्तो मंती—निमंतेसु रायाणं । तेण तहेव कयं । आगओ राया । कया पडिवत्ती । तीए य पच्छन्नं कया भोयणाइ-सासग्गी । रत्ता चिंतियं—निमं-तिओऽहं ताव न दीसए भोयणोवक्कमो को वि । ता किमेयंति ? । तीए य खड्दाए काऊण कुसुमाईहिं पूयं, भणियं—भो ! भो ! जक्खा ! रसवई सव्वा वि होउ; तेहिं भणियं 'एवं होउ'त्ति । तओ आगया रसवई । रत्ता कयं भोयणं । तओ पुव्व-पडणी-कयाइं तंबोल-फुल्ल-विलेवण-वत्थाहरणाइं ताइं च चत्तारि लक्खाइं इच्चाइं सव्वं पि होउ त्ति तीए जंपिए खड्दागएहिं जंपियं 'एवं होउ'त्ति । सव्वं दुक्कं समप्पियं रत्तो । चिंतियं रत्ता—अहो ! अउव्वा सिद्धिं जं खड्दा-ससुट्ठिए वयणेणंतरमेव सव्वं संपज्जइ त्ति । विभिइय-मणेण पुट्ठा सीलमई—भदे ! किमेयमच्छेरयं ? तीए वुत्तं—देव ! मह सिद्धा चिट्ठंति चत्तारि जक्खा ते सव्वं संपाडंति । रत्ता वुत्तं—समप्पेहिं मे जक्खे । तीए वुत्तं देव ! गिण्हेसु । तुट्ठो राया गओ नियावासं । तीए वि ते चच्चिया चंदणेण, अच्चिया कुसुमेहिं, चउसु चुल्लगोसु चत्तारि वि खित्ता, सगडेसु आरोविऊण वज्जंतैहिं तूरेहिं नीया रायभवणं संझाए । पभाए य अज्ज जक्खा भोयणाइं दाहिंति त्ति निवारिया रत्ता सूयाराइणो । भोयण-समए य सयं कुसुमाईहिं पूइऊण चुल्लगाइं भणियं 'रसवई होउ' चुल्लग-गएहिं वुत्तं 'एवं होउ' त्ति जाव न किं पि होइ, रत्ता विलक्ख-वयणेण उग्घाडियाइं

शुल्लगाईं । दिट्टा छुहा-सुसियत्तणेण पणट्ट-मंस-सोणिया फुडोवलखिज्जमाण-
 अट्टि-संचया पयड-दीसंत-नसा-जाला गिरि-कंदर-सोयरोयरा खाम-कवोला
 मिलाण-लोयणा असंसत्त-सीय-वायत्तणेण विच्छाय-काय-च्छविणो विसन्न-
 चित्ता पयाव-वत्ता चत्तारि जणा । अहो ! न हुंति एए जक्खा, किं तु रक्खस
 त्ति भणंतो भणिओ अणेहिं राया—देव ! न जक्खा न रक्खसा अम्हे, किंतु
 कामंकराइणो तुह वयंसय त्ति जंपंता पडिया पाएसु । रत्ता वि सम्मं निरुवं-
 तेण उवलखिज्जण भणिया स-विम्हयं भद्दा ! कहं तुम्हाणमेरिसी अवत्था
 जाया । तेहिं पि कहिओ जहावित्तो वुत्तंतो । हक्कारिज्जण रत्ता—अहो ! ते
 बुद्धि-कोसल्लं, अहो ! ते सील-पालण-पयत्तो, अहो ! ते उभय-लोय-भयालो-
 यण-प्पहाणय त्ति सलाहिया सीलमई । वुत्तं च अमिलाण-कुसुम-माला-दंस-
 णेण पयडं पि ते सील-माहर्ष्यं असइहंतेण मए चेव इमे पट्टविया, ता न कायव्वो
 कोवो त्ति खमाविया । तीए वि धम्मं कहिज्जण पडिबोहिओ राया । राय-नम्म-
 सचिवा य कराविया सव्वे पर-दार-निवित्ति । रत्ता य सक्कारिया सीलमई ।
 गया सट्ठाणं । अन्नया आगओ गंध-गओ व्व कलहेहिं परिगओ समणेहिं
 चडनाणी दमघोसो आयरियो । गओ तस्स वंदणत्थं समं सीलमईए अजि-
 यसेणो । वंदिज्जण गुरुं निविट्ठो पुरओ । भणिया गुरुणा सीलमई—भद्दे !
 घत्ता तुमं पुव्व-भववभासाओ चेव ते सील-परिपालण-पयत्तो । मंतिणा
 वुत्तं—भयवं ! कहमेयं ति ? वागरियं गुरुणा—कुसमउरे नयरे कुसलाणुट्ठाण-
 लालसो पाव-कम्म-करणालसो सुलसो सावओ । तस्स सुजसा भज्जा ताण
 घरे पयइ-भद्दओ दुग्गओ कम्मयरो । दुग्गिला से घरिणी । कयाइ सुजसाए
 समं गया दुग्गिला साहुणीणं सयासं । कया सुजसाए तत्थ सवित्थरं पुत्थय-
 पूया पसत्थ-वत्थ-कुसुमाईहिं । वंदिया चंदणा पवत्तिणी । विहीयं उववास-पच्च-
 क्लानं । पणमिज्जण पुच्छिया दुग्गिलाए पवत्तिणी—भयवइ ! किमज्ज एवं ?
 भणियं भयवईए—अज्ज सिय-पंचमी सुय-तिहि त्ति सा जिण-मए सम-
 क्खाया । एयाइ नाण-पूया तवो य जह-सत्ति कायव्वो ।

इह पुत्थयाईं जे वत्थ-गंध-कुसुमुच्चएहिं अचंति ।

ढोरंति ताण पुरओ नेवज्जं दीवर्यं दिंति ॥

सत्तीए कुणंति तवं ते हुंति विसुद्ध-बुद्धि-संपन्ना ।

सोहग्गाइ-गुणद्धा सव्वज्जु-पर्यं च पावंति ॥

तो दुग्गिलाइ वुत्तं घत्ता मह सामिणी इमा सुजसा ।

अत्थि तवे सामत्थं जीए घम्मत्थमत्थो य ॥
 अम्हारिसो उण जणो अधणो तव-करण-सत्ति-रहिओ य ।
 किं कुणउ मंदभग्गो पवत्तिणीए तओ भणियं ॥
 सत्तीए चाग-तवो करेसु सीलं तु अप्प-वसमेयं ।
 पर-नर-निवित्ति-रूवं जावज्जीवं तुमं धरसु ॥
 अट्ठमि-चउइसीसु य तिहीसु तह निय-पहं पि वज्जिज्जा ।
 एयं कर्यमि भदे ! तुमं पि पाविहिसि कल्लाणं ॥
 पडिच्चन्नमिमं तीए मन्नंतीए कयत्थमप्पाणं ।
 गेहं गयाइ कहियं निय-पहणो सो वि तं सोडं ॥
 तुट्ठ-मणो बहु मन्नइ तए फलं जीवियस्स पत्तं ति ।
 भणइ य अओ परमहं काहं पर-दार-परिहारं ॥
 पव्व-तिहिंसु इमासु य विरइस्सं निय-कलत्त-नियमं पि ।
 इय कय-नियमेहिं कमेण तेहि पत्तं च सम्मत्तं ॥
 अह दुग्गिला विसेसुल्लसंत-सद्धा सयं तवं काडं ।
 पूएइ पुत्थएसु य तिहीसु तदियह वित्तीए ॥
 कालेण दो वि मरिडं सोहम्मे सुर-वरत्तणं लहिडं ।
 चइज्जण दुग्ग-जीवो जाओसि तुमं अजियसेणो ॥
 एसा य दुग्गिला तुह सीलमई भारिया समुपत्ता ।
 नाणाराहण-वसओ विसिट्ठ-मइ-भायणं जाया ॥
 तो जाय-जाईसरणेहिं तेहिं भणियं सुणिंद ! जं तुमए ।
 अक्खायं तं सच्चं तो एवं वागरइ गुरु ॥
 जइ देसओ वि परिवालियस्स सीलस्स फलमिणं पत्तं ।
 ता कुणह पयत्तं सव्वओ वि परिपालणे तस्स ॥
 तं सव्व-संग-परिहाररूव-दिक्खाइ होइ गहणेण ।
 तेहिं भणियं पसायं काडं तं देहि अम्हाणं ॥
 तो दिक्खियाइं दुन्नि वि गुरुणा संवेग-परिगय-मणाइं ।
 पालंति जावजीवं अकलंकं सव्वओ सीलं ॥
 मरिज्जण बंभलोयं गयाइं भुत्तूण तत्थ दिव्व-सुहं ।
 तत्तो चुयाइं दुन्नि वि निव्वाण-पयंमि पत्ताइं ॥

इति शीले शीलमती-कथा ।

सील-रयणं महर्घं रक्खेज्ज मियावइ व्व बुद्धीए ।
पज्जोओ व्व अक्किंति सील-विहणो लहइ जम्हा ॥

तं जहा—

अत्थि पुरं साकेयं संकेय-निकेयणं व लच्छीणं ।
कमलच्छीणं थण-मंडलेसु कर-पीडणं जत्थ ॥
जक्खो सुरप्पिओ तत्थ अत्थि तं चित्तिज्जण पइ वरिसं ।
किज्जइ महूसवो सो वि चित्तगं हणइ चित्तयरं ॥
अह जइ नो चित्तिज्जइ तो कुब्बो सो पुरे कुणइ मारिं ।
तो भीया चित्तयरा आढत्ता नासिडं सव्वे ॥
तं नाडं चित्तयरा कया नरिंदेण संकला-वद्धा ।
तन्नामाइं वडे पत्तएसु लिहिज्जण छुद्दाइं ॥
नीहरइ जस्स नामं पइवरिसं तेण चित्थियव्वो सो ।
एवं वच्चइ कालो अह कोसंवीए निक्खंतो ॥
चित्तयर-दारओ तत्थ आगओ चित्त-सिक्खण-निमित्तं ।
सो य द्विओ एककाए गेहे चित्तयर-थेरीए ॥
जाया तप्पुत्तेणं सह मेत्ती तत्थ तम्मि वरिसंमि ।
थेरी सुयस्स नामं विणिग्गयं तो रुयइ थेरी ॥
किं रोयसि ति इयरेण पुच्छिया कहइ जक्ख-वुत्तंतं ।
निय-पुत्त-वारयं तह पाहुणओ भणइ मा रुयसु ॥
चिट्ठउ तुह पुत्तो जक्खमेयमहमेव चित्तइस्सामि ।
थेरी जंपइ मह वच्छ ! नंदणो होसि किं न तुमं ॥
चित्तेमि तहवि जक्खं अच्छओ मह बंधवो सुहेणं ति ।
वोत्तूण कुणइ छट्ठं सो पहाओ चंदण-विलित्तो ॥
सुइ-वत्थ-नियत्थंगो अइ-गुण-पडंचलेण बद्ध-सुहो ।
नव-वन्नएहिं नव-कुच्चएहिं सो चित्तए जक्खं ॥
नभिज्जण पंजली सो जंपइ निग्गह-अणुग्गह-समत्थ ! ।
खमसु सुर-प्पिय भयवं ! अवरद्धं जं मए किं पि ॥
इय भत्तीए तुट्ठो जक्खो जंपइ वरं वरसु भइ ! ।
सो भणइ जक्ख ! तुट्ठोसि जइ तुमं ता परं एत्तो ॥
तुमए विणासियव्वो न को वि, जक्खो परंपए एवं

सिद्धमिणं अविणासाओ तुञ्ज ता मग्ग तुममवरं ॥
 सो जंपइ जइ एवं दु-पयस्स चउ-प्ययस्स वा जस्स ।
 वत्थाइ-पिहिय-देहस्स एग-देसं पि पिच्छामि ॥
 सयलं पि तयणुसारेण तस्स रुवं जहद्वियं लिहिउं ।
 होज्जा मह सामत्थं भणइ सुरो होउ एवं ति ॥
 लोएहिं पूइओ सो परोवयारीण होइ जइ पूया ।
 तं किं चोज्जं अह सो कोसंबीए पुरीइ गओ ॥
 तत्थ सयाणीय-निवो कयाइ सामंत-मंति-परियरिओ ।
 निय-रिद्धि-गब्बिओ सो सहानिसन्नो भणइ दूर्यं ॥
 मम किं न अत्थि जं अत्थि अन्न-निवईण तो भणइ दूओ ।
 चित्त-सहा अत्थि न ते, चित्तयरा तेण आणत्ता ॥
 चित्तेह सहं तं ते चित्तयरा विभइऊण चित्तं ति ।
 सो चित्तयरो चित्तइ पएसमंतेउरासन्नं ॥
 सो चित्तंतो जालंतरेण माणिकक-भूसण-सणाहं ।
 पेच्छइ पायंगुट्टं मिगावईए य देवीए ॥
 मुण्डं मिगावइं तं अणुमाणेणं इमो तओ तीए ।
 रुवं जहद्वियं आलिहेइ जक्ख-प्पभावेण ॥
 नेत्तुम्मीलण-समए मसि-बिंदू तत्थ ऊरु-सूलंमि ।
 पडिओ अणेण फुसिओ पडिओ सो पुणो फुसिओ ॥
 पुण पडियं तं दट्ठं चित्तयरो चित्तए धुवं अत्थि ।
 लंछणमित्थ पएसे इमीइ ता होउ इह बिंदू ॥
 निम्माया चित्त-सहा राया तहंसणत्थमणुपत्तो ।
 तं पेच्छंतो कमसो मिगावईए नियइ रुवं ॥
 ऊरुंमि मसी-बिंदुं दट्ठं रुद्धो विचित्तए एवं ।
 पावेण नृणमिभिणा मम पत्ती धरिसिया एसा ॥
 कहमन्नह एस मसं देवीए मुणइ वत्थ-मज्झत्थं ।
 तो तलवरस्स रत्ता समप्पिओ निग्गहत्थमिमो ॥
 चित्तयरेहिं नरिंदो विन्नत्तो देव ! एग-देसं पि ।
 दट्ठं जक्ख-पसाया लिहइ इमो सयलमालेक्खं ॥
 तस्स परिक्खा-करणाय दंसियं खुज्जिया-मुहं रत्ता ।

तेणावि तीए ख्वं जहद्वियं सब्वमालिहियं ॥
 छिंदाविओ निवेणं कोव-वसा तहवि तस्स संदंसो ।
 चंड-पर्यईण जम्हा न निप्फलो होइ संरंभो ॥
 तेणावि पुणो सो च्चिय कओववासेण सेविओ जक्खो ।
 वाम-करेण करिस्ससि तहेव च्चित्तं ति तेणुत्तं ॥
 एवं लद्ध-वरो सो फुरंत-रोसो विचित्तए च्चित्ते ।
 रत्ता लहाविओहं एयमवत्थं निरवराहो ॥
 तो विप्पियं करिस्सं इमस्स केणावि अहमुवाएण ।
 बुद्धीइ तं खु धीरा कुणंति जं विक्कमा सज्झं ॥
 तो अहरिय-रइख्वं फलए लिहिंढं मिगावइं देविं ।
 सो उज्जेणी-पहुणो पज्जोय-निवस्स दंसेइ ॥
 तं ददुं पज्जोओ जंपइ पज्जुन्न-वाण-हय-चित्तो ।
 च्चित्तयर ! तुज्झ नूणं विन्नाणमिणं न उण विहिणो ।
 न महीइ दिट्ठ-पुव्वं सुय-पुव्वं वा न देवलोए वि ।
 ता तुमए ख्वमिणं कह पडिधिबं विणा लिहियं ? ॥
 अह अत्थि कत्थ वि इमा कहेसु ता झत्ति जेण गिह्णामि ।
 न परो इमीइ उचिओ मणिणो कणगं व मं मुत्तुं ॥
 तुट्ठ-मणो च्चित्तयरो कहइ सयाणीय-निवइणो ।
 एसा मियंक-वयणा मिगावई नाम मिग-नयणा ॥
 निउणो पयावइ च्चिय अदिट्ठ-पुव्वा कया इमा जेण ।
 न उण अहं जेण ददं ददुं पि न सम्ममालिहिया ॥
 अह जंपइ पज्जोओ जिणिउण रणे मए सयाणीयं ।
 घेत्तव्वा धुवमेसा किंतु इमा राय-नीइ त्ति ॥
 पेसेमि साम-पुव्वं दूर्यं एईए मग्गणत्थमहं ।
 जो मरइ गुलेण वि तस्स को विसं देइ मइमंतो ॥
 तो वज्जजंघ-दूर्यं सिक्खविउं पट्टवेइ पज्जोओ ।
 गंतूण सयाणीयं सो एवं भणिउमाढत्तो ॥
 आणवइ महाराओ तुमं सयाणीय ! चंडपज्जोओ ।
 दिव्व-वसा खल्लु देवी मियावई पाविया तु मए ॥
 थी-रयणमिणं जुगं मम चेव न तुज्झ तुच्छ-पर्यइस्स ।

ता मञ्जु समप्पसु सिग्घमेव जइ जीविडं महसि ॥
 तो भणइ सयाणीओ दुरप्प रे दूय ! तुह पइ मूढो ।
 पर-महिलमहिलसंतो नालोयइ उभय-लोय-भयं ॥
 जइ सो रागंध-मणो तुमं पि जाणसि न किं अजुत्तमिणं ।
 ता दूओ त्ति अवज्झो मह दिट्ठि-पहाउ ओसरसु ॥
 एवं सयाणिएणं दूओ निवभच्छिऊण निच्छूढो ।
 पत्तो उज्जेणीए पज्जोय-निवस्स तं कहइ ॥
 अह कुविओ पज्जोओ चउरंग-बलेहिं रुद्ध-महि-वीढो ।
 चलिओ कोसवीए जलहिं व्व विमुक्क-मज्जाओ ॥
 तं सोऊण उचितं गरुडं भुयगो व्व संखुहिय-हियओ ।
 तिब्वातिसार-वसओ निहणं पत्तो सयाणीओ ॥
 तव्विरह-विहुर-हियया मियावई चित्तिडं समाढत्ता ।
 हा हा ! अहं अहन्ना सिरोमणी मंद-भग्गाणं ॥
 नमिर-निव-चक्क-चूला-चुंविध-चलणास्स अज्जउत्तस्स ।
 जा गुण-गणेक्क-निहिणो निहण-निमित्तं अहं जाया ॥
 हा सीलं रक्खिस्सं कहमिणिंहं जं पई विवन्नो मे ।
 उदयण-नामो वि इमो पुत्तो बालो त्ति अप्प-बलो ॥
 बलिणो सेवा जुत्ता न वरं थी-लंपडस्स एयस्स ।
 सा मह कुणइ कलंकं ता इह काउं कवडमुच्चियं ॥
 तो अणुकूल-गिराहिं अहं इहत्थावि तं पलोभेडं ।
 असुहस्स काल-हरणं खमं त्ति समयं पडिक्खामि ॥
 इय चित्तिऊण तीए सिक्खविडं तस्स पेसिओ दूओ ।
 गंतूण तेण भणिओ कडय-गओ चंडपज्जोओ ॥
 जंपइ मियावई तुमममरत्तं उवगए सयाणीए ।
 तुममेव मञ्जु सरणं किं तु सुओ मे अपत्त-बलो ॥
 तं पुण मए चिसुक्कं पबंत्त-निवा पराभविस्संति ।
 तं सुणिऊण पहिड्डो पज्जोय-निवो भणइ एवं ॥
 मह रक्खगे मिगावह-पुत्तं सक्केज्ज को पराभविडं ।
 तो दूएणं भणियं देवीइ इमं पि संलत्तं ॥
 अत्थि इमं किं तु तुमं दूरे पासम्मि सीम-भूवइणो ।

ता ओसहीओँ हिमपन्वयंमि उस्सीसए सप्पो ॥
 जह निव्विग्घं वंछसि मह जोगं ता करेसु नर-नाह ! ।
 उज्जेणि-इट्टगाहिं कोसंबि-पुरीह पायारं ॥
 तं सोडं पज्जोओ दोण्हवि नयरीण अंतरालंमि ।
 निय-निय-परिवार-जुए ठावेह चउहस-नरिदे ॥
 पुरिस-परंपरणं उज्जेणी-इट्टगाओँ आणेडं ।
 एसो कोसंबीए पायारं दहयरं कुणई ॥
 अह ! दूय-मुहेण मियावईह भणिओ पुणो वि पज्जोओ ।
 धण-धन्न-तणार्हीहिं पूरेसु पुरिं इमं सयलं ॥
 सव्वं झत्ति तह चिय तुट्ट-मणो कारवेइ पज्जोओ ।
 आसा-परव्वसाणं न दुक्करं कि पि पुरिसाणं ॥
 रोह-खमं निय-नयारिं नाऊण मियावई मह-प्पचरा ।
 वप्पंमि भडे ठविडं दाराइं ढक्किडं च ठिया ॥
 तो पज्जोय-नरिंदो सव्वत्तो रुंभिऊण कोसंबि ।
 तरु-साहा-जुक्को मक्कडो व्व थक्को विलक्ख-मणो ॥
 अह ! अन्न-दिणे चित्तह मियावई विप्फुरंत-वेरग्गा ।
 धन्ना ते पुर-गामा विहरह वीरो जिणो जत्थ ॥
 जह एत्थ एह भयवं तत्तोहं संजमं पवज्जामि ।
 इय तीह मणं सुणिडं समागओ तत्थ वीर-जिणो ॥
 सोऊण समोसरिडं वीर-जिणिंदं मियावई देवी ।
 उग्घाडिऊण दाराइं निब्भया निग्गया वार्हि ॥
 पसमिय-समत्त-वेरं वीरं सा वंदिऊण विणिविट्ठा ।
 आगंतुं पज्जोओ नमिऊण जिणं तह निसज्जो ॥
 धम्मं कहेह भयवं सोडं सव्वन्नुमागयं इक्को ।
 घणु-बाण-करो पुरिसो मणेण पुच्छेइ संदेहं ॥
 भणिओ जिणेण एसो वयणेणं भइ ! संसयं पुच्छ ।
 सोऊण जेण एयं लहंति अत्ते वि पडिबोहं ॥
 इय जंपिओ वि पट्टणा लज्जाए वुत्तुमक्खमो पयडं ।
 भयवं जा सा सा स त्ति भणइ थेवक्खरं पुरिसो ॥
 एवं इमं ति वुत्तं जिणेण, पुच्छेइ गोयमो सामि ।

भयवं ! जा सा सा स त्ति भासियं भयवया किमिमं ? ॥
 तो कहइ वीर-नाहो इहेव भरहे पुरीए चंपाए ।
 आसी सुवन्नयारो अच्चंतं रमणि-लोल-मणो ॥
 जं जं पिच्छइ कन्नं रूववइं महियले परिभसंतो ।
 तं तं परिणेइ इमो दाऊण सुवन्न-पंचसए ॥
 एवं पंचसयाइं परिणीयाइं इमेण महिलाणं ।
 सव्वंगीणाभरणं पत्तेयं तेण ताण कयं ॥
 रमइ जया जीए सह सो तइया तीइ देइ आभरणं ।
 सेसाउ सेस-कालं निरलंकाराउ चिट्ठंति ॥
 सो य दढं ईसाळू अवीससंतो मणंमि महिलाणं ।
 चिट्ठइ सरयं घरे च्चिय परस्स पुण देइ न पवेसं ॥

अन्नया अणिच्छंतो वि नीओ नियघरे भोयणत्थं पिय-मित्तेण । तन्भ-
 ज्जाहिं च्चितियं—घिरत्थु अम्ह जीवियं जं गुत्ति-खित्ताओ व्व चिट्ठामो । जम-
 दूओ व्व मंदिर-दुवारं न मेळ्ळए पावो अम्ह पई । अज्ज सोहणं जायं जं
 अन्नत्थ गओ एसो । ता अच्छामो सेच्छाए खणं । तओ ताओ पहाय-विलि-
 त्ताओ पसत्थ-वत्थालंकार-कुसुम-भूसियाओ जाव दप्पण-कराओ अप्पाणं
 पेच्छंतीओ अच्छंति, ताव आगओ भत्ता ।

ताओ दट्ठं रुढेण तेण भज्जा तहा हया एक्का ।

जह झत्ति मया सा कमलिणि व्व करि-चलण-अक्कंता ॥

अन्नाहिं मंतियं अम्हे वि हणिस्सइ एसो, ता हणामो इमं । किं इमिणा
 रक्खिएणं । तओ ताओ च्चक्केहिं व एक्कूण-पंचसय-संखेहिं दप्पणेहिं पइं पइ-
 णंति । तक्कालमेव मओ सो । जाओ तासिं पच्छायावो । अजुत्तं कयं पइ-मारिग
 त्ति अकित्ति पत्ताओ अम्हे । तओ पिहिय-दुवारं भवणं पलीविज्जण मयाणि
 महिलाणं एक्कूण-पंचसयाणि । साणुतावयाए अकाम-निज्जराए समुप्पन्नाइं
 मणुस्सत्तणेण । दिव्व-ज्जोएण मिलिया ते एगत्य दुग्ग-ट्टिया चोरियाए जीवंति ।
 जो पुव्वं मारिया भारिया सा एकं भवं तिरिएसु गमिज्जण बंधण-कुले पुत्तो
 समुप्पन्नो । सो पंचवरिसो जाओ । सुवन्नयारो तिरिक्खेसु एकं भवं गमिज्जण
 तत्थेव कुले तस्स चेव भइणी-दारिया जाया । सो दारओ तीए पिज्जहिं बाल-
 ग्गाहो कओ सा य दुट्ठत्तणेण निच्चंपि रोयइ । उयरे फरिसंतेण तेण कह वि
 फरिसिया गुज्ज-देसे । निवत्ता रोयणाओ । तं रोयण-नियत्तणोवायं नाऊण

तद्देव सो करेइ । तद्दा कुर्णतो अन्नया दिट्ठो पिऊहिं । हंतूण निव्वासिओ
 घराओ । भमंतो मिलिओ एकूण-चोर-पंचसयाणं । तस्स भइणी अपत्त-
 जुव्वणा वि विणट्ठा । भमंती गया गाममेकं । अन्नया सो गामो तेहिं तक्करेहिं
 हओ । सा वि नेऊण निय-पल्लि भज्जा कया । कयाइ चित्तिर्यं चोरेहिं एक्का
 इमा वराइ अन्हे पंचसया । तो जइ दुइय-दइया होइ ता एसा वीसमइ । तो
 तेहिं आणीया अन्ना इत्थी । पुव्व-भज्जा ईसाए तीए छिदाणि मग्गइ । अन्नया
 गया चोरा चोरियाए पुव्व-भज्जा लद्धावसरा नव-भज्जं कवडेण कूव-तडं नेऊण
 भणइ—भदे ! पिच्छ किं पि कूव-मज्जे अत्थि । सा वि उज्जुया दट्ठमाढत्ता ।
 खित्ता कूवे पढमाए । चोरेहिं जागएहिं पुच्छिया—कथ सा दुइया ? तीए
 वुत्तं—किमहं जाणामि, किं न नियं भज्जं रक्खेह । तेहिं नायं जहा इमाए
 मारिया सा । तओ तस्स वंमण-चेडस्स चित्ते ठियं, किं एसा सा पाव-कम्मा
 मे भणिणि त्ति ।

सोळं सब्बहुं मं पुच्छइ एसो मणेण लज्जंतो ।
 किं मे भइणी जा सा सा स त्ति ? मए वि सै कहियं ॥
 तो राग-दोस-मूढा लहंति जीवा भवंमि दुक्खाइं ।
 इय मुण्डं संबिग्गो सो पुरिसो गिण्हए दिक्खं ॥
 गंतूण तेण पल्लिं धम्मे पडिवोहिया जिणुडिडे ।
 कारविया वय-नाहणं एकूणा चोर-पंचसया ॥
 नमिऊण जिणं जंपइ मिगावई पुच्छिऊण पज्जोयं ।
 दिक्खं पडिवज्जिस्सं, तत्तो सा भणइ पज्जोयं ॥
 जइ मं तुममणुमन्नसि तत्तोहं पव्वयामि पड्डु-पासे ।
 सो चारिडं न सक्कइ सुर-असुर-नराण लज्जंतो ॥
 ताहे विसज्जए तं सा पज्जोयस्स उदयण-कुमारं ।
 उच्छंगे निक्खविडं दिक्खं गिण्हइ जिण-समीवे ॥
 भव-भीयाड चरित्तं मिगावईए समं पवज्जंति ।
 अंगारवई-पमुहाड अट्ट पज्जोय-घरिणीओ ॥
 सील-वसेणं लहिडं केवल-नाणं मिगावई सिद्धा ।
 सील-रहिओ य पत्तो अजसं कुगइं च पज्जोओ ॥
 इति शीले मृगावती-कथा ।

वसण-दसा पत्ता वि हु जे परिपालंति सीलमकलंकं ।
ते उभय-भवुभव-सुक्ख-भागिणो हुंति तार व्व ॥

तं जहा—

अत्थि सयलामरहिया नयरी वाणारसी सुर-पुरि व्व ।
चोळ्ळं वसंति जीए न के वि लोया अबल्लकरा ॥
सेट्ठी पुरंदरो तत्थ अत्थि अत्थाह-अत्थ-वित्थारो ।
सुंदर-देहा सुर-सुंदरि व्व से सुंदरी भज्जा ॥
कय-सयल-जणाणंदो चंदो चंदु व्व नंदणो तेसिं ।
रच्छुग-वणिणो धूया तारा नामेण से घरिणी ॥
तीए पुरओ रूवेण रेहए किंकरि व्व काम-पिया ।
पर-पुरिस-निवित्ति-वयं पडिवन्नं तीए गुरुपासे ॥
चंद-पियाए ताराह रोहिणीए बुहो व्व अत्थि सुओ ।
पल्लविय-लोय-लोयण-परिओसो संखचूडो त्ति ॥
अन्न-दिणे चउहट्टे दिट्ठा चंदेण कलगा एक्का ।
दाऊण तणं सीसे निय-पिलणा विक्किणिज्जंती ॥
अखंत-भणहरा का इम त्ति चंदेण पुच्छिया मित्ता ।
ते वित्ति दरिह-दिओ एयं विक्किणइ निय-धूयं ॥
मित्ता भणंति थिचुं घरिणी किज्जउ इमा सुख्व त्ति ॥
तेणुत्तं हरिणच्छी रच्छुग-धूय त्ति मह घरिणी ॥
ताहं किमेयमिच्छामि बंभणिं किं तु इणमजुत्तं ति ।
देमि दयाए सुल्लं इमस्स जंपंति तो मित्ता ॥
पवणुडुय-धय-चंचलह विहवह एत्तिउ सारु ।
वसण-महन्नव-निवडियह जं कीरइ उवयारु ॥
अकय-व्वओ न सोहइ विहवो विहवो व्व अंगणा-निवहो ।
कत्थ वि अपत्त-भोगो सुवन्न-तारुन्नओ जइ वि ॥
तो पुच्छिओ इमीए सुल्लं किं बंभणो भणइ लक्खं ।
सुहयाइ गिण्ह लक्खं करिज्ज मा पुण वि तुममेवं ॥
इय जंपिऊण चंदो दियस्स दिणार-लक्खमप्येइ ।
जंपइ भट्टो दुण्हं पि भोयणं देसु अम्ह गिहे ॥
लक्खं लहिउं पि अहो सो मग्गइ भोयणं विगय-लज्जो ।

लद्धे बहुए वि दिओ नहि तिप्पह भोयणेण विणा ॥
 चंदो जंपह पुरिसं जेमावसु मम गिहे इमे दो वि ।
 पुरिसेण तेण नीओ धूया-सहिओ गिहे भट्टो ॥
 भट्टेण तेण दिट्ठा विसिट्ठ-मणि-कणय-भूसण-सणाहा ।
 सुर-तरु-लय व्व तारा गिहेग-देसंमि उवविट्ठा ॥
 तीइ पुरओ पयट्टो भट्टो वेयक्खराइँ वागारिउं ।
 भोयणमिमस्स देसु त्ति कहइ पुरिसो पइ-निओगं ॥
 तं सोउं सा तुट्ठा सुवन्न-थालेसु देइ दुणहं पि ।
 घयसालि-दालि-मोयग-दहि-दुख-प्पसुहमाहारं ॥
 अचंतमतित्तेहिं पियरेहिं व तेहिं सुत्तमाकंठं ।
 तो दावं तंबूलं ताराए ताइँ भणियाइँ ॥
 एज्जह पुणो वि तुव्वमे तो तच्चरिएण विम्बिय-मणाइँ ।
 सीसं धूणंताइँ पत्ताइँ दुवे वि सट्ठाणं ॥
 अह अत्थमिए सूरे सुवणंमि विर्यंभिए तिमिर-पूरे ।
 पिउणा पुरंदरेणं लेक्खं सो पुच्छिओ चंदो ॥
 तेणावि सिट्ठि-पुरओ कहिओ दिय-दिन्न-लक्ख-वुत्तंतो ।
 तत्तो रुद्धो सेट्ठी चित्तिउमेवं समाढत्तो ॥
 नवमे मांसम्मि नवो हवेज्ज पुत्तो पुणो वि पुरिसस्स ।
 लक्खो पुण दम्माणं न विट्ठप्पह वरिस-लक्खे वि ॥
 तो सेट्ठी अक्कोसइ चंदं रे रे कुपुत्त ! गुण-सुत्त ! ।
 मेल्लसु निल्लक्खण ! लक्ख-दाण-दुल्ललिय ! मह गेहं ॥
 जं देसि तुमं लक्खं विलक्ख ! कस्सासि राइणो पुत्तो ।
 नहि मुणासि दुव्विडप्पं कवड्डुमेत्तं पि वणियाणं ॥
 इय निट्ठुरेहिं वयणेहिं सिट्ठिणो दूमिओ मणे चंदो ।
 बग-रडिएहि व हंसो सराउ गेहाउ निक्खंतो ॥
 सुय-संखचूड-कलिया चलिया चंदस्स पिट्ठओ तारा ।
 सुत्तूण पइं कुल-बालियाण सरणं हि को अन्नो ॥
 देसंतरंमि चलिओ चंदो पुत्तं पइंमि वहमाणो ।
 न मुणइ मणम्मि खेर्यं तारा पइ-भग्ग-अणुलगा ॥
 ताराइ कडीहितो बला वि गिण्हेइ नंदणं चंदो ।

सुह-दुक्ख-संविभागं भणंति नेहस्स वि सरूवं ॥
 वच्चइ पहम्मि चंदो अगणिय-तण्हा-छुहा-पसुह-वसणो ।
 अवमाणमेव मत्तंति माणिणो गुरुरंरं दुक्खं ॥
 पत्तो य तामलित्तिं कमेण सो बउल-मालिएण तहिं ।
 भदागिइ त्ति दहुं तुट्ठेण नियं गिहं नीओ ॥
 पइणो पुत्तस्स य देमि भोयणं जं मणुत्तमेएसिं ।
 इय चितंती तारा न देह-दुक्खं गणइ किं पि ॥
 रंधइ खंडइ पीसइ दलइ जलं वहइ कुणइ सब्वं पि ।
 सा पर-घरेसु कम्मं अहो सुघरिणित्तमेईए ॥
 तं दहुं नयर-जणो भणइ अहो ! दुट्ठु विलसियं विहिणो ।
 जं एरिसीइ रमणीइ एरिसी दुइसा विहिया ॥
 अन्न-दिणे सा दिट्ठा कह वि परिव्वाइगाइ एक्काए ।
 ता तीए संलत्तं भदे ! निसुणेसु मह वयणं ॥
 कस्स वि हवेळ्ळ दूइ त्ति सा इमीए उवेक्खिया भणइ ।
 नाहमजुत्तं वोच्छं ता तारा सुणइ सा भणइ ॥
 भदे ! मं उवलक्खसि तारा अक्खेइ नोवलक्खेमि ।
 पव्वाइया पर्यपइ पुव्वं वाणारसि-पुरीए ॥
 जेमाविया तए जा पिउणा सह बंभणी नियय-भवणे ।
 साहं साहइ तारा किमवत्था एरिसी तुज्झ ॥
 सा भणइ मए गहियं वयं अओ होउ मे दसा एसा ।
 हा कट्ठं जं जाया तुह एसा दुइसा भदे ! ॥

तहा—

अत्थि मह ओसहि-दुगं गुरु-दिन्नं तत्थ निम्मिए तिलए ।
 एक्काए थी पुरिसो बीयाए सो हवइ इत्थी ॥
 तं सील-रक्खण-कए गिणइ तुमं गिणइए तओ तारा ।
 अह मालिएण दट्ठुण दुत्थिओ जंपिओ चंदो ॥
 किं न कुणसि ववसायं सिरीइ मूलं भणंति जं विबुहा ।
 चंदो भणइ न वड्डइ विहव-विहूणाण ववसाओ ॥
 तो मालिएण वुत्तं विक्किण कुसुमाहं मज्झ भागेण ।
 चंदो तं कुणइ परं पावइ न तहाविहं लाहं ॥

सयमेव तओ तारा चउहृष्टे विक्रिणेह कुसुमाहं ।
 दक्खत्तणेण तीए लाभो सच्चुत्तमो होइ ॥
 अन्न-दिणे सा दिट्ठा तन्नयर-निवेण वइरसीहेण ।
 एसा किमागया सुर-बहु त्ति सो विम्हर्यं पत्तो ॥
 सो राय-वाडियाए वच्चइ निच्चं पि तेण मग्गेण ।
 पेच्छंतो स-विलासं परिहास-परो तमालवइ ॥
 अन्नंभि दिणे काळं ओसहि-तिलएण सा पुरिस-रूवं ।
 कुसुमाहं जाव विक्रिणइ ताव पत्तो निवो तत्थ ॥
 तं जंपइ रे मालिय ! तुह भज्जा किं न दीसए अज्ज ।
 तीए जरो किमंगे लग्गो हसिज्जण सा भणइ ॥
 तीए जरो न लग्गो लग्गो तुह चेव देव ! काम-जरो ।
 बीयं-दिणे पुण रत्ता सहाव-रूवेण सा दिट्ठा ॥
 परिहासं कुणमाणो राया ताराइ जंपिओ एवं ।
 नत्थि इमेसु तिलेसुं तिच्छं सुल्लोऽसि देव ! दहं ॥
 अह रयणीए राया तं हक्कारेइ पेसिउं पुरिसं ।
 सा कय-इत्थी-रूवं चंदं पट्टवइ भत्तारं ॥
 सो रत्तो वास-हरे नीओ पुरिसेण तं रमणि-रूवं ।
 दहूण मणे चितइ अहो इमीए सु-रूवत्तं ॥
 थण-वयण-नयण-कर-चलण-चंगिमा पुण इमीइ सो को वि ।
 थेवो वि ह्हु अन्नाणं जयम्मि जो नत्थि इत्थीणं ॥
 तं सेज्जाए ठविउं विइन्न-कुसुमंग-राग-तंबोलो ।
 पयडिय-दढाणुराओ राया वज्जरिउमारद्धो ॥
 जं तुह विरहे दुक्खानलेण संतावियं मह सरीरं ।
 निय-संगमेण अमओवमेण निच्चवसु तं झत्ति ॥
 इय जंपिज्जण लग्गो कंठे चंदस्स सो रमणि-रूवं ।
 सुत्तूण भणइ एयं नरिद ! किमज्जुत्तमाढत्तं ॥
 राया पुरिसं दहूण लज्जिओ हा किमिदयालमिणं ।
 मन्ने महा-सईए तीए सील-प्पभावेण ॥
 काळं इत्थी-रूवो निय-भत्ता पेसिओ अहो ! धत्ता ।
 एसा मह पत्थंते वि पत्थिवे जा न अणुरत्ता ॥

इय चिन्तिडं नरिदो जंपइ भो ! किं अजुत्तमिह मित्त ! ।
 मित्ताण नेह-जुत्ताण संगमो किं न अविच्छो ॥
 तत्थेव निसं गमिडं चंदो गोसे गओ नियय-गेहं ।
 निसि-वुत्तंतं ताराइ अग्गओ कहइ सा भणइ ॥
 एवं कओ विलक्खो कयाइ कुप्पिज्ज पत्थिवो नाह ! ।
 तत्तो सिंहल-दीवे जामो तुह मामग-समीवे ॥
 तो जलहि-लंघण-मणो चंदो मयणस्स सत्थवाहस्स ।
 पवहणमारुढो संखचूड-ताराहिं परियरिओ ॥
 मयणस्स मण-समुद्धो तारा-मुह-चंद-दंसण-वसेण ।
 संजाओ उज्जंभिय-अणप्प-कुवियप्प-कल्लोलो ॥
 तं मुणिडं दुन्नि वि ओसहीहि काऊण रूक्-परिवत्तं ।
 चिट्ठंति जाव रयणीइ ताव पुरिसो त्ति सो तारं ॥
 जलहिंमि खिविय इत्थि त्ति चंदमालिं गिडं महइ मयणो ।
 चंदो पयडइ नर-रूक्मह विलक्खो हवइ मयणो ॥
 कत्तो अ-कज्ज-कारीण होइ कुसलं ति पयडणत्थं व ।
 फुट्टइ इत्ति पवहणं महिला-हिययत्थ-गुज्झं व ॥
 सामिम्मि विवन्ने सेवय व्व फुट्टस्मि पवहणे लोया ।
 पडिया समुद्ध-वसणे सव्वे वि दिसो दिसं पत्ता ॥
 तारा समुद्ध-पडिया निम्मल-सील-प्पभाव-तुट्ठाए ।
 कीए वि देवयाए अकिलेसेण वि तडं नीया ॥
 तीरे परिब्भमंती भिल्लेणिक्केण पाविया तारा ।
 नेऊण नियय-पल्लिं समप्पिया पल्लि-नाहस्स ॥
 पल्लि-वई भोगत्थं तं अब्भत्थइ न मन्नए तारा ।
 सेविस्सामि हट्ठेण वि इमं ति सो मंतिडं सुत्तो ॥
 सुविणे भणिओ कुल-देवयाइ एयं महा-सहं मूढ ! ।
 मा खलियारेसु तुमं तुमए एयं पि किं न सुयं ॥
 सीहह केसर सइहि उरु सरणागओ सुहडस्स ।
 मणि मत्थइ आसीविसह किं धिप्पइ अमुयस्स ॥
 तो उवसंत-मणो सो निय-पुरिसे भणइ विक्किणह एवं ।
 मंगल-उरम्मि नेडं तं वेत्तुं ते वि जंति पुरे ॥

तत्थ सुमहं ति सेट्टी तारं ददूण विक्किणिज्जंतं ।
 देहं दयाए दव्वं नराणं जं मग्गियं तेसिं ॥
 वेत्तुं तारं निय-मंदिरंमि नेऊण, जंपए भहं ।
 निय-वरणिं, सुयणु ! तए एसा पुत्ति व्व दद्ववा ॥
 पुत्ति ति भणइ सेट्टी मुहेण मत्ते इमीइ रुवेण ।
 वित्ते पुण अक्खित्तो काही वरणिं इमं धुत्तो ॥
 इय चिंतंती भद्दा बाढमवन्नाह पेच्छए तारं ।
 पइ-पुत्त-संगमासा-कयग्गहा सहइ सव्वं पि ॥
 अन्न-दिणे सलिलत्थं गया इमा पेच्छिउं परिब्भमतं ।
 मग्गंमि संखचूढं पमोय-भर-परवसा जाया ॥
 पुत्तेहिं पुत्तय ! तुमं चिराउ द्विट्ठो मए जियंतीए ।
 इय जंपंती तारा तम्मइ परिरंभिउं पुत्तं ॥
 भणिया सुएण माए मा मं छिवसु ति जेण दिव्व-वसा ।
 फुट्टे पोयंमि अहं फलग-विलग्गो तढं पत्तो ॥
 गहिओ नरेण केण वि इह नयरे आणिऊण विक्किणिओ ।
 चंडाल-घरे सोहं घणसेट्टि-घणाहं चारेमि ॥
 काहिउं निय-पुत्तंतं सा भणइ सुयं मिलिज्ज महं निच्चं ।
 अहं तत्थ अत्थि पत्थिव-सिरोमणी मणिरहो नाम ॥
 केणावि तस्स काहियं इह एक्का सुमइ-सेट्टिणो भवणे ।
 कय-भुवणच्छेरा अच्छर व्व अच्छइ कुरंगच्छी ॥
 मलिणंगी वि कुवत्था वि उव्वहइ इमा अउव्व-लावत्तं ।
 रेणु-कण-शुद्धियं पि हु कणगं किं झामलं होइ ॥
 तो राग-वसो राया निय-पुरिसं पेसए तमाणेउं ।
 गंतूण भणइ पुरिसो मंदिर-दार-ट्टियं तारं ॥
 पुव्वज्जिय-पुन्न-दुमो फलिओ तुह अज्ज जं तुमं राया ।
 जाय-गरुयाणुराओ इक्कारइ ता लहुं चलसु ॥
 एवं सोउं वज्जाहय व्व हियंमि दूमिया तारा ।
 काहामि सील-रक्खं कहं ति चिंताउरा जाया ॥
 अहं तत्थ संखचूढो पत्तो सा ठवइ तं निउच्छंगे ।
 चुंबइ तस्स मुहे खिवइ भोयणं खप्परे गहिउं ॥

तारा जंपइ पुरिसं किं भणेसि तुमं ति तेण पुव्वुत्तं ।
 कहियं नरिंद-वयणं सा भणइ अहं खु चंडाली ॥
 राया वि तारिसो किं ममंग-संगं समीहए जं सो ।
 तो लज्जिओ मणुस्सो गंतुं रत्तो कहइ सव्वं ॥
 हक्कारिऊणं सिद्धिं भणइ निवो तुहं घरंमिं चंडाली ।
 विट्ठालं कुणइ अहो ! अहं समयञ्च भणइ सेट्ठी ॥
 सा घरवाहिं चिट्ठइ खुंजइ य न तेण देव ! विट्ठालो ।
 सिट्ठी गिहागओ तं पुच्छइ को वइयरो तुज्झ ॥
 सेट्ठिस्स कहइ तारा मूलाओ नियय-वइयरं सव्वं ।
 सेट्ठी भणइ तुमं महं भइणीए देविलाइ सुया ॥
 एत्तिय-दिणाइं तुमए महं कहियं जं न तं कयमजुत्तं ।
 चंडालाउ धणेण य मोयाविस्सामि तुहं पुत्तं ॥
 संझाइ गया तारा धणसेट्ठि-गिहं तहि अपेक्कवंती ।
 पुत्तं पत्ता पुर-परिसरम्मि पेक्कइ भुयग-डक्कं ॥
 तं विस-वसेण पडियं महीइ दट्टूण हा हय म्हि अहं ।
 इय जंपंती तारा ताडइ हिययं कर-यलेहिं ॥
 हा चंद-वयण ! हा कमल-नयण ! हा महुर-वयण ! सुय-रयण ! ।
 मुत्तूण मं अउत्तं वच्चसि अन्नत्थ कत्थ तुमं ॥
 इत्तिय-दियहाइं मए गमियाइं तुज्झ दंसणासाए ।
 इपिंह तइ गच्छंते सा वि गया ता कहं होहं ॥
 इय ताराए रुत्तं सोउं सयलं निसं फुरिय-सोया ।
 पवण-निवडंत-कुसुमा सहंति तरुणो रुयंत व्व ॥
 अहं सेट्ठी रयणीए तारं निय-मंदिरे अपेच्छंतो ।
 सयल-परिवार-सहिओ सव्वत्थ गवेसइ स-खेओ ॥
 सुखगमंमि सेट्ठी सुणिउं तव्वइयरं गओ तत्थ ।
 पुत्ताणुगम-पराए ताराए मग्गिओ अग्गि ॥
 राया वि रायवाडीइ निग्गओ तं पएसमणुपत्तो ।
 तारं दट्टुं कंदप्प-परवसो तीए गहणत्थं ॥
 आसन्नमणुसरंतो रुद्धो गुण-रागिणीइ देवीए ।
 तारा-रुवक्खित्तो पच्छावि नियत्तिउं अखमो ॥

ताव मसि-कसिण-काओ कर-धारिय-रज्जु-वद्ध-मकडओ ॥
 सप्प-करंडय-मंडिय-खंध-ट्टिय-कावडि-सणाहो ॥
 आगंतुं गारुडिओ भणइ इमं संखचूड ! उट्टेसु ।
 एयावत्थं दद्धं तुह जणणी दुक्खिया रुयइ ॥
 सुत्तो व्व उट्टिओ सो तत्तो सच्चो वि विम्हिओ लोगो ।
 गारुडिओ जंपइ संखचूड ! तुह वच्छ ! जणओहं ॥
 सो भणइ न मज्झ पिया तुमं जओ कसिण-वत्त-देहो सि ।
 कणय-च्छवी पिया मे ता दंसइ चंदरूवं सो ॥
 तं दद्धं परितुट्टो पुत्तो चंदस्स चडइ उच्छंगे ।
 तारा वि विम्हिय मणा जंपइ पिययम ! किमेयं ति ॥
 सो भणइ पोय-भंगे फलग-विलगगो विलंधिउं जलहिं ।
 पत्तो भि आसमं तत्थ तावसो भणइ मं दद्धं ॥
 दिन्नो दियस्स लक्खो जस्स तए सो अहं गहिय-दिक्खो ।
 वसण-वडियस्स तुह कि करेमि उचियं ति तेण तओ ॥
 दिन्नो गारुड-मंतो ख्व-परावत्तिणी तहा विज्जा ।
 तो गारुडिओ होउं पत्तो भि तुमं गवेसंतो ॥
 एयस्स इमा भज्जा इमो य पुत्तु त्ति जाणए राया ।
 ताराइ ख्व-सीलेहिं विम्हिओ चितए एवं ॥
 घत्ता एसा जा सीलमुज्जलं वहइ वसण-पत्ता वि ।
 अहमो अहं तु एक्को जो पर-महिलाहिलास-परो ॥
 हा ! कह निल्लज्जोऽहं जणस्स दंसेमि अत्तणो वयणं ।
 तो गंतुं गुरु-पासे जिण-दिक्खं गिण्हए राया ॥
 तग्गुण-रंजिय-चित्ता चंदं कुल-देवया ठवइ रज्जे ।
 सो जिण-धम्मं काउं तारा-सहिओ गओ सुगइं ॥
 इति शीले तारा-कथा ।

अवरासत्तं सूरं नलिणि व्व पइं चियाणिउं पि न जा ।
 अन्नत्थ कुणइ पीइं स चिय जयसुंदरी घत्ता ॥
 तं जहा—
 अत्थित्थ भरह-वासे जहत्थ-नामा पुरी जयंति त्ति ।

जा जिणइ नियय-रमणिज्जयाइ अलयाइ-नयरीओ ॥
 नाय-रओ रण-चंडासि-दण्ड-खंडिय-विवक्ख-नायरओ ।
 दय-दाणाइ-गुण-जुओ राया जयसेहरो तत्थ ॥
 विमलमइ त्ति अमच्चो अमर-गुरु-सरिस-मइ-गुणो तस्स ।
 वेय-वियारण-चउरो पुरोहिओ चउसुहो नाम ॥
 सयल-जण-कज्ज-जणओ घणेण धणओ धणावहो सेट्ठी ।
 कालं गमंति सब्बे पवन्न-पर-दार-विरइ-वया ॥
 तत्थेव परत्थ-करत्थ-वित्थरो अत्थि धणवई सेट्ठी ।
 जिणधम्म-निच्चल-मणो निच्चं जो गमइ निय-जम्मं ॥
 निय-तणु-छाय व्व सयाणुवत्तिणी तस्स धणसिरी भज्जा ।
 तेसिं रूवाइ-गुणोह-सुंदरो सुंदरो पुत्तो ॥
 रूव-रमणिज्जयाए रइ व्व जयसुंदरि त्ति से घरिणी ।
 अन्नोन्न-सिणेह-पराण ताण वच्चंति दियहाई ॥
 अन्न-दिणे सब्बेसिं भावाणं खण-विणस्सरत्तणउ ।
 पंच-नमोक्कार-परो पंचत्तं धणवई पत्तो ॥
 धणवइ-पर्यंमि ठविओ समग्ग-सयणेहिं सुंदरो पुत्तो ।
 अह् अन्न-वासरे सुंदरेण जणणी इमं भणिया ॥
 जो न कुणइ काउरिसो धणज्जणं जोव्वणंमि वट्ठतो ।
 छगल-गल-त्थण-जुयलं व जीवियं निप्फलं तस्स ॥
 किं च नरेण मइमया न चेय चित्तंमि चित्तियव्वमिणं ।
 संते महंत-विहवे किं मह विहवज्जणेण जओ ॥
 पइदियहं पूरिज्जइ जइ कह् वि न निन्नया सहस्सेहिं ।
 ता सुसइ च्चिय अइरा गरुओ वि तरंगिणी-नाहो ॥
 एवमवट्ठिज्जंतो विविहेहिं निरंतरं उवाएहिं ।
 विलयं वच्चइ नृणं बहुओ वि ह्हु विहव-संभारो ॥

तओ—

सगुणो वि विनिग्गुणो च्चिय बुच्चए मुच्चए परियणेणं ।
 यावइ विहव-विहूणो पए पए परिभवं पुरिसो ॥
 अलियं पि जणो धणइत्तयस्स सयणत्तणं पयासेइ ।
 आसन्न-बंधवेण वि लज्जिज्जइ झीण-विहवेण ॥

विगुणमवि गुणद्धं ख्व-हीणं पि रम्मं
 जडमवि महमंतं मंद-सत्तं पि सूरं ।
 अकुलमवि कुलीणं तं पर्यंपति लोया
 नव-कमल-दलच्छी जं पलोएई लच्छी ॥
 लहूण घणं सहलं कायव्वं पत्त-दाण-भोगेहिं ।
 एवं अकीरमाणे संतं पि असंत-सारिच्छं ॥
 जे उण लद्धं पि घणं न दिति पत्ते सयं न भुंजंति ।
 ते तं परोवभोगं रक्खंति अवित्ति-कम्मयरा ॥
 तो गंतुं देसंतरमहं महंतं घणं उवज्जेमि ।
 तेणोभय-भव-सुहयं करेमि घम्मं च कित्तिं च ॥
 जणणीए वज्जरियं इह द्विओ च्चिय घणज्जणं कुणसु ।
 देसंतर-गमणं पुण अण्येय-दुक्खावहं वच्छ ! ॥
 नव-नव-पयाणएहिं सरीर-खेओ दिणे दिणे होइ ।
 जायंति दुस्सहा वाय-वुट्ठि-सीयायव-किलेसा ॥
 गुरु-विसम-मग्ग-लंघण-वसेण तणहा-छुहाउ पीडंति ।
 असमय-भोयण-पभवा पसरंति निरग्गला रोगा ॥
 बुद्ध-निव-चोर-चरड-प्पसुहा विहवं हठेण गिणहंति ।
 लहूण छलं कहमवि सुसंति मायाविणो धुत्ता ॥
 रयणीसु वि जग्गंतेहिं निच्चमच्चंतमप्पमत्तेहिं ।
 दु-पय-चउ-प्यय-चउ-विह-भंडाणं दुक्करा रक्खा ॥
 इय कित्थियं च भन्नइ दुक्खं देसंतरस्स गमणंमि ।
 सुह-लालिओ तुमं पुण, ता सुंच मणोरहे एए ॥
 तो सुंदरेण भणियं—अम्मो ! विहियंमि पुरिसयारंमि ।
 पुरिसाणं संपज्जइ मणिच्छिया निच्छियं लच्छी ॥
 संसय-तुलहिं चडावियडं जीविउ जा न जणेण ।
 ताव कि संपय पावियइ जा चित्तविय मणेण ॥

ता सब्बहा गंतव्वं मए पुव्व-वह्व-दिस-विह्वसणं कंचणवरं नाम नयरं । तं
 सोऊण भणियं घणसिरीए—पुत्त । जइ एवं ता वव तुमं तुज्ज घरिणी पुण
 मह पासे चेष चिद्धओ । सुंदरेण वुत्तं एवं होउ त्ति, भणिया य घरिणी—

भदे ! अकलंक-सील-पालणुजयाए तुमए अंबाए चलण-सुस्तसणं कायव्वं ।
बाह-जलाविलच्छीए भणियं तीए ।

इह चिद्धिस्सामि अहं सरीर-मित्तेण तुज्झ वयणाओ ।

मह चित्तं पुण पिययम ! तुमए सह वचिही नृणं ॥

नहि नाह ! किच्चमवरं अंबा-सुस्तसणं विणा मज्झ ।

अन्नह कुलंगणाणं विहलं जम्मं बुहा विंति ॥

जं पुण मह सीलं तं सक्को वि न सक्कए कह वि हरिउं ।

किं चलह मेरु-चूला किं उच्छल्लह धरणि-वीढं ॥

सुंदरेण वुत्तं पिए ! साहु साहु त्ति । तओ काऊण सामग्गि पसत्थ-दियहे
कय-देव-गुरु-पूओ कीरंताणेग-मंगलो सुह-सडण-दुगुणिय-मणुच्छाहो रह-
करहवसह-वेसर-विसरारोविय-वियड-कयाणगो तुरयारूढ-पाइक्क-चक्क-परिगओ
पत्थिओ सुंदरो । दिंतो दीणाईण दाणं थुव्वंतो मागहेहि अणुगम्मंतो मित्तेहिं
अहिणंदिज्जंतो नायरएहिं निग्गओ नयरीओ । परिसरे गंतूण पणओ जणणीए ।
भणिओ अणाए—वच्छ । एस ते परम-सावओ जिणसुहो नाम सयल-कल्लेसु
सहाओ न एयस्स वयणं पडिकूलेयव्वं ।

तहा—

विसएहिं तक्करेहिं थ रक्खेज्ज मुसिज्जमाणमप्पाणं ।

जे सुह-यरं चरित्तं हरंति इक्के परे वित्तं ॥

घण-रस-परिपुत्ताओ अमुणिय-मज्झाओ धीवरेहिं पि ।

नारीओ नईओ तहा अवीससंतो विलंघेज्जा ॥

मय-कोह-पमुह-सावय-भयंकरं मयण-भिल्ल-दुल्लंघं ।

पवलक्ख-रक्खसं नित्थरेसु रत्तं व तारुत्तं ॥

एवं सुंदरमभिनंदिऊण नियत्ता घणसिरी । सुंदरो वि सत्थ-सुत्थं
कुणंतो वच्चंतो पत्तो काथंवरिं अडविं ।

बहु-दीविया ति जाम व्व गाम-भूमि व्व करिसय-समेया ।

वेस व्व भुयंग-जुया गवरि व्व स-नीलकंठा जा ॥

तत्थ भू-निवडिओ खग्ग-पहार-विहुरो सुंदरेण दिट्ठो जोगी । करुणाए
कओ पडण-सरीरो । पुच्छिओ थ—भद ! किं कारणं जमेवं विहं अबत्थं गओ
सि ? तेण वुत्तं—अत्थि इत्थेव पच्चयासन्नं वसंतउरं नयरं । तत्थाहं जोगसारो
जोगी । जोगसिरी मे पडिचारिया । काय-सिद्धि-निबंधणं आउ-बुद्धि-कारणं

काल-बंधना-पवणं पवण-निरोहाइयं जोग-मगं गुरुवइष्टं अणुचिष्टंतो जाव
चिष्टामि, ताव मिलिओ मे जोगचंडो नाम जोगी । तेण मए सह कया
कवड-मेत्ती । नत्थि जोगीणं अकज्जं अखज्जं अपिज्जं अगम्मं किं चि त्ति भणं-
तेण कराविओहं मज्ज-पाणं । अज्ज मं मज्ज-मत्तं खग्गेण हणिऊण वेत्तूण मे भज्जं
जोगसिरिं गओ जोगचंडो । सुंदरेण वुत्तं—भइ ! अणुचियमिणं मज्जपाणं ।

जं गरहणिज्जमुत्तम-जणस्स कुवियप्प-सप्प-केलि-विलं ।

दुव्वयण-कारणं कय-किलिद्ध-चिष्टं हय-विवेयं ॥

जा का य सिद्धि-बुद्धी जल-गय-पडिबिंघ-गहण-बंधा सा ।

पच्चक्खेण सरीरे विणस्समाणंमि मणुयाणं ॥

जं कयगं तमणिच्चं ति जुत्तिओ भंगुरत्तणे सिद्धे ।

कायस्स थिरीकरणं सुरचाव-थिरीकरण-तुल्लं ॥

ता मुत्तूण कुबुद्धिं जीव-दया-पसुह-सव्व-गुण-पवरे ।

सयल-सुह-हेउ-भूए जिणिद-धम्मे मइं कुणसु ॥

हय सोडं पडिबुद्धो सम्मं जिणधम्ममायरइ जोगी ।

तेणावि गारुडं सुंदरस्स दिन्नं पडिय-सिद्धं ॥

तो सुंदरो कमेणं पत्तो कंचणउरे ठिओ वाहिं ।

पारद्धो विविह-कयाणगाण कय-विक्कए काडं ॥

अह पसरिओ वसंतो घूय-घणुच्छलिय-कोइल-रवेण ।

जग्गविय-विसम-बाणो निव्वासिय-माणिणी-माणो ॥

जत्थ—

के वि त्थी-परिरंभेण कामिणो कुरवय व्व कुसुमंति ।

पमया-पय-पहया पल्लवंति के वि हु असोय व्व ॥

बडल व्व रमणि-मइरा-गंइस-मिसेण के वि वियसंति ।

पहसंति कामिणीहिं कडक्खिया के वि तिलय व्व ॥

फुल्लंति विरहिणो विरहय व्व लहिऊण पंचमं के वि ।

तह चंपय व्व तूसंति के वि वर-सुरहि-सलिलेण ॥

सुंदर-जिणमुहा वसंतूसवं दइं गया उज्जाणं ।

जत्थ—

जंबीरंब-कयंब-जंबु-कयली-कप्पूर-पूगी-फली

खज्जूरज्जुण-सल्ल-सल्लह-समी-नग्गोह-सोहंजणा ।

कक्कोली-कुवली-लवंग-लवली-नोमालिया-मालई

सग्गासोय-तमाल-ताल-तिलया रेहंति निद्धा दुमा ॥

तत्थ, तेहिं दिह्वा असोय-तरु-तले चंदलेह व्व तारिया-नियर-परियरिया
निय-सही-सहिया कन्नगा । तं सुइरं निव्वत्तिऊण भणियं सुंदरेण—

वयणेण इमीए निज्जियाहँ जं पंकयाहँ वियसंति ।

तं जल-संसग्ग-कर्यं सूढत्तं फुरइ ताण धुवं ॥

सा वि कय-मयण-पडिमा-पूया द्दुण सुंदरं भणइ ।

सहि ! संपइ पच्चक्खं मयणमिणं किमहमचेमि ? ॥

जंपइ सही अणंगो सो सुव्वइ एस पुण पहाणंगो ।

सा भणइ इमो सक्को ?, भणइ सही सो विहयवित्तो ॥

एस उवज्जिय-वित्तो, सा जंपइ भइणि ! को इमो तत्तो ? ।

विनाय-तव्वइयरा सत्थाह-सुओ त्ति कहइ सही ॥

एत्थंतरंमि पुरिसो समागओ तेण जंपिया कन्ना ।

तुह कणय-सुंदरि ! पिया भणइ इमं गच्छ निय-गेहं ॥

सुंदर-मणं मुणत्तेण सणियमुवसप्पिउं जिणमुहेण ।

सो पुरिसो संलत्तो एसा कन्ना सुआ कस्स ? ॥

पुरिसेण कहियमिह अत्थि कणय-कोडीसरो कणयसारो ।

सिद्धी तस्सेसा कणयसुंदरी नाम वर-धूया ॥

आगच्छंति इमीए वरगा बहवो परं न सेट्ठिस्स ।

को वि चहुइइ चित्ते अओ इमा अपरिणीय त्ति ॥

इय जिणमुहस्स कहिउं गहिउं तह कन्नगं गओ पुरिसो ।

तो कहइ जिणमुहो सुंदरस्स कन्नाइ बुत्तंतं ॥

मयण-सर-पर-वसो भणइ सुंदरो मुक्क-दीह-नीसासो ।

मित्त ! इमीए विरहे निय-जीयं निप्फलं मत्ते ॥

मित्तो जंपइ सुंदर ! जणणी-वयणाहं किं न संभरसि ।

किं ते गुरुवएसा चित्ताओ पवसिया सव्वे ॥

किं तुह वीसरियमिणं विसयाणं विसम-विस-विवागतं ।

क्त्थ विवेगो वि गओ वयंस ! जं एवमुल्लवसि ॥

वज्जरइ सुंदरो सव्वमत्थि नट्टं न किं पि मह मित्त ! ।

न मुयइ मणं मयच्छी टंक्कुक्किन्न व्व किं तु इमा ॥

अह जिणमुद्देण भणियं जह अणुरत्तो दढं तुमं तीए ।
सा वि तह च्चेय तहा मुह-दंसणओ मए मुणियं ॥

जओ—

मुहराओ चिय साहेइ जो जस्स पिओ किमेत्थ भणिएण ।
साहेइ पंगणं चिय घरस्स अंतग्गयं लच्छि ॥
तो होसु तुमं धीरो होही तुह पिययमा इमा नूणं ।
एवं तक्केमि अहं अणुकूल-निमित्त-सलणेहिं ॥
इय बुद्धविडं नीओ आवासं सुंदरो जिणमुद्देण ।
कय-देव-गुरु-सुमरणा रयणीए दो वि पासुत्ता ॥

पहाए ते पडह-दाण-पुव्वं उग्घोसणं सुणंति—जो कणयसार-सेट्टि-धूयं कणयसुंदरि सप्प-दट्ठं जीवावेइ, सेट्टी से दीणार-लक्खं देइ । तओ सुंदरेण वाराविओ पडहओ, भणिया पुरिसा—दंसेह तं मे । तेहिं वुत्तं पसायं काऊण एह । गओ मित्तेण सह सुंदरो दिट्ठो सेट्टी कणयसुंदरी य । कहिऊण जहट्टियं वुत्तंतं भणियं सेट्टिणा—भइ ! कणयसुंदरिं जीवाविऊण देसु मे जीवियं । सुंदरेण वुत्तं—अत्थि ताव गारुडं, कज्ज-सिद्धीए दिव्वो पमाणं ति । आलिहियं मंडलं सुमरियं गारुडं तक्खणा उम्मीलिय-लोयणा वियंभंती मंडलाओ उट्टि-ऊण निविट्ठा जणणीए उच्छंगे कणयसुंदरी । तुट्ठो सेट्टो उच्छलिओ आणंद-नंदी सद्दो । कणयसुंदरी वि सो चेष एस मुहओ त्ति सरभसाए किचि गुरु-यण-लज्जा-मंदाए दिट्ठीए सुंदरं दट्ठमाढत्ता । सुंदरो तं तहा दट्ठण अमंदाणं-द-सुंदरो जाओ ।

जओ—

अणुराय-लद्ध-पसराइं गुरु-यणालोय-लज्ज-खलियाइं ।
चोरिय-निरिक्खियाइं कुणंति परिओसमच्चंतं ॥
सेट्टी धूयाइ मणं मुणियं तह जाणियं जिणमुहाओ ।
नयर-कुल-प्पमुहं सुंदरस्स तं जंपए एवं ॥
सुंदर ! मह धूयाए इमीए संमोहणे सदप्परस ।
सप्पस्स व कंदप्पस्स पसम-दक्खो तुमं चेष ॥

ता परिणोसु एयं । सुंदरेण वुत्तं—गुरु-यणायत्तो एस अत्थो । सेट्टिणा वुत्तं—बच्छ ! एस ते विणओ कुलीणत्तं कहेइ । गच्छ नियावासं । अहं पुण पत्थुयत्थे तुह जणणीए अणुत्तं गिण्हस्सं । तओ लेहं समप्पिऊण पेसिया

पुरिसा जयंतीए । दंसिओ लेहो घणसिरीए । बाइओ सो तीए जहा—भदे !
कंचणउरे कणयसारो सेट्टी तुह सुयस्स निय-धूर्यं देइ, जइ तुमं अणुमन्नसि ।
घणसिरीए भणियं को कल्लाणे विरोहो । जयसुंदरी-सम्मएण समप्पिओ
तेसिं पडिलेहो । तेहिं गंतूण दंसिओ सेट्टिस्स ।

जहा—

सव्वुत्तमो तुमं सुंदरस्स जइ देसि देसु निय-कलं ।

भवणं पविसंतीए सिरिए को झंपयं देइ ॥

तओ सेट्टिणा तं दंसिऊण परिणाविओ कणयसुंदरिं सुंदरो । निय-नयरं
गंतु कामो वि सो आसन्नो पाउसो त्ति ठिओ तत्थेव । पत्थिया के वि सत्थिया ।
तत्थ मे जणणि-घरिणीणं इमाणि अप्पेज्जसु त्ति भणिऊण सुंदरो दामोयर-
विप्पस्स समप्पए सत्त रयणाइं । सो वि पत्तो जयंतीए । लोभ-दोसओ तेण
अवलत्ताइं ताइं । अन्न-वणिएण अप्पिओ दामोयर-पासाओ सत्त रयणाइं
घेत्तव्वाइं ति लेहो । तं घेत्तूण गया दामोयर-पासं घणसिरी । दंसिऊण लेहं
मग्गिओ सो रयणाणि । तेण वुत्तं—न मम हत्थे पेसियाणि, एस पुण कओ
केणावि कूड-लेहो । आगया गिहं घणसिरी भणिया वड्डया—वच्छे ! चलय-
चित्तो बंभणो, ता कस्स वि पहाण-पुरिसस्स कहिऊण गिण्ह रयणाणि । जं
अंबा आणवेइ त्ति वुत्तूण मुत्तुत्तरं गया सेट्टि-समीवं जयसुंदरी । कहिओ तस्स
रयण-वुत्तंतो । तेणावि तीए रूव-लुद्धेण भणिया सा—भदे ! जइ मए सह
एक्कसो वि विसए सेवेसि तो ते कज्जं करेमि । तीए वुत्तं—जइ एवं ता जा-
मिणी-पुढम-जामे आगंतव्वं ति । गया पुरोहिय-पासे । तस्स वि सेट्टि-सरिसो
समुल्लावो । वीय-जामे आगंतव्वं ति । गया मंति-सगासं । सो वि पुरोहिणेव
पाडिओ । तं चेव जंपइ तइय-जामे इज्जसु त्ति भणिऊण गया रत्तो पासे । रत्ता
वि तं चेव वुत्तं, चउत्थ-जामे जामिणीए सामिणा आगंतव्वं ति भणिऊण
गया निय-गेहं । साहिओ सासुयाए तव्वुत्तंतो । जत्थ कारण-पुरिसा वि एरि-
सा तत्थ केरिसी रयणासा । वड्डए वुत्तं—अत्थि चउ-दिस-ट्टिय-पुरिस-पमाणा
चउ-कोणा मंजूसा । सा रित्ती काऊण गिहेग-देसे मुच्चड । सासुयाए तहेव कयं ।
सज्जियं जयसुंदरीए मंदिरं । निसाए विप्फुरंते मोहे व्व विहिय-दिट्टि-पडिरोहे
तिमिरोहे आगओ सेट्टी । पविट्टो भवणव्वंतरं । कयं तीए चलण-सोहणाइ ।
पारद्धा सिंगार-कहा । इत्थंतरे पत्तो पुरोहिओ भणियं अणेण—सुंदरि ! उग्घा-
डेसु दुवारं । तीए वुत्तं—को एस ? सेट्टिणा भणियं—पुरोहिओ व्व लक्खीयइ ।

अत्थित्थ किञ्चि निलुक्कण-ठाणं ? दंसिओ तीए मंजूसाए उत्तर-कोणो । तत्थ पविट्ठो सेट्ठी, दिन्नं तालयं । उग्घाडियं दुवारं, पवेसिओ पुरोहिओ, निवेसिओ सीहासणे, तस्स वि तद्देव कओ उवयारो, पारद्धा संकहा । एत्थंतरे पत्तो मंती भणियं तेण—उग्घाडेहि दुवारं । तीए वुत्तं को एस ? पुरोहिएण भणियं—मंति व्व नज्जइ अत्थित्थ किञ्चि नासण-ट्ठाणं ? तीए दंसिओ पच्छिम-कोणो । तत्थ पविट्ठो पुरोहिओ । पवेसिओ मंति तस्स वि कओवयारो पारद्धा कहा । इत्थंतरे आगओ राया तेण वुत्तं—उग्घाडेहि वारं । तीए वुत्तं—को एसो ? मंतिणा वुत्तं-राय व्व लक्खीयइ । दंसेहि नासण-ट्ठाणं । दंसिओ तीए दक्खिण-कोणो तत्थ पविट्ठो मंती । पवेसिओ राया पारद्धो उवयारो । इत्थंतरे गहिय-संकेया आगया सासुया भणिया अणाए—वच्छे ! उग्घाडसु दुवारं । रत्ता भणिया—का एसा ? तीए वुत्तं—मह सासुया । रत्ता वुत्तं—दंसेहि किं पि ठाणं, खणमित्तं ओसरामि । दंसिओ पुव्व-कोणो पविट्ठो राया दिन्नं तालयं । इत्थंतरे पहाया रयणी । बहुर्यं गले घेत्तुण परुत्ता घणसिरी । मिलिओ लोगो, आगओ तलारो, पुच्छियं तेण किमेयं ति ? घणसिरीए कहियं—एगो पुत्तो सो वि देसंतरे पत्तो पंचत्तं । तओ तलारो गओ रायडलं । नत्थि राय त्ति गओ मंति-गेहं । मंती नत्थि त्ति गओ पुरोहिय-गिहं । सो वि नत्थि त्ति गओ सेट्ठी-गेहं । सो वि नत्थि त्ति कहियं लहुर्य-पंचउलस्स । तं आगयं गिहे । निरुविऊण घर-सारं भणिया तेण घणसिरी—भदे ! तुह गेहे महंती अत्थ-संभावणा न थ किं पि दीसइ त्ति । तीए वुत्तं देसंतरं वच्चंतेण पुत्तणेण भणियमेयं—एसा मंजूसा जत्तेण रक्खियव्वा । पंचउलेण चितियं संभाविज्जइ इत्थ घरसारं । सा उण चालिडं पि न तीरइ त्ति पुच्छिया व्ह—किं कारणं जं इत्थ बहूओ भारो ? तीए वुत्तं—अज्ज मए सुविणे चत्तारि लोगपाला गिहागया दिट्ठा । ते वि मंजूसाए पुव्व-दाहिणावरुत्तरेसु कोणेसु पविट्ठा । तो जइ सब्बो एस सुविणो तो तप्पभावेण भारो संभाविज्जइ । राय-पुरिसेहिं चडाविया गड्डीए मंजूसा, नेऊण मुक्का करणस्स पुरओ । मिलिओ लोगो । पंचउलेण भणिया घणसिरी कूंचियाओ । उग्घाडियाइं तालयाइं । पुव्वाओ कोणाओ नव-वहु व्व पडच्छन्न-मुहो अहो-निविट्ठ-दिट्ठी निग्गओ राया । दाहिणाओ मंती, पच्छिमाओ पुरोहिओ, उत्तराओ सेट्ठी । सब्बे वि वेगेण गया निय-निय-गिहेसु । पंचउलेण भणियं—किं सब्बं इमे रायामच्च-पुरोहिय-सेट्ठिणो ? किं वा इंदयालं ? न हसंताणं न रोयंताणं ति पुच्छिया जयसुंदरी—को एस वुत्तंतो । तीए वुत्तं घरे चेव साहिओ सुविणो, सो सब्बो संभा-

विज्जइ । पंचउलेण चितियं अलं इमिणा विद्यारेण, मा जणो पंडिओ कीरओ ।
 आथार-संवरं काऊण मंजूसाए सह पेसियाओ सासुय-बहुयाओ । रत्ता
 भणिओ तलारो एगंते—गिहे गंतूण भण जयसुंदरिं, जहा रयणाणि लहसि
 तहा करिस्सामो, परं न एस निसा-वुत्तंतो कस्स वि कहियव्वो । तहेव कयं
 तलारेण । अमच्चेण भणिओ दामोयरो परसंतियाणि रयणाणि हरंतस्स ते
 सुमरियं कयंतेण ता लहुं समप्पेहि । तेणावि तहेव कयं ।

अह सुंदरो वि वित्ते वासारत्ते विढत्त-बहु-वित्तो ।

सह कणयसुंदरीए पत्तो खेमेण निय-नयरिं ॥

जणणी-मुहाउ सोढं जयसुंदरि-सील-रयण-वुत्तंतं ।

तीए उवरि विसेसेण सुंदरो कुणइ अणुरायं ॥

देव-गुरु-भक्ति-रम्मं धम्मं जयसुंदरी चिरं काढं ।

पज्जंते गहिय-वया मरिऊण गया तियस-लोयं ॥

इति शीले जयसुंदरी-कथा ।

इय सील-धम्ममायन्निऊण भव-जलहि-तारण-तरंडं ।

संविग्ग-मणो राया गिण्हइ नियमं गुरु-समीवे ॥

अट्टमि-चउइसी-पसुह-पव्व-दियहे सुनिच्चमेव मए ।

कायव्वं बंभवयं भयवं ! मण-वयण-काएहिं ॥

अह वागरियं गुरुणा—जीव-दया-कारणं तवं कुज्जा ।

छज्जीव-निकाय-वहो न होइ जम्हा कए तम्मि ॥

जह कंचणस्स जलणो कुणइ विसुद्धं मलावहरणेणं ।

जीवस्स तहेव तवो कम्म-समुच्छेय-करणेण ॥

कम्माइं भवंतर-संचियाइं तुहंति किं तवेण विणा ।

डज्झंति दवानलमंतरेण किं केण वि वणाइं ॥

अगणिय-त्तणु-पीडेहिं तित्थयरहिं तवो सयं विहिओ ।

कहिओ तह तेहिं चिय तित्थयरत्तण-निमित्तमिमो ॥

कुसुम-समाओ तियसिंद-चक्खवट्ठिणाइ-रिद्धीओ ।

जाणसु तव-कप्प-अहीरुहस्स सिव-सुक्ख-फलयस्स ॥

बारस वरिसाइं तवो पुव्व-भवे रुपिणीइ जह विहिओ ।

तह कायव्वो नीसेस-दुक्ख-खवणत्थमन्नेहिं ॥

तं जहा—

लच्छि-ग्गामे लच्छी-अलंकिओ आसि सोमदेवो त्ति ।

विप्पवरो दाणपरो लच्छिमई नाम तस्स पिया ॥

सा नियय-रूव-लावन्न-गच्चिया गमइ कालमणवरयं ।

मंडंती अप्पाणं अन्न-दिणे मंदिरे तीए ॥

समणो समाहि-गुत्तो पत्तो पक्खोपवास-पारणए ।

भिक्षत्थं तं ददं तुट्ठो अब्भुट्ठिओ विप्पो ॥

समणस्स देहि भिक्षं पिए ! इमस्स त्ति जंपिउं भज्जं ।

सो निग्गओ गिहाओ मंडंती सा वि निय-वयणं ॥

दप्पण-तल-संकंतं मुणि-पडिविंवं च पिच्छए एवं ।

निम्मंसमट्ठि-चम्मावसेसमइमल्लिण-दुग्गंधं ॥

तं ददं कुवियाए दिट्ठि-पहं मज्झ मेल्लसु विरूव ! ।

इय निट्ठुर-भणिरीए तीए निस्सारिओ साहू ॥

तीए य सत्तम-दिणे जाओ सब्बंग-संचरो कोढो ।

जं उग्ग-पुन्न-पावाइं एत्थ जम्मे वि दिंति फलं ॥

जण-वन्नणिज्ज-वन्नं आसि सुवण्णं व जं सरीरं से ।

तंयं व तं विवण्णं जायंतं कं न दूमेइ ॥

सुंदरिम-हसिय-कमलं पि कम-जुयं तीइमं गलं जायं ।

रंभा-समं पिहूयं सिवलि-थंभाभमूरुजुयं ॥

चंपय-लओवमं पि हु मुय-जुयलं जायमयगर-सरिच्छं ।

अरुणंगुलि-कलियं पि हु कर-कमल-जुयं गयं गल्लिं ॥

थिंव-फल-सोयरं पि हु उट्ठ-पुढं कुट्ठ-घोत्थरं जायं ।

सरला वि नासिया से नट्ठा कुट्ठस्स भीय व्व ॥

एवं उंवर-कोढकंता कंता वि तेण सा चत्ता ।

रूव-सिणेहार्इणं अणिच्चयं तेण विंति वुहा ॥

मण-दुक्ख-अग्गि-दड्ढा मया इमाए विसिज्जण अग्गिम्मि ।

जं भणियमोसहं खल्लु अग्गि च्चिय अग्गि-दड्ढाण ॥

मरिज्जण सा समुप्पन्ना तत्थेव गामे रायउले रासही । पय-पाणं अपावंती
कइ वि दियहाइं जीविज्जण मया संजाया गड्ढा-सूयरिया । तओ मरिज्जण जाया
सुणही । वणे भमंती दड्ढा दवग्गिणा, मरिज्जण लाड-देसे भरुयच्छासन्न-गामे

जाया कुर्वन्वा विस्सरा दुग्गंधा काणि त्ति नाम धीवर-धूया । तग्गंधं असहंतेहिं
 पिउहिं नम्मया-तीरे' तण-कुडीरयं काऊण तत्थ ठविया सा । नावाए नईए
 लोगं उत्तारंती दिणाहं गमेइ । अन्नया सो चेव समाहिगुत्तो साहू सिसिरे
 नम्मया-तीरे कय-काउस्सगो दिट्ठो तीए । तं च तरंगिणी-तरंग-संग-सीयलं
 दुस्सह-समीरं सहंतं संझाए निरावरणं पेच्छिऊण जाय-करुणाए कया तस्स
 समंतओ तण-भरेहिं पवण-वारणत्थं वाडी । पभाए आगया, मुणिं नमिऊण
 निविट्ठा पुरओ । कया मुणिणा धम्मदेसणा । तं सोऊण संविग्गा सा पुच्छए
 मुणि—भयवं ! कहिं पि तुमं भे दिट्ठ-पुव्वो । नाण-बलेण साहिया साहुणा तीए
 लच्छिमइ-भवाइया पुव्व-भवा । संजाय-जाइसरणा जाया सा साविया । सा-
 हुणा समप्पिया धम्मसिरि-अज्जाए । साहुणीहिं सह विहरंती गया गाममेकं ।
 मुक्का तत्थ नाइल-सावयस्स गिहे । करेइ जिण-भवण-वेयावच्चं । काऊण बा-
 रस-वरिसाहं एगंतरोववासे पज्जंत-विहियाणसणा मरिऊण जाया अच्चुइंदस्स
 पिययमा । पंचपन्नासं पलिओवमाहं पवर-भोगे शुत्तूण समुप्पन्ना इहेव भरहे
 वराड-विसय-मंडिणीए कुंडिणीए नयरीए ।

जत्थुल्लासिय-दोसायराउ रयणीउ न उण रमणीओ ।

अगुरु-परिचय-पहाणा य भोइणो जोइणो न उण ॥

तत्थ वसुहा-विलासिणी-विसेसओ भेसओ राया ।

जस्स असि-भिन्न-अरि-करि-कुंभत्थल-गलिय-मुत्तिय-गणेण ।

वीएण व जणिया समर-भूमि-पडिएण कित्ति-लया ॥

तस्स रत्तो निरुवम-रुव-रेहा-वियंभिय-जसाए जसमइ-देवीए गव्व
 संभवा रूप्पिकुमारस्स लहु-बहिणी रूप्पिणी नाम धूया जाया । सा य सरीरसुं-
 दरिम-दलिय-देव-रमणी-मडप्फरा मयरद्धय-महाराय-लीला-वणं पत्ता जुव्वणं ।
 इओ य विस्संभर-भरण-भूयाए बारवइए भरहद्ध-चक्कवटी कण्हो राया ।
 अन्नया तत्थ गओ गयणंगणेण नारय-रिसी । सो वि कण्ह-बल-पसुह-दसारे
 अभिनंदिऊण पत्तो कण्हस्स अंतेऊरं । तत्थ अब्बुट्ठाण-अग्घ-दाणार्हहिं स-
 म्माणिओ अंतेउरीहिं, न उण कयसिगाराए आयरिस-गिहे अप्पाणं सबवंतीए
 सबभामाए । कुविएण तेण चित्तिर्यं—निय-सोहग्ग-गव्वियाए सबभामाए
 एक्काए न पूइओऽहं ता तहा करेमि जहा एसा सावक्क-दुक्खे पडइ त्ति । तओ
 उप्पइओ सो निसियासि-पट्ट-सन्निहं नहंगणं । पत्तो कुंडिणीए । भेसय-नरि-
 दमभिनंदिऊण पविट्ठो अंतेउरं दिट्ठा तत्थ रूप्पिणी ।

जीए सयंकयार्ण रूवाइ-गुणाण वन्नणत्थं व ।
 चउ-वयणो संपन्नो पयावई विम्हय-वसेण ॥
 तीए अगंधं दाउं पराए भत्तीए नारओ नमिओ ।
 तेणावि रुप्पिणीए आसीसा एरिसा दिन्ना ॥
 कण्हस्स अग्गमहिंसी वारवई-सामिणो तुमं होसु ।
 नमिऊण पुच्छए सा—भययं ! को एस कण्हो त्ति ? ॥
 अह नारएण कहियं चरियं कण्हस्स मूलओ सच्चं ।
 पयडी-कया गुणा तह सोहग-परक्कम-प्पमुहा ॥
 तं सोउं संजाओ अणुराओ रुप्पिणीइ कण्हम्मि ।
 तीए रूवं लिह्दिउं पडंभी नारयरिसी वि गओ ॥
 कण्हस्स पडं अप्पइ, सो पुच्छइ भइ ! का इमा देवी ? ।
 रिसिणा भणियं—नरवर ! न देवया माणुसी एसा ॥
 कण्हो जंपइ कि माणुसीइ संभवइ एरिसं रूवं ।
 भणइ मुणी नणु तीए रूवस्स लवो मए लिहिओ ।

जओ—

एइह मित्तम्मि जए सुंदर-महिला-सहस्स-भरिए वि ।

अणुहरइ नवर तिस्सा वामद्धं दाहिणद्धस्स ॥

एवं भणिऊण डप्पइओ नारओ । जायाणुराएण कण्हेण पेसिया
 कुंडिणीए रुप्पिणो पासे रुप्पिणी-मग्गणत्थं पुरिसा । गोवालो हीण-जाइ त्ति
 निसिद्धो कण्हो रुप्पिणा । दिन्ना य सिसुपालस्स । अन्नया पइरिक्के पिउच्छाए
 भणिया रुप्पिणी—वच्छे ! ममुच्छंग-गयं तुमं बालत्ते दडूण अइमुत्तय-मुणिणा
 भणियं, एसा कण्हस्स अग्गमहिंसी होही । मए भणियं—भयवं ! को सो
 कण्हो ? । तेण जंपियं—पच्छिम-दिसाए, समुइ-तीरे जो वारवई निवेसेही ।
 संपयं भइ ! तुह कल्लाणमुवट्ठियं । कण्हेण मग्गिया तुमं परं न दिन्नासि,
 रुप्पिणा दिन्नासि सिसुपालस्स । रुप्पिणीए भणियं—किमन्नहा होइ मुणि-
 वयणं ? । तुमं चेव कुणसु जमित्थजुत्तं । तीए नायं—अत्थि एयाए कण्हे अणु-
 राओ । तओ तीए पेसिओ पच्छन्नं कण्हस्स दूओ । जहा—माह-सिय-ट्टमिए
 नाग-घरे पूया-निमित्तं रुप्पिणीए समं गमिस्सामि । तत्थ तुमए आगंतच्चं ति ।
 पारद्धो य वीवाहो रुप्पिणा सिसुपालस्स । समागओ सो अणेय-करि-तुरय-
 रह-पाइक्क-चक्क-परिगओ । कलि-कामेण नारएण जाणाविओ एयमत्थं कण्हो ।

रामेण सह रहारूढो सो पत्तो कुंडिणीए पंचाणणो व्व काणणे निव्वभओ चिद्धह । तंमि दिणे रुप्पिणी पिउच्छाए बह्हु-घाई-बुद्ध-नारी-परिगया नागाइ-पूयणत्थं गया उज्जाणे । काऊण नाग-पूर्यं पूएइसुं ईदाणी-पसुह-देवेसु कहियं चरेहिं एयासिं जहा पत्ता एए राम-केसवा । तओ रहाओ उयरिऊण कण्हेण अभिवाइया पिउच्छा । भणिया य रुप्पिणी—

कण्हो हं तुज्झ कए इहागओ, तो समीहसे जइ मं ।

ता आरूह रहमेयं हियए पुण पुव्वमारूढा ॥

पिउच्छाए अणुन्नाया कण्हेण आरोविया रहं रुप्पिणी । एसा रुप्पिणी केणावि निज्जइ त्ति परियणेण कओ कोलाहलो । तं सोऊण मिलिओ बहुओ लोगो । भणिओ सो कण्हेण—गंतूण कहेह रुप्पिणो, तुह भइणी कण्हेण निज्जइ, जइअत्थि कावि सत्ती ता मेल्लावसु त्ति भणिऊण आजरिया राम-कण्हेहिं पलय-काल-घण-घोसाणुकारिणा सरेण कय-असंख-जण-संखोहा संखा । सुणिय-बुत्तंता जणिय-कोवा कय-संनाहा दसहिं सहस्सेहिं गयंदाणं तिहिं लक्खेहिं तुरंगाणं सट्ठीए सहस्सेहिं रहाणं बह्हुहिं लक्खेहिं पाइक्काणं परियरिया रुप्पिसि-सुपाला । लग्गा अणुमग्गेणं राम-कण्हाणं । ते आगच्छंते दट्ठूण भउव्वभंत-हिययाए कण्हुच्छंग-गयाए रुप्पिणीए भणियं—बह्हु-सेन्न-संगया महारहा इमे तुम्हे पुण सेन्न-रहिया । ता तुम्ह संगमं विहलं व तक्केमि त्ति कंपइ मे हिययं । कण्हेण जंपियं—पंकयच्छि ! उज्झेसु सज्झसं झत्ति । बहुएवि अहं गरुडो व्व पन्नगे निग्गाहिस्सामि ।

जओ—

अम्हे थोडा रिउ बहुय इउ कायर चिंतंति ।

मुद्धि निहालहि गयणयलु कइ उज्जोउ करंति ॥

जइ न पत्तियसि ता पिच्छ मे बाहु-बलं ।

इय भणिलं कण्हेणं आकण्णं कट्ठिऊण कोदंडं ।

एगेण अद्ध-चंदेण छिंदिया ताल-तरु-माला ॥

पुण वि बल-पयडणत्थं हरिणा वज्जं निर्यंगुलीयस्स ।

दलियं निर्यंगुलीहिं कप्पूर-कणो व्व हेलाए ॥

दट्ठूण इमं तुद्धा एसा, अह हलहरं हरी भणइ ।

वेत्तूण बह्हुं वच्चसु अहं निवारेमि पर-सेन्नं ॥

हलिणा वि हरी भणिओ वच्च तुमं पर-बलं जिणेमि अहं ।

इय तेसिं संलावं सोडं तुद्दा य तद्दा य ॥
 कण्हस्स रुप्पिणी निवडिज्जण चलणेसु विन्नवद्द एव ।
 रक्खेसु रुप्पिणो मज्झ भाउणो जीवियं नाह् । ॥
 हरिणा भणिओ रामो रक्खेज्ज इमीह् भाउणो जीयं ।
 कण्हो वि सयं पुण रुप्पिणीह् सह निय-पुरिं चलिओ ॥
 जलहि-जलं पिव मच्छो विलोलए परवलं वलो पवलां ।
 लीलाए मुसलेणं चूरंतो करडि-संघायं ॥
 तो कुविओ सिमुपालो हुक्को भामिय-कराल-करवालो ।
 हणिडं मुसलेण वलेण सो वि गय-पोरिसो विहिओ ॥
 अह् घाविओ स-दप्पो रुप्पी धिट्ठोसि रे ! तुमं गोव ! ।
 जो मह् पुरओ चिट्ठसि इय जंपंतो हलहरेण ॥
 आयड्डिडं रहाओ हलेण हणिडं तल-प्पहारेण ।
 धरणीह् पाडिओ छिन्न-घणु-गुणो लुलिय-केसो य ॥
 भणिओ मुक्कोसि मए रे ! जीवंतो दयाह् गच्छ गिहं ।
 इय विहिय-वेरि-विजओ कण्ह-समीवं गओ रामो ॥
 वारवईह् पवेसे भणिया कण्हेण रुप्पिणी एव ।
 धणएण निम्मिया जा मज्झ कए सा पुरी एसा ॥
 कण्हो भणिओ तीए गुरु-यण-दिन्नाओ गरुय-विभवाओ ।
 बहु-परिवार-जुयाओ भज्जाओ तुज्झ चिट्ठंति ॥
 एगाणिणी अहं पुण आणीया वंदिणि व्व इह् तुमए ।
 ता तह् करेसु तासिं जह् नाह् ! न होमि हास-पर्यं ॥
 कण्हेण जंपिया सा मा वीह् पिए ! तहा करिस्सामि ।
 जह् च्छामणि-भूया होसि तुनं सब्ब-भज्जाणं ॥
 तो गंतुं उज्जाणे अवणेडं सिरि-घरे सिरि-पडिमं ।
 तद्दाणे सा ठविया कण्हेण इमं च्च सिक्खविया ॥
 सच्चा-पमुहाउ अंतैउरीउ सिरि-पणमणत्थमेत्थ जया ।
 आगच्छंति तथा खल्लु अणमिस-नयणा ह्वेज्ज तुमं ॥
 अह् कण्हो निय-भवणे पत्तो सच्चाइ पुच्छिओ एव ।
 कत्थ तुह् वल्लहा सा ? सो जंपह् सिरि-घरे अत्थि ॥
 तइंसणूसुयाओ गयाओ सच्चाओ तत्थदेवीओ ।

ददृण रुप्पिणि कणय-सच्छहं छविमणमिसच्छि ॥
 लच्छि त्ति लक्खिचं पूहं पणमिउं च जंपए सच्चा ।
 देवि ! पसायं काउं जइ कुणसि तुमं ममाहिंतो ॥
 तुच्छं रुवाइ-गुणेहिं महिलमागंतुगं तओ तुज्झ ।
 काहं महंत-पूयं इय विन्नविउं गया सच्चा ॥
 कणहस्स अंतिए भणइ अप्पणो दइयमस्स दंसेसु ।
 तो सिरि-हरंमि पत्तो कणहो अंतेउरीहिं समं ॥
 सो रुप्पिणीइ अब्भुट्टिऊण भणिओ नमामि कं पढमं ।
 कणहेण सच्चभामा दक्खविआ भणइ सां एवं ॥
 पुव्वं मए पणमिया एसा हसिऊण जंपए कणहो ।
 जं भइणीए भइणी नमिया तत्थत्थि को दोसो ॥
 वियरेइ रुप्पिणीए पासायं सच्च-सुंदरं कणहो ।
 तह रयण-कंचणाहरण-वत्थ-पमुहं महा-विहवं ॥
 इय पुव्व-जम्म-निम्मिय-तव-प्पभावेण रुप्पिणी देवी ।
 इंदेण सह व्व सुहं माणेइ समं उविदेण ॥
 इति तपसि रुक्मिणी-कथा ।

जह पुव्व-भवे महुकेढवेहि पज्जुज-संव-कुमरेहिं ।
 विहिओ तवो विचित्तो तह अत्तेहिं पि कायव्वो ॥

तं जहा—

कइयावि कणह-पासे समागओ नारओ कहइ एवं ।
 वेयडु-पव्वए जंबवंत-विज्जाहरिंदस्स ॥
 देवीए सिवचंदाइ नंदणो अत्थि वीससेणो त्ति ।
 जंबवई जंबूणय-वन्ना तस्सत्थि लडु-बहिणी ॥
 निय-वयण-कणय-पंकेरुहाण तुल्लत्त-दंसणत्थं व ।
 सुर-सरियाए कूले कीलंती सा मए दिट्ठा ॥
 कणहेण तत्थ गंतुं ददाणुराएण सावि आणीया ।
 तज्जणयमणाहिट्ठी जिणिऊण हरिस्स उवणेइ ॥
 सो वि ह्हु गुरु-रिडीए हरिणा परिणाविऊण निय-धूर्यं ।
 गुरु-वयण-सवण-संविग-भाणसो गिण्हए दिक्खं ॥

अन्नया गिरिनयराओ सच्चभामाए भाया दुज्जोहणो तत्थागओ । सो परिहासेण भणिओ सच्चभामाए—भाय ! वेवाहिओ होसु जया मज्झ पुत्तो होइ तथा तुमए तस्स निय-धूया दायव्वा । रुप्पिणीए वि सो एवं भणिओ । इत्थंतरे भिक्खत्थं तत्थागओ ओहिनाणी साहू । पवराहारेहि पडिलाभिऊण सो रुप्पिणीए भणिओ—

भयवं ! मे होही पुत्तो ? सच्चाए वि पुच्छिओ एवं ।

होहि त्ति एग-वचणं भणिऊणं निग्गओ साहू ।

सच्चभामा-रुप्पिणीणं जाओ दुण्हंपि सुय-विवाओ । सच्चा भणइ सुणिणो मे अक्खिओ पुत्तो, रुप्पिणी भणइ ममं त्ति । सच्चाए भणियं—जीए पुत्तो होही तदियरीए केसेहि पुत्त-विवाहे दग्ग-कज्जं कायव्वं । इत्थ सक्खिणो कण्ह-बलदेव-दुज्जोहणा । अन्नया निसाए सारय-ससंक-सच्छहो वसहो वयणे पविसंतो सुविणे दिट्ठो रुप्पिणीए । कहिओ कण्हस्स । तेणावि हक्कारिऊण सम्माण-पुव्वं पुच्छिया सुविण-पाढगा—किं फलो एस सुविणो त्ति ? तेहिं कहियं—तुज्ज तुल्लो पुत्तो होही ।

अह महासुक्काओ चविऊण मह्हुदेव-जीवो रुप्पिणीए गग्गे ससुप्पन्नो । सा नवण्हं मासाणं साहरेगाणं निय-देह-प्पहा-पभारेण गग्ग-गिहंधयार-दारयं दारयं पसूया ।

वद्धाविओ य कण्हो गंतुं चेडीए तुरिय-गमणाए ।

तीए नियंग-लग्गं दिन्नं कण्हेण आभरणं ॥

कण्हो पहिट्ठ-हियओ उवविट्ठो सूह-मंदिरे गंतुं ।

काउं करे कुमारं दासी दंसेइ कण्हस्स ॥

नयण-मणाणंदकरं सब्बंगं जाव तं नियइ कण्हो ।

ता रयणं व कुमारो हरिओ केण वि अदिट्ठेण ॥

अह रुप्पिणी-कुमारावहार-गुरु-सोय-भरिय-सब्बंगा ।

सुच्छा-निमीलियच्छी घस त्ति धरणी-यले पडिया ॥

सिसिरोवयार-संपत्त-वेयणा पसमिउं व सोयगिं ।

सा वाह-सलिल-धूरं भिल्लंती पलवए एवं ॥

हा चंदवयण ! हा कमल-नयण ! हा वच्छ ! लच्छि-कुल-भवण ! ।

हा निय-चंस-विभूसण ! हा किसलय-अरुण-कर-चलण ! ॥

खिविऊण ममं दीणं दुस्सह-सोयानलंमि पजलंते ।

अगणिय-जणणि-सिणेहो पुत्त ! तुमं कत्थ पत्तोसि ॥
 निल्लक्खणा अहं चिअ निब्भग्ग-सिरोमणी अहं चेअ ।
 जं परिहरिजण ममं पुत्त ! तुमं कत्थ वि गओसि ॥
 हा तणय ! कणय-सच्छह ! जीवन्ति लोघणेहिं एएहिं ।
 किं तुज्झ वयण-कमलं कयाइ पुणरवि पलोइस्सं ॥
 कणहो वि जाय-सोगो विलवइ सह जायवेहिं हा वच्छ ! ।
 केणावि वेरिएणं एक्क-पए चेव हरिओसि ॥
 हा दिव्व ! मह विलीयं किं दिट्ठं जं तए सुय-मिसेण ।
 आरोविजण भवणे कप्प-तरु एस अवहरिओ ॥

एत्थंतरे गयणाओ आगओ नारओ, भणियं तेण—भो ! किमेवं सोय-
 सुव्वहह, जओ सुरासुरेहिं पि दुरइक्कभो कम्म-परिणामो । ता अवलंबेह धीरयं,
 कहेमि तुम्ह पुत्त-पडत्तिं ति, भणिऊण पत्तो महाविदेहं । पणमिऊण सीमंघ-
 र-सामिं पुच्छेइ—भयवं ! किं पुव्व-भवे रूपिणीए कयं कम्मं जं जायमेत्तो वि
 अवहरिओ से पुत्तो । केण अवहरिओ, कत्थ सो, कंहं वा चिट्ठइ त्ति ? । भणियं
 सामिणा भइ ! सुण—बंभणी-भवे इमीए उज्जाणाओ मोरीए रसंतीए मोर-
 पोयगो नीओ निय-गेहं । बुद्धिं नेऊण सिक्खविओ नहं । तालाए चप्पुडि-
 याए य दिन्नाए नडो व्व नच्चए विविह-भंगीहिं । सा उण तस्स माया मोरी
 तन्नेह-मोहिया न मिच्छए तं पएसं । सयणेहिं भणिया बंभणी—भदे ! किं
 अणेण रुहेण जस्स माया मोरी सुय-विओग-दुक्खिया एवं गमइ कालं । तओ
 तव्वयण-जायाणुकंपाए तीए सोलसमे मासे सुक्को । तं कम्मं बारस-शुणं उइजं
 रूपिणीए । अओ सोलस-वरिस-पज्जंते पुत्त-दंसणं होहि त्ति । जं पुण पुच्छियं
 केण कम्मेण अवहारिओ त्ति तं सुण—एत्थेव भारदे वासे सालि-ग्गामे मणोर-
 मुज्जाणस्स सामी सुमणो नाम जक्खो । तत्थेव सोमदेवो नाम बंभणो आसि ।
 तस्स भज्जा अग्गिला ताणं दुत्ति पुत्ता चउदस-विज्जा-ठाण-पारगा अग्गिभूई
 वायुभूई य । अन्नया बहु-साहु-सहिओ चंदो व्व तारय-परियरिओ समोस-
 रिओ मणोरमुज्जाणे नंदिवद्धणायरिओ । गओ तव्वदणत्थं गाम-लोगो । पारद्ध
 भव-निव्वेय-जणणी शुरुणा धम्मदेसणा । निय-पंडिच्च-पर्यंड-दप्पा दो वि
 दिय-नंदणा उवट्ठिया वाए । निज्जिया एक्केण साहुणा भणिया य—भइ ! किं
 जाइ-कुलाइ-गव्वमुव्वहह । सुणह अत्तणो पुव्व-भवं । इहेव नामे वणत्थलीए
 सियाला दो वि तुम्भे आसी । कयाइ करिसणेण केण वि हलोवगरणां खेत्ते

सुकाइं नाडयाइं रयणीए बुद्धेण तित्ताइं ताइं भक्खिज्जण मया कम्मवसेण ।
जाया इमस्स विप्पस्स पुत्ता । करिस्सगो वि कालेण मओ जाओ निय-मुण्हाए
नंदणो । जाइं सरिज्जण कहं निय-त्तणयं जणयं सुण्हं वा जणाणि जंपेमि त्ति
सूयत्तणं पवत्तो । जइ नत्थि पच्चओ, तो सहेह तं मयं जेण सब्बमेयं साहइ ।
तओ वाहराविओ मूओ भणिओ सो मुणिणा ।

राया वि होइ भिच्चो भिच्चो वि नरेसरत्तणं लहइ ।

माया वि होइ भज्जा भज्जा वि हु होइ माय त्ति ॥

जणओ वि होइ तणओ तणओ वि हु एत्थ जायए जणओ ।

सुण्हावि होइ माया माया वि हु होइ सुण्ह त्ति ॥

ता वच्छ ! संसार-सरूबमेयं परिभाविज्जण मुत्तूण लज्जं कहेसु
अत्तणो पुब्ब-भवं । सो वि सहरिसो लोयस्स निय-पुब्ब-भवं साहइ । संवि-
ग्ग-मणो मुणि-पासे पच्चइओ पामरो । ते वि दिय-दारया सियाला वंभणा
जाय त्ति उवहसिया अविवेगिणा लोएण । विलक्ख-चित्ता कोवमुच्चंता
रयणीए खग्ग-वग्ग-हत्था वहत्यं साहूणं आगया उज्जाणं । थंभिया सुमण-
जक्खेण । पभाए दिट्ठा खीलिया लोणेण । मुणिय-वुत्तना आगया तेसिं
माया-पियरो । अक्खियं जक्खेण मुणि-मारणुज्जुया इमे मए एवं कया ।
तो जइ जिणधम्मं पडिबज्जंति ता मिल्लेमि, न अन्नहा । तेहिं भणियं
दुक्करो साहु-धम्मो सावग-धम्मं पुण करिस्सामो । एवं करेह त्ति भणि-
ज्जण शुद्धा ते जक्खेण । गहियं सावगतं भावओ सुएहि साहु-समीवे, न
उण जणाणि-जणएहिं । कालेण अग्गिभूइ-वाउभूइणो भरिज्जण समुप्पन्ना
सोहम्मे पंच-पल्लिओवमाऊ देवा । तओ चुया हत्थिणाउरे अरिहदास्स
स्वावयस्स पुन्नभह-माणिभह-नामाणो जाया नंदणा । जिणसासणाणुरत्ता
क्कुणंति सावगतं । अन्नया महिद-चाव-चवलं जाणिज्जण जीवियं महिद-मुणि-
समीवे पवन्नो अरिहदासो दिक्खं । तस्स सुया रहारूढा साहु-नमणत्थं
पत्थिया । पेच्छंति मग्गे सुण्हाही-सणाहं चंडालं । जाओ तेसि तदुवरि सि-
णेहो । गया साहु-समीवे । वंदिज्जण पुच्छंति साहुं—भयवं ! किं कारणं जेण
अम्हाणं सुण्हाहि चंडालं च ददूण सिणेह-निब्भरं मणं जायं । साहुणा कहियं-
मुब्बे अग्गिभूइ-वाउभूई पुब्ब-भवे हुंता । तुम्ह पुण माया-पियरो अकय-धम्मा
मया संसारं हिंदिज्जण माया सुण्हाही जाया पिया पुण एसो सोवागो ।
तओ ते संजाय-जाइसरणा संसार-सरूवं सुमरंता गया गेहं । तेहि कहिज्जण

वृत्तंतं पडिबोहिओ सोवागो सुणही य । वेरग-समगो सोवागो मास-प्पमाणं
अणसणं काऊण मओ नंदीसरे देवो जाओ । सुणही वि कयाणसणा तत्थेव पुरे
रन्नो धूया जाया । पुणो वि सो साहू तत्थागओ । पुच्छिओ तेहि सुणही
सोवागो य मरिऊण कत्थ गय त्ति ? । साहुणा कहियं जहावत्तं । राय-धूया
पडिबोहिया तेहि । काऊण पवज्जं गया सुरलोयं । ते वि काऊण निम्मलं साव-
गत्तं पत्ता सोहम्मै । जाया सुरिंद-सरिसा सुरा । तओ चुया हत्थिणाउरे वीर-
सेण-रायस्स महु-केढवाभिहाणा जाया तणया । गहिय-कला-कलावा पत्ता
जुव्वणं । पर-लोय-पत्थिएण पिउणा ठविओ रज्जे महुकुमारो, केढवो कओ-
जुवराओ । अन्नया निय-सेवगस्स वडउर-सामिणे कणयाभरणस्स भज्जा
चंदाभा नाम अवहरिया महुणा । तीए सह विसए सेवंतो महु कालं गमेइ ।
वडउर-नरिदो वि चंदाभा-विरहे तरु-वक्क-निवसणो भूइ-भुर-कुंडियंगो संजाओ
जडहारी । कयाइ दिट्ठो देवीए मग्गे भमंतो, दंसिओ महु-नरिंदस्स । एस
मज्झ पई मह विओगे परिचत्त-रज्जो एगागी एवं परिभमइ । तं सोऊण
चित्तियं महुणा ।

हा ! कुंदिदु-समुज्जलो कलुसिओ तायस्स वंसो मए

बंधूणं मुह-पंकएसु य हहा दिन्नो मसी कुचओ ।

ही ! तेलुक्कमकित्ति-पंसु-पसरेणुद्धूलियं सव्वओ

धिन्ही ! भीम-भवुडभवाण भवणं दुक्कत्ताण अप्पा कओ ॥

जं विसय-परव्वस-माणसेण हरियं मए पर-कलत्तं ।

ता तिव्व-तवं काहं इमस्स पावस्स सुद्धिकए ॥

तो धुंधुमार-कुमरं रज्जे ठविऊण महु-मही-नाहो ।

निय-बंधु-केढवेणं समन्निओ गिण्हए दिक्खं ॥

ते दो वि सयल-सुत्तत्थ-पारगा जिय-परीसह-कसाया ।

कुव्वंति तवं छट्टट्टमाइ-छम्मास-पज्जंतं ॥

बहुवास-सहस्साइं सामन्नं पालिऊण पज्जंते ।

कय-पायवोव-गमणा मरिउं सुक्के सुरा जाया ॥

अह वडउर-नयर-निवो कालं अन्नाण-तवमपज्जंतं ।

मरिऊण समुप्पन्नो पलियाऊ जोइसेसु सुरो ॥

तत्तो चविउं भमिओ भवम्मि लहियं नरत्तणं कह वि ।

किंचि कय-सुकय-कम्मो जाओ सो धूमकेउ-सुरो ॥

महु-नरिंदो वि सत्तरस-सागराहं सुर-रिद्धिं मुत्तूण चविडं समुप्पन्नो
 कणह-पत्तीए रुप्पिणीए पुत्तो । धूमकेउ-सुरेण भज्जा-वेरं सरिज्जण अवहरिओ
 सो । नीओ विजयद्ध-भूधरस्स भूरमण-वणे । छुहा-तिसा-सीय-वायायव-
 पीडिओ दुक्खेण मरउ त्ति मुक्को सिलायले । गओ सुरो सद्धानं । देव-वसेण
 विमाणारूढो निय-भज्जाए कणयमालाए समेओ कालसंवरो विज्जाहरो
 आगओ तं पएसं । देह-प्पहा-पडल-पूरिय-दियंतरं रयण-पुंजं व तं दारयं
 द्दहूण विज्जाहरो अवयरिज्जण विमाणाओ पहिद्ध-मणो वेत्तूण तं समप्पए
 निय-भज्जाए । तुद्ध-चित्ताए तीए समं गओ निय-नयरं मेहकुंडं । गरुय-रिद्धीए
 कयं पज्जुत्तो त्ति से नामं । कणय-गिरि-गुहा-गओ कप्प-रूक्खो व्व वट्टए
 एसो । तं सोज्जण हरिसिओ नारओ । नमिज्जण जिणिंदं गओ वेयद्ध-सेल-
 सिहर-सेहरं मेहकुंड-नयरं । तत्थ द्दहूण कालसंवरं वद्धावए पुत्त-जम्भेणं ।
 तेणावि नेज्जण भवणभंतंरं दंसिओ पज्जुत्तो । तं रुप्पिणी-पडिम-रूवं निरू-
 विज्जण उप्पइओ नारओ । आगओ बारवईए । कहेइ कणह-रुप्पिणी-पमुहाण
 पुरओ सीमंधर-जिणोवइट्ठं पज्जुत्त-वुत्तंतं । तं सोज्जण रुप्पिणी-पुत्त-दंसणूसुया
 कालं गमेइ । अन्नया जाओ भाणू नाम सच्चभामाए मणाणंद-जणओ तणओ ।

अह मेहकुंड-नयरे पज्जुत्तो गुण-कलाव-पडिपुत्तो ।

उद्दाम-कामिणी-मण-विमोहणं जुव्वणं पत्तो ॥

तेलुक्के वि तमत्थि वत्थु न परं जं तस्स सब्बप्पणा

पाविज्जाखिल-लोय-लोयण-सुहा-सारस्स तुल्लत्तणं ।

जं पंकेरुह-कुंद-चंद-पमुहा ते तस्स तेयरिसणो ।

इक्केक्कस्स वि अंगयस्स पुरओ दीसंति दासा इव ॥

अह तं निसग्ग-सोहग्ग-संगयं पेच्छिज्जण तज्जणणी ।

मयण-विवसा विलज्जा पज्जुत्तं जंपए एवं ॥

मह कुक्खि-भवो न तुमं किं तु अरन्नंमि सुहय ! लद्धोसि ।

संवड्ढिओ पगामं गरूएहिं मणोरहेहिं मए ॥

संपइ मणोरहे मह विसय-सुहासेवणेण पूरेसु ।

जेण तुह देमि विज्जा-गोरी-पंनत्ति-पमुहाओ ॥

इय सोउं सो चित्तिइ धिद्धी जणणी वि जंपए एवं ।

अहवा मयणायत्ता कज्जसकज्जं च न मुणंति ॥

विज्जाओ ताव गिणहामि तयणु काहामि किं पि जं उच्चियं ।

तो भणइ इमो विज्ञाउ देहि मे तुह हियं काहं ॥
 दिनाउ तस्स विज्ञाउ तीइ मुद्धाइ विसय-लुच्चाए ।
 तत्तो भोग-सुहृत्थं तं पत्थंति भणइ कुमरो ॥
 जइ वि अहं तुह पुत्तो न होमि पुत्तो त्ति वड्ढिओ तह वि ।
 ता वोत्तुं पि न जुत्तं तुज्झ इमं किं पुणो काउं ॥
 पुणरुत्तं पत्थंती वि तेण गणिया तणं व सा जाव ।
 ताव नहेहिं नियगं विचारिउं तीइ पुक्करियं ॥
 अह संभंतो पत्तो तवभत्ता भणइ हा किमेयं ति ।
 सा कहइ मज्झ सीलं बला वि खंडइ इमो कुमरो ॥
 दंसइ य नह-पयाइं तो कुविओ कालसंबरो भणइ ।
 निय-पुत्ते रे ! मारह इमं दुरायरमकयञ्चुं ॥
 ते पहरिउं पयट्टा पयंड-भुय-विक्रमेण कुमरेण ।
 एक्केण व निज्जिणिया हरिणा हरिण व्व सव्वे वि ॥
 तत्तो कुद्धो कालो व्व दुस्सहो कालसंबरो दुक्को ।
 सो वि कओ गय-दप्पो इमिणा सप्पो व्व मंतेण ॥
 नट्ठो पुरे पविट्ठो सो पज्जुत्तेण पेसिउं पुरिसं ।
 जाणाविओ समगं पि कणयमालाइ बुत्तंतं ॥
 भणिओ य संसुहोहं जं दुक्को तुज्झ ताय ! संगामे ।
 तं खमसु मज्झ दोसं खमा-परा हुंति जं गुरुणो ॥
 महिला-अणत्थ-संदोह-मंदिंरं दोस-दुम-अमय-कुल्ला ।
 इय चिंतिऊण खयरेसरेण सम्माणिओ कुमरो ॥

एत्थंतरे आगओ नारओ । एस देव-रिसि त्ति साहिओ पज्जुन्नस्स
 विज्ञाए । पणमिओ सो अणेण । तेणावि कहियं कणह-पत्तीए रुप्पिणीए तुमं
 पुत्तो । धूमकेउणा अवहरिओ । तुह विरहे रुप्पिणीए गमियाइं सोलस-वरि-
 साइं । रुप्पिणीए सच्च-भामाए सह पइन्ना कया आसि । जीए सुओ पुवं उप्प-
 जिही तदन्नाए केसेहिं पुत्त-विवाहे दव्व-कज्जं कायव्वं । संपयं सच्चा-सुयस्स
 भाणुस्स विवाह-कालो वट्ठइ । ता कुमार ! तत्थ ववामो । तओ पियरं पुच्छि-
 ऊण पत्थिओ पज्जुत्तो नारएण समं । पुरओ पिसंडि-पासाय-पसरंत-पहा-
 पव्वमार-भासुरं बारवइं दट्ठूण पुच्छए तं किमेयं ति ? ।

तो नारएण कहियं घणएण कया इमा सुवत्तमई ।

बारवई नाम पुरी जुग्गा कण्हस्स तुह पिउणो ॥
 भणियं अणेण—कस्स वि इहागओहं न साहियव्वो त्ति ।
 कय-बाल-साहु-वेसो जणणी-गेहं गओ एसो ॥
 सो जंपइ सोलस-वच्छराइं उववासिओ अहं थक्को ।
 संपइ पारणय-कए तुह गेहं साविए ! पत्तो ॥
 सा भणइ तवो कम्मं सुव्वइ वरिस-प्पमाणमुक्किइं ।
 जं पुण इत्तिर्यं कालं कहसि तुमं तं कहं घडइ ॥
 जंपइ पज्जुन्न-मुणी वरिसाणं सोलसण्ह-मज्झंमि ।
 जणणीए थण-छीरं पि साविए ! न हु मए पीयं ॥
 जइ तुज्झ अत्थि दिच्छा देसु तओ अह व नत्थि तो जामि ।
 तो भणइ रुप्पिणी तं तुह अत्थो वत्थुणा केण ॥
 सो जंपइ पेज्जाए, तो पेज्जा तीइ पइउमाढत्ता ।
 तो विज्जाए इमिणा जलणो विज्झाविओ झत्ति ॥
 तो रुप्पिणीइ भणियं—भयवं ! गिण्हहि मोयगे पवरं ।
 किं तु न जीरवइ इमे अन्नो एकं विणा कण्हं ॥
 अक्खेइ खुड्डुओ जीरवेमि तेऽहं तव-प्पभावेण ।
 तो खुड्डुयस्स पुरओ मोयग-रासी कओ तीए ॥
 पक्खिवइ खुड्डुओ रक्खसो व्व वयणंमि मोयगे सब्बे ।
 हसिऊण भणइ देवी—तुहत्थि दिव्वा धुवं सत्ती ॥
 अह नारएण कहियं तुह पुत्तो एस देवि ! पज्जुओ ।
 कुमरो वि साहु-रूवं मुत्तुं जाओ सहज-रूवो ॥
 सुर-कुमरो व्व मणहरो पडिओ पाएसु निय-जणणीए ।
 आलिगिऊण गाढं सिरंमि सो चुंविओ तीए ॥

तेण भणिया जणणी न ममागमणं कस्सवि साहियव्वं, जाव मे न मिलइ
 पिया । इओ य सब्भामाए रुप्पिणी-पासे पेसिया पुरिसा नाविएण समं केस-
 जायणत्थं । पज्जुत्तेण विज्जा-बलेण नावियस्स सीसं मुंडिऊण पेसिया केसा ।
 सब्भामा वि स-रोसा आगया रुप्पिणी-पासं । पज्जुत्तो वि कण्ह-रूवं काऊण
 ठिओ तत्थ दिट्ठो सब्भामाए । तओ कोवेण तज्जंती इमो मूलमणत्थाणं जया-
 निग्गच्छिस्सइ तथा केसे गिण्हिस्सामि त्ति भणंती निग्गया । गया-कण्ह-
 भवणं । तत्थ तं सपरियणं पेच्छिऊण भणइ—मज्झ पइत्ता-भंगं काऊण

सिग्धमागओ सि एत्थ त्ति । गया निय-गेहं । कण्हो वि तीए अणुणयत्थं गओ तत्थ । इओ य पज्जुओ रह-रयणे रुपिणिं ठाविऊण संखं आऊरंतो निग्गओ नयरी-मज्जेण । जंपेइ पडर-जणं कहेह कण्हस्स जहा रुपिणी केणावि भडेण निज्जइ । जइ सामत्थमत्थि ता निवारेसु । तं सोऊण जाय-कोवा जायवा करि-नुरय-रह-समूहमारुहिऊण घाविया तस्स पिट्ठओ । ते वि चंड-भुय-दंड-कुंडलिय-कोदंड-चंड-मुक्क-नाराय-नियर-निरुद्ध-नह-मंडला वलिऊण निज्जिया पज्जुणेण । तओ आगओ गय-संख-चक्क-करवाल-करो रहारुद्धो कण्हो । सो वि गोरी-पन्नत्ति-विज्जा-बलेण कओ कुमारेण परंमुहो । जाओ विलक्ख-वयणो च्चिताडरो भणिओ नारएण—नारायण ! एस ते पुत्तो रुपिणी-गन्ध-संभवो पज्जुओ । हरिस-वस-विसट्टंत-वयणेण कण्हेण आलिगिऊण मद्दुसवेणं पवेसिओ पुरिं । परिणाविओ नरिंद-खयरिद-सुंदरीहिं गरुय-गुण-रंजिएहिं राम-कण्हेहिं । कओ सो रज्ज-चित्तगो । एत्थंतरे दुज्जोहण-पेसिएहिं पुरिसेहिं विन्नत्तो कण्हो, जहा—तुज्ज सुण्हा मह धुया भाणु-विवाह-जुग्गा अवहरिया सा केणावि । तो तं गवेसेसु । कण्हेण भणियं—किमहं सच्चदू जेण तं जाणामि । जइ जाणंतो अहं ता किं न जाणिओ मए रुपिणी-पुत्तो पज्जुओ । पज्जुणेण वुत्तं—देव ! देसु मे आएसं तेण तं आणेमि । कण्हेण वुत्तो सो—एवं करेसु त्ति । तओ आणीया सा । तेणेव अवहरिया आसि, तं गरुय-विभूर्इए विवा-हिओ भाणु-कुमारो । अन्नया पज्जुन्न-कुमार-चरियाइं कयच्छरियाइं सोऊण सच्चभामा भणइ कण्हं—तहा करेसु, जहा ममावि जायए एरिसो पुत्तो । कण्हेण जंपियं—पिए ! पुत्तेहिं एवं होइ । पुणरुत्तं सच्चाए वुत्तंतो पुब्ब-परिचियं देवं सुमरंतो एगंते च्चिट्ठइ कय-पोसहो कण्हो ।

तइय-दिणे पच्चक्खीहूओ देवो तमुल्लवइ कण्हो ।

मह देसु पुत्तमन्नं पज्जुन्न-कुमार-सारिच्छं ॥

भणइ सुरो—तुह होही सुओ सुयं जीइ बच्छसे तीए ।

अप्पसु इमं ति भणिऊण देइ हारं स कण्हस्स ॥

तत्तो तिरोहिओ सो इमं च विज्जा-पभावओ मुणिडं ।

पज्जुओ निय-जणणिं भणइ सुओ होउ तुह बीओ ॥

सा भणइ मज्झ बीओ पसवो नत्थि त्ति नाणिणा कहियं ।

ता मज्झ वल्लहाए जंबवईए सुयं देसु ॥

एवं ति भणइ कुमरो पत्ता इत्थंतरंमि सा तत्थ ।

सच्चा रूवाइ कया पण्णात्ति-वलेण कुमरेण ॥
 पट्टविया वास-हरे सच्चा एस त्ति जाणिडं कण्हो ।
 तुट्ठो तीए कंठे हारं पक्खिन्नवइ सुर-दिन्नं ॥
 तीए सह संभोगं कुणइ हरी सा वि निय-गिहं पत्ता ।
 सुत्ता पासइ सीहं सुविणे वयणंमि पविसंतं ॥
 अह सुक्काओ चविडं तीए केढव-सुरो वसइ गम्भे ।
 सच्चा वि कण्ह-पासे पत्ता अह च्चितए कण्हो ॥
 संभोपस्स अत्तिता अज्जवि तो आगया पुणो एसा ।
 तेसिं रइ-विग्घ-कए कुमरेणं वाइया भेरी ॥
 भेरी-सइं सुणिडं निसा विहाय त्ति उट्ठिओ कण्हो ।
 जंबवईए जाओ समए संबो त्ति वर-पुत्तो ॥
 सो जुव्वणं पवन्नो विवाहिओ खयर-राय-कन्नाओ ।
 पज्जुत्ते कय-नेहो तेण समं कीलइ जहिच्छं ॥
 अह नेमि-नाह-पासे पव्वइया दो वि विहिय-तिव्व-तथा ।
 उप्पन्न-केवला बोहिज्जण भुवणं गया मोक्खं ॥

इति तपसि प्रद्युम्न-शंभ-कथा ।

इह लोयाइ-निरीहो कुणस्तु तवं कम्म-निज्जरा-हेडं ।
 जह धम्मजसो साहू न उण तहा धम्मघोस-मुणी ॥
 तं जहा—
 अत्थित्थ भरह-वासे अवंति-जणवय-विसेसय-सरिच्छा ।
 अच्छेरय-सय-कलिया नयरी नामेण उज्जेणी ॥
 जत्थ सुर-घर-सिरेसुं सुवन्न-कलसाण उवरि विलसंता ।
 रेहंति धया हंस व्व गयण-गंगाइ कमलेसु ॥
 अरि-विजय-कउज्जोओ राया तत्थासि चंडपज्जोओ ।
 पुत्ता सहोयरा दो पालग-गोपालमा तस्स ॥
 वेरग-परिगएणं गहिवा गोपालगेण पव्वज्जा ।
 पवल-पयावेणं पालगेण पुण पालियं रज्जं ॥
 जाया दो तस्स अवंतिवद्धणो रइवद्धणो य सुया ।
 रज्जे जेट्ठो ति अवंतिवद्धणो तेण अहिसित्तो ॥

जुवराय-पए तह रट्टवद्धणो ठाविओ कणिट्ठो त्ति ।
 संविग्ग-मणेणं पालगेण गहिया सयं दिक्खा ॥
 आसि जलरासि-धूया मणोहरा रट्टवद्धणस्स पिया ।
 निम्मल-सील-गुणाभरण-धारिणी धारिणी नाम ॥
 तीए य अत्थि पुत्तो गुणोह-जुत्तो अवन्तिसेणो त्ति ।
 गब्भमि समुप्पन्नो धीओ पुत्तो तहा तीए ॥
 तइया वसंत-समओ वियंभिओ कामिणी-विलासमओ ।
 पयडिय-कंदप्प-मओ उज्जीविय-जण-मण-प्पमओ ॥
 तत्थ वसंते कीलंतमुववणे अवन्तिवद्धणो राया ।
 दट्टण धारिणिं मयण-परवसो चितए एवं ॥
 चंदो इमीइ मुह-पंकएण विजिओ समुह-सलिलम्मि ।
 मज्झइ निचं पि कलंक-पंक-पक्खालणत्थं व ॥
 एईए बालाए लोयण-लायन्न-लाह-लुद्धाईं ।
 मुद्धाईं मय-कुलाईं वण-वास-वयं व सेवन्ति ॥
 एईइ अहर-हरियारुणिम-मरट्टाईं लज्जमाणाईं ।
 विव-फलाईं उब्बंघणं व वल्लीसु विरयन्ति ॥

ता जह इमीए सह विसय-सुहं सेवेमि ता अत्तणो जीवियं सहलं
 मन्नेमि । तओ सो इमीए कुसुम-तंबोल-विलेवणाईंणि पेसिउं पयट्ठो । सा वि
 गुरु त्ति तं पइ निव्वियारा सव्वं गिणहइ । अन्नया अविभाविज्जण उभय-लोग-
 भयं भणिया रत्ता—सुंदरि ! ममं पडिवज्जसु । तीए वुत्तं—महाराय ! जो मे
 भत्तुणा तुमं पडिवन्नो सो मए पुव्वं पडिवन्नो । रत्ता वुत्तं—मणुस्स-भावेण
 मं पडिवज्जसु । तीए वुत्तं—अणेय-समर-निव्वूढ-साहसं तुमं मणुस्सं को न
 पडिवज्जइ ? रत्ता वुत्तं—ममं पइं पडिवज्जसु । तीए वुत्तं—जो तुमं सयल-
 पुहवीए पईं सो ममावि पईं चेव । रत्ता वुत्तं—कमलच्छि ! अलं परिहासेण,
 मयण-जलण-जाला-पलित्तं ममं नियग-संगमामय-रसेण निव्ववेज्जण रज्ज-सा-
 मिणी होसु । तीए वुत्तं—देव ! मा एवमाणवेसु गरुओ तुमं । मेढिभूओ
 भुवणस्स । समुदो व्व मा विलंघेसु मज्जायं, विलंघिय-मज्जाए तुमंमि समुदे य
 जायए जग-प्पलओ । तुह भएणं च नाएणं च वट्टए लोओ ।

यतः—

इदं प्रकृत्या विषयैर्वशीकृतं
 परस्परस्त्रीधनलोलुपं जगत् ।

सनातने वर्त्मनि साधुसेविते
प्रतिष्ठिते भूपभयोपपीडितम् ॥

ता अलं इमिणा कुल-कलङ्क-कारिणा दुग्गह-निबंधणेणं दुरज्झवसाएणं ।
परिचत्तो एस मग्गो खुद्द-सत्तेहि पि । पइदिणं पत्थंतो एसो भणिओ अणाए—
किमेयस्स वि भाडणो न लज्जसि । चित्तिर्यं रत्ता—नूणं रट्टवट्टण-भएण मं न
मन्नए एसा ता वावाएमि तं । तहेव काऊण भणिया एसा—वावाइओ मए
भय-कारणं ते । तीए चित्तिर्यं—

धिद्धी ! मह देहमिणं हा वज्जं पडड मज्झ ख्वंमि ।
जं जायं मरण-करं गुण-निहिणो अज्जउत्तस्स ॥
अकलंकिय-सीलाए परिओसं कुणह मज्झ भिक्खा वि ।
रत्तेण वि तेण अलं जं लब्भइ सील-भंगंमि ॥
तत्तो अवंतिसेणं पुत्तं मुत्तूण धारिणी चलिया ।
सत्थेण सह कमेणं पत्ता कोसंवि-नयरीए ॥
तत्थ विजयारिसेणो राया नामेण अजियसेणो त्ति ।
गुण-गण-लीला-भवणं देवी लीलावई तस्स ॥
धम्म-तरु-चारिवाहो धम्मवस्सु नाम तत्थ आयरिओ ।
विणयाइ-गुण-पवत्ता पवत्तिणी तह य विणयवई ॥
तीए वसहि गंतूण धारिणी तं पवत्तिणिं नमइ ।
सा जंपइ तुह वच्छे ! नरिंद-पत्ती-सरिसमंगं ॥
एयस्स विसरीसी पुण दसा, अओ कहसु इत्थ किं तत्तं ।
तो कहइ धारिणी से निय-वुत्तंतं भणइ सा वि ॥
घन्नासि तुमं वच्छे ! जा एवं सील-पालण-निमित्तं ।
मिच्छसि जलण-पलीविय-पलाल-पूलं व रज्जं पि ॥
जं सयलोवइव-सेल-दलण-दंभोलि-दंड-दुप्पेच्छं ।
जं पुच्च-भवज्जिअ-पाव-दाव-विज्झवण-घण-तुल्लं ॥
जं सग्ग-सोक्ख-तरु-मूलमुत्तिमं मुत्ति-मंदिर-दुवारं ।
सीलंमि तंमि निचं जत्तो जुत्तो व्विय बुहाणं ॥

न अन्नो सील-पालणोवाओ त्ति तीए पडिवन्ना दिक्खा । तओ अ पच्छा
सिणो वाहि व्व वड्डिडं पवत्तो गवभो । पुच्छिया सा पवत्तिणीए—भइ !
किमेयं ति ? तीए वुत्तं—पुच्चं निय-पइ-संगमेण मे एस गवभो जाओ, परं

वय-विग्धो मा होड त्ति न मए अक्खाओ । सावय-घरे पच्छन्ना ठिया सा ।
 कमेण पसूया सब्ब-लक्खणालंकिंयं दारयं । साहु-साहुणीणं किलेसो मा होड
 त्ति चिंतंतीए रद्धवद्धण-नामंक-मुद्धिया-सणाहो मुक्को सो नरिद-भवंगणणे ।
 अवक्कंता साहुणी । मणि-प्पभा-समुज्जोइय-गयणंगणो सो उवरितलारूढेण
 दिट्ठो रत्ता । घेत्तूण दिन्नो लीलावईए । भणिया सा—एस ते अपुत्ताए पुत्तो
 त्ति । पच्छन्न-गम्भा देवी पसूय त्ति कयं रत्ता वद्धावणयं ।

जओ—

संगामे गय-दुग्गमे हुयवहे जालावली-संकुले
 कंतारे करि-वग्घ-सीह-विसमे सेले वडूवइवे ।
 अंभोहिमि समुल्लसंत-लहरी-लंघिज्जमाणं वरे
 सब्बो पुब्ब-भवज्जिएहिं पुरिसो पुत्तेहिं पालिज्जए ॥

साहुणिहिं पुच्छिया सा—कत्थ एगागिणी गयासि ? तीए वुत्तं—वा-
 वन्नं डिंभ-रूवं जायं । तस्स परिद्ववणत्थं । सो पंच-धाइ-परिगओ वड्डिउ-
 माढत्तो । कयं मणिप्पभो त्ति से नामं । साहुणी वि देवीए सह संगयं काऊण
 दारयमभिनंदेइ । कय-कला-गहणो मणिप्पभो पत्तो जुव्वणं । मरण-पज्जव्व-
 साणयाए सब्ब-जीवाणं ति पंचत्तं पत्ते अजियसेणे सब्ब-गुणागरो त्ति अहि-
 सित्तो रज्जे मणिप्पभो मंति-सामंतेहिं ।

जओ—

न दत्त्वा नार्थितामेति नवाम्भोभिर्न पूर्यते ।
 आत्मा तु पात्रतां नेयः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥
 सो परक्कमकंत-विकंत-वेरि-चक्को पालए रज्जं ।
 अत्थि तहिं विणयवई-पवत्तिणीए य सीसिणी-पवरा ।
 विगय-भयासा भत्तं पच्चक्खइ भव-भउव्विग्गा ॥
 संवेण गरुय-भत्तीइ पूइया अणसणे ठिया जाव ।
 पच्छा विच्छड्डेण महया सक्कारिया अज्जा ॥
 धम्मवसु-सूरि-सीसा आसि दुवे धम्मघोस-धम्मजसा ।
 ते वि पयट्ठा काळं सरीर-परिकम्मणं एवं ॥
 चत्तारि वि चित्ताइं विंगई निज्जूहियाइं चत्तारि ।
 संवच्छरे य दोस्सिओ एगंतरियं च आयामं ॥
 नाइ विगिट्ठो य तवो छम्मासे परिमियं च आयामं ।

अन्ने वि य छम्मासे होइ विगिद्धं तवो कम्मं ॥
 वासं कोडी सहियं आयामं काड आणुपुब्बीए ।
 गिरि-कंदरं तु गंतुं पायवगमणं अहं करेज्ज ॥
 अहं धारिणि अदद्धं चित्तेइ अवंतिवद्धणो एवं ।
 हा ! विसय-पर-वसेणं मए महंतं कयमकज्जं ॥
 जं निहओ निय-भाया सा वि कलत्तं न मज्झ संपत्ता ।
 तो भक्खिए वि काए नाहं अजरामरो जाओ ॥
 इय पच्छायाव-परो संविग्गो धारिणीइ पुत्तस्स ।
 रज्जं अवंतिसेणस्स वियरिडं गिण्हए दिक्खं ॥
 सव्वे वि निवा उचियं कुणंति पूयं अवंतिसेणस्स ।
 किं तु मणिप्पभ-राओ कमागयं पेसइ न दंडं ॥
 दंडस्स मग्गणत्थं पट्टवइ मणिप्पभस्स सो दूयं ।
 गंतूण कय-जहोचिय-कायव्वो सो भणइ एवं ॥
 आइसइ महाराओ अवंतिसेणो मणिप्पभ-नरिंद ! ।
 दाडं कमागयं मज्झ दंडमणुहवसु रज्ज-सुहं ॥
 तं वयणमसुय-पुव्वं सोजं पसरंत-रोस-रत्तच्छो ।
 भणइ नरिंदो रे ! रे ! जीहं छिंदेह दूयस्स ॥
 जं देवो आणवइ त्ति जंपिडं गहिय-पहरणे पुरिसे ।
 दद्धं उवट्टिए धिड्डयाइ दूएण पढियमिणं ॥
 राजन् ! वाक्यं परस्येदं वयं वाङ्मात्रहारिणः ।
 त्वं चान्ये च महीपालाः सर्वे दूतसुखा यतः ॥
 निपतत्स्वपि शस्त्रेषु सम्प्रवृत्ते महाहवे ।
 दूतानां प्रेषणं युक्तमवध्यत्वं च नीतिषु ॥
 तो मुणिय-नीइ-सत्थेण तेण रत्ता विसज्जिओ दूओ ।
 आगंतुं सो अक्खइ वुत्तंतमवंतिसेणस्स ॥
 सो चउरंग-चमू-भर-चूरिय-फणिराय-फण-रयण-चक्को ।
 गहिज्जण भूरि कोसं कोसंबि-पुरीइ संचलिओ ॥
 अहं धम्मघोस-मुणिणा कय-पडिकम्मोण चित्तिर्यं एवं ।
 इह जह विगय-भयाए पूया संघाड संपत्ता ॥
 अहमवि तहा लहिस्सं तो पुव्वं तत्थ अणसणं विहिडं ।

धम्मजसो पुण साह् सुह-चित्तो चित्तए एवं ॥

नो इह लोगट्टयाए तवमहिड्डेज्जा, नो परलोगट्टयाए तवमहिड्डेज्जा, नो कित्ति-वन्न-सद्-सिलोगट्टयाए तवमहिड्डेज्जा, नन्नत्थ निज्जरट्टयाए तवमहिड्डेज्जा, ता कम्म-क्खए कायव्वे, किं लोग-सक्कारेणं, तत्थ वच्चामि जत्थ न को वि जाणह्ति भावंतो कोसंबीए उज्जेणीए य अंतरा वच्छगा-तीरे गिरि-कंदरंमि पवन्नो अणसणं ।

पर-वलमिंतं सोढं मणिप्पभो कुणह् समर-सामग्गि ।

अह् आगंतुं रुद्धा अवंतिसेणेण कोसंबी ॥

तो निविड-कवाडेहिं नगर-दुवाराहं आवरिज्जंति ।

ते सुभडा संनद्धा पहरण-हत्था ठविज्जंति ॥

कोट्ट-कविसीसयाहं अलं करिज्जंति कोट्टवालेहिं ।

पर-चक्क-चूरणत्थं उवला सुच्चंति जंतेहि ॥

सलहिज्जंति भुयाओ भडाण दाऊण भूरि-दव्वाहं ।

सज्जिज्जंति करिंदा तुरंगमा पक्खरिज्जंति ॥

विलहिज्जंति जहारिहमेए य पियाउ धीरविज्जंति ।

निय-निय-दल-चिंताए निओगिणो वाउलिज्जंति ॥

मणि-कणय-प्पमुहाहं जणेण खोणीइ निक्खणिज्जंति ।

तण-जल-तैल्ल-धइंधण-धन्नाइं संगहिज्जंति ॥

सव्वे वि ह्नु नायरया किमित्थ होहि त्ति आउला जाया ।

न य वयणेण वि तं धम्मघोसमभिनंदए को वि ॥

सो पूअं अलहंतो मओ तओ कोट्ट-उवरि-भागेण ।

खित्तो वाहिं दारेण नत्थि जं निग्गम-पवेसा ॥

किञ्च—

अन्यथैव विचिन्त्यन्ते पुरुषेण मनोरथाः ।

दैवाहितसद्भावा कार्याणां गतिरन्यथा ॥

अन्न-दिणे पट्टविओ अवंतिसेणेण मागहो एक्को ।

जंपह् मणिप्पभं सो किं चिट्ठसि जंबुगो व्व तुमं ॥

नयरी-दरीइ नट्टो जइ सच्चं विक्कम-प्पहाणोसि ।

तो सीहो व्व गुहाओ नयरीओ नीहरसु बाहिं ॥

भणियं मणिप्पभेणं नयरि-गुहाए वसामि सीहोहं ।

तुममिच्छंतो जीयं मा सुत्तं तं विबोद्धेसु ॥
 तो मागहेण वुत्तं रण-तूर-रवेण बंदि-सहेण ।
 पर-चक्क-कलयलेण य जइ जग्गसि जग्ग ता सिग्घं ॥
 भणियं मणिप्पभेणं एसोहं आगओ समर-हेउं ।
 गंतूण मागहेणं अवंतिसेणस्स कहियमिणं ॥
 पलय-घण-घोर-घोसं मणिप्पभो दावए समर-भेरिं ।
 तत्तो तस्स असेसं सेन्नं सन्नहिउमाहत्तं ॥

कहं—

ढोइज्जति भडाणं सन्नाहा जच्च-कणय-रयण-मया ।
 दिप्पंतोसहि-वलया समंतओ सेल-कूड व्व ॥
 अड-रुहिर-लालसाओ जम-जीहाओ व्व खग्ग-लट्ठीओ ।
 दुज्जण-वाणीओ विव भल्लीओ भेय-जणणीओ ॥
 वेसाओ व घणुहीओ गुण-वन्धाओ वि पयइ-कुडिलाओ ।
 प्प-मम्म-घट्टण-परा पिसुण-पवंच व्व नाराया ॥

तत्थ—

एवमुवणिज्जमाणे रणोवगरणंमि केणइ भडेण ।
 सन्नाहो न कओ च्चिय दइया-थण-फरिस-लुट्ठेण ॥
 केणावि समर-सद्धा-निबद्ध-गाढगहेण अवगणिया ।
 थोरंसुय-सित्त-थणी निय-दइया रोवमाणी वि ॥
 अन्नेण सिदिल-वलया वियलिय-कंची गलंत-वाह-जला ।
 एसोहमागओ झत्ति एवमासासिया दइया ॥
 अन्नस्स अप्पियं पीयमाणमवि पाण-वट्ठयं भरियं ।
 थोरंसुएहिं उवरिड्डियाइ दइयाइ सुट्ठुरं ॥
 मुच्छाए चेव अन्नस्स दंसिओ पिययमाए अणुराओ ।
 दइयाइ कयं मंगलमवरस्स विलक्ख-हसिएण ॥
 इय विविह-वियार-पिया-पयडिय-पणएहिं पहरण-करेहिं ।
 करि-तुरय-रहारुढेहिं सुहह-लक्खेहि परियरिओ ॥
 चंदण-विलित्त-देहो सिय-वत्थाहरण-कुसुम-कय-सोहो ।
 गल्य-गय-क्खंध-गओ नीहरइ मणिप्पभो बाहिं ॥
 अह धारिणीइ अज्जाइ चित्तियं जाव निरवराहाण ।

जीवाण होइ न खओ इमाण बंधूण जुद्धेण ॥
 ताव निवारेमि इमे तत्तो जंपइ मणिप्पभं अज्जा ।
 वच्छ ! ममेगं तं देहि जेण जंपेमि किं पि हियं ॥
 तंमि विइत्ते रत्ता रायाणं भणइ धारिणी अज्जा ।
 किं निय-सहोयरेणं समं तुमं कुणसि संगामं ॥
 रत्ता भणियं—भयवइ ! कहं असच्चं तुमं इमं भणसि ।
 तो धारिणीइ कहिओ सच्चो वि हु नियय-वुत्ततो ॥
 भणियं च जइ न पत्तियसि वच्छ ! पुच्छसु तुमं नियय-जणणिं ।
 तह पेच्छ रट्टवट्टण-नामकं कड्डिउं मुहं ॥
 राया तहेव काउं गय-संको भणइ जइ वि सच्चमिणं ।
 तह वि हु नियत्तमाणो अज्जे ! लज्जामि अहमिणिं ॥
 तो अज्जाए भणियं चिट्ट खणं जाव उवसमावेमि ।
 तुह भायरं पि तत्तो पत्ता अज्जा दुइय-कडगं ॥
 सा जंपइ पडिहारं कारावसु राय-दंसणं मज्झ ।
 सो कहइ इमं रत्तो, राया जंपइ पवेसेसु ॥
 तेण वि पवेसिया सा निवेसिया आसणे नरिंदिण ।
 दट्टण परियणो तं चिंतिउमेवं समाढत्तो ॥
 अज्जा एसा दीसइ अम्हाणं सामिणीइ सरिसि त्ति ।
 सम्मं निरुवमाणो मुणइ धुवं धारिणी एसा ॥
 तो पणमिऊण अज्जं रोयंतो परियणो कहइ रत्तो ।
 अह जणणी खल्लु एसा, रुयमाणो नमइ तं राया ॥
 पच्छा निय-वुत्तंतं कहेइ सा जंपए पुणो वि इमं ।
 भाया तुहेस राया ता विरमसु वच्छ ! जुज्झाओ ॥
 इय धारिणी-अज्जाए सहोयरा दो वि उवसमं नीया ।
 ते परिओस-वसेणं मिलिया वियसंत-मुह-कमला ॥
 उल्लसिय-सिणेहाणं दुण्ह वि बंधूण संगमे तेसिं ।
 तं किं पि सुहं जायं तइलुक्कं संकडं जस्स ॥

यतः—

पादा हिमांशोर्ललितं बधूनां
 गन्धः स्त्रजां भ्रातृसमागमश्च ।

एकैकमप्येष मुदं तनोति

कः संहतानां पुनरस्ति मल्लः ॥

जोगे सहोयराणं निय-कुल-गयण-यल-रवि-मयंकाणं ।
 कोसंबीए जायं दिणे दिणे नव-नवं पव्वं ॥
 ठाऊण तत्थ कइवय-दिणाइं सह जणणि-पमुह-अज्जाहिं ।
 उज्जेणीइ पयदा मिलिय चिय दो वि ते गंतुं ॥
 ठाणे ठाणे पाहुड-सयाइं लोयाउ ते पडिच्छंता ।
 जिण-मंदिरेसु पूयं कुणमाणा गरुय-भत्तीए ॥
 मुणि-विदं वंदंता संपत्ता ते वि वच्छगा-तीरं ।
 जत्थत्थि गिरि-गुहाए धम्मजस-मुणी कयाणसणो ॥
 तन्नमणत्थमुवितं आसन्नं साहु-सावयाइ-जणं ।
 देहुं निव-जणणी-साहुणीउ गंतुं नमंति मुणिं ॥
 ताहिं भणिया नरिंदा गहियाणसणस्स साहुणो अम्हे ।
 पय-पज्जुवासणत्थं चिट्ठिस्सामो इहेव त्ति ॥
 निव-पुंगवेहिं भणियं पूयं करिमो इमस्स अम्हे वि ।
 तत्तो सो पइदियहं संघेण नरेसरेहिं च ॥
 भत्तीए थुव्वंतो सेविज्जंतो तहा नभिज्जंतो ।
 पूया-निरीह-चित्तो मुत्तं देहं गओ सगं ॥
 ते वि नरिंदा पत्ता उज्जेणि-पुरीइ साहुणीहिं समं ।
 पालंति चिरं रज्जं जिणधम्म-पभावणा पवणा ॥
 निय-सील-रक्खणत्थं दिक्खं गहिऊण धारीणी देवी ।
 काऊण तवं मुत्तूण देहममरत्तणं पत्ता ॥

इति तपसि धर्मयशो-धर्मघोष-कथा ।

खेलाई-लब्धीओ तव-प्पभावेण हुंति साहुस्स ।
 गिरिणो व्व ओसहीओ ससि-कर-संगेण दित्ताओ ॥
 मुणिणो खेल-लवेण वि देहं कुट्टहुयं पि देहीणं ।
 कोडी-वेह-रसेण व तंबं संपज्जइ सुवन्नं ॥
 कत्थूरिया-परिमलो मुणि-देह-मलो समग्ग-रोग-हरो ।
 मुणिणो कर-फरिसेणं अमएण व होइ रोग-खओ ॥

मुणि-अंग-संगि-सलिलं रवि ब्व तिमिरं हरेइ रोग-भरं ।
समपंग-लग्ग-पवणेण जंति विलयं विस-प्पमुहा ॥
विस-दूसियमन्नाई मुणि-मुह-पत्तेसु निव्विसं होइ ।
मुणि-वयण-मंत-सवणेण समइ सव्वो विस-वियारो ॥
मुणिणो नह-केसाई जं जं रोगीण ओसहं तं तं ।
अणिमा-गुणेण साहू सूर्ई-रंघे वि संचरइ ॥
सुर-सेलाओ महंतं महिम-गुणेणं मुणी कुणइ रूवं ।
लंघिज्ज लघिम-गुणओ अनिलस्स वि लाघवं साहू ॥
सक्काईहिं वि दुसहं मुणिणो गरिमा-गुणेण गरुयत्तं ।
पावण-सत्तीए छिवइ मेरु-सिरमंगुलीए मुणी ॥
पाकम्म-गुणेणं मुणी भुवी व नीरे जलि ब्व भुवि चरइ ।
इस्सरिय-गुणेण पुणो चक्किद-सिरिं खमो काडं ॥
साहु-वसित्त-गुणेणं पसमं कूरो वि जंतुणो जंति ।
अप्पडिघायत्त-गुणेण सेल-मज्झे वि कमइ मुणी ॥
अंतद्धाण-गुणेणं समणो पवणो ब्व जायइ अदिस्सो ।
रूवेहिं कामरूवित्तणेण पूरइ जयं पि मुणी ॥
एगत्थ-वीयओ णेगअत्थ-वीयाइँ जत्थ जायंति ।
सा वीय-बुद्धि-रिद्धी संपज्जइ निच्छियं मुणिणो ॥
सा घरइ कुट्ट-बुद्धी कुट्टे धन्नं व अक्खयं मुत्तं ।
एग-पयाउ वि गिण्हइ गंथं पि पयाणुसारी सो ॥
अवगाहइ सुय-जलहिं अंतमुहत्तेण सो मणोबलिओ ।
सो वायाबलीयो तं गुणेइ अंतोमुहुत्तेण ॥
सो कायबली पडिमं चिरं पवन्नो वि जाइ न किलेसं ।
तह अमय-खीर-महु-घय-आसव-लक्ष्मी हवइ साहू ॥
साहुस्स पत्त-पडियं अमयाइ-रसं भवे कदन्नं पि ।
वयणं व दुक्खिएसुं जायइ अमयाइ-परिणामं ॥
अक्खीण-महाणस-लद्धिओ य थेवं पि बहुय-दाणे वि ।
मुणि-पत्त-पडियमन्नं न खिज्जए जिमइ जा न सयं ॥
अक्खीण-महालय-लद्धि-जोयओ साहुणो असंख-जणो ।
सम्माइ निरावाहं तित्थयरस्सेव परिसाए ॥

एगेण इंदिणं सेसिंदिय-अत्थ-दंसणं जत्थ ।
 संभिन्न-सोय-लद्धी मुणिणो सा होइ तव-वसओ ॥
 जंघाचारण-लद्धीइ एक्क-फालाइ जाइ सो रुयगं ।
 इक्काए नंदीसरमेइ सठाणे तु वीयाए ॥
 एक्काए फालाए मेरु-सिरं जाइ सो तओ चलिओ ।
 एक्काए नंदणवाणे वीयाए एइ सठाणं ॥
 सो विज्जालद्धि-जुओ इक्काए माणुसुत्तरं जाइ ।
 वीयाए फालाए वच्चइ नंदीसरं दीवं ॥
 तत्तो नियत्तमाणो इक्काए चैव एइ सट्टाणं ।
 उड्डं तु दोहि फालाहि जाइ इक्काइ पुण एइ ॥
 सो आसीविस-इड्डीइ निग्गहाणुग्गह-क्खमो होइ ।
 लद्धीओ अप्प-कज्जे तहा वि न पउंजए समणो ॥
 तव-पभवाओ लद्धीओ संघ-कज्जे पउंजमाणो वि ।
 विण्हुकुमारो व्व मुणी मणं पि लिप्पइ न पावेण ॥

तं जहा—

अत्थित्थ भरह-खेत्ते वित्थिन्नं हत्थिणाउरं नयरं ।
 जत्थ निवसंति निच्चं तुरय व्व सुहेसिणो लोया ॥
 इक्कलागु-कुल-सरोवर-पउमं पउमुत्तरो निचो तत्थ ।
 सोहग्ग-हत्थि-साला जाला नामेण से देवी ॥
 सीह-सुविणेण लद्धो विण्हुकुमारो त्ति से सुओ एक्को ।
 चउदस-सुविण-पिसुणिओ वीओ पुत्तो महापउमो ॥
 ते जुव्वणमारूढा अह सजिगीसो त्ति जाणिउं ठविओ ।
 पउमुत्तरेण रत्ता जुवराय-पए महापउमो ॥
 पत्तो उज्जेणीए सिरिधम्मो नाम पत्थिवो अत्थि ।
 तस्स नमुइ त्ति मंती कुसत्थ-भाविय-मइ-प्पसरो ॥
 अह मुणिमुव्वय-सीसो संपत्तो तत्थ सुव्वयायरिओ ।
 तन्नमणत्थं रत्ता वच्चंतो पुर-जणो दिट्ठो ॥
 कत्थ गुरु-वित्थरेणं वच्चइ एसो त्ति पुच्छिओ नमुई ।
 सो कहइ के वि समणा उज्जाणे आगया अज्ज ॥
 ते नमिउं जाइ जणो अहं पि जामि त्ति जंपियं रत्ता ।
 भणियममच्चेण तुमं जइ धम्मं देव ! सोउमणो ॥

ताहं कहेमि तं तुह भणइ निचो धुवमहं गमिस्सामि ।
 भणइ अमचो तुम्हेहिं तत्थ मोणेण ठायच्चं ॥
 जेण जिणिऊण वाए करेमि तेऽहं निरुत्तरे झत्ति ।
 तो गुरु-पासंमि गओ राया नमुई पुर-जणो य ॥
 पुच्छंति गुरु-समीवे ते वि असंबद्ध-भासिणो धम्मं ।
 ताण सरूचं मुणिउं तुण्हिफो चिट्ठाए सरी ॥
 नमुई जंपह सूरिं पट्टच किं एस जाणइ बइल्लो ।
 एक्केण चेल्लएणं भणियं चिट्ठंतु मह गुरुणां ॥
 दाहामि उत्तरं ते अहं पि जंपसु तुहत्थि जह दप्पो ।
 जह कुविय-मणो मंती जंपह परुत्तेहिं वयणेहि ॥
 पासंडिणो असुइणो निचं सुह-सत्थ-वाहिरा तुम्हे ।
 ता नरवइस्स निय-मंडलाओ निव्वासिउं जुत्ता ॥
 तां चिल्लएण भणियं जे मेहुण-सेविणो असुइणो ते ।
 न उण मुणिणो इमे जेण वंभयारी सुई निचं ॥
 पासंडिणो य सुय-वाहिरा य भणंति ते मेहुणासत्ता ।
 वंभवयं तु वहंता मुणिणो कह तारिसा हुंति ॥

तद्यथा—

कंडनी पेपणी बुल्ली जलकुम्भी प्रमार्जनी ।
 पञ्च सूना गृहस्थस्य तेन स्वर्गं न गच्छति ॥
 सेवन्ति जे इमाओ सूणाओ पंच ते तई वज्झा ।
 तन्विरया उण मुणिणो कहं तई वाहिरा हुंति ॥
 इय खुल्लणेण विहिओ निरुत्तरो कोवमुवगओ मंती ।
 सिरिधम्मनिचो नायर-जणो य निय-मंदिरे पत्तो ॥
 रयणीइ मुणि-वहत्थं क्वाण-हत्थो वणं गओ नमुई ।
 गारुडिणं भुयगो व्व थंभिओ सासण-सुराए ॥
 पच्चूसे तं दहं तहट्ठियं विन्दिओ महीनाहो ।
 नयर-जणो य अणेगो गिण्हइ जिण-भासियं धम्मं ॥
 नमुई तहावमाणाओ निग्गओ हत्थिणाउरं पत्तो ।
 माणीण विदेसो चिय टाणं अवमाणियाण जओ ॥
 जुवराय-महापउमो नमुइं निय-मंतिणं कुणइ तत्थ ।

अन्न-निवह-प्पहाणं हि आगयं आयरंति निवा ॥
 एत्तो य महापउमस्स मंडलं मंडलो व्व लद्धुळलो ।
 सिंहबलो नाम निवो दुग्गरस्स बलेण विद्ववई ॥
 नमुई भणइ कुमारो सिंहबलो निग्गहिज्जए जेण ।
 सो किं अत्थि उवाओ नमुई जंपइ किमत्तेण ॥
 पड्डु ! देसु ममाएसं जेण उवायं फलेण दंसेमि ।
 पायड्डिउं पुण वयणेहिं तं किलीवा वि सङ्कत्ति ॥
 इय सोउं तुट्टेणं कुमरेण विसज्जिओ गओ नमुई ।
 दल्लिउं दुग्गं सीहो मयं व घेत्तूण सीहबलं ॥
 पत्तो कुमार-पासे तुट्टेण अणेण जंपिओ नमुई ।
 मग्ग वरं, सो जंपइ समयम्मि वरं गहिस्सामि ॥
 अह जालादेवीए अरहंत-रहो कराविओ पवरो ।
 तह तीइ सवत्तीए लच्छीदेवीइ बंभ-रहो ॥
 लच्छीइ निवो भणिओ बंभ-रहो भमउ पुरवरे पढमं ।
 पच्छा अरहंत-रहो, तो जाला जंपए एवं ॥
 जइ बंभ-रहो भमिही इह पुव्वं मज्झ अणसणं तत्तो ।
 तत्तो रहाण रत्ता दुणहंपि निवारिया जत्ता ॥
 तो जणणि-दुक्ख-दूमिअ-मणो निसाए अलक्खिओ कहवि ।
 नगराउ महापउमो खग्ग-सहाओ विणिक्खंतो ॥
 परिणीय-राय-कन्नो कयारिविजओ चिरं महिं भमिउं ।
 उप्पन्न-वक्क-रयणो पुणो वि हत्थिण पुरं पत्तो ॥
 अह तत्थ समोसरिओ नयरुज्जाणंमि सुव्वयायरिओ ।
 तस्स नमंसण-हेउं पत्तो पउसुत्तरो राया ॥
 घम्मं सोऊण निवो भव-निविज्जो गुरुं भणइ एवं ।
 काऊण रज्ज-सुत्थं तुह पासे पव्वइस्सामि ॥
 गंतूण गिहे राया विण्हुकुमारं पड्डुव वज्जरइ ।
 रज्जमिणं गिण्ह तुमं अहं तु दिक्खं गहिस्सामि ॥
 जंपइ विण्हुकुमारो जलण-पलीविय-पलाल-पूलं व ।
 सुत्तूण रज्जमेयं चारित्तमहं पि गेण्हिस्सं ॥
 तो भणइ महापउमं राया पड्डिवज्ज वच्छ ! रज्जमिणं ।

जेणम्हे गिण्हाओ दिक्खं कम्मुक्खणण-दक्खं ॥
 सो भणइ ताय ! रज्जे विण्हुकुमारं ठवेसु मह जेट्टं ।
 पत्तिं व्व विहिय-भत्ती तस्साहं होमि जुवराओ ॥
 भणइ निवो एस मए बह्हुंपि भणिओ न गिण्हए रज्जं ।
 किं तु विसएसु विमुहो मए समं संजमं काही ॥
 तो कय-भोणो पउमो रज्जे चक्खित्तणे य अहिसित्तो ।
 पउमुत्तरेण गहिया विण्हुकुमारेण सह दिक्खा ॥
 जणणि-कराविय-रहजत्तं काऊण चक्खिणा नधरे ।
 जिणसासणस्स जणिया समुत्तई निय-कुलस्सेव ॥
 नगरागर-गामाइसु कारविया तेण जिण-गिहा गरुया ।
 जिणधम्म-कप्पतरु-अंकुर व्व सब्बत्थं छज्जंति ॥
 निट्ठविय-अट्ठ-कम्मो कमेण पउमुत्तरो गओ सिद्धिं ।
 जायाओ तव-बलेणं विण्हुकुमारस्स लद्धीओ ॥
 मेरु व्व होइ तुंगो सुरो व्व रूवाइं कुणइ विविहाइं ।
 गरुडो व्व भमइ गयणे जाओ सोणेग-सत्ति-जुओ ॥
 अन्न-समयंमि हत्थिणपुरंमि चंदो व्व तारया-वरिओ ।
 सो मुणि-अलंकिओ कुणइ पाउसं सुव्वयायरिओ ॥
 तं जाणिऊण नमुईं सुमरंतो पुव्व-वेर-संबंधं ।
 विन्नवइ महापउमं देसु वरं मज्झ पडिवन्नं ॥
 वज्जरइ महापउमो जंपसु किं देमि ? जंपए नमुईं ।
 ताव मह देहि रज्जं करेमि पहु ! जाव जन्नमहं ॥
 तत्तो सच्चपइन्नो राया नमुइस्स अप्पए रज्जं ।
 अंतैउर-मज्झ-गओ सयं तु चिट्ठइ निरारंभो ॥
 पुर-वाहिं गंतुं होइ दिक्खिओ जन्न-वाडए नमुईं ।
 पत्ता नायरया लिंणिणो य वद्धावया तस्स ॥
 किं तु न समागया सेय-भिखुणो तं छलं इमो लहिउं ।
 गंतूण कोव-विवसो सुव्वय-सूरिं भणइ एवं ॥
 जो होइ जया राया दंसणिणो तं तथा निसेवंति ।
 राय-विरुद्ध-ठिईणं घम्मो वि न निव्वहइ पायं ॥
 तुम्हे पुण मं निदह अहिणंदह न उण दंसणेणावि ।

ता मह रज्जं मुंचह निहणित्सं अन्नहा तुब्भे ॥
 भणइ गुरु अम्ह इमो कप्पो त्ति न आगया तुमं दहुं ।
 निदं कस्स वि अम्हे न करेमो किं पुणो तुम्ह ॥
 नमुई जंपह कुब्धो किं बहुणा इत्थ सत्त-दिण-उवरिं ।
 जो चिट्ठित्सइ तुम्हाण सो मए मारियब्बो त्ति ॥
 इय जंपिउं गओ सो गुरु भणइ भो ! किमित्थ कायब्बं ।
 सुणिणो कहेह तुम्हे निय-निय-मइ-सत्ति-अणुस्सुं ॥
 तत्थेक्को भणइ सुणी सट्ठिं वच्छर-सयाइं विहिय-तवो ।
 पउमस्स जेइ-भाया विण्हु-सुणी मंदरे अत्थि ॥
 सो उवसमिही एयं पउमो व्व प्हू इमस्स जो जम्हा ।
 नह-गमण-सत्ति-जुत्तो जो सो वच्चउ तमाणेउं ॥
 तो भणइ सुणी एक्को गंतुं सत्तो भम त्थि नागंतुं ।
 भणइ गुरु गच्छ तुमं सो वेव तुमं इहाणेही ॥
 सो उप्पइओ गरुडो व्व विण्हु-साहुस्स संनिहिं पत्तो ।
 तं दहुं संभंतो विण्हुसुणी चित्तए एवं ॥
 सुणि-आगमणमिणं कहइ संघ-कज्जं उवट्ठियं किं पि ।
 कहमन्नहा विहारो साहूणं पाउसे होइ ॥
 इय चित्तंतं तं वंदिऊण साहइ पओयणं साहू ।
 तं वेत्तूण खणेणं विण्हू इत्थिणपुरं पत्तो ॥
 सो वंदिउं निय-गुरुं सुणि-परियरिओ गओ नमुइ-पासं ।
 नमिओ थ नमुइ-वज्जं नरिंद-लोएण सव्वेण ॥
 सो धम्म-कहं काउं कोमल-वयणेहिं जंपए नमुइं ।
 चिट्ठंतु ताव सुणिणो पुरंमि इह पाउसो जाव ॥
 एगतथ न चिर-कालं वसंति सयमेव साहूणो एए ।
 दहुं बहु-जीव-वहं विहरंति न पाउसम्मि पुणो ॥
 गरुए इमंमि नयरे जइ भिक्खा-वित्तिणो इमे भिक्खू ।
 मास-चउक्कं चिट्ठंति तुज्झ किं नस्सए तत्तो ॥
 जे भरह-निव-पुंगवेहिं पुब्बं नमंसिया सुणिणो ।
 ते जइ तुमं न पणमसि तह वि ठियं देहि ताण पुरे ॥
 इय विण्हुकुमारणं भणिओ नमुई सकोवमुल्लवह ।

किं वयण-वित्थरेणं न देमि वसिडं पुरे तुम्ह ॥
 जंपइ पुणो वि विण्ह वसंतु मुणिणो वणंमि पुर-बाहिं ।
 कुविओ नमुई साहइ न सहेऽहं तुम्ह गंधं पि ॥
 मज्झे वा बाहिं वा पुरस्स संवास-पत्थणाइ अलं ।
 ता मेल्लह मह नयरं निहणिस्सं अन्नहा तुब्भे ॥
 तं सोडं विण्ह मुणी पज्जलिओ पावओ व्व घय-सित्तो ।
 तह वि नमुइं पयंपइ पय-त्तयं देहि मह वसिडं ॥
 नमुई जंपइ दिन्नं पय-त्तयं तो इमाउ जइ बाहिं ।
 ठाहिसि तओ हणिस्सं एवं होउ त्ति भणइ मुणी ॥
 अह वड्डिउं पयट्ठो किरीट-कुंडल-धरो कुसुम-माली ।
 धणु-वज्ज-किवाण-करो भयंकरो तिहुयणस्सावि ॥
 विकिरंतो गह-चक्कं चक्कर-नियरं व निय-करग्गेहिं ।
 कंपावंतो पयदहरेण पत्तं व महिवीढं ॥
 उच्छालंतो जलनिहि-सलिलं चिर-भुत्तमुदरवाऊ व्व ।
 वेल व्व नइ-पवाहे पडिलोम-पहे बहावंतो ॥
 पाडंतो खयर-गणं तणं व फारेण फुक्क-पवणेण ।
 वडुंतो सो जाओ मेरु-समो कय-विचिह-रुवो ॥
 दाउं सिरंमि पायं धरिणीए पाडिओ इमो नमुई ।
 चिट्ठइ चलणे ठविडं पुब्बावर-जलहि-मज्झंमि ॥
 तं ति-जय-क्खोभ-करं दट्ठूण सुरंगणाउ सक्केण ।
 पट्टवियाओ गायंति महुरमरहंत-भणियत्थं ॥
 कोवो जलगो व्व वणं दहइ तवं पन्नगो व्व कुणइ भयं ।
 जीयं पक्खिवइ भवे रत्ते दुस्सिक्ख-तुरओ व्व ॥
 इय कोवोवसम-कए तह किन्नर-खयर-पमुह-महिलाओ ।
 गायंति सवण-मूले मुणिस्स पुरओ य नचंति ॥
 पउमो वि आगओ निय-पमाय-सचिवावराह-भीय-मणो ।
 नमिऊण चलण-लग्गो खमावए विण्ह-मुणि-नाहं ॥
 भयवं ! न मए मुणिया कीरंती दुट्ठ-मंतिणा इमिणा ।
 आसायणा मुणीणं कहिया य न मज्झ केणावि ॥
 तह वि इमो मह दोसो जं नमुई मज्झ संतिओ भिच्चो ।
 छिप्पंति भिच्च-दोसेण सामिणो नीइ-वयणमिणं ॥

ता मह रज्जं मुंचह निहणित्सं अन्नहा तुब्भे ॥
 भणइ गुरु अम्ह इमो कप्पो त्ति न आगया तुमं दद्धं ।
 निंदं कस्स वि अम्हे न करेमो किं पुणो तुम्ह ॥
 नमुई जंपह कुब्बो किं बहुणा इत्थ सत्त-दिण-उच्चरिं ।
 जो चिट्ठित्सइ तुम्हाण सो मए मारियव्वो त्ति ॥
 इय जंपिडं गओ सो गुरु भणइ भो ! किमित्थ कायव्वं ।
 सुणिणो कहेह तुम्हे निय-निय-मइ-सत्ति-अणुरूवं ॥
 तत्थेक्को भणइ सुणी सट्ठिं वच्छर-सयाईं विहिय-तवो ।
 पउमस्स जेह-भाया विण्हु-सुणी मंदरे अत्थि ॥
 सो उवसमिही एयं पउमो व्व पइ इमस्स जो जम्हा ।
 नह-गमण-सत्ति-जुत्तो जो सो वच्चउ तमाणेउं ॥
 तो भणइ सुणी एक्को गंतुं सत्ती मम त्थि नागंतुं ।
 भणइ गुरु गच्छ तुमं सो चेव तुमं इहाणेही ॥
 सो उप्पइओ गरुडो व्व विण्हु-साहुस्स संनिहिं पत्तो ।
 तं दद्धं संभंतो विण्हुसुणी चितए एवं ॥
 सुणि-आगमणमिणं कहइ संघ-कज्जं उवट्ठियं किं पि ।
 कहमन्नहा विहारो साह्वणं पाउसे होइ ॥
 इय चितंतं तं वंदिऊण साहइ पओयणं साहू ।
 तं वेत्तूण खणेणं विण्हू इत्थिणपुरं पत्तो ॥
 सो वंदिउं निय-गुरुं सुणि-परियरिओ गओ नमुई-पासं ।
 नमिओ थ नमुइ-वज्जं नरिंद-लोएण सच्चवेण ॥
 सो धम्म-कहं काउं कोमल-वयणेहिं जंपए नमुइं ।
 चिट्ठंतु ताव सुणिणो पुरंमि इह पाउसो जाव ॥
 एगतथ न चिर-कालं वसंति सयमेव साहुणो एए ।
 दद्धं बहु-जीव-वहं विहरंति न पाउसम्मि पुणो ॥
 गरुए इमंमि नथरे जइ भिक्खा-वित्तिणो इमे भिक्खू ।
 मास-चउक्कं चिट्ठंति तुज्झ किं नस्सए तत्तो ॥
 जे भरह-निव-पुंगवेहिं पुव्वं नमंसिया सुणिणो ।
 ते जइ तुमं न पणमसि तह वि ठियं देहि ताण पुरे ॥
 इय विण्हुकुमारणं भणिओ नमुईं सकोवसुल्लवह ।

किं वयण-वित्थरेणं न देमि वसिडं पुरे तुम्ह ॥
 जंपइ पुणो वि विण्हू वसंतु मुणिणो वणंमि पुर-बाहिं ।
 कुविओ नमुई साहइ न सहेऽहं तुम्ह गंधं पि ॥
 मज्झे वा बाहिं वा पुरस्स संवास-पत्थणाइ अलं ।
 ता मेल्लह मह नयरं निहणिस्सं अन्नहा तुब्भे ॥
 तं सोडं विण्हू-मुणी पज्जलिओ पावओ व्व घय-सित्तो ।
 तह वि नमुई पयंपइ पय-त्तयं देहि मह वसिडं ॥
 नमुई जंपइ दिन्नं पय-त्तयं तो इमाड जइ बाहिं ।
 ठाहिसि तओ ह्णिस्सं एवं होड त्ति भणइ मुणी ॥
 अह वड्डिउं पयट्ठो किरीट-कुंडल-धरो कुसुम-माली ।
 धणु-वज्ज-किवाण-करो भयंकरो तिहुयणस्सावि ॥
 विकिरंतो गह-चक्कं चक्कर-नियरं व निय-करग्गेहिं ।
 कंपावंतो पयदहरेण पत्तं व महिवीढं ॥
 उच्छालंतो जलनिहि-सलिलं चिर-मुत्तमुदरवाज्ज व्व ।
 वेळ व्व नइ-पवाहे पडिलोम-पहे वहावंतो ॥
 पाढंतो खयर-गणं तणं व फारेण फुक्क-पवणेण ।
 वड्डंतो सो जाओ मेरु-समो कय-विविह-रूवो ॥
 दाउं सिरंमि पायं धरिणीए पाडिओ इमो नमुई ।
 चिट्ठइ चलणे ठविडं पुब्बावर-जलहि-मज्झंमि ॥
 तं ति-जय-क्खोभ-करं दट्ठूण सुरंगणाड सक्केण ।
 पट्टविद्याओ गायंति महुरमरहंत-भणियत्थं ॥
 कोवो जलणो व्व वणं दहइ तवं पन्नगो व्व कुणइ भयं ।
 जीयं पक्खिवइ भवे रत्ते दुस्सिक्ख-तुरओ व्व ॥
 इय कोवोवसम-कए तह किन्नर-खयर-पमुह-महिलाओ ।
 गायंति सवण-मूले मुणिस्स पुरओ य नचंति ॥
 पउमो वि आगओ निय-पमाय-सचिवावराह-भीय-मणो ।
 नमिज्जण चलण-लग्गो खमावए विण्हू-मुणि-नाहं ॥
 भयवं ! न मए मुणिया कीरंती दुट्ठ-मंतिणा इमिणा ।
 आसायणा मुणीणं कहिया य न मज्झ केणावि ॥
 तह वि इमो मह दोसो जं नमुई मज्झ संतिओ भिच्चो ।
 छिप्पंति भिच्च-दोसेण सामिणो नीइ-वयणमिणं ॥

तह तुह अहं पि भिच्चो तुमं पद्द मज्झ मज्झ दोसेण ।
 छिप्पसि तुमं पि भयवं ! ता उवसंहर इमं कोवं ॥
 एवं खाभिज्जंतो सो तइलोक्येण वज्जिउं कोवं ।
 जाओ सहज-सरीरो वेला-मुक्को समुद्धो व्व ॥
 इय काउं जिण-पवयण-पहावणं गुरु-समीव-कय-सुद्धी ।
 तिव्व-तव-खविय-कम्मो विणहुकुमारो गओ मोक्खं ॥
 इति लब्धिप्रकटने विष्णुकुमार-कथा ।

एवं तव-माहाप्यं सुणिऊण तवो नरिंद ! कायव्वो ।
 सो वज्झो छ-म्मोओ अरिभतरओ य छ-म्मोओ ॥
 तं जहा—

अणसणमूणोयरिया वित्ती-संखेवणं रस-चाओ ।
 काय-किलेसो संलीणया य वज्झो तवो होइ ॥
 पायच्छित्तं विणओ वेयाववं तहेव सज्झाओ ।
 ज्ञाणं उस्सगो वि य अरिभतरओ तवो होइ ॥
 रत्ता भणियं अट्टमि-चउइसी-पमुह-पव्व-दियहेसु ।
 जिण-कल्लाण-तिहीसु य सत्तीइ तवं करिस्सामि ॥
 एवं बारस-भेयं तव-धम्मं अक्खिउं गुरु भणइ ।
 बारसविहं नराहि व ! सुण संपइ भावणा-धम्मं ॥
 सुह-भावणा-परिगओ जीव-दयं पालिउं खमइ जीवो ।
 सो असुह-भावणाए गहिओ पायं न किं कुणइ ॥
 वंशं वित्ति जहित्थ सत्थ-पढणं अत्थाववोहं विणा
 सोहग्गेण विणा मडप्प-करणं दाणं विणा संभमं ।
 सब्भावेण विणा पुरंधि-रमणं नेहं विणा भोअणं
 एवं धम्म-समुज्जमं पि विबुहा ! सुखं विणा भावणं ॥
 सत्तम-नरय-निमित्तं कम्मं वद्धं पसन्नचंदेण ।
 असुहाइ भावणाए सुहाइ पुण केवलं पत्तं ।

तं जहा—

अत्थित्थ पोयणपुरं रमणीहिं विभूसियं पि सबत्तो ॥
 जं नरमणीहिं रेहइ तत्थ निवो सोमचंदो ति ।

रिड-रमणि-नयण-नीर-प्पवाह-संबंध-लड-उल्लासो ।
 छज्जइ समुज्जलो तस्स जस-भरो रायहंसो व्व ॥
 देवी य धारणी से जीइ हसंतीइ ओणय-मुहीइ ।
 दु-गुणेइ दंत-कंती थण-वट्टे हार-लट्टीओ ॥
 अन्नया गवक्खे ठियस्स केसे निवस्स विवरंती ।
 पलियं दट्टुं जंपइ समागओ देव ! दूओ त्ति ॥
 दट्टुं दिसाउ राया जंपइ किं देवि ! दीसइ न दूओ ।
 सा भणइ नाह ! नाहं मणुस्स-दूर्यं तुह कहेमि ॥
 नवरं पलियं दट्टुण धम्म-दूओ मए समक्खाओ ।
 देवीइ दंसियं पलियमिंदु-किरणुज्जलं रत्तो ॥
 तं दट्टुण नरिंदो हिम-संगम-दट्टु-कमल-सम-वयणो ।
 झत्ति तरंगिय-नयणो संजाओ बाह-सलिलेण ॥
 तं फुसमाणा चेलंचणेण हसिऊण जंपए देवी ।
 जइ लज्जसे जराए तो पडहं देव ! दावेमि ॥
 बुद्धो त्ति जो भणिस्सइ देवं तस्संग-निग्गहं काहं ।
 राया जंपइ सुंदरि ! जुत्तमिणं निच्चिवेयाणं ॥
 जम्हा जयम्मि जीवा मूढा बुद्धत्तणेण लज्जंता ।
 पुण वि तरुणत्त-लुब्धा खिज्जंति रसायण-निमित्तं ॥
 वलि-पलिय-नास-हेवं कुणंति तणु-मदणोसहाईणि ।
 चंकम्मंति सलीलं पुरओ तरुणीण तरुण व्व ॥
 पुट्ठा परेण बहुयं पि बिंति ते शेवमत्तणो जम्मं ।
 गय-जुव्वणा वि मूढा कुणंति ही जुव्वण-वियारो ॥
 देवि ! मह पुव्व-पुरिसा अ-दिट्ठ-पलिया पलित्त-पूलं व ।
 रज्जमिणं परिचइवं पर-लोय-समुज्जया जाया ॥
 जं पुण एयाण कमं विलंधिवं रज्जमेत्तियं कालं ।
 विहियं मए महंतं तं जाओ मह मणे म्हु ॥
 ता वज्जिऊण रज्जं वण-वास-वर्यं अहं पवज्जिस्सं ।
 पुत्तं पसन्नचंदं बालं परिपालसु तुमं ॥
 देवी जंपइ पच्छा न अच्छिळवं उच्छहे विणा तुमए ।
 मेह-रहियंमि गयणे कयावि किं फुरइ विज्जलिया ॥

बालं पि सोमचंदो पसन्नचंदं निवेसिदं रज्जे ।
 देवीए घाईए य संगओ तावसो जाओ ॥
 अह देवीइ पयट्टो पवड्डिउं पुव्व-संभवो गम्भो ।
 समयंमि समुप्पन्नो समत्त-लक्खण-वरो पुत्तो ॥
 वक्कलचीरि त्ति कयं से नामं वक्कलेहिं पिहिओ त्ति ।
 पत्ता पंचत्तं झत्ति धारिणी पसव-पीडाए ॥
 चंद-विमाणे जाया देवी सा पुव्व-नेह-पडिबद्धा ।
 कय-वण-महिंसी-रूवा दुडं पाएइ तं पुत्तं ॥
 तं किं पि न चोज्जमदिट्ठ-माइओ जं निरक्खरो एसो ।
 घाई वि कमेण मया नत्थि हि भवियव्वया-नासो ॥
 किञ्छेण पालिओ सो पिउणा जाओ य जुव्वणाभिमुहो ।
 कुणइ फल-कंद-कुसुमाणयणेण पिउस्स साहेज्जं ॥
 अह तं पसन्नचंदो षणे वसंतं सहोयरं मुणिउं ।
 चित्तेइ कुणउ ताओ थविरो तावस-वयं विसमं ॥
 जं पुण वणवास-दुहं दुसहं बालो वि सहइ मह भाया ।
 रज्जं तु करेमि अहं तं महइ मह मणे पीडा ॥
 तो भणियाउ गणियाउ तेणं गंतुं मुणीण वेसेण ।
 निय-कोसलेण उवलोभिऊण आणेइ मह बंधुं ॥
 तत्थासमे गयाओ मुणि-वेस-धराउ ताउ सो दट्ठुं ।
 अभिवाइऊण मुद्धो पुच्छइ को आसमो तुम्ह ॥
 जंपंति ताउ अम्हे पोयण-आसम-निवासिणो रिसिणो ।
 तुह आगया अतिहिणो ता आतित्थं तुमं कुणसु ॥
 सो भणइ खाह तुम्भे बिल्लाइ-फलाइँ आणियाइँ मए ।
 ताहिं भणियं इमाइँ विरसाइँ न कोवि भक्खेइ ॥
 जे अम्ह आसम-दुमा तेसिं फलवत्तियं तुमं पिच्छ ।
 तो भुंजावंति इमं खंडमए भोयगे ताओ ॥
 तो भक्खिऊण एसो जाओ बिल्लाइ-फल-विरत्त-मणो ।
 ताओ निय-देह-फरिसं कय-हरिसं कारवंति इमं ॥
 थोर-थण-कलस-कलिए निय-वच्छ-यले ठवंति तस्स करं ।
 सो जंपइ महरिसिणो किं अंगं कोमलं तुम्ह ॥

किं वा थलाइं हियए एयाइं समुन्नयाइं तुम्हाण ।
 ताओ निय-कर-यलेहिं तं फरिसंतीउ जंपंति ॥
 अम्ह वण-रुक्ख-फल-भक्खणेण इणमंग-मह्वं होइ ।
 उवचय-वसेण हियए थलाइं थूलाइं तह हुंति ॥
 ता मुत्तुं एयमसारमासमं अम्ह-आसमं एहि ।
 तो कुणइ सो कुमारो ताहिं समं गमण-संकेयं ॥
 संठविउं तावसभंडमागओ जाव सो कहिय-ठाणे ।
 तरु-चडिया चर-पुरिसा ता दहुं सोमचंद-रिसिं ॥
 आगच्छंतं तासिं कहंति ताओ वि साव-भीयाओ ।
 वाहागमे मिगीओ व सब्वाओ दिसोदिसं जंति ॥
 ठाणं गयम्मि जणए सयल-वणे ताओ सो गवेसंतो ।
 परिभमइ जाव मुद्धो ता पेच्छइ रह-गयं पुरिसं ॥
 ताय ! अभिवाययामि त्ति तं पि जंपइ रिसि त्ति मत्तंतो ।
 रहिणा परंपिओ सो कुमार ! ते कत्थ गंतव्वं ॥
 सो भणइ पोयणे आसमम्मि तत्थेव गंतुक्कामेण ।
 रहिणा सो संलत्तो एहि समं चेव वचामो ॥
 रहिणो भज्जं ताय त्ति सो भणइ तीए पुच्छिओ भत्ता ।
 को एसो उवयारो रहिणा भणियं पिए ! एसो ॥
 इत्थी-रहियम्मि वणे वसिओ त्ति तुमं पि मन्नए पुरिसं ।
 किं वाहिज्जं त्ति इमे मिगि त्ति तुरगे य वागरइ ॥
 वक्कल-चीरी रहिणा भणिओ एएहिं कज्जमिणमेव ।
 रहिणो वि मोयगा से दिन्ना तो जंपए एसो ॥
 दिन्नाइं एरिसाइं फलाइं मे पोयणासम-रिसीहिं ।
 अह रहिणो संजायं चोरेणेक्केण सह जुद्धं ॥
 रहिणा वि णिज्जिओ सो दद-प्पहारित्तरंजिओ भणइ ।
 एत्थत्थि मज्झ अत्थो धित्थिन्नो तं तुमं गिण्ह ॥
 भरिओ रहो धणेणं रहिणा सो पोयणम्मि संपत्तो ।
 दाऊण किं पि मुल्लं वक्कल-चीरिं इमं भणइ ॥
 इमिणा मगगसु उडवं इह त्ति सब्बत्थ सो परिभमंतो ।
 गणिया-गिहं गओ भणइ ताय ! अभिवादयामि तुमं ॥
 महरिसि ! इमिणा मुल्लेण देसु उडवं त्ति देमि गिण्ह इमं ।

इय जंपंती अक्का हक्कारावइ दिवाकिंत्ति ॥
 तस्स अणिच्छंतस्स वि तह कम्मं कारवेइ सा ण्हविडं ।
 अवणीय-वक्कलं तं परिहाविय-वत्थ-आभरणं ॥
 परिणावइ निय-धूर्यं रूवेण सुरंगणं व पच्चक्खं ।
 गायंतीओ वइ-वरमसेस-वेसाओ चिद्धंति ॥
 मुणि-वेसा वेसाओ जाओ गयाओ कुमारमाणेडं ।
 ताओ कहंति रत्तो एवं उवलोभिओ कुमरो ॥
 आगमणे संकेयं कारविओ किं तु ताय-दंसणओ ।
 अम्हे नद्धाओ तओ न सक्किओ सद्धिं कुमरो ॥
 अम्हे गवेसमाणो अडविं चिय उवगओ न पिड-पासं ।
 तं सोऊण विसन्नो पसन्नचंदो भणइ एवं ॥
 अहह अजुत्तं जं सो पत्तो पासं न मज्झ पिडणो ।
 मीणो व्व जलाओ सो जणयाओ विजोजिओ मरिही ॥
 इय दुक्खेण नरिदो सयणिज्ज-गओ रइ अपावंतो ।
 तीए गणियाइ गिहे सुरय-रवं निसुणिडं भणइ ॥
 मह दुक्खिए वि सुहिओ को एसो जस्स मंदिरे एवं ।
 सुव्वइ सुरय-रवो तं परंपराए सुणइ गणिया ॥
 सा आगंतुं विन्नवइ नरवइ देव ! मह पुरा कहियं ।
 नेमित्तिएण जो तुह एइ गिहं तावसो तरुणो ॥
 तस्स तुमं निय-धूर्यं दिज्जसु तस्स पभावओ होही ।
 सा मुख-भागिणी अज्ज मज्झ सो आगओ गेहं ॥
 परिणाविओ य धूर्यं मइसवो तेण वट्टइ गिहे मे ।
 देवो दुक्खी न मए मुणिओ ता खमसु मह दोसं ॥
 तो रत्ता पट्टविया पुव्व-नरा तदुवलक्खण-निमित्तं ।
 गंतुमुवलक्खिडं तं आगंतुं विन्नवंति निवं ॥
 परितुट्टमणो राया वइ-समेयं करेणु-खंघ-गयं ।
 वक्कल-चीरिं आणेइ निय-गेहं गरुय-रिच्छीए ॥
 परिणीय-राय-कत्तो सो कुमरो मुणिय-सयल-ववहारो ।
 संपन्न-वंछियत्थो तियसो व्व सुहं गमइ कालं ॥
 जणओ वि चणे कुमरं अपेच्छमाणो ददं कुणइ सोयं ।
 निव-पट्टविया पुरिसा कहंति से कुमर-नुत्तंतं ॥

सो होइ किंचि सत्थो सुय-विरहे तह वि तस्स महरिसिणो ।
 अचंत-रोअणाओ कमेण अंधत्तणं जायं ॥
 अन्नोहिं तावसेहिं कयाणुकंपेहिं पारण-दिनेसु ।
 विहिय-फल-संविभागो तत्थेव वणे वसइ एसो ॥
 बारससु वच्छरेसुं गएसु कइयावि अद्धरत्तम्मि ।
 कुमरो वक्कलचीरी पडिबुद्धो चित्तए एवं ॥
 जम्म-समए वि माया मज्झ मया तो महाकिलेसेण ।
 परिपालिओम्हि पिडणा पवन्न-तावस-अएणावि ॥
 निचं कडि-वडिएणं पिडणो तव-चरण-पीडियंगस्स ।
 कट्टं कयं मए निवडियस्स पण्ह-प्पहार-समं ॥
 पच्चुवयार-समत्थो जाओऽहं जाव जुव्वणारूढो ।
 विहि-वसओ इह पत्तो पावो अजिइंदिओ ताव ॥
 इय चित्तिज्जण कुमरो निवइं विन्नवइ देव ! मह चित्तं ।
 ताय-चलणारविंदं दट्टं उक्कंठियं बाढं ॥
 राया भणइ ममावि ह्नु अचंतं ताय-दंसणे वंछा ।
 तो दोवि गया तत्थासमम्मि ते राय-जुवराया ॥
 कुमरो जंपइ दट्टूण आसमं मह तणं व रज्ज-सिरी ।
 ताइं इमाइं सराइं रमिओ हंसो व्व जत्थाहं ॥
 फल-भक्खणं जहिच्छं कयं मए जाण ते इमे रुक्खा ।
 एए ते हरिणा भायर व्व मह खेळ्ळण-सहाया ॥
 मह दुद्ध-पाण-पवणाउ ता इमा भायरो व्व महिसीओ ।
 रज्जे वि मज्झ कत्तो पिड-सुस्सुसा कहं तु इमं ॥
 ते आसमं पविट्ठा तुट्ठा दट्टूण सोमचंद-रिसिं ।
 जंपइ पसन्नचंदो ताय ! तुमं नमइ जेइ-सुओ ॥
 पिडणा पसन्नचंदो सब्बंगं पाणिणा परामुट्ठो ।
 पुत्तय ! निरामओसि त्ति जंपमाणेण महरिसिणा ॥
 कुमरो जंपइ एसो वक्कलचीरी तुमं नमइ ताय ! ।
 सो रिसिणा सब्बंगं तुट्ठेणालिंणिओ गाढं ॥
 नयणेसु तथा रिसिणो वाह-जलं पसरियं सिणेहेण ।
 तं वेय तस्स अंधत्त-विगम-परमोसहं जायं ॥

तो दुःखिवि महारिसिणा ते दिहा पुच्छिया कुसल-वत्तं ।
 ते विति अम्ह कुसलं सब्वत्थ तुह प्पसाएण ॥
 तं अणपेक्खिज्जंतं तावस-भंडं खु केरिसं जायं ।
 ह्य चिंतंतो पत्तो वक्कलचीरी उड्ढव-मज्झे ॥
 तावस-भंडं वत्थं चलेण पडिलेहए सयं ठवियं ।
 सो पायकेसरीए जइ व्व पत्ताइ-उवगरणं ॥
 पुब्बं कहिं पि करणं कर्यं मए एरिसं ति चिंतंतो ।
 सो जाय-जाइसरणो सामन्नं सरइ पुब्ब-कर्यं ॥
 विस-दाळणेसु विसएसु हा! कहं मुच्छिओम्हि मूढं ति ।
 पसरिय-सुह-भावो बीय-सुक्क-ज्झाणं अहकंतो ॥
 वक्कलचीरी चूरिय-मोह-बलो ज्झति केवली जाओ ।
 जणयस्स बंधवस्स य जहद्वियं कहइ सो धम्मं ॥
 अम्हाण सुक्ख-मग्गो सुद्धु तए दंसिओ ति जंपंता ।
 तं देवया-समप्पिय-लिंगं ते दो वि पणमंति ॥
 तम्मि समयम्मि पोयण-पुर-आसन्ने मणोरसुज्जाणे ।
 सयल-तइल्लुक्क-पुज्जो वीरजिणिदो समोसरिओ ॥
 पत्तेयबुद्ध-समणो वक्कलचीरी पवन्न-जिणधम्मं ।
 निय-जणयसप्पिउं जिणवरस्स विहरेइ अन्नत्थ ॥
 गंतुं पसन्नचंदो पोयणपुरसुल्लसंत-वेरग्गो ।
 वालं पि सुयं रज्जे ठविउं पडिचज्जए दिक्खं ॥
 सो अहिगय-सुत्तत्थो कमेण दुक्कर-तवच्चरण-निरओ ।
 वीरजिणिदेण समं समागओ रायगिह-नयरं ॥
 सामिस्स बंदणत्थं विणिग्गओ सेणिओ सपरिवारो ।
 तस्स पुण अग्गसेन्ने संति दुवे सुसुह-दुम्मुहा ॥
 एग-चलणे पइद्विय-सूसिय-भुय-जुयलमचल-थिर-कायं ।
 रवि-विंन-निहिय-नयणं एगं पेच्छंति ते समणं ॥
 एकैण तत्थ भणियं—अहो ! महप्पा सुणी इमो को वि ।
 सयल-जण-चंदणिज्जो जो एवं कुणइ तिब्ब-तवं ॥
 चिद्देज्ज एग-चलणेण को रविं को खणं पि पेक्खेज्ज ।
 एयस्स सग्ग-भोक्खा दुक्करकारिस्स हत्थ-गया ॥

वीएण पुणो भणियं—पसन्नचंदो नराहिवो एसो ।
 एयस्स नत्थि धम्मो विहलं तिब्बं पि तव-कम्मं ॥
 बालो पुत्तो रज्जम्मि ठाविओ जो अणेण सो इण्हि ।
 भोयाविज्जइ रज्जं अरीण मिलिऊण मंतीहिं ॥
 मंतीणं ताण रज्जं समप्पियं रक्खणंतथमेएण ।
 ते भक्खंति खला तं लुद्धा दुद्धं व मज्जारा ॥
 बाले इयम्मि पुत्ते होही एयस्स वंस-विद्धंसो ।
 अंतैवरं अणाहं इमं विणा कं दसं लहिही ॥
 ता एसो पाव-निही न हीण-चरिओ धुवं अदह्व्वो ।
 एवं सोढं च्छलियं पसन्नचंदस्स सुहज्जाणं ॥
 सो चित्तिडं पवत्तो—अहो ! अणज्जा कुमंतिणो एए ।
 मह पुत्तस्स विहडिया बहुसो सभ्भाणिया वि मए ॥
 जइ तत्थ अहं हुंतो तेसिं वीसत्थ-घायगाण तओ ।
 अणुसासणं करंतो नव-नव-निग्गह-पयारेहिं ॥
 इय कल्लस-ज्झाण-परो रायरिसी रोस-रक्खसारूढो ।
 पेक्खइ पुत्त-विक्खे ते पक्खे व्व दुरमचे ॥
 पुव्वं पि व ते समरे मणसा ।
 एत्थंतरम्मि राया समागओ सैणिओ तत्थ ॥
 तं ज्ञाण-निच्चलं पिक्खिऊण राया फुरंत-परिओसो ।
 उत्तरिऊण करिंदाओ वंदए महि-निहित्त-सिरो ॥
 तव-सामत्थमजव्वं पसन्नचंदस्स इय विचित्तंतो ।
 राया गंतुं परिचत्त-रायच्चिंधो नमइ नाहं ॥
 सो परिसाइ निसत्तो समए पुच्छइ जया मए नाहं ! ।
 नमिओ पसन्नचंदो करिज्ज जइ सो तथा कालं ॥
 का तस्स गइ हुज्जा वीरजिणो भणइ तम्मि समयम्मि ।
 सो कालं कुणमाणो सत्तम-नरयम्मि गच्छिज्ज ॥
 सरलासओ नरिंदो चित्तइ सुणिणो कहं निरय-गमणं ? ।
 ता न मए सुट्ठु सुयं खणंतरे पुच्छए पुणवि ॥
 भयवं ! पसन्नचंदो करेइ जइ संपयं कहवि कालं ।
 तो कत्थ वेच्चइ ?; जिणो जंपइ सब्बद्वसिद्धम्मि ।

पुच्छद्द सेणिय-राओ वागरणं नाह ! कहमिणं दुविहं ।
 भणद्द जिणो सो तइया दुम्मुह-दुव्वयण-सवणेण ॥
 पसरिय-पुत्त-ममत्तो रुहज्झाणं महंतमारूढो ।
 बद्ध-घण-असुह-कम्मो सत्तम-नरयारिहो आसि ॥
 तइ वंदितं अवगए मंतीहिं समं मणेण जुज्झंतो ।
 तुट्टेसु पहरणेसुं सुणिउं सन्नद्धमप्पाणं ॥
 निहणामि सिरत्ताणेण दुट्ट-सचिवे इमे त्ति चिंतंतो ।
 तग्गहणत्थं हत्थेण मत्थयं सो परासुसइ ॥
 तं लुंचियं फुसंतो सुमरइ पडिवन्न-दिक्खमप्पाणं ।
 तो चित्तइ धिद्धी मं रुहज्झाणाणुबद्ध-मणं ॥
 किं मज्झ तेण पुत्तेण किं च मंतीहिं चत्त-संगस्स ! ।
 इय चिंतंतो पुरओ ठियं व मं वंदिऊण इमो ॥
 आलोइय-पडिकंतो पसत्थ-झाणेण खविय-कम्म-भरो ।
 सब्बद्ध-सिद्ध-जुग्गो पसन्नचंदो मुणी जाओ ॥
 इय जंपिऊण विरए विरजिणे सेणिओ गयण-मग्गे ।
 दहुं सुर-संपायं स-विम्हओ पुच्छए सामिं ॥
 भयवं ! सुर-संपाओ किं एसो नह-यले ? भणइ सामी ।
 जायं पसन्नचंदस्स संपयं केवलं नाणं ॥
 इय जिण-वयणं सुणिउं स-देव-मणुयासुरा मुणइ परिसा ।
 सुगइ-कुगईण हेऊ सुहासुहा भावणा चेय ॥
 इति भावनायां प्रसन्नचन्द्र-कथा ।

सुह-भावणा-वसेणं संजाया खविय-घाइ-कम्माण ।
 केवल-नाणुप्पत्ती साल-महासाल-पमुहाण ॥

तं जहा—

इत्थत्थि पिट्टचंपा-नघरी पर-चक्क-भय-अकय-कंपा ।
 मय-लंछणो ससि च्चिय सुरु च्चिय जत्थ कर-चंडो ॥
 तत्थ नय-नियर-सालो सालो राया विताल-बल-साली ।
 नामेण महासालो सहोयरो तस्स जुबराओ ॥
 अह तत्थ समोसरिओ सुर-पुंगव-सेविओ महावीरो ।

शाल-महाशाला दो वि तस्स पत्ता पणमणत्थं ॥
 तरिऊण भव-समुदं धम्म-तरंढेण लहह मोक्ख-तडं ।
 इय वीरजिणेसर-देसणाह ते दो वि पडिबुद्धा ॥
 सालेण महाशालो रज्जं पडिवज्जसु त्ति भणिओ वि ।
 जाव न तं गिण्हइ ताव गागली भाइणिज्जो त्ति ॥
 जसवइ-पिठरय-पुत्तो ठविओ रज्जम्मि गरुय-रिद्धीए ।
 शाल-महाशालेहिं गहिया दिक्खा जिण-समीवे ॥
 समयंतरम्मि सामी विहरंतो आगओ पुरिं चंपं ।
 सह शाल-महाशालेहिं गोयमो पट्टु-अणुत्ताओ ॥
 पत्तो य पिट्टचंपं कंचण-कमल-ट्टिओ कहइ धम्मं ।
 सोऊण गागली तं पडिबुद्धो जणणि-जणय-जुओ ॥
 ठविऊण सुयं रज्जे गिण्हइ दिक्खं पिऊहिं परियरिओ ।
 पंचहिं वि तेहिं कलिओ चलिओ गोयम-गुरु चंपं ॥
 ताण जिण-वंदणत्थं वच्चंताणं पट्टम्मि पंचणहं ।
 सुभ-भावणा-परारणं उप्पन्नं केवलं नाणं ॥
 सब्बे वि गया चंपं कमेण ति-पयाहिणं ति ते सामिं ।
 वंदेइ इंदभूई इयरे पंच वि गया परिसं ॥
 ते भणइ गोयमो एह सामिणं वंदह त्ति तो सामी ।
 तं जंपइ मा गोयम ! केवलि-आसायणं कुणसु ॥
 खामेइ गोयमो ते विसन्न-चित्तो य चित्तए एवं ।
 लहिऊण केवलमहं किं सिज्झिस्सामि एत्थ भवे ॥
 पुवं जिणेण कहियं मणुओ अट्टावयम्मि जो चडिडं ।
 चउवीस-जिणे नमिही सो सिज्झिस्सइ इहेव भवे ॥
 तं जंपंते तियसे मुणिउं अट्टावयं गिरिं गंतुं ।
 वंछेइ गोयमो वंदणत्थमरहंत-पडिमाणं ॥
 तावस-पडिबोहं जाणिऊण सो भयवया अणुत्ताओ ।
 चारण-लद्धि-बलेणं पवणो व्व खणेण तं पत्तो ॥
 एत्तो य मोक्ख-हेउं सोउं अट्टावर्यंसमारुहिउं ।
 तिन्नि पयट्टा कोडिन्न-दिन्न-सेवाल-कुलवइणो ॥
 पढमो चउत्थ-पारणय-अइ-कंदाइ-भोयणो निच्चं ।
 पंच-सय-तावस-जुओ आरूढो मेहलं पढमं ॥

छट्ट-तव-पारणे रइय-सुक्क-कंदाह-भोयणो दुइओ ।
 दुइयाह मे हलाए चडिओ पंच-सय-परिवारो ॥
 निव्वं कयट्टमो विहिय-सुक्क-सेवाल-पारणो तइओ ।
 पंच-सय-तवस्सि-जुओ आरूढो मेहलं तइयं ॥
 ते उड्डं आरुहिडं अखमा चिट्ठंति उम्मुहा जाव ।
 पेच्छंति कणय-वन्नं थूल-तणुं गोमयं ताव ॥
 जंपंति ते परुप्परमम्हे अट्टावए तव-किसा वि ।
 आरुहिडं न तरामो कहमारुहिही इमो थूलो ? ॥
 इय जंपंतेसु इमेसु गोयमो तं गिरिंदमारूढो ।
 तियसो व्व सो खणेणं नयणाण अगोयरं पत्तो ॥
 एयस्स अहो ! सत्ती महरिसिणो ता नियत्तमाणस्स ।
 सीसा अम्हे होमि त्ति निच्छओ तावसेहिं कओ ॥
 तो गोयमो मणोहर-मणि-कणय-मयं जिणालयं पत्तो ।
 अट्टावय-गिरि-रायस्स मउड-सोहं जमुव्वहइ ॥
 भरइेसर-कारविद्या चउवीस-जिणाण तत्थ पडिमाओ ।
 अप्पडिमाओ वन्न-प्पमाण-जुत्ताउ सो नमह ॥
 निगंतुं जिण-गेहाओ इंदभूई असोग-रूक्ख-तले ।
 उवविट्ठो तियसाणं जिण-पन्नत्तं कहइ धम्मं ॥
 पत्थावे भणइ इमं तव-वसओ अट्ठि-चम्म-सेसंगे ।
 किडि-कडिय-संधिणो जंपिडं पि अखमा मुणी हुंति ॥
 तो चितइ वेसमणो थूलत्तं गोयमस्स पेक्खंतो ।
 किं भयवं साहु-गुणे अप्प-विसंवाइणो कहइ ॥
 मणपज्जवेण भयवं तब्भारवं जाणिऊण वज्जरइ ।
 परमत्थओ पमाणं झाणं न किसत्तणं तणुणो ॥

तहा हि—

जंबुदीवग्गि महाविदेह-ठिय-पुक्खलावई-विजए ।
 अत्थि मही-महिला-पुंडयं व पुंडरिणिणी नयरी ॥
 वेरि-करि-पुंडरीओ ससि-पंडुर-पुंडरीय-रूद्धिसो ।
 सिरि-केलि-पुंडरीयं तत्थ निवो पुंडरीओ त्ति ॥
 तस्स सुय-दंड-कुंडलिय-चंड-कोयंड-कंड-तुंडेहिं ।

खंडिय-विपक्ख-मुंडो जुवराओ कंडरीओ-त्ति ॥
 अह तत्थ नल्लिण-वण-क्काणणम्मि गुणिणो समागया मुणिणो ।
 ताण समीवे धम्मं सुणंति ते-राय-जुवराया ॥
 वेरग्ग-मग्ग-लग्गो सगिहं गंतूण पुंडरीय-निवो ।
 जुवराय-कंडरीयं मंति-समक्खं इमं भणइ ॥
 वच्छ ! कमागयमेयं गिणहसु रज्जं अहं तु भय-भीओ ।
 भव-दुक्ख-लक्ख-खंडण-दक्खं दिक्खं गहिस्सामि ॥
 तो भणइ कंडरीओ—किं भव-कूवम्मि खिवसि मं नाह ! ।
 तुममेव कुणसु रज्जं अहं तु काहामि पवज्जं ॥
 भणियं रत्ता—रेहइ धम्मो वि कमेण वच्छ ! कीरंतो ।
 कुमरेण जंपियं—देव ! नत्थि मरणस्स को वि कमो ॥
 तो भणइ पुंडरीओ जइ वि इमं तहवि जुव्वणं विसमं ।
 कामो जएक्क-वामो निरग्गलो इंदियग्गामो ॥
 दुपरिच्चओ पमाओ परीसहा दुस्सहा चलं चित्तं ।
 हुयवह-जाला-पाणं थ दुक्करं वच्छ ! चारित्तं ॥
 ता सावय-धम्मं चिय पवज्जिओ रज्ज-पालणं कुणसु ।
 पडिच्च-अनिव्वहणं उभय-भव-दुहावहं जम्हा ॥
 वज्जरइ कंडरीओ सच्चमिणं तहवि नाह ! निय-वयणं ।
 कीरइ किमन्नहा तो चित्तव्वा निच्छयं दिक्खा ॥
 इय भणिउं पव्वइओ कुमरो राया उ भावओ साहू ।
 गेहम्मि ठिओ मंतीहिं चारिओ दिक्ख-गहणाओ ॥
 तो कुणइ कंडरीओ चिरं तवं निच्चमंग-निरवेक्खं ।
 दस-विह-सामायारिं पालइ मुणि-वल्लहो होइ ॥
 अह अन्नया वसंते वियंभिए भुवण-खोह-संजणणे ।
 चारित्त-मोह-वसओ चलइ मणं कंडरीयस्स ॥
 सो चित्तेइ अलं मे पवज्जाए किलेस-बहुलाए ।
 गंतुं करेभि-रज्जं जं मह निय-बंधुणा दिन्नं ॥
 तो पत्तो पुंडरिगिणि-नयरीए सो ठिओ य-उज्जाणे ।
 उवगरणं ठविउं तरु-लयाइ हरियम्मि उवविट्ठो ॥
 सो अप्पाणं रत्तो-जाणावइ वण-निउत्त-पुरिसाओ ।

राया वि पहाण-जुओ आगंतुं नमइ तं झत्ति ॥
 रुक्खे ठविओवगरणो एगागी हरिय-काय-सुडियंगो ।
 वय-निव्विन्नो मत्ते इमो त्ति मुण्डं भणइ राया ॥
 भो ! भो ! सुमरह तुब्भे जं वारं तस्स मज्झ तंमि दिणे ।
 रहस-वसेण पवन्ना बालेण अणेण पवज्जा ॥
 तत्तो राया दाऊण कंदरीयस्स राय-चिघाइं ।
 मुण्णि-लिंगाणिय-गहिइं नीहरइ सयं गहिय-दिक्खो ॥
 अह वय-भट्ठो रंको व्व किस-तणू एस भोयणत्थो त्ति ।
 गरहिज्जंतो लोएहिं कंदरीओ कुणइ कोवं ॥
 मुंजामि ताव पढमं पच्छा एयाण निग्गहं काहं ।
 इय चितंतो चित्तम्मि कंदरीओ गओ गेहं ॥
 उत्तम-भज्झम-अहमो ति-विहो लद्धो चिराउ आहारो ।
 मुत्तो तव-तिव्वज्जुहेण कंदरीएण आकंठं ॥
 तस्स बहु-भोयणाओ य भोग-जागरणओ य रयणीए ।
 जाया विसूहया वेयणा य महई समुप्पन्ना ॥
 भत्थि व्व अनिल-पुन्ना वियसियसुयरं निरुंभिओ पवणो ।
 तस्सुल्लसिया तण्हा सब्बंगं पसरिओ दाहो ॥
 भट्ट-पइन्नो पावो एसो त्ति विभाविउं निओगीहिं ।
 सो अकय-चिकिच्छो किच्छसुवगओ चितए एवं ॥
 जह कहवि इमं रयणिं अइक्कमिस्सामि तो पभायम्मि ।
 निहणिसं स-कुडुंवे सब्बे वि निओगिणो एए ॥
 एवं रुह-ज्झाणेण कणहलेसा-समन्निओ मरिउं ।
 सत्तम-पुढवीए इमो उप्पन्नो अप्पइट्ठाणे ॥
 अह पुंडरीय-साह्व अहो सुलद्धं चिराउ मुणि-धम्मं ।
 काहामि गुरु-समक्खं ति चित्तिउं चलइ गुरुपासे ॥
 सो वेला-लंधिय-सीय-रुक्ख-भोयण-किलामिओ मग्गे ।
 कोमल-कम-तल-नीहरिय-रुहिर-संसित्त-महिवट्ठो ॥
 गामे उवस्सयं मग्गिऊण तण-सत्थरम्मि उवविट्ठो ।
 गुरु-पासे गिण्हस्सं कहया दिक्खं ति चित्तेइ ॥
 गरहिय-निय-दुच्चरिओ पइसमय-ससुल्लसंत-सुह-झाणो ।
 पीणंगो वि विवन्नो सो सब्बट्ठे सुरो जाओ ॥

ता देहस्स किसत्तं पीणत्तं वा सुणीण अपमाणं ।
 किं तु सुह-झाणमेककं निव्वाण-निबंधणं विंति ॥
 गोयम-भणियं एयत्थ-संगयं पुंडरीय-अज्झयणं ।
 गिण्हेह एकक-वारेण धणय-सामाणिओ देवो ॥
 वेसमणो उण नमिऊण गोअमं गिण्हिऊण सम्मत्तं ।
 संपत्त-ति-जय-रज्जो व्व रंजिओ जाह् नय-ट्ठाणं ॥
 ह्य देसणाह् गमिऊण गोयमो रयणिमुत्तरह् जाव ।
 अट्ठा-वयाउ पेच्छंति तावसा ताव तं तुट्ठा ॥
 जंपंति पणाभिउं ते महरिसि ! तव-लच्छि-कुल-भवण ! अम्हे ।
 तुह सीसा होहामो तुमं तु अम्हाण होसु गुरु ॥
 तो गोयमो परंपह् सब्वन्नू मह् गुरु महावीरो ।
 सो बिअ सुरासुरच्चिय-चलणो तुम्हं पि होउ गुरु ॥
 पुणरुत्त-पत्थण-परे दिक्खह् तावस-गणे गणहरिंदो ।
 तेसिं समप्पियं देवयाह् सब्वं पि मुणि-लिंणं ॥
 जूहाहिवो व्व कलहेहिं तेहिं सह गोयमो पट्ट-समीवे ।
 चलिओ गओ य गामं भिक्खा-काले भणइ एए ॥
 किं तुम्ह पारण-कए मण-इट्ठं कहह जेण आपोमि ।
 ते पायसं ति जंपंति विम्हओ फुल्ल-सुह-कमला ॥
 तं एग-कुक्खि-पूरण-पमाणमाणह् पडिग्गहे काउं ।
 लद्धि-समिद्धो भयवं जंपह् मुणिणो निविसह् त्ति ॥
 अम्हाण पारणं एत्तिएण नणु पायसेण किं होही ।
 तहवि गुरु जं जंपह् तं कायव्वं ति चिंतता ॥
 ते सब्वेवि निविट्ठा अक्खीणमहाणसाह् लद्धीए ।
 जेमाविऊण सब्वे सयं च पच्छा जिमह् भयवं ॥
 अह् अम्हेहिं पत्तो देवो परमेसरो महावीरो ।
 जणय-समो एस गुरु धम्मो य भवन्नव-तरंडो ॥
 ता कयपुत्ता अम्हे त्ति भावर्यंताण भुंजमाणान् ।
 सेवाल-भक्खमाणं संजायं केवल्लणं ॥
 दिन्नाईणं नियडे गयाण पट्ट-पाडिहेर-दंसणओ ।
 कोडिन्नाईणं पुण पट्ट-पिच्छणओ तमुप्पन्नं ॥

सामिं तिपयाहिणिडं केवलि-परिसाए पत्थिया एए ।
 एह नमंसह सामिं ति भणइ तो गोयमो भयवं ॥
 मा कुरु केवलि-आसायणं ति वागरइ गोयमं सामी ।
 मिच्छादुक्खइ-पुक्वं ते खामइ गोयमो नमिडं ॥
 चित्तेइ गोयमो पुण वि गरुय-कम्मो किमेत्थ जम्मेऽहं ।
 सिद्धिस्सामि न वा किं एए पुण दिक्खिया वि मए ॥
 पत्ता केवल-नाणं अहो महंतो इमाण पुत्त-भरो ।
 एवं चिंतावन्नं पर्यपए गोयमं सामी ॥
 सच्चं सुराण वयणं जिणाण वा किं ति गोयमो भणइ ।
 नाह ! जिणाणं सामी जंपइ ता मा कुणसु अधिइं ॥
 तण-वंस-वम्म-उत्ता कह तुल्ला हुंति जेण इह नेहो ।
 चिर-संसग्गा तुह मह उत्ता कड-संनिहो नेहो ॥
 सो दढयरो जया तुज्झ तुट्ठिही केवलं तथा होही ।
 ता तुममहं च गोयम ! अंते तुल्ला भविस्सामो ॥
 इति भावनायां शाल-महाशाल-कथा ।

पुक्ख-कय-कम्म-वसओ नीय-जणोचिय-पहे पयट्ठो वि ।
 सुह-भावणाइ पत्तो केवल-नाणं इलापुत्तो ॥

तं जहा—

इत्थेव भरहवासे विसिद्ध-सर-वावि-कूव-कय-सोहं ।
 धण-धन्न-समिद्ध-जणं अत्थि इलावद्धणं नयरं ॥
 पुरिसा परत्थ-लुद्धा सरोय-नयणाउ जत्थ इत्थीओ ।
 भवणाइं भोगि-रुद्धाइं तत्थ किं वणिमो अन्नं ॥
 तत्थ निवो जियसत्तू कराल-करवाल-राहुणा जस्स ।
 निच्चंपि सूर-रायाण कवलणं कीरए चोज्जं ॥
 तस्सासि माणणिज्जो वेसमण-सरिच्छ-रिद्धि-वित्थारो ।
 इवभो, नाम गुण-निही समग्ग-वणिवग्ग-अवयंसो ॥
 निरुवम-रूवाइ-गुणोह-धारिणी धारिणी पिथा तस्स ।
 तेसिं निरवच्चत्तं करवत्तं पिव दलइ हिययं ॥

जओ—

संसार-निव-तरुणो कडुयं कुसुमं व विसय-सुक्खं पि ।

चोर्जं अमय-फलोवमभवच्च-मुह-दंसणं एक्कं ॥
 तत्थत्थि इला-देवी तीए उवाइयं कयमणेहिं ।
 जइ अम्ह सुओ होही ता तुह भत्ति करिस्सामो ॥
 तुह चित्तिं च नामं दाहामो तस्स, तो सुओ जाओ ।
 तुह-मणेहिं अणेहिं इलाइ पूया कया महई ॥
 पाएसु पाडिओ सो भणिओ नामेण तह इलापुत्तो ।
 निव्विग्घं वट्ठतो संजाओ अट्ट-वारिसिओ ॥
 जणएण कलायरियस्स अप्पिडं कारिओ कला-गहणं ।
 अह रमणी-माण-मडप्प-मोडणं जुव्वणं पत्तो ॥
 तह वि रमइ रमणीसुं न मणं पि इमो मुणि व्व उवसंतो ।
 जणणि-जणएहिं तत्तो खित्तो दुल्ललिय-गोट्टीए ॥
 अह संपत्तो सरओ उल्लासिय-रायहंस-हरिस-रओ ।
 पसरिय-ताम-रस-रओ अविवेय-जणघविय-सरओ ॥
 निसि-निम्मल-तारय-संगयस्स गयणस्स पाडिसिद्धीए ।
 वियसिय-कुसुय-जुयाइं जम्मि सराइं विरायंति ॥
 कल्लसंति अपिज्जंतं पुव्वं सत्थं ति जम्मि पिज्जंतं ।
 सब्बो वि होइ सत्थो पिओ त्ति लोयाण कहइ जलं ॥
 मलिणा वि घणा खित्तेसु वरिसिडं जम्मि उज्जला जाया ।
 खित्तेसु रिद्धि-दाणं विसुद्धि-हेउ त्ति जंपंति ॥
 वासासु आसि हरिसो सिहीण हंसाण जम्मि संजाओ ।
 सासए केवि दिणा केवि वहुइ त्ति पयडेइ ॥
 सारस-मिहुण-घणत्थल-मणोहरा वियसमाण-कमल-मुही ।
 पसरंत-कास-हासा जम्मि वियंभइ भुवण-लच्छी ॥
 तम्मि सरए स-मित्तो पहिडु-चित्तो गओ इलापुत्तो ।
 नंदण-वणाभिरामे आरामे कीलण-निमित्तं ॥
 दिट्ठा तत्थ अणेणं रइ व्व रुवेण मणहरा तरुणी ।
 लंखय-नडस्स कत्ता नच्चंती विविह-भंगीहिं ॥
 तं पेच्छंतो सो पर-वसो त्ति विद्धो सरैहिं मयणेण ।
 जं असमत्थो पुरिसो, पहरैइ परं छलं लहिडं ॥
 अह थंभिओ व्व सहसा टंक्कण्णिओ व्व चित्त-लिहिओ व्व ।

लेप्य-घडिओ व्व पत्थरमओ व्व सो निच्चलो जाओ ॥
 सेव-वियंभिओ सो जलं व दाडं कुलाभिमाणस्स ।
 उल्लसिओ पाव-डुमंक्कुर-प्पवंचो घुरोमंचो ॥
 काहं कहं अकज्जं ति सज्झसेणं च पसरिओ कंपो ।
 लज्जाह पाडिसिद्धीह नूण से चयेणा नट्टा ॥
 तं तयवत्थं दहुं भणंति पर-चित्त-लक्खगा मित्ता ।
 जाया महर्हं वेला वयंस ! इह आगयणम्ह ॥
 काहं ति जणणि-जणया तुह अधिहं तेण मंदिंरं जामो ।
 वणमिणमवाय-बहुलं ति नेह जुज्जह चिरं ठाडं ॥
 इय पन्नविओ वि इमो तग्गय-चित्तो न जंपए किं पि ।
 तो घेत्तूण सुएहिं नीओ मित्तेहिं पिइ-गेहं ॥
 तत्थ वि सयणिज्ज-गओ विमुक्क-उण्हण्ह-दीह-नीसासो ।
 परिचत्त-निच्च-किच्चो चिट्ठह तं चेव चित्तंतो ॥
 तुच्छ-जले मच्छस्स व तस्सारइ-परिगयस्स वुत्तंतं ।
 पिडणो कहांति मित्ता नड-धूया-दंसण-प्पभिहं ॥
 तं सोडं सो वज्जाहओ व्व सहसा विसायमावन्नो ।
 वाह-जल-सरिय-नयणो स-प्पणयं जंपए पुत्तं ॥
 उत्तम-कुलम्मि जाओ वच्छ ! तुमं, तुह मणोहरा मुत्ती ।
 तुज्झ विमुद्धा बुद्धी सत्थ-रहस्सं तए पढियं ॥
 जुत्ताजुत्त-विमरिसं न खमो काडं विणा तुमं अन्नो ।
 ता कत्तो जायमिणं तुह गुण-विवरीयमायरणं ॥

तहा—

जेण कुलं कल्लसिज्जह सुयणा खिज्जंति उल्लसंति खला ।
 कंठ-गय-जीविया वि हु सप्पुरिसा आयरंति न तं ॥
 सुणिऊण इमं राया काही सव्वस्स-निग्गहं मज्झ ।
 लज्जिस्सए गुरुयणो कओ कुपत्ते किलेसो त्ति ॥
 संभाविस्संति तुमं अकुलीणं नयर-सिट्ठिणो नूणं ।
 निय-पंति-बाहिरं मं सयण-गणा पुण करिस्संति ॥
 ता निरुवम-रुवारणं लायन्नामय-समुद्द-लहरीणं ।
 वच्छ ! कुल-कल्लाणं कर-गहणं कारविस्सामि ॥

जं वच्छ ! वंछसि इमं अकुलीणं मणहरं पि तमजुत्तं ।
 चंडाल-कूव-सलिलं सिद्धो सिसिरंमि किं पियइ ॥
 अह भणइ इलापुत्तो—अहं पि जाणामि ताय ! सब्बमिणं ।
 किं तु तहिं अणुरत्तं न तरामि निवारिउं चित्तं ॥
 अपि चण्डानिलोद्धूततरङ्गस्य महोदधेः ।
 शक्येत प्रसरो रोद्धुं नानुरक्तस्य चेतसः ॥
 सो जिवियक्खणु अक्खियइ छज्जइ सोज्जि छइल्लु ।
 उप्पह-पट्टिओ पहि ठवइ चित्तु जु नेह गहिल्लु ॥
 पावेमि जइ न एयं तो पाणा निक्खमंति मह नूणं ।
 हा ! विहि-वसेण वसणे पट्टिओमिह करेमि किं ताय ! ? ॥
 इय पुत्त-निच्छयं मुणिकुणं जणएण लंखओ भणियो ।
 कणएण समं तुलिउं सुयस्स मे देहि निय-धूयं ॥
 तो लंखएण भणियं जइ तुज्ज सुयस्स कज्जमेयाए ।
 ता मिलउ अह एसो सुवन्न-अक्खय-निही जमिमा ॥
 जणएण कहियमेयं सोऊण विचिंतए इलापुत्तो ।
 हा ! मज्ज कए जणएण ववसियं जण-विरुद्धं पि ॥
 विहि-वसओ संपत्तं अपत्त-दाणं व निष्फलं तं पि ।
 ता किं करेमि ठाउं खणं पि न खमो विणा तीए ॥
 इय चिंतिऊण एसो अगणिय-पिउ-माइ-मित्त-उवएसो ।
 वज्जिअ-कुलाभिमाणो लंखय-नड-पेडए मिलियो ॥

जओ—

विसमाउह-त्राण-पहार-जज्जरे माणुसस्स मण-कलसे ।
 ठाइ कहं निक्खित्तं थेवं पि परोवएस-पर्यं ॥
 उद्दाम-काम-कामल-विहविय-विवेय-चक्खुणो मणुया ।
 खुप्पंति मग्ग-चुक्का अकिच्च-पंकमि किं चोळं ॥
 तं भणइ नडो निउणा सिप्पे नट्टाइयमि मह धूया ।
 वच्छ ! तुमं तु अनिउणो तुम्ह तओ अणुचिओ जोगो ॥
 ता सिक्ख तुमं नट्टाइ-सिप्पमह सिक्खिउं पयट्टो सो ।
 न हि कुणंति किमकिच्चं तरुणी-वस-वत्तिणो मणुआ ॥
 पन्न-गुण-संपन्नो खिप्पं सिप्पमि तम्मि संजाओ ।

सन्वेसिमुवखित्ती किमसज्झं मह-पगारिसस्स ॥
 तं भणइ पुणो वि नडो निय-सिक्खं पयडिडं बहु सुवन्नं ।
 विट्ठवसु तुमं विवाहं करेमि रिद्धीइ तुह जेण ॥
 तो विन्नाय-नड-नयरे नड-पेच्छं मग्गिओ निवो तेण ।
 संपत्ता नागरया निवो निविट्ठो स-देवीओ ॥
 तो कुणइ इलापुत्तो पेक्खणयं जणय-जणमणच्छेरं ।
 राया नड-धूयाए रूवाइ-गुणेहिं अक्खित्तो ॥
 हंतुमिलापुत्तं भणइ भइ ! भो ! कुणसु वंस-पडणं ति ।
 तो रंग-भूमि-निक्खय-वंसग्गे ठावियं फलयं ॥
 पासेसु दोसु कीला तस्स कया तत्थ सो समारूढो ।
 पाएसु पाउआओ सच्छिदाओ परिहिऊण ॥
 असि-फल-वग्ग-हत्थो अग्गद्धे सत्त सत्त पच्छे ।
 करणाइं कुणइ गयणे उप्पयमाणो इलापुत्तो ॥
 छिहेसु कीलए सो पवेसिडं जाव चिहए उद्धो ।
 ता रंजिओ पुर-जणो जंपेइ अहो महच्छरियं ॥
 अन्नस्स नत्थि सत्ती इम त्ति सो दब्बमिच्छए दावं ।
 किं तु निवम्मि अदिंते न देइ एयस्स किंचि जणो ॥
 राया उ चितइ इमं इमाउ ठाणाउ कहवि जइ एसो ।
 पडिऊण मरइ ता होज्ज नट्टिया मे इमा भज्जा ॥
 तो भणइ निवो न मए तुह विन्नाणं निरुवियं सम्मं ।
 ता कुणसु पुणो वि इमं तेण कयं तं दुइय-वारं ॥
 तुद्धो य जणो बाढं गय-लज्जो जंपइ पुणो राया ।
 न मए सम्मं दिहं ता पयडसु पुण वि विन्नाणं ॥
 तं तेण तइय-वारं कयं निवो तहवि देइ न ह्हु किंचि ।
 अहह ! अजुत्तमजुत्तं ति कुणइ हाहारवं लोओ ॥
 लक्खेइ लंखियाखित्त-माणसं खिइवइं इलापुत्तो ।
 तो चित्तिडं पवत्तो धिद्धी ! विसघाण विसमत्तं ॥
 जेणेस निवो रंगो व जीवियाए इमीइ अणुरत्तो ।
 मम मरण-निमित्तं कारवेइ करणाइं पुणरुत्तं ॥
 संते वि रूव-लावन्न-कंतिमंते. महंत-सुद्धंते ।

अकुलुगयाह किमिमीह पत्थिवो एस अणुरत्तो ॥
 अहवा किमणेण अहं पि एरिसो चव जेण वट्टामि ।
 दूरे नियह जलंतं ता लोओ न उण पाय-तले ॥
 धिद्धी ! मह जम्ममिणं जेण न लज्जा कया गुरु-जणस्स ।
 जणणि-जणयाण दुक्खं मणं पि न निरुवियं जेण ॥
 परिभावियं न चित्ते लोए लहुयत्तमत्तणो जेण ।
 जेणोभय-लोय-भयं न शेवमेत्तं पि संभरियं ॥
 उमग्ग-विलग्गेणं मत्तगएण व मिठ-रहिण ।
 पर-पुट्ट-वालएण व पर-घर-संचरण-सीलेण ॥
 भक्खाभक्ख-विभागं अपेक्खमाणेण हुयवहेणेव ।
 गिरि-नह-पय-पूरेण व नीयं चिअ वच्चमाणेण ॥
 विस-रुक्खेण व नीसेस-लोय-उव्वेय-करण-दक्खेण ।
 सयल-जण-गरहणिज्जं लंखय-कुलमणुसरंतेण ॥
 अहह ! मए मूढेणं कओ कलंको कुलम्मि ससिविमले ।
 सयणाणं वयण-सरोरुहेसु मसि-कुच्चओ दिज्जो ॥
 उडूलियं समग्गं तइल्लोक्कं अयस-पंसु-पसरेण ।
 अप्पा अणप्प-दुग्गह-दुक्खाणं भायणं विहिओ ॥
 हा ! रुवमेत्त-दंसण-लोल-सहावत्तणेण सलह-समे ।
 पाविट्ठि-दिट्ठि-रंढे पंच इमे मंडया तुज्झ ॥
 इय वेरग्ग-गएणं अणेण कस्सवि गिहम्मि घणवइणो ।
 पंच-समिया ति-गुत्ता दढ-व्वया साहुणो दिट्ठा ॥
 निय-रुव-विजिय-तियसंगणाउ तरुणीओ घणवइ-वहूओ ।
 भत्तीह भत्त-पाणं तेसिं दिंतीओ दिट्ठाओ ॥
 ते दहुं सो चित्तह इमे कयत्था सुलद्ध-जम्माणो ।
 जे एरिसे पि धीरा न दिंति दिट्ठिं जुवइ-वग्गे ॥
 अहह ! अहं पुण पावो अणज्ज-चरिओ विवेय-परिहरिओ ।
 जो अकुलीण-जणत्थे अणत्थमेवं अणुहवामि ॥
 इय चिंतंतस्स इमस्स मोहणिज्जं गयं खओवसमं ।
 उल्लसिओ सुह-भावो फुरिओ चारित्त-परिणामो ॥
 चित्तेण चत्त-संगो मुक्क-ममत्तो सरीरमेत्ते वि ।

जह वंसगे चडिओ तहेव सो खवग-सेढीए ॥
 सुह-भावणानलेणं दहिउं नीसेस-घाइ-कम्म-वणं ।
 पयडिय-लोयालोयं सो पावइ केवलं नाणं ॥
 सो देवया-समप्पिय-लिंगो सुर-कय-सरोरुह-निसन्नो ।
 राय-प्पसुह-सहाए धम्मं वागरिउमाहत्तो ॥
 चिंतामणिं व दुलहं लहिउं मणुयत्तणाइ-सामग्गिं ।
 परिहरह विसय-सुक्खं किंपाग-फलं व सुह-महुवरं ॥
 पडिवज्जह चारित्तं थेवं पि पमाय-वेट्ठियं चयह ।
 पाविस्सह अन्न-भवे विडंबणं अन्नह अहं व ॥
 रत्ता भणियं—पुब्बं कओ पमाओ मुणिंद ! को तुमए ? ।
 का वा विडंबणा पाविय त्ति, तो केवली कहइ ॥
 अहमासि वसंतपुरे छक्कम्म-कओल्लमो पवर-विप्पो ।
 मह माहणी य भज्जा कय-गुरु-लज्जा विणय-सज्जा ॥
 अम्हे अपुरत्ताइं परोप्परं पालिऊण गिहवासं ।
 गुरु-पासे पडिबुद्धाइं दोवि दिक्खं पवन्नाइं ॥
 मज्झ मणे नावगओ नेहो सुत्तत्थ-लीण-मइणो वि ।
 मह भज्जाए य कओ जाइमओ किं पि निय-चित्ते ॥
 गुरु-पुरओ तमणालोइऊण बुद्धि वि गयाइं सुर-लोयं ।
 तत्तो बुओ य जाओ एसोऽहं तुम्ह पच्चक्खो ॥
 जाइ-मएणं जाया एसा सा हीण-जाइ-नड-धूया ।
 तन्नेहेणं एवं विडंबणमहं पि संपत्तो ॥
 तं सोउं नड-धूया राया देवी य भावणा-वसओ ।
 पाविति केवल-सिरिं कमेण सव्वाणि सिज्जंति ॥

इति भावनायामिलापुत्र-कथा ।

विसएसु पयट्ठो वि हू पुरिसो वेरग्ग-भावणा-वसओ ।
 अपयट्ठो दट्ठव्वो दिट्ठंतो भाउणो बुद्धि ॥
 तं जहा—

इत्थेव भरहवासे अत्थि पुरं रयणसंचयं नाम ।
 कमलवणं व सहइ जं रमणी रमणिज्ज-वयणेहिं ॥

अणुवृत्तिय-नय-धम्मो आजम्म-परोवयार-कय-कम्मो ।
 मयरद्धओ व्व रम्मो नर-नाहो तत्थ जयवम्मो ॥
 समरम्मि जो समग्गे विपक्ख-वग्गे पलायमाणम्मि ।
 संसुहमप्पाणं चिय पिच्छह् करवाल-संकंतं ॥
 सुद्ध-हसिएण जीए हसियं व जयम्मि लज्जियं अमयं ।
 अप्पाणं न पयासह् जयावली तस्स सा देवी ॥
 तस्सासी जुवराओ सहोयरो विजयवम्म-नामो त्ति ।
 तस्स सुमह् त्ति मंती विसिट्ठ-मह्-विजिय-सुर-मंती ॥
 अन्न-समयम्मि सूरी जुगंधरो नाम आगओ तत्थ ।
 चंदो व्व तारएहिं बहूहिं साहूहिं परियरिओ ॥
 नयरूज्जाणम्मि ठिओ नमणत्थं तस्स राय-जुवराया ।
 सामंत-मंति-कलिया दोवि गया गयवाराद्धा ॥
 भू-मिलिय-निडाल-यला दो वि गुरुं वंदिऊण उवविट्ठा ।
 भव-निव्वेय-पहाणा पारद्धा देसणा गुरुणा ॥
 भो ! भो ! भव्वा दुच्चार-दुक्ख-संदोह-सलिल-संपुण्णं ।
 जम्म-जरा-मरण-ससुल्लसंत-कल्लोल-दुल्लंघं ॥
 कोह-वडवग्गि-दुग्गं मोह-मेहावत्त-भीसण-सरूवं ।
 माण-गिरि-दुरवगाहं गुरु-माया-वल्लि-परिणद्धं ॥
 घण-मुच्छ-मच्छ-रिंछोलि-संकुलं पाव-पंक-पडिहत्थं ।
 रागोरग-सरूद्धं विविहामय-मयर-दुप्पेच्छं ॥
 अप्परय-पडंत-महंत-आवया-सय-सहस्स-संकिण्णं ।
 दुद्धर-विसय-पिवासुच्छलंत-वेला-पसर-विसमं ॥
 तरिऊण भव-समुद्धं जह् वंछह् मोक्ख-पारसुवल्लुं ।
 ता पडिबज्जह् चारित्त-पवहणं पवर-गुण-कलियं ॥
 अह् भणह् सुमह्-मंती—भयवं ! चारित्तमेव जीवाणं ।
 निव्वाण-लाभ-हेउ त्ति निच्छओ वट्टए न इमो ॥
 जं मरुदेवी सिद्धा अकय-चरित्ता वि भावणा-वसओ ।
 कम्म-खए निमित्तं तत्तो सुह-भावण वेण ॥
 तो गुरुणा वागारियं अणेग-जम्मेसु सुकय-जोगेण ।
 अणुचिण्ण-चरित्ताणं कमेण सुह-भावणा होइ ॥

जं पुण मरुदेवीए अकय-वयाए वि भावणा जाया ।
 तं नूनं टडयाटच्चकेण जागरण-तुल्लं ति ॥
 मंती पभणइ—भयवं ! कह टडयाटच्चकेण जागरणं ? ।
 सरी जंपइ—पयडं जयम्मि अक्खाणयं एयं ॥
 अत्थि महावडगामे वसंतपालो त्ति ठकुरो तत्थ ।
 टडओ गाम-तलारो तं गामं रक्खए निचं ॥
 गामाहिवस्स अचंत-वल्लहो अत्थि कुक्कुडो एक्को ।
 जस्स सिहा सोहइ पडमराय-घडिय व्व आरत्ता ॥
 नज्जइ जस्स पिसंगं चंनु-पुडं जच्च-कंचणमयं व ।
 रेहइ घुसिण-विलित्तं व पिजरं जस्स चलण-जुयं ॥
 छज्जंति जस्स पिच्छा चित्ताभा विविह-रयण-रइय व्व ।
 तं पिच्छंतो चिय गाम-ठकुरो निव्वुइं लहइ ॥
 ठकुर-गेहासन्ने गिहम्मि चंडा तहि वसइ महिला ।
 अह तीए कुक्कुड-मंस-भक्खणे दोहलो जाओ ॥
 अन्नो य कुक्कुडो तत्थ नत्थि तत्तो कहि पि संगहिउं ।
 सो चेव तंवचूडो विणासिउं भक्खिओ तीए ॥
 तं कुक्कुडं अदट्टं वसंतपालो अनिव्वुओ जाओ ।
 टडयं तलारमाणवइ तंवचूडस्स सुद्धि-कए ॥
 कत्तो वि तप्पजत्ति अलहंतो सो वि भणइ फुडमेयं ।
 कुक्कुड-पजत्ति-कहगस्स देमि दीणार-वीसं ति ॥
 तं सोउं घण-लुद्धा चंडाइ सयञ्झिया कह वि मुणिउं ।
 चवला नाम तलारस्स अग्गओ अक्खए एवं ॥
 चंडाइ भक्खिओ कुक्कुडो त्ति को पच्चओ त्ति सो भणइ ।
 चवला जंपइ चंडा-मुहेण एयं कहावेमि ॥
 तो डल्लाए ठइउं ठविओ चवलाइ निय-गिहे टडओ ।
 सहि-कय-कवड-सिणेहाइ सहिउं पुच्छिया चंडा ॥
 सहि ! कुक्कुड-वुत्तंतं मह कह मूलाउ सा वि तं कहइ ।
 जा कुक्कुडो मए भक्खिओ त्ति एत्थंतरे चवला ॥
 हत्थ-ट्टिय-लट्ठीए डल्लाए डवरि टच्चकं देइ ।
 टडयं जाणावेउं तो चंडा चितए एवं ॥

धुवमिह ठविडं टलयं इमीइ पुड्ढिहि कुक्कुड-सरुवं ।
 ता जह अलियं एयं मुणइ इमो तह भणामि त्ति ॥
 तो जंपइ टलया-टच्चकेण सहि ! जग्गियाहमेत्ताहे ।
 चवला जंपइ सहि ! जग्गियाहमेयस्स को अत्थो ॥
 चंडा भणइ मए सहि ! सुविणो दिट्ठो इमो न उण सच्चं ।
 इय तच्चवयणं सोडं जाया चवला विलक्ख-मणा ॥
 जागरणं टलया-टच्चकेण तो जह कयाइ संभवइ ।
 मोक्खो वि कयाइ तहा जीवाण विणा चरित्तेण ॥
 जे सिद्धा जे सिज्झंति जंतुणो सिज्झिहंति जे के वि ।
 ताण सुह-भाव-जुत्तं निमित्तमेक्कं चिय चरित्तं ॥
 इय धम्म-देसणाए संविग्गा दो वि राय-सुवराया ।
 चारित्तं धित्तुमणा नमिऊण गुरुं गया गेहं ॥
 जयवम्म-नरिदेणं भणिओ लहु-बंधवो विजयवम्मो ।
 वच्छ ! कमागयमेयं रज्जं पडिवज्ज तुमभिण्हि ॥
 सुणिऊण गुरु-समीवे परिणइ-विरसं विसं व विसय-सुहं ।
 कम्म-गिरि-दलण-वज्जं पवज्जमहं तु गिण्हस्सं ॥
 भणियं जुवराएणं अहं पि दुब्बार-दुक्ख-पसराओ ।
 संसार-चारयाओ निविण्णो संजमं काहं ॥
 रत्ता भणियं एत्तिय-दिणाइं रज्जं कर्यं मए वच्छ ! ।
 नभिर-नर-नाह-निवहं तुमं पि तं संपयं कुणसु ॥
 सुय-संकामिय-रज्जो तुमं पि गिण्हिज्ज संजमं पच्छा ।
 समयमि कीरमाणं सच्चं पि हु सोहए जम्हा ॥
 वज्जरइ विजयवम्मो रज्जं काऊण संजमं काहं ।
 जइ देज्ज कहवि तुट्ठो मरण-विलंबक्खराइं जमो ॥
 अहमज्ज करेमि इमं कल्लं काहामि पुण इमं किच्चं ।
 इय को भंतइ महमं तरंग-खण-भंगुरे जीए ॥
 लहिऊण दुल्लहमिणं काहिं पि चिंतामणिं व मणुयत्तं ।
 विसय-पमाय-परवसो न निष्फलं निग्गमिस्सामि ॥
 रज्जं गल-रज्जुं पि व भोगे भुयगे व्व बंधणं व धणं ।
 पासं व गेहवासं सुत्तुं दिक्खं गहिस्सामि ॥
 तो रत्ता वज्जरियं—जइ एवं गिण्ह ता तुमं दिक्खं ।

न ह्यु सक्रेमि अहं पुण पयाओ मुत्तं अणाहाओ ॥
 काऊण रज्ज-मुत्तं कमेण दिक्खं अहं पि गिण्हस्सं ।
 तो भाव-जइ व्व ठिओ जयवम्मो गेह्वासे वि ॥
 इयरो पुण पव्वइओ गुरु-पय-मूलंमि गरुय-रिद्धीए ।
 अहिगय-समत्त-मुत्तो निरवज्जं कुणइ पव्वज्जं ॥
 आगम-विहिणा कइयावि नगर-गामागरेसु विहरंतो ।
 सो रयणसंचयपुरे समागओ गुरु-अणुत्ताओ ॥
 नगरासन्नज्जाणे वसहिं सो गिण्हइं ठिओ तत्थ ।
 तन्नमणत्थं देवी-समन्निओ आगओ राया ॥
 कहिओ जिणिंद-धम्मो निबंधणं सग-सुक्ख-सुक्खाणं ।
 परिणाम-दारुणत्तं विसयाण परूवियं मुणिणा ॥
 संबिग्ग-भणा देवी जयावली गिण्हए नियममेवं ।
 एयं मुणि इह द्वियमहं अदट्ठं न भुंजेमि ॥
 मुणि-निच्च-पज्जुवासण-पराइ तीए दिणाइं वच्चंति ।
 अन्नदिणे उक्किट्ठा बुट्ठी जाया उवरि-भागे ॥
 नयरस्स काणणस्स य अत्थि नई अंतरा महावेगा ।
 सा उवरि-बुट्ठि-सलिलेण दुत्तरा झत्ति संपन्ना ॥
 मुणिणो नमंसणत्थं न गया देवी न भुंजए तत्तो ।
 लुंपंति न निय-नियमं मरणे वि ह्यु जं महासत्ता ॥
 रत्ता भणिया देवी अज्ज तुमं किं न भोयणं कुणसि ।
 तीए य निय-पइत्ता निवेइया भूमि-नाहस्स ॥
 राया भणइ न नज्जइ कम्मि दिणे विरमिही नई एसा ।
 सूमाल त्ति तुमं पुण अभोयणे पाविहिसि कइं ॥
 ता वच्च जंपसु नइं मह देवर-दिक्ख-गहणओ पभिई ।
 जइ मज्झ पिययमेणं विसय-सुहासेवणं विहियं ॥
 ता भयवइ ! मा विरमसु अहं न करं देहि मज्झ तो मग्गं ।
 हसिऊण भणइ देवी किमसंबद्धं भणसि देव ! ॥
 तुममेवं जंपंतो नाह ! चिरं सेविडं विसय-सुक्खं ।
 अचलत्त-कलिगगमो दिओ व्व अच्चंत-साहसिओ ॥
 रत्ता बुत्तं मुत्तुं कुवियप्पे देवि ! गच्छ कुरु भणियं ।
 देवी भणइ किमेवं अवलवसि करं विसय-सेवं ॥

मं कुद्वणि व्व भुयगं तुमं पयारेसि अलिय-वयणेहिं ।
 दिव्व-सरुवं तु नईं पयारिउं कस्स सामत्थं ॥
 रत्ता भणियं तुह देवि ! किं वियारेण कुणसु मह वयणं ।
 देवी भणइ सकोवं व देव ! किमहं गहग्गहिया ॥
 विसय-सुहसेवणे जा सयावि तुह सक्खिणी अहं नाह ! ।
 तह जीए अंगेसुं एयं चित्तं समत्तं पि ॥
 साहं सच्च-पियाए नईइ पुरओ असच्चमाएसं ।
 तुह वयणेण भणंती होहामि न कस्स हसणिज्जा ॥
 ता वेत्तूण भुयाए भणिया देवी निवेण सप्पणयं ।
 मह वयणमिक्क-वारं करेसु भणिएण किं बहुणा ॥
 चित्ते असहहंती वि तं गिरं नरविमाणमारूढा ।
 रत्तो उवरोहेणं नई-समीवं गया देवी ॥
 दोसु वि तडेसु लग्गं पास-द्विय-रुक्ख-उक्खणण-दक्खं ।
 अन्मंलिह-लहरि-भरं दहूण नहं भणइ देवी ॥
 जइ मह देवर-दिक्खा-गहणाउ पभिइ भत्तुणा मज्झ ।
 न कओ विसय-पसंगो ता भयवइ ! देहि मे मग्गं ॥
 तो देइ नईं विवरं वच्चइ देवी सविम्हया तेण ।
 तं वंदिउं सुणिंदं जा आगच्छइ नईं ताव ॥
 मिलियं नहं तह चिय दहूं सुणिणो पुणो गया पासं ।
 नइ-उत्तरण-निमित्तं कहेइ निव-वयण-सुत्तंतं ॥
 तीए पडिवोह-गुणं विचित्तिउं अणुचियं पि सा भणिया ।
 देवि ! पुणो वच्च तुमं भणसु नहं एरिसं वयणं ॥
 मह देवरेण भयवइ ! वय-गहणाणंतरं जइ न सुत्तं ।
 ता विरम देहि मग्गं अह सुत्तं मा तओ दिज्जा ॥
 ता देवी आगंतुं वागरइ नहं पडुच्च सुणि-वयणं
 दिन्ने नईइ मग्गे स-विम्हया सा गया गेहं ॥
 कय-भोयणा निवइणो देवी कहिऊण सव्व-सुत्तंतं ।
 भणइ पडु ! तुम्ह दुणहवि किमेयसव्वसुयं चरियं ॥
 राया भणइ करिस्सइ भयवं चिय सव्व-संसयोच्छेयं ।
 अच्छरिय-भरिय-हियया कहं पि रयणिं गमइ देवी ॥

गोसे नरिंद-सहिया देवी गंतूण पुच्छए साहुं ।
 चरियं दुणहवि तुम्हं किमिदयालं व चोज-करं ॥
 देवेण विसय-सेवा मह पच्चक्खं कया वि अवलत्ता ।
 सा मन्निया नईइ पि अकय त्ति तओ पओ दिन्नो ॥
 घय-सालि-दालि-भोयग-मंडग-पमुहं मए सहत्थेण ।
 जं दिन्नं तुह अन्नं तए किमन्नस्स तं दिन्नं ॥
 भयवं ! इत्तियकालं देहं निव्वहइ कह विणाहारं ।
 ता खल्लु कयं पि भोयणमवलवसि तुमं पि साहसिओ ॥
 एसा नई वि कत्तो सरिसी दुणहंपि तुम्ह संघडिया ।
 जा बहु मन्नइ वत्थुं तुम्भेहिं कयं पि अकयं ति ॥
 भणइ मुणि-विजयवरमो इममत्थं सुणसु तुज्ज जइ कुड्डं ।
 मह वय-गहणाउ चिय इय चिंतंतो ठिओ राया ॥
 को सो हवेज्ज दियहो जंमि अहं सब्ब-संग-परिहारं ।
 काउं पडिवज्जिस्सं गुरु-पय-मूलम्मि पव्वज्जं ॥
 कहया दुवालसंगं गिण्हिस्समहं गुरूण वयणाओ ।
 कमलाओ महुरं महुरो व्व मयरंद-संदोहं ॥
 दुव्वयणाइं सहंतो घरे घरे फुरिय-असम-पसम-रसो !
 भिक्खागओ सहिस्सं बावीस-परीसहे कहया ॥
 बाहु व्व कया काहं उव्वगहं भत्त-पाण-दाणेण ।
 साहूण कया वीसामणं च काहं सुबाहु व्व ॥
 सम-मुह-दुक्खो सम-कणय-पत्थरो सम-सपक्ख-पडिवक्खो ।
 सम-तरुणि-तणुक्केरो सम-मोक्ख-भवो कया होहं ॥
 इय वेरग-पहाणो एसो राया परोवरोहेण ।
 विसएसु पयट्ठो वि हु अपयट्ठो नेव दट्ठव्वो ॥
 वेयण-वेयावच्चे इरियट्ठाए य संजमट्ठाए ।
 तह पाणवत्तियाए छट्ठं पुण धम्म-चिंताए ॥
 एएहिं कारणेहिं उग्गम-उप्पायणेसणा-मुद्धं ।
 भत्तं भुंजंतो वि हु मुणी अकय-भोयणो भणिओ ॥
 इय सोउं पडिवज्जइ तह त्ति सब्बं जयावली देवी ।
 जिण-पूयण-मुणि-वंदण-दाण-परा गमह दियहाइं ॥

राया वि सोमवर्मं जयावली-गन्ध-संभवं पुत्तं ।
 ठविर्दं रज्जे संवेग-परिगभो गिणहए दिक्खं ॥
 कय-तिव्व-तवच्चरणा निच्चं वेरग्ग-भावणा-पवणा ।
 उपन्न-केवला दो वि बंधवा सिव-सुहं पत्ता ॥
 इति भावनायां जयवर्म-विजयवर्म-कथा ॥

अह पुच्छइ कुमर-नराहिराउ, मण-मक्खड-नियमण-संकलाउ ।
 कह कीरहि बारह भावणाउ, तो अक्खइ गुरु घण-गहिर-नाउ ॥
 तं जहा—
 चलु जीविउ जुव्वणु धणु सरीरु, जिम्ब कमल-दलग्ग-विलग्गु नीरु ।
 अहवा इहतियं जं किं पि वत्थु, तं सव्वु अणिच्चु हहा धिरत्थु ॥
 पिइ माय भाय सुकलत्तु पुत्तु, पहु परिणु मित्तु सिणेह-जुत्तु ।
 पहवंतु न रक्खइ कोवि मरणु, विणु धमह अत्तु न अत्थि सरणु ॥
 राया वि रंक्कु सयणो वि सत्तु, जणभो वि तणउ जणणि वि कलत्तु ।
 इह होइ नड्डु व्व कुकम्मवंतु, संसार-रंगि बहु रूवु जंतु ॥
 एकल्लउ पावइ जीवु जम्मु, एकल्लउ मरइ विढत्त-कम्मु ।
 एकल्लउ परभवि सहइ दुक्खु, एकल्लउ धम्मिण लहइ सुक्खु ॥
 जहिं जीवह एउ वि अत्तु देहु, तहिं किं न अत्तु घणु सयणु गेहु ।
 जं पुण अणत्तु तं एक-चित्तु, अज्जेसु नाणु दंसणु चरित्तु ॥
 वस-मंस-रुहिर-चम्मट्टि-बद्ध, नव-छिड्ड-क्षरंत-मलावणद्ध ।
 असुइ-स्सरूव-नर-थी-सरीर, सुइ बुद्धि कहवि मा कुणसु धीर ॥
 मिच्छत्त-जोग-अविरह-पमाय, मय-कोह-लोह-माया-कसाय ।
 पावासव सव्वि इमे सुणेहि, जइ महसि मोक्खु ता संवरेहि ॥
 जह मंदिरि रेणु तलाइ वारि, पविसइ न किंचि ढक्खिय दुवारि ।
 पिहियासवि जीवि तहा न पावु, इय जिणिहि कहिउ संवरु पहावु ॥
 परवसु अनाणु जं दुहु सहेइ, तं जीवु कम्मु तणु निज्जेइ ।
 जो सहइ सवसु पुण नाणवंतु, निज्जेइ जिइंदिउ सो अणंतु ॥
 जहिं जम्मणु मरणु न जीवि पत्तु, तं नत्थि ठाणु बालग्ग-मत्तु ।
 उड्डाहो-चउदस-रज्ज-लोगि, इय चित्तसु निच्चु सुओवओगि ॥
 सुह-कम्म-निओगिण कहवि लद्धु, बहु पावु करेविणु पुण विरुद्धु ।

जलनिहि-भुय-रयणु व दुलह बोहि, इय मुणिवि पमत्तु म जीव होहि॥
 घम्मो त्ति कहंति जि पावु पाव, ते कुगुरु मुणसु निहय-सहाव ।
 पइपुत्तिहि दुल्लह सुगुरु-पत्तु, तं वज्जसु मा तुहु विसय-सत्तु ॥
 इय बारह भावण मुणि विराड, मणमज्झि वियंभिय भव-विराड ।
 रज्जु वि कुणंतु चित्तइ इमाड, परिहरिवि कुगइ-कारणु पमाड ॥
 इय सोमप्पह-कहिए कुमार-निव-हेमचंद-पडिबडे ।
 जिणघम्म-प्पडिबोहे पत्थाओ वणिणओ तइओ ॥

इत्याचार्यश्रीसोमप्रभविरचिते कुमारपालप्रतिबोधे
 तृतीयः प्रस्तावः ॥



॥ ॐ ॥

अथ चतुर्थः प्रस्तावः ।

अह वागरियं गुरुणा जीव-दयं धम्ममिच्छमाणेण ।
सिव-मंदिर-निस्सेणी विरई पुरिसेण कायव्वा ॥
सव्वेदिय-वसगाणं समत्त-पावासवानियत्ताणं ।
जं अविरयाण जीवाण कहवि न वट्टइ जीव-दया ॥
(जं अविरयाण कहमवि वट्टइ सम्मं न जीव-दया ॥ पाठान्तरम् ।)
जइ कहवि सव्व-विरइं मुणि-धम्म-सख्वमक्खमो काडं ।
ता देसओवि विरइं गिहत्य-धम्मोचियं कुज्जा ॥
पुव्व-परिकम्मिय-चित्त-कम्म-जुग्गा जहा भवे भित्ती ।
तह विहिय-देस-विरई काउमलं सव्व-विरइं पि ॥

भणियं च—

एसा वि देस-विरई सेविज्जइ सव्व-विरइ-कज्जेण ।
पायमिमीए परिकम्मियाण इयरा थिरा होइ ॥
पंचउ अणु-व्वयाइं गुण-व्वयाइं हवंति तिन्नेव ।
सिक्खा-वयाइं चत्तारि देस-विरई दुवालसहा ॥
संकप्प-पुव्वयं जं तसाण जीवाण निरवराहाण ।
दुविह-तिविहेण रक्खणमणुव्वयं विति तं पढमं ॥
चिर-जीवी वर-ख्वो नीरोगो सयल-लोग-मण-इट्ठो ।
सो होइ सुगइ-गामी सिवो व्व जो रक्खए जीवे ॥

तं जहा—

अत्थि नयरी विदग्धा दिय-मंदिर-दिस्समाण-घणदग्धा ।
विविह-मणि-खंड-मंडिय-पिसंडि-पासाय-संदग्धा ॥
सुंदर-कर-कय-हरिसो हरिसेणो तत्थ पत्थिवो अत्थि ।
जस्स परवारणस्स वि चोज्जं न मओ समुल्लसिओ ॥
कमल त्ति तस्स देवी मुहेण जीए जियाइं कमलाइं ।
नूणं लज्जंताइं जलस्स मज्झे निल्लुक्काइं ॥

तीए कयाह पुत्तो विविहोवाइय-सएहिं संजाओ ।
 रत्ना वद्धावणयं कारवियं गरुय-रिद्धीए ॥
 तम्मि पुरे आसि पुरा महंतमसिबं इमम्मि पुण जाए ।
 तं उवसंतं तत्तो सिवो त्ति नामं इमस्स कयं ॥
 कणय-गिरि-कंदराए सो चंपय-पायवो व्व निव्विगर्थं ।
 बुद्धिं गओ कमेणं सयलाउ कलाउ सिक्खविओ ॥
 सो पत्तो तारुन्नं ता रुन्नं तं अपावमाणीहिं ।
 धुवममरीहिं चिरंतण-अमर-परिग्गह-विसन्नाहिं ॥
 तं चिअ पेच्छइ तं चेव थुणइ तं चेव आलिहइ चित्ते ।
 चित्ते तं चिय चितइ तरुणि-यणो मयण-वसवत्ती ॥
 तस्स भमिरस्स दंसण-सतण्ह-तरुणीण सहइ वयणेहिं ।
 गयणं गवक्ख-निक्खंतएहिं ससि-लक्ख-निच्चियं व ॥
 अह अन्नया कुमारे सहा-निसन्नम्मि पणमिडं राया ।
 पडिहारेण उरत्थल-फुरंत-हारेण विन्नत्तो ॥

देव ! दुवारे दुवे देव-दंसणाभिलासिणो तावस-कुमारया चिट्ठंति । रत्ना
 बुत्तं—सिग्यं पवेसेहि । ते पवेसिया पडिहारेण । उचिय-पडिवत्ति-पुव्वं निवे-
 सिया आसणेसु । पुच्छिया रत्ना—अवि सपरिवारस्स कुसलं कुलवइणो ? ।
 निव्विगर्थं निव्वइह तवोकम्मं ? । केण वा कल्लेण निय-पय-पंकएहिं तुब्भेहिं
 पवित्तिर्यं ठाणमेयं ति । तेहिं भणियं—चउरासम-गुरुणो महारायस्स पभा-
 वेण सव्वत्थ कुसलं । केवलं—

कत्तो वि आसम-पए संपत्तो अत्थि करिवरो एक्को ।
 जो वित्थिन्न-समुन्नय-कुंभत्थल-तुलिय-गिरि-सिहरो ॥
 सव्वंग-लक्खण-घरो दीह-करो दसण-दलिय-दुम-विसरो ।
 दुव्वार-गह-प्पसरो मय-गंध-भमंत-भमर-भरो ॥

सो महाराय-जोग्गं हत्थि-रयणं अन्नं च किंचि आसम-दुमाणं विहवं करेइ
 त्ति पेसिया अम्हे कुलवइणा । रत्ना भणियं—महंतो अणुग्गहो कओ अम्हं ति
 विसज्जिया तावसा । पत्थिओ हत्थि-गहणत्थं पत्थिवो । इत्थंतरे विन्नतो सिव-
 कुमारेण, देह मम आएसं जेणाहमेव गहिज्जण तं आपेमि । रत्ना दित्तो आएसो ।
 नियत्तो सयं राया । चलिओ तुरंगमारूढो कइवय-पहाण-जण-परिवारो कुमारो ।
 पत्तो तमुहेसं । दिट्ठो अणेण महि-चलय-गयगंधमसहंतो सग्गाओ समागओ

सुरगड व्व गयवरो । मुत्तूण तुरंगं अग्गओ होऊण हक्किओ सो कुमारेण ।
 धाविओ तयभिसुहं । संविळ्ळिऊण पुरओ पक्खित्तमुत्तरिज्जं अणेण । परिणओ
 तत्थ इत्थी । कुमारो वि दंत-मुसलेसु दाऊण चलणे चडिओ इत्थि-खंघे ॥
 बद्धमासणं अणेण अप्फालिओ कुंभत्थले करी करयलेण । एत्थंतरे परिणस्स
 पेच्छंतस्स खेव उप्पइओ हर-गल-गवल-सामले गयणगणे । गओ खणो-
 यरं नयणाण । पत्तो खणेण वेयडु-पच्चयं । ठिओ तत्थ तरुण-तरुसंड-मंडि-
 उज्जाण-मज्झ-भागे । सो य कुंजर-रूवं मुत्तूण जाओ पुरंत-मणि-कुंडलो
 विज्जाहरो ।

नभिऊण तेण भणियं कुमार ! कंकेळ्ळि-तरु-तले एत्थ ।
 वीसमसु खणं एक्कं जाव अहं कणयपुर-पहुणो ॥
 पवणंजयस्स खयरेसरस्स साहेमि तुम्ह आगमणं ।
 इय जंपिऊण पत्तो खयरो अह चितए कुमरो ॥
 हरिओम्हि किं इमिणा खयरेण किंवा इमीह चिताए ।
 देव्वं चेष पमाणं जणाण सुह-दुक्ख-संजणणे ॥
 पिच्छामि ताव संपह पगाम-रमणिज्जमेयमुज्जाणं ।
 तो वियरंतो पत्तो तमाल-तरु-मंडवं कुमरो ॥
 सोऊण तत्थ इत्थी-संलावं पेच्छए लयंतरिओ ।
 कुसुम-सयणिज्ज-संठियमिक्कं कन्नं सही-सहियं ॥
 तो चितए कुमारो का वि इमा कमल-दल-विसालच्छी ।
 बिरह-दसाइ उदगं कस्सवि साहेइ सोहगं ॥

इमीह सुह-पंकयं कय-समत्त-नेत्तुसवं,

कलंक-परिवज्जियं पुलइओ ससी लज्जिओ ।

विसेस-ससिरीययं समुवलडुकामो धुवं,

कगेइ अइदुक्करं हर-नडाल-वह्निच्चयं ॥

अह कत्ताए भणियं—सहि भूयलए गिहं विमुत्तूण ।

उज्जाणमागयाहं महु-समय-विसेस-सिसिरमिणं ॥

कुसुमाउहेण सुलहेहिं कुसुम-बाणेहिं भिज्जमाणाए ।

मह उज्जाणं एयं पि पज्जलंतं व पडिहाइ ॥

तथाहि—

जालाहिं पिव मंजरीहिं हिययं दूमंति भूय-डुमा,

इंगाल व्व न दिति लोचण-सुहं कंकेल्लिणो पल्लवा ।
 संतावंति तणुं पलास-कुसुमकैरा फुल्लिग व्व मे,
 भिंगालीओ वि संहरंति हरिसं धूमावलीओ विव ॥
 कयं कयलि-वीयणं कुसुम-सत्थरो सज्जिओ,
 विणम्मिय उरत्थले बहल-चंदणासेवणं ।
 मुणाल-बलयावली विरईया सुयासुं तए,
 तहावि न नियत्तए सहि ! सरीर-दाहो महं ॥

किं च—

पंचसरोवि हु मयणो सर-लक्खं मज्झ हियय लक्खम्मि ।
 जं मिच्छइ तेण मए लक्खिज्जइ एस लक्खसरो ॥
 सुहयस्स दंसणं तस्स दुल्लहं मज्झ मंद-भग्गाए ।
 ता इण्हि मल्लेहं मरणं चिय अप्पणो सरणं ॥
 सोऊण इमं कुमरो चित्तइ तस्सेव जीवियं सहलं ।
 जम्मि अणुरत्त-चित्ता खिज्जइ एवं इमा बाला ॥
 कन्ना-सहीइ भणिया सहि ! मा उत्तम्म धरसु धीरत्तं ।
 हरणच्छि ! निच्छियं ते होहिति मणोरहा सहला ॥
 जं पट्टविओ ताएण अज्जं सिवराय-पुत्तमाणेउं ।
 नयरीइ विदब्भाए सुवेग-विज्जाहरो तुरिउं ॥
 अह निय-नामं सोउं फुरंत-हरिसो विचित्तए कुमरो ।
 नूणं इमाइ बालाइ कारणेणाहमाणीओ ॥
 एत्थंतरे उवितं दहं विज्जाहराण संघायं ।
 कुमरो नियत्तिऊणं पत्तो कंकेल्लि-तरु-सूले ॥
 उचिय-पडिवत्ति-पुब्बं पवेसिओ तेहिं कणयउर-नयरे ।
 ठविओ विउलम्मि विमाण-मणहरे रयण-पासाए ॥
 भणियो समए पवणंजएण खयरहिवेण सप्पणयं ।
 सुण रायपुत्त ! अवहार-कारणं अप्पणो एयं ॥
 अत्थि चउण्हं पुत्ताणसुवरि मे कणयसुंदरी धूया ।
 अहिगय-कला-कलावा संपत्ता जोब्बणं सावि ॥
 मह पणमणत्थमत्थाण-मंडवे जणाणि-पेसिया पत्ता ।
 तीए रूवाइसयं दहं भणियं मए एवं ॥

सो नत्थि नरो मन्ने इमीइ रूवेण जो वरो जोग्गो ।
 तत्तो विज्जाहर-मागहेण एक्केण संलत्तं ॥
 अत्थि विदब्भा-पहुणो हरिसेण-नराहिवस्स अंगरुहो ।
 नीसेस-कला-निलओ सिवो त्ति रूवेण जिय-मयणो ॥
 जह केसवो सिरीए सईइ सक्को हरो गिरिसुयाए ।
 तह देव ! कुमारीए इमीइ सो चिय वरो उच्चिओ ॥
 एवं सोडं तीए तहाणुराओ तुमम्मि संजाओ ।
 जह विज्जाहर-कुमराण सहइ नामं पि कहवि न सा ॥
 कत्थ वि रइमलहंती अपत्त-निदा-सुहा निसासुं पि ।
 कर-यल-कलिय-कवोला चिद्धइ तुह संकह-खित्ता ॥
 एयं नाऊण मए कुमार ! आणाविओ तुमं इत्थ ।
 ता कणयसुंदरि परिणिऊण मह कुणसु परिओसं ॥
 कुमरो जंपइ जं आणवेसि सज्जोमिह तत्थ किं बहुणा ।
 न कुलीण-जणो जाणइ गुरूण पडिकूलमायरिडं ॥
 तो कणयसुंदरीए पाणिग्गहणं कराविओ कुमरो ।
 गुरु-रिद्धि-पवणं पवणंजय-खेयरिदेण ॥
 अह अत्थाण-निसन्नो सिवकुमार-अणेय-खयर-परियरिओ ।
 एक्केणागंतुं खेयरेण पवणंजओ भणिओ ॥
 सूरपुर-प्पहुणो सूरतेय-खयरेसरस्स दूओऽहं ।
 सो भणइ न मह दिन्ना मगंतस्सवि तए धूया ॥
 मूगोयरस्स दिन्ना ता जंपिस्ससि तुमं न मे कहियं ।
 अज्जवि तं मह अप्पसु वयराणं छड्डियं किंतु ॥
 हणिऊण अन्नहा भूमिगोयरं तं सर्यं वि गिण्हिस्सं ।
 पवणंजएण भणिओ दूओ—भो ! कहसु निय-पहुणो ॥
 धूयाइ नाभिरुइउ त्ति जइ मए तं विवाहिओ न तुमं ।
 तत्थ उवालंभ विहिं जेण तुमं मणहरो न कओ ॥
 संपइ पुण पर-भज्जं तं वंछंती न लज्जसे कीस ।
 भण्णांति महापुरिसा परदार-परंमुहा जम्हा ॥
 सिवकुमरेणं भणिओ दूओ—जइ भूमि-गोयरं हणिडं ।
 फुरइ मई तुह पहुणो सो आगच्छउ तओ तुरियं ॥

जेणेस अप्पणो भूमिगोयरस्स य वियाणइ वित्सेसं ।
 तह सेस-खेयरेहिं खरंदिओ निग्गओ दूओ ॥
 गंतूण सूरतेयस्स तं कहइ सोवि कोव-दुप्पेच्छो ।
 बहु-खयर-सुहद- सहिओ कणयपुरं झत्ति संपत्तो ॥
 तस्सागमणं मुण्डिं कुमरो पवणंजयं भणइ एवं ।
 इमिणा सह जुज्झंतं मं पिच्छ तुमं सपरिवारो ॥
 तो पवणंजय-सहिओ सिवकुमरो निग्गओ रहारूढो ।
 वज्जरह सूरतेयं पट्टविडं खेयरं दूयं ॥
 तुह मम य विग्गहो एस सेस-लोयस्स किं विणासेण ।
 एकंगा जुज्झामो दुद्धि वि पेच्छड जणो सेसो ॥
 दप्पेण सूरतेओ तं पडिवज्जइ तओ इमे दोवि ।
 रहमारूढा समरं कुणं ति मिळ्ळंति सर-नियरं ॥
 तो सूरतेय-वाणा तरुणि-कडक्ख व्व वीयरायम्मि ।
 सव्वेवि निप्फलत्तं पडिवत्ता सिवकुमारम्मि ॥
 सिवकुमर-सर-समूहो अद्ध-पहे सूरतेय-सर-पंति ।
 निप्पुन्न-जण-मणोरह-मालं छिंदेह देव्वो व्व ॥
 तो निट्ठिय-सर-निचओ चावं चइऊण गहिय-करवालो ।
 दुक्केइ सूरतेओ कुमरो वि हु गिणहए खग्गं ॥
 निय-खग्गेणं खग्गं पोरिस-दप्पं च खंडए तस्स ।
 वेत्तूण सूरतेओ छुरियं पहरेइ सिवकुमरं ॥
 लग्गइ न सो पहारो देहे थेवं पि सिवकुमारस्स ।
 चित्तम्मि सज्जणस्स व दुज्जण-दुव्वयण-संघाओ ॥
 कुमरेण वज्ज-कडिणेण मुट्ठिणा पहणिऊण तस्स भूर्यं ।
 छुरिया निवाडिया करयलाड सो पाडिडं बद्धो ॥
 गयणाड कुसुम बुट्ठी मुक्का कुमरस्स उवरि अमरेहिं ।
 सव्वो वि विम्हिओ विक्कमेण कुमरस्स खयर-गणो ॥
 कुमरेण सूरतेओ मुक्को काऊण गरुय-सकारं ।
 रयणावलि त्ति भइणी तेणवि परिणाविओ कुमरो ॥
 इय अत्तेहिं वि विज्जाहरेहिं दिन्नाड तस्स क्खओ ।
 तह तेण साहियाओ पन्नत्ति-प्पमुह-विज्जाओ ॥

भज्जाहिं ताहिं सहिओ खयर-समेओ विमाणमारूढो ।
 सो पत्तो निय-नयरं तुद्धा जणयाइणो सव्वे ॥
 सो कणयसुंदरी-पमुह-खेयरी-चक्कवाल-परियरिओ ।
 संपन्न-वंछियत्थो तियसो व्व सियो गमइ कालं ॥
 अत्थि य सिवस्स धावीइ नंदणो सो कुख्व-सेहरओ ।
 वहिरो वाया-रहिओ जम्मंधो रोग-सय-गहिओ ॥
 चंकमिडं पि अखमो विसिट्ठतर-चेयणाए परिचत्तो ।
 तिव्व-दुहकंतो नारओ व्व निचं गमइ कालं ॥
 दहुं तहाविहं तं करुणा-परवस-मणो सिवकुमारो ।
 कुणइ विविहे उवाए तदुक्ख-निवारण-निमित्तं ॥
 किं तु कया उवयार व्व दुब्बणे तम्मि हुंति ते विहला ।
 चितइ सियो पुराकय-पाव-फलं भुंजइ वराओ ॥
 अन्न-दिणे चउनाणी समागओ तत्थ नाणभाणु-गुरु ।
 तं नमणत्थं राया गओ समं सिवकुमारेण ॥
 भू-भिलिय-निडाल-यला दोवि गुरुं वंदिऊण उवविट्ठा ।
 भव-निव्वेय-पहाणा पारद्धा देसणा गुरुणा ॥
 समयम्मि पुच्छइ सियो—भयवं ! मह धावि-सूणुणा इमिणा ।
 किं पुव्व-भवे विहियं जं एसो दुक्खिओ एवं ॥
 किं वा उवयारिच्छा महई एयम्मि वट्टए मज्झ ।
 गुरुणा भणियं—सुण राय-पुत्त ! सव्वं कहेमि इमं ॥
 वडउरगामे दो आसि वंधवा अंव-निव-नामाणो ।
 अन्न-दिणे ते दुब्बि वि सुणीण पासम्मि संपत्ता ॥
 तेहिं अहिंसा-धम्मो कहिओ तेसिं समग्ग-सुह-हेऊ ।
 तं सोडं लहु-कम्मो अंवा संवेयमावचो ॥
 सो थूल-जीव-वह-विरई-ख्व-धम्मस्स कुणइ पडिबत्तिं ।
 निवेण पावमइणा न धम्म-नामं पि सदहियं ॥
 भव-वेरग्ग-परिगओ गहिय-चयं पालिडं निरइयारं ।
 कालेण मओ अंवा सोहम्मे सुरवरो जाओ ॥
 काडं बहु-जीव-वहं निक्करुणो मंस-लालसो निवो ।
 मरिऊण ससुप्पन्नो नेरइओ पढम-पुढवीए ॥

अंबो कुमार ! चविडं सोहम्माओ तुमं समुप्पन्नो ।
 जीव-वह-विरह-वसओ संपत्तो एरिसिं रिडिं ॥
 नरगाओ निक्खंतो निंबो धावी-सुओ इमो जाओ ।
 जीव-वह-विहिय-पावस्स सेसमणुमुंजइ वराओ ॥
 पुब्ब-भववभासेणं उवयारिच्छा इमम्मि तुह पुरइ ।
 किं तु पुराकय-दुक्कय-वसेण थेवोवि नत्थि गुणो ॥
 संजाय-जाइसरणो भयवं ! सच्चं इमं ति भणइ सिवो ।
 संविग्ग-भणा दुन्निवि नमिऊण शुं गया गेहं ॥
 भणिओ सिवेण राया वय-गहणत्थं ममं विसज्जेसु ।
 रत्ता वुत्तं किच्चं जमस्स तं वच्छ । कुणसि तुमं ॥
 पियरो दुप्पडियार त्ति पुत्त ! जइ सुणसि वुद्ध-वयणमिणं ।
 ता धेत्तुं रज्जमिमं धम्म-सहाओ ह्वसु मज्झ ॥
 कुमरो जंपइ जं ताय ! आणवसि तत्थ एस सज्जोमिह ।
 तत्तो रज्जम्मि सिवं ठविडं गिण्हइ निवो दिक्खं ॥
 पडिवन्न-गिहत्थ-वओ दया-पहाणो सिवो कुणइ रज्जं ।
 सो पडह-दाण-पुब्बं समत्त-जीवाभयं देइ ॥
 सब्वत्थ गरिम-जिय-मंदराइं जिणमंदिराइं कारवइ ।
 गुण-गाम-गामणीणं मुणीण चरणे नमइ निच्चं ॥
 सब्वे वि निवा सेवं पयावमेत्तेण तस्स पडिवन्ना ।
 तत्तो समर-निमित्तो न तस्स रज्जम्मि जीव-वहो ॥
 चोरस्सवि नत्थि वहो जं कोवि न तत्थ चोरियं कुणइ ।
 इय निरवज्जं रज्जं परिपालइ सिव-महीनाहो ॥
 दव्वभग्ग-लग्ग-जल-धिन्दु-चंचलं जीवियं विद्याणंतो ।
 पुत्तं रज्जे ठविडं कयावि दिक्खं पवन्नो सो ॥
 रक्खिय-असेस-जीवो समत्त-सुत्तत्थ-पारगो जाओ ।
 कय-तिव्व-तवो मरिडं पत्तो तिदिवं सिवं च सिवो ॥
 इति स्थूलप्राणातिपातविरतौ सिवकुमारकथा ॥

जं गो-भू-कक्षा-कूडसक्खि-नासापहार-अलियस्स ।
 दुविह-तिविहेण-वज्जणमणुव्वयं बिंति तं वीयं ॥
 भुयगो व्व अलियवाहं होइ अवीसास-भायणं भुवणे ।
 पावइ अकित्ति-पसरं जणयाण वि जणइ संतावं ॥
 सव्वेण फुरइ किन्ती सव्वेण जणम्मि होइ वीसासो ।
 सग्गापवग्ग-सुह-संपयाउ जायंति सव्वेण ॥
 कुस्से यो मृषावादविरतिं सत्यवाग्गतः ।
 मकरध्वजवद्भद्रमुभयत्रापि सोऽश्रुते ॥

तद्यथा—

द्वीपस्य जम्बूपपदस्य भारते समस्ति काञ्ची नगरी गरीयसी ।
 लङ्केव कल्याणकलापकल्पिता परिस्फुरत्पुण्यजनालकेव या ॥

धनैरनन्वोऽत्र जनो न भोजनं

सरः सद्भो न तपोधनव्रजः ।

सतामनागश्चरितं न भूपति-

र्वपुस्तरीणामनयो न चापरः ॥

तत्राभून्नृपतिर्वीरदमनो नामविश्रुतः ।

यः सौन्दर्याच्च शौर्याच्च नारीणामभवत् प्रियः ॥

प्राज्यास्तस्याभवन् पुत्रास्तन्मध्ये यः पुनर्लघुः ।

रूपवानिति पित्रोक्तः स नाम्ना मकरध्वजः ॥

अन्यत्तद्द्रव्यमन्यः स वेधा येनैष निर्मितः ।

अन्यथा कथमस्याङ्गमुत्कृष्टं जगतोऽप्यभूत् ॥

क्रमाद् वृद्धिङ्गतोऽधीती सकलासु कलासु यः ।

तीक्ष्णबुद्धिबलाद्वाहं नदीष्णः शकुनेऽभवत् ॥

ततस्तद्भूतभाव्यर्थं परमार्थं विदन्नपि ।

ज्ञापयामास नात्मानमसौ कार्यं विना महत् ॥

अथ मलयसमीरोद्दीपितानङ्गवह्निः

प्रतिविपिनविसर्प्यत्कोकिलारावरम्यः ।

विविधकुसुमगन्धान्तभृङ्गाभिरामः

समुदलसङ्कतूनां चक्रवर्ती वसन्तः ॥

उद्यानपालकस्तत्र नत्वा भूपं व्यजिज्ञपत् ।
 गत्वोद्यानं वसन्तर्तुं देव ! पश्य प्रसीद नः ॥
 इति श्रुत्वा जराक्रान्तं निर्जं देहं पुनः पुनः ।
 पश्यन्निःश्वस्य भूपालस्तं प्रति प्रत्यपीपदत् ॥
 वसन्तसमयः सोऽयं सर्वोत्सवशिरोमणिः ।
 उद्यानं कुसुमाकीर्णं द्रुमसन्दोहसुन्दरम् ॥
 सन्ति सन्तोषकारिणः क्रीडोपकरणं स्त्रियः ।
 किन्तु कामविकाराणां कारणं नास्ति यौवनम् ॥
 तद्विना न वनक्रीडां कर्तुमिच्छति मे मनः ।
 शोभते क्रियमाणा हि क्रियाऽवस्थोचिता वृणाम् ॥
 ततः क्रीडार्थमुद्यानमागमिष्यन्ति मे स्मृताः ।
 तेषां तारुण्यरम्याणामिदं हि समयोचितम् ॥
 इत्युक्त्वा व्यसृजद्राजा दत्त्वार्थं वनपालकम् ।
 कुमारंश्चादिशद्वत्सा ! गच्छत क्रीडितुं वनम् ।
 पित्रादेशं गृहीत्वा ते स्नातालङ्कृतमूर्त्तयः ।
 आरूढ्य करिणस्तुङ्गान् क्रीडां कर्तुं प्रतस्थिरे ॥
 युष्माभिस्तत्र तद्देयं कुमारा दापयन्ति यत् ।
 इत्यादिक्षत्सुताध्यक्षं कोशाध्यक्षान् पतिः क्षितेः ॥
 कुमारा जग्मुख्यानं चिक्रीडुर्द्रुमराजिषु ।
 ममञ्जुः केलिवापीषु विचिक्युः कुसुमानि च ॥
 सर्वेऽपि कारयामासुर्वहस्पर्द्धाः परस्परम् ।
 सङ्गीतान्यमरस्त्रैणसगोत्रैः प्रमदाकुलैः ॥
 तत्रार्थिभ्यो ददुर्लक्षमेके स्वर्णस्य केप्युभे ।
 अन्ये तिस्रश्चतस्रश्च परे तुष्टा वृपात्मजाः ॥
 अदात्कोटीं सुवर्णस्य कुमारो मकरध्वजः ।
 ततः सर्वे समाजग्मुख्यानात् स्वं स्वमाश्रयम् ॥
 कोशाध्यक्षाः क्षितीशस्य सविषादं व्यजिज्ञपत् ।
 हेमनः कोटीं ददावेकामुद्याने मकरध्वजः ॥
 कोट्यर्थं त्वपरे सर्वेऽप्यर्थिभ्यो व्यतरन् प्रभो ! ।
 इत्याकर्ण्य क्रुधं चक्रे क्षमापतिर्मकरध्वजे ॥

नमस्कर्तुं निशि प्राप्तं तं बभाषे महीपतिः ।
 वत्स ! त्यागो गुणः पुंसां यद्यपि प्रतिपादितः ॥
 तथापि क्रियमाणोऽसावाहार इव मात्रया ।
 पुरुषस्य गुणाय स्यादन्यथाऽनर्थकारणम् ॥
 ततोऽर्थिभ्यस्त्वयोद्याने स्वर्णकोटिर्यथा ददे ।
 तथान्यदा न दातव्या क्वाप्याधिक्यं न शोभनम् ॥
 आयस्थानेषु सर्वेषु यस्माद्देशे ममाखिले ।
 त्रिशदेव सुवर्णस्य जायन्ते किल कोटयः ॥
 तत्र भक्तेषु पत्नीनां यान्ति षोडश कोटयः ।
 गृहव्यये तु गच्छन्ति चतस्रः कोटयः सदा ॥
 हस्तिनामेकया कोट्या भोगो भवति सर्वथा ।
 गवाश्वकरभादीनां वृत्तिः कोटिद्वयव्ययात् ॥
 चतस्रः कोटयस्त्यागे व्रजन्ति सकलार्थिनाम् ।
 निधाने कोटयस्तिस्त्रः स्थाप्यन्ते प्रतिवत्सरम् ॥
 तुष्टस्तुष्टस्ततस्त्वं चेत् कोटिं स्वर्णस्य दास्यसि ।
 तदा स्तोकेन कालेन कोशो रिक्तीभविष्यति ॥
 दुर्भिक्षे पतिते दैवान्मयि मृत्युमुखं गते ।
 मत्सुतोऽपि ततो राज्यं कथं कर्तेति चिन्थताम् ॥
 पुत्रः प्रोचे भवद्दराज्ये यो भावी चेत्स पुण्यवान् ।
 तदा वर्द्धिष्यते कोशो दुर्भिक्षं भविता न च ॥
 अथ निष्पुण्यकः स स्यात् तदा तस्य नृदिष्यति ।
 सञ्चितोऽपि चिरं कोशस्तत्कार्पण्येन तात ! किम् ॥
 नृपेणोक्तं धनं पित्रोपार्जितं पुण्यवानपि ।
 लब्ध्वा तेन पुमानन्यदर्जयन्नवलोक्यते ॥
 विद्यमानं यथा बीजमुप्त्वा दक्षोऽपि कर्षकः ।
 धान्यमाप्नोति पित्रर्थात्तथा पुत्रोऽर्थमश्नुते ॥
 पुत्रः प्रोचे यदादाय पुण्यं पूर्वभवार्जितम् ।
 जन्तुर्जातस्तदेवास्य बीजं सर्वार्थसिद्धये ॥
 क्रुद्धो राजाऽन्नबीद्बीजं पुण्यमेव यदि श्रियः ।

आनय स्वर्णकोटिं तच्छिरश्छित्त्वाऽन्यथाप्यय ॥
 इत्याकर्ण्य पितुर्वाक्यं सामर्षो मकरध्वजः ।
 निष्क्रान्तः सदसो धीरः केसरीवाद्रिकन्दरात् ॥
 पुरीपरिसरं यावज्जगाम मकरध्वजः ।
 तावदक्षिणदिग्वर्ती रासभो रसितं व्यधात् ॥
 ततोऽपशङ्कुनाशङ्की भुक्त्वा पूर्वामसौ दिशम् ।
 चलितः पश्चिमां यावच्चक्राम कियतीं भुवम् ॥
 तावदक्षिणदिग्भागे सोऽश्रौषीत्कौशिकस्वरम् ।
 तमप्यशङ्कुनं मत्वा प्रतस्थे दक्षिणां दिशम् ॥
 ततो दक्षिणतो जज्ञे तस्य घोरं शिवास्तम् ॥
 तच्छ्रुत्वा दक्षिणां भुक्त्वा प्राचालीदुत्तरां दिशम् ॥
 ततस्तस्याभवद्वामदिग्भागे पिङ्गलारुणम् ।
 अप्रशस्तमिदं ज्ञात्वा राजसूनुरचिन्तयत् ॥
 न्यषेधि गमनारम्भश्चतसृष्वपि दिक्षु मे ।
 सम्प्रत्यशङ्कुनैरेभिस्तत्कुत्रान्यत्र याम्यहं ॥
 कथं च विनिवृत्त्याहमसाधितमनोरथः ।
 उद्भटभ्रुकुटीभीमं पश्यामि पितुराननम् ॥
 साम्प्रतं साम्प्रतं तस्मादवस्थानमिहैव मे ।
 रजनी बह्वपाया यन्निशीथस्तु विशेषतः ॥
 तिष्ठतोऽत्रैव मे किञ्चिद् भद्रं भावीति तर्क्यते ।
 इदं हि श्रूयते दत्ते शङ्कुनो मानितो वरम् ॥
 एवं चिन्तापरो यावत् तत्रास्ति मकरध्वजः ।
 रुदन्ती कथयामास तस्य तावदिदं शिवा ॥
 नद्यास्तीरेऽत्र यद्वंशयष्टिमध्येऽस्ति गोपितम् ।
 तद्गृहाण चतुःकोटिमूल्यं रत्नचतुष्टयम् ॥
 तच्छ्रुत्वा मुदितस्तत्र प्रयातो मकरध्वजः ।
 यष्टिं ददर्श तत्पार्श्वे कञ्चिदप्रेक्ष्य मानुषम् ॥
 भित्त्वा क्षुरिकया यष्टिं रत्नान्यादाय मध्यतः ।
 नगराभिसुखं यावत् प्रस्थितो मकरध्वजः ॥
 दिव्यगीतध्वनिस्तावत्तस्य श्रुतिपथं ययौ ।

यःपीथूषरसस्यन्द इव सम्मदमादधौ ॥
 तस्यानुसारतो गच्छन् व्यन्तरायतनस्थितम् ।
 मुनीन्द्रमेकमद्राक्षीत् सज्ञानमिव मूर्तिमत् ॥
 तस्याग्रे स्त्रीगणे दिव्ये गीतातोद्यकृतोद्यमे ।
 कुमारेण नरो नृत्यन् रम्यमूर्तिर्व्यलोक्यत ॥
 तं पश्यन् कौतुकेनैष यावत् तत्र क्षणं स्थितः ।
 तावत् सर्वं स संहृत्य मुनिं नत्वा गतः क्वचित् ॥
 कुमारो विस्मयस्मेरो नत्वाऽपृच्छत्तपोधनम् ।
 भगवन् ! कस्तवाग्रेऽसौ व्यधावृत्यं क्व वा गतः ॥
 मुनिनोक्तभयं यक्षः काननस्यास्य नायकः ।
 वसत्यायतनेऽमुष्मिन्नाश्रित्य प्रतिमामिमाम् ॥
 अत्रागतस्य मे स्थानादन्यतोऽनेन भक्तितः ।
 निजाङ्गादङ्गनां कृत्वा चक्रे सङ्कीलकं क्षणम् ॥
 संहृत्य सर्वरूपाणि सोऽधुना प्रतिमां श्रितः ।
 कुमारो विस्मितः प्रोचे शक्तिरस्याद्भुता मुने ! ॥
 साधुनोक्तमिदं स्तोत्रं यस्माद्देवा महर्द्धिकाः ।
 अत्युत्कृष्टतपःशक्तियुक्ताश्च मुनिपुङ्गवाः ॥
 कुर्वन्ति वैक्रियै रूपैर्जम्बूद्वीपस्य पूरणम् ।
 इदं त्वल्पर्द्धिकस्यास्य व्यन्तरस्य विजृम्भितम् ॥
 कुमारोऽवोचदेतेन भगवन् ! किं पुरा कृतम् ।
 सज्ञातोऽयं यदल्पर्द्धिस्ततः साधुरचीकथत् ॥
 मृषावादव्रतं पूर्वजन्मन्यादीयतामुना ।
 तच्च भग्नमभाग्येन परन्यासापहारतः ॥
 तेनाल्पर्द्धिरसौ जात इति श्रुत्वा नृपात्मजः ।
 यावज्जीवं मृषावादविरतिं प्रत्यपद्यत ॥
 अथ क्षपाक्षयं प्राप ततो नत्वा तपोधनम् ।
 परितुष्टमना गेहं जगाम मकरध्वजः ॥
 तं दृष्ट्वा भ्रातरः प्रोचुः सोपहासं शुभं व्यधाः ।
 स्वपुण्यमानमालोच्य यद्दद्यावृत्तोऽसि बान्धव ! ॥

निर्गत्य यदसिद्धार्थो निवृत्तोसि न तद्वरम् ।
 प्रारब्धत्यागिनो मर्त्याः कस्य हास्यकृतो न हि ॥
 स्वर्णशून्यः कथं वक्रत्रं स्वं पितुर्दर्शयिष्यसि ।
 स प्रोवाच विचारेण किं वः पश्यत कौतुकम् ॥
 अथ कर्पटिकः कश्चित् करस्थः करपत्रिकः ।
 दधन्नागफणं कक्षापुटं मलिनविग्रहः ॥
 तृणपूलयुतं वंशं विभ्राद्राजकुलाग्रतः ।
 अन्यायो मुपितोऽस्मीति निजगाद गुरुस्वरम् ॥
 तदाकर्ण्य सभासीनो राजा वेत्रिणमादिशत् ।
 अन्यायं पूत्करोत्येष मद्राज्ये केन हेतुना ॥
 प्रतीहारस्तमानीय पप्रच्छ नृपतेः पुरः ।
 पूत्करोषि किमन्यायं मुपितः केन वा भवान् ॥
 सोऽवोचत्सेवितोऽम्भोधिर्मया द्वादशवत्सरीम् ।
 सोऽदान्मह्यं चतुःकोटीमूल्यं रत्नचतुष्टयम् ॥
 निक्षिप्य यष्टिमध्ये तदत्रायातो नदीतटे ।
 सुप्तो रात्रावहं यष्टिं भित्त्वा तत्कश्चिदग्रहीत् ॥
 इति श्रुत्वा नृपोऽवोचत् सचिवं तनयोऽपि मे ।
 यदि जग्राह रत्नानि कृत्वा तस्यापि निग्रहम् ॥
 समर्प्यास्य रत्नानि ततः कर्पटिकोऽवदत् ।
 स एव निग्रहार्हो यस्तद्ग्रहं मन्यते स्वयम् ॥
 यः पुनस्तानि रत्नानि गृहीत्वाऽपि न मन्यते ।
 न तस्य निग्रहः कार्य इत्यर्थं शपथोऽस्तु वः ॥
 ततोऽमात्येन सर्वत्र पुरेऽकार्यत घोषणा ।
 यो रत्नान्यग्रहीत् कोऽपि स तान्यर्पयतु द्रुतम् ॥
 तच्छ्रुत्वाऽचकथद्रत्नवृत्तान्तं मकरध्वजः ।
 एतान्यस्यार्पयेत्युक्त्वा मन्त्री राज्ञे व्यजिज्ञपत् ॥
 क्रुद्धो राजा कुमारस्य वधायामात्यमादिशत् ।
 डेष्यः पर इव स्वोऽपि न्यायिनां हि नयोऽद्भितः ॥
 अथ द्योतितदिक्चक्रो भूत्वा कर्पटिकः सुरः ।
 जगाद जगतौ ज्येष्ठं राजन् ! जयति ते कुलम् ॥

यत्रोत्पेदे पदं वाचां सत्यानां मकरध्वजः ।
 कोऽयं वृत्तांत इत्युचे तं विस्मितमुखो नृपः ॥
 तेनोक्तं तत्पुरोधानाध्यक्षो यक्षोऽस्मि षण्मुखः ।
 रजन्यां तु निजैः पुण्यैर्लब्ध्वा रत्नचतुष्टयम् ॥
 कुमारो मदगृहं प्राप स श्रुत्वा मुनिदेशनाम् ।
 सत्यवाग्व्रतमादाय प्रातः स्वगृहमागमत् ॥
 अथादित्योदये गच्छन्नप्रच्छि स मुनिर्मया ।
 सत्यवाग्व्रतमेतत् किं कुमारः पालयिष्यति ॥
 किं वाहमिव लोभेन बाधितः खण्डयिष्यति ।
 साधुरूपे व्रतं नैष प्राणत्यागेऽपि लोप्स्यति ॥
 ततोऽमुष्य परीक्षार्थमहं कर्पटिकोऽभवम् ।
 रत्नेष्वपि निरीहोऽसौ न सत्यव्रतमत्यजत् ॥
 अस्यास्ति सदृशः कश्चिन्नान्यः सत्वनिधिः पुमान् ।
 इत्युक्त्वान्यदपि द्रव्यं दत्त्वाऽस्मै व्यन्तरो ययौ ॥
 कुमारस्य वचः सत्यं रत्नलाभं च तादृशम् ।
 दृष्ट्वा हृष्टो नृपः प्रोचे सचिवान्निखिलानिदम् ॥
 अयमेव महासत्त्वः सत्यवाक् सुकृतास्पदम् ।
 लघुरप्येष निःशेषकुमाराणां गुणैर्भहान् ॥
 अस्याद्भुतेन सत्येन पुण्येन च कदाचन ।
 न देशे भविता दौस्थ्यं दुर्मिक्षडमरादिकम् ॥
 ततो राज्यभरं वोढुमयं धत्ते धुरीणताम् ।
 इत्युक्त्वा तं नृपो राज्ये निवेश्य जगृहे व्रतम् ॥
 राज्यं सत्यप्रधानोऽयं व्यधत्त मकरध्वजः ।
 लीलयैवाखिलास्तस्य भूपालाः प्रणतिं ययुः ॥
 कुर्वाणेन जिनेन्द्रार्ची तेन साधून्नमस्यता ।
 पात्रेभ्यो ददता वित्तं जगृहे जन्मनः फलम् ॥
 पालयित्वा चिरं राज्यं स्मरन् पञ्चनमस्क्रियाम् ।
 मृत्योत्पन्नः सहस्रारे त्रिदशो मकरध्वजः ॥
 इति कृतमृषावादत्यागव्रतो मकरध्वजो
 व्यलभत भवेऽप्यस्मिन् कीर्तिं श्रियं च दुरासदाम् ।

सुरनरसुखं भुक्त्वा भूयः परत्र विकल्मषः
शिवपदपुरीसाम्राज्यं स क्रमेण करिष्यति ॥

इति सृषावादविरतौ मकरध्वजकथा ।

जं चोरं कारकरस्स खत्त-खणणाइणा पर-घणस्स ।
दुबिह-तिविहेण-वज्जणमणुब्बयं विति तं तइयं ॥
जो न हरइ पर-दब्बं इहावि सो लहइ न वह-बंधाईं ।
पर-लोए पुण पावइ सुर-नर-रिद्धीओ विडलाओ ॥
एकस्स चैव दुक्खं मारिज्जंतस्स होइ खणमेकं ।
जावज्जीवं सकुब्बं वयस्स पुरिसस्स घण-हरणे ॥
दब्बं परस्स वज्जं जीयं जो हरइ तेण सो हणिओ ।
दब्ब-विगमे जओ जीयमंतरंगं पि जाइ खयं ॥
जं खत्त-खणण-बंध-ग्गहाइ-विहिणा परस्स घण-हरणं ।
पच्चक्ख-दिट्ठ-दोसं तं चिट्ठउ दूरओ ताव ॥
पर-बंधणेण वेत्तुं दितस्स वि पर-घणं पर-भवस्मि ।
पर-गेहे विय वच्चइ दत्तस्स व वणिय-पुत्तस्स ॥

तं जहा—

अत्थि सुर-भवण-सिहरग्ग-लग-दिणयर-रह-तुरय-मग्गं ।
पुरमित्थ पइट्ठाणं लोउत्तर-संपया-ट्ठाणं ॥
तत्थ पयावसीहो निवो पयावानलो नवो जस्स ।
रिउ-रमणि-नयण-नीर-प्पवाह-सेत्तो वि पज्जलइ ॥
चिट्ठंति तत्थ विच्छिन्न-रित्थ-कुल-संभवा वणिय-पुत्ता ।
अन्नोन्न-नेह-सुत्ता दत्तो संखायणो य दुवे ॥
देसंतराईं गंतुं घणज्जणं जुब्बणे न जो कुणइ ।
किं कूव-ददुरस्स व तस्स पसंसिज्जए जीयं ॥
इय मंतिऊण दुब्बिवि परोप्परं निग्गया निय-पुराओ ।
महिमंडले भमंता क्रमेण पत्ता रयणदिवं ॥
रयणाईं तत्थ संखायणेण पत्ताईं न डण दत्तेण ।
पुरिसस्स हि पुब्ब-कयं सुकयं विय फलइ सब्बत्थ ॥

संस्वायणो पयद्वो अन्न-दिणे नियय-देसमागतुं ।
 दत्तो उण अकयत्थो त्ति ठाउमहिलसइ तत्थेव ॥
 साहारणाइँ दुणहवि इमाइँ रयणाइँ अम्ह इय भणिउं ।
 संस्वायणेण दत्तो वि अप्पणा सह समाणीओ ॥
 सत्थेण सहागच्छंति दोवि ते रयण-संवलत्थइयं ।
 मग्गे वहंति कमसो जा पत्ता निय-पुरासन्नं ॥
 ता तत्थ भिल्ल-धाडी पडिया दत्तेण निय-करत्थाइँ ।
 खित्ताइँ अणुवलक्खं रयणाइँ रुक्ख-गाहणम्मि ॥
 अह ताडिऊण दत्तं तस्स सयासाउ संवलत्थइया ।
 भिल्लेहिं जम-भडेहिं व गहिया संस्वायण-समक्खं ॥
 नीया पल्लि भिल्लेहिं कइवि दियहाइँ तत्थ धरिऊण ।
 मुक्का अनन्न-दिसाहि दोवि पत्ता पइट्ठाणं ॥
 जइ कइवि रयण-लाभो न होइ ता होहमलियवाइ त्ति ।
 संस्वायणास्स कइओ दत्तेण न रयण-वुत्तंतो ॥
 अन्न-दिणे तत्थ गओ दत्तो पत्ताइँ तेण रयणाइँ ।
 न समप्पियाइँ संस्वायणास्स एसो परोक्खो त्ति ॥
 अह कित्तियम्मि काले गयम्मि पियरो इमाण काल-गया ।
 जाया पमाण-भूया एए चिय दोवि सव्वत्थ ॥
 संस्वायणो धणद्धो देव्व-वसेणं न तारिसो दत्तो ।
 सो चिंतइ रयण-कए खिल्लइ संस्वायणो न इमो ॥
 कुणइ परलोग-किरियाओ एस तत्तो अहं पि एयाओ ।
 एयं चिय उइसिउं करेमि एएहिं रयणेहिं ॥
 एवं कए न होही मित्त-दोहो वि तो कुणइ दत्तो ।
 परलोग-किच्चमत्थि य सेनेहो घम्म-बुद्धी य ॥
 एवं नियाउयं पालिऊण आउ-क्खये मया दोवि ।
 जत्थुप्पन्ना तं वागरेमि नर-नाह ! निसुणेसु ॥
 चिइंति दुन्नि नयरीओ उत्तरा दाहिणा य महुराओ ।
 महुराउ सुयण-वाणीउ जत्थ दक्ख व्व विलसंति ॥
 पत्त-घण-च्छायाओ भमरहियाओ लसंत-सुमणाओ ।
 जत्थ वणेसु लयाओ भवणेसु वसंति विलयाओ ॥

तत्थोत्तर-महुराए समिद्धदत्तो त्ति वाणिओ अत्थि ।
 सो विहव-विहवणत्थं दक्खिण-महुरं कयाइ गओ ॥
 तस्स तर्हि विविह-कयाणगाण कय-विक्कए कुणंतस्स ।
 जाओ असोगदत्तेण वाणिएणं सह सिणेहो ॥
 तस्स थिरीकरणत्थं दोर्हि पि कओ इमेर्हि संकेओ ।
 एक्कस्स सुओ धूयं परेण परिणावियच्चो त्ति ॥
 कइवय-दिणाइं ठाअं समिद्धदत्तो गओ नियय-नयरिं ।
 संखायणस्स जीवो कमेण जाओ सुओ तस्स ॥
 दत्तस्स पुणो जीवो असोगदत्तस्स नंदणो जाओ ।
 भवियच्चयाइं तेसिं विहियाइं पुच्च-नामाइं ॥
 कय-उच्चिय-कला-गहणा कमेण ते दोवि जुच्चणं पत्ता ।
 संखायणस्स भगिणी जाया दत्तस्स सा दिन्ना ॥
 इय कित्तिए वि काले गयम्मि अकयम्मि चव वीवाहे ।
 ताण पियरो विवन्ना ते चिय घर-साग्गिणो जाया ॥
 तत्थत्थि कुबेरस्स व गरुओ दत्तस्स रिद्धि-वित्थारो ।
 सो तं सयमुवभुंजइ जहोचियं देइ अन्नेसिं ॥
 अन्न-दिणम्मि निविट्ठो ण्हाणत्थं मणिमयम्मि सो पीढे ।
 चत्तारि उवट्ठविया कलसा कंचणमया तस्स ॥
 तह चउरो रूपमया तंबमया मिम्मया य पत्तेयं ।
 एवं ण्हाणोवगरणमन्नं पि इमस्स साइसयं ॥
 तं ण्हविउण विमुक्को तत्थेक्को उट्ठिओ कणय-कलसो ।
 एवं चउरो वि गया एवं चिय रूपियाई वि ॥
 ण्हाणोवगरणमन्नं पि जं महत्थं तमुट्ठियं एवं ।
 अह दत्तो भुत्तुमणो भोयण-सालाइ संपत्तो ॥
 तस्स पुरो ठवियाइं कंचण-कच्चोल-रूप-थालाइं ।
 दिन्ना सुवन्न-थाली दब्बी पमुहेर्हि आहारो ॥
 सुत्तस्स तस्स सब्बं पि थाल-कच्चोल-पमुहमुट्ठीणं ।
 थालस्स कन्न-वट्ठी घरिया कुट्ठेण दत्तेण ॥
 तित्थियमेत्तं खंडं दत्तस्स करे ठियं तओ एसो ।
 अहह अब्बं विहि-विलसियं ति चिंताउरो जाओ ॥

अहं तस्स विणट्ठाहं जलहि-निहित्ताहं जाणवत्ताहं ।
 थल-पह-पट्टवियं तक्कोहिं हरियं सयल-भंडं ॥
 नट्ठाहं निहाणाहं गयाहं विहलत्तणं करिसणाहं ।
 कण-कप्पड-प्पमुहाहं दड्ढाहं अग्गिणा मेहे ॥
 कय-विक्खएसु छेओ होइ न लब्भइ कलंतर-निवत्तं ।
 न कुणंति य सम्माणं परियण-बंधुयण-नायरया ॥

जओ—

रिद्धि विह्वणह माणुसह न कुणइ कुवि सम्माणु ।
 सउणिहि मुच्चइ फलरहिउ तरुवरु इत्थु पमाणु ॥
 लच्छीइ विलसियं तं ददुं सुविणिंदियाल-सारिच्छं ।
 विम्हय-विसाय-विवसो आढत्तो च्चित्तुं दत्तो ॥
 खणमेत्त-दिट्ठ-नट्ठा हा ! लच्छी जेण तेण तक्केमि ।
 तडिलय-तरंग-सुरघणु-दव्वेण कया इमा विहिणा ॥
 जइवि हु सूरु सुखु विअक्खणु
 तहवि न सेवइ लच्छि पहक्खणु ।

पुरिस-गुणागुण-मुणण-परम्मसुह

महिलह बुद्धि पर्यपहिं जं बुह ॥

संतिं पि सिरिं मोचूण उत्तमा संजमं पवज्जंति ।
 अहमा दूर-गयं पि हु तं पत्थंता किलिस्संति ॥
 तो मज्झ इमीए अलं ति च्चित्तुं निग्गओ निय-गिहाओ ।
 दत्तो परिवभमंतो भरुअच्छं पट्टणं पत्तो ॥
 निव्वाण-मग्ग-साहण-कयायरो पाव-कायरो दिट्ठो ।
 गुण-रयण-सायरो तेण तत्थ धम्मायरो सूरी ॥
 तं ददूण मुणिंदं चंदं जलहि व्व सो समुल्लसिओ ।
 नमिज्जण रिद्धि-भेए पुच्छइ, अहं कहइ आयरिओ ॥
 धम्मिड्डी भोगिड्डी पाविड्डी इह तिहा भवे रिद्धी ।
 सा भच्चइ धम्मिड्डी जा दिज्जइ धम्म-कज्जेसु ॥
 सा भोगिड्डी गिज्जइ सरीर-भोगम्मि जीए उवओगो ।
 जा दाण-भोग-रहिया सा पाविड्डी अणत्थ-फला ॥

पाविङ्गी पाविङ्गइ फलेण पावस्स पुब्ब-विहियस्स ।
 पावेण भाविणा वा इत्थत्थे सुणसु दिट्ठंतं ॥
 इह आसि वसंतपुरे परोप्परं नेह-निम्भरा मित्ता ।
 खत्तिय-माहण-वाणिय-सुवण्णयार त्ति चत्तारि ॥
 ते अत्थ विट्ठवणत्थं चलिया देसंतरं निय-पुराओ ।
 पत्ता परिन्भमंता झूमिपहट्ठम्मि नयरम्मि ॥
 रयणीइ तस्स बाहिं उज्जाणे तरुत्तलम्मि पासुत्ता ।
 पहम-पहरम्मि चिट्ठइ जग्गतो खत्तिओ तत्थ ॥
 पेच्छइ तरु-साहाए पलंबमाणं सुवण्ण-पुरिसं सो ।
 विम्हिय-भणेण भणियं अणेण सो एस अत्थो त्ति ॥
 कणय-पुरिसेण संलत्तमत्थि अत्थो परं अणत्थ-जुओ ।
 तो खत्तिएण वुत्तं जइ एवं ता अलं अम्ह ॥
 बीए जामे जग्गेइ माहणो सोवि पिच्छइ तद्देव ।
 तइयम्मि वाणिओ तं दट्ठूण न लुब्भए तम्मि ॥
 जग्गइ चउत्थ-जामे सुवण्णयारो सुवण्ण-पुरिसं तं ।
 दट्ठूण विम्हिय-भणो भणइ इमं एस अत्थो त्ति ॥
 पुरिसेण जंपियं एस अत्थि अत्थो परं अणत्थ-जुओ ।
 जंपइ सुवण्णयारो न होइ अत्थो अणत्थ-जुओ ॥
 पुरिसो जंपइ तो किं पडामि ?, पडसु त्ति जंपइ कलाओ ।
 पडिओ सुवण्ण-पुरिसो छिदइ सो अंगुलिं तस्स ॥
 खड्दाए पक्खित्तो सुवण्ण-पुरिसो सुवण्णयारेण ।
 गोसम्मि पत्थिया ते सुवण्णयारेण तो भणिया ॥
 किं देसंतर-भमणेण अत्थि एत्थवि इमी कणय-पुरिसो ।
 खड्दाइ मए खित्तो तं गिण्हइ विभज्जिडं सव्वे ॥
 तो सव्वेवि नियत्ता अंगुलि-कणणेण भत्तमाणेडं ।
 वणिओ सुवण्णयारो थ दोवि पत्ता नयर-मज्जे ॥
 चितियमिमेहिं इणिमो खत्तिय-माहण-सुए उवाएण ।
 अम्हं चिय दोण्हं जेण होइ एसो कणय-पुरिसो ॥
 सुत्तूण सयं मज्जे समागया गहिय-कुसुम-तंबोला ।
 खत्तिय-माहण-जुग्गं विस-मिस्सं भोयणं वेत्तुं ॥

बाहिं ठिएहिं तं चैव चित्तियं किं चिरं ठिया मज्झे ।
 तुम्भे त्ति भणंतेहिं दुन्नियि खग्गेण निग्गहिया ॥
 विस-मिस्सं भत्तं भुंजिऊण दिय-खत्तियावि वावन्ना ।
 हअ एसा पाविद्धी पाविज्जइ पाव-पसरेणं ॥
 सव्वा असासय चिय रिद्धी परमत्थओ भव-निमित्तं ।
 भोक्खो अकिंचणाणं जीवाण जिणेहिं जं भणिओ ॥
 इय धम्म-देसणाए पडिबुद्धो एस गंठि-भेएण ।
 चारित्त-मोहणिज्जं इमस्स पत्तं खओवसमं ॥
 पव्वहओ पर-पडिबोहणत्थमविमुक्क-थालखंडो सो ।
 अहिगय-समत्त-सुत्तो करेइ तिब्बं तवचरणं ॥
 अन्न-समयम्मि एसो उत्तरमद्धुरं गओ विहरमाणो ।
 भिक्खा-कए भमंतो पत्तो संस्वायणस्स गिहं ॥
 निय-रिद्धि-वित्थरं तं दट्ठण इमस्स मज्जमाणस्स ।
 पुण्णो किमूणगो व त्ति कोउगेण द्विओ तत्थ ॥
 दिन्ना इमस्स भिक्खा तहवि न निहरइ एस तो भोत्तुं ।
 संस्वायणो पवत्तो वहिणीए वीयण-कराए ॥
 भणिओ अणेण साहू—किं जासि तुमं न लद्ध-भिक्खो वि ।
 किं वालियं पलोयसि ?, मुणिणा संस्वायणो भणिओ ॥
 विसए विसं व विसमे वियाणिडं जे पवन्न-पव्वज्जा ।
 ते जिय-मयणा मुणिणो तणं व तरुणीओ मन्नंति ॥
 किंतु ठिओ रिद्धि-क्कुञ्जहलेण अहमेत्थ इत्तियं कालं ।
 संस्वायणेण भणियं रिद्धिं गिण्हाहि देमि अहं ॥
 जंपइ मुणी न कज्जं धयवड-चवलाइ मज्झ रिद्धीए ।
 संस्वायणेण भणियं जइ एवं ता कहं कुइं ॥
 मुणिणा भणियं तुह आगयस्स वसहीइ तं कहिस्सामि ।
 संस्वायणेण भणियं एवं ति तओ, गओ साहू ॥
 समए वसहिं गंतुं नमिडं संस्वायणो रहसि साहुं ।
 कह कोउगं ति पुच्छइ मुणी भणइ तुह कुओ रिद्धी ॥
 संस्वायणो पर्यंपइ कमागया से इमा, मुणी भणइ ।
 सचं साहसु, संस्वायणेण भणियं असुग-दियहे ॥

क्तो वि अकम्हा आगय त्ति तह अत्थि खंडथालमिह ।
 तं पुण तह चेव ठियं समारिउं तीरइ न जम्हा ॥
 दत्तेण कन्नवट्टिं समप्पिउं जंपिओ इमो भइ ! ।
 एएण समारिज्जसु घडइ त्ति समारियं तेण ॥
 संजाय-कोउगो संभमेण संखायणो भणइ दत्तं ।
 भयवं ! कहसु किमेयं जहट्टियं साहए एसो ॥
 एवमिणंति पवज्जइ एसो जाणइ य सयण-संबंधं ।
 तो भणइ मज्झ भइणि परिणेउं भुंज निय-रिद्धिं ॥
 दत्तो जंपइ भोगा भुयंग-भोग व्व जे मए सुक्का ।
 पत्थेमि पुणावि संपइ अमूढ-सन्नो कहं तेऽहं ॥

तथा—

अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया
 वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत् स्वयममून ।
 व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनसः
 स्वयं त्यक्त्वा ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति ॥
 इय सोऽं पडिबुद्धो दिक्खं संखायणो वि पडिबन्नो ।
 कय-तिव्व-तवा मरिऊण दोवि सगं सिवं च गया ॥
 जं पुव्व-भवे संखायणस्स दत्तेण वित्तमवलवियं ।
 तो दत्त-गिहाओ गयं परत्थ संखायणस्स गिहं ॥
 इति अस्तेयव्रते दत्त-संखायण-कथा ।

जं निय-निय-भंगेहिं दिव्वाणं माणुसाण तिरियाणं ।
 परदारारणं विरमणमणुव्वयं वित्ति तं तुरियं ॥
 चउ-विह-कसाय-मुक्को चउ-गइ-संसार-भमण-निव्विण्णो ।
 जो धरइ चउत्थ-वयं सो लहइ चउत्थ-पुरिसत्थं ॥
 निव्वडिय सुहइ-भावाण ताण को वहइ एत्थ समसीहिं ।
 परि-रमणि-संकेहे निवडिया वि न भुयंति जे मेरं ॥
 इणमेव धम्म-वीर्यं इणमेव विवेय-करणय-कसवट्टो ।
 इणमेव दुक्करं जं कीरइ परदार-विरइ-वयं ॥
 यः पालयति निर्व्याजं परस्त्रीविरतिव्रतम् ।
 परत्रेह च स श्रेयः पुरंदर इवाश्नुते ॥

तद्व्यथाऽस्त्यत्र विस्तीर्णे जम्बूद्वीपस्य भारते ।
 महाधनजनाकीर्णे विलासपुरपत्तनम् ॥
 शुभा रम्भाकीर्णाः प्रचलदलकान्ताः सतिलकाः
 प्रपन्नाः पुद्गागैरसमलवलिब्यक्तरुचयः ।
 बहिर्यत्रान्ताश्च प्रकटितमहामानवकुलाः
 सदारामाः पुंसां पृथुलकुचरम्या मुदमदुः ॥
 तत्र सिंहरथो राजा शूरः सिंह इवाभवत् ।
 चित्रं क्रमागतं मार्गं यो विभेद न जातुचित् ॥
 यत्कृपाणलतालग्रद्विषल्लोहितपल्लवाः ।
 सुषुवे दिग्बधूत्तंसं यशः कुसुममाहवे ॥
 तस्य सुन्दरदेहस्य देवी कनकवत्यभूत् ।
 अनङ्ग इति कन्दर्पं त्यक्त्वा रतिरिवागता ॥
 तयोर्भुञ्जानयोर्भोगान् पूर्वपुण्यसमुद्भवान् ।
 सौन्दर्यनिर्जितामर्त्यकुमारस्तनयोऽभवत् ॥
 पुरन्दर इति ख्यातः सोऽधीत्य सकलाः कलाः ।
 कामिनीमानसोन्मादजननं यौवनं ययौ ॥
 सोऽगादन्येद्युरुद्यानं द्रुमराजिविराजितम् ।
 तत्र नानाविधाः क्रीडाः कुर्वन् बभ्राम सर्वतः ॥
 सोऽपश्यत्खेचरं कश्चिद्वेदनानष्टचेतनम् ।
 कीलितं तरुणा सार्द्धं हस्तयोः पादयोस्तथा ॥
 कुमारः करुणाक्रान्तस्तस्य निष्कास्य कीलकान् ।
 संरोहण्योषधीयोगाद्गणसंरोहणं व्यधात् ॥
 स्वस्थीभूतं तमप्राक्षीत् कुमारः किं तवेदृशी ।
 दर्शनीयाकृतिव्यक्तगुणस्याप्यभवद्दृशा ॥
 अवोचत् खेचरो यद्यप्यवचं चरितं मम ।
 तथापि कथयाम्येष तव जीवितदायिनः ॥
 अस्ति प्रशस्तमुत्तुङ्गमणिमन्दिरसुन्दरम् ।
 वैताल्यस्योत्तरश्रेण्यां पुरं गगनवल्लभम् ॥
 तत्र विद्याधराधीशो रत्नचूडोऽस्ति विश्रुतः ।
 अनिरुद्धः स्मरस्येव सन्नुस्तस्यास्मि सूर्यकः ॥

सोऽहं यौवनमासाद्य चण्डानिलमिवानलः ।
 तमवाप मदोद्रेकं यत्राकृत्यं न किञ्चन ॥
 अन्यदा गगने आम्यन् रत्नशालपुरप्रभोः ।
 खेचरस्य प्रियां दृष्ट्वा जातोऽस्मि स्मरविह्वलः ॥
 सहसा तामपाहार्षं मांसपेशीं यथा खगः ।
 कन्दर्पविवशानां हि क प्रेक्षापूर्वकारिता ॥
 तामादाय कुरङ्गाक्षीमिहायातमरुद्ध माम् ।
 पृष्ठागतः पतिस्तस्या नकुलः पन्नगं यथा ॥
 मां विनिर्जित्य युद्धेन प्रापय्य च दशामिमाम् ।
 स जगाम निजं स्थानं गृहीत्वा गृहिणीं निजाम् ॥
 तदेवं व्यसनाम्भोधौ भग्नो येनाहमुद्धृतः ।
 स निष्कारणबन्धुस्त्वं महात्मन् ! मम वर्तसे ॥
 अतो रूपपरावर्तविद्यामादाय मे प्रियम् ।
 कर्तुमर्हसि यत् सन्तः प्रार्थनामङ्गभीरवः ॥
 परोपरोधप्राधान्यादग्रहीतां पुरन्दरः ।
 परस्त्रीसंगमोद्विग्रः स्वस्थानं सूर्पको ययौ ॥
 अथ सज्जनवत्तत्र सुखदः स्फुरितो मरुत् ।
 जिनवाक्यमिवापास्तरजोगन्धपयोऽपतत् ॥
 पुष्पवृष्टिरभूत्सृष्टेः पञ्चवर्णतयोत्कटां ।
 साधोर्गुण इव व्योम्नि जजृम्भे दुन्दुभेर्ध्वनिः ।
 कीडासन्न जगल्लक्ष्म्याः स्वर्णपद्मं व्यधुः सुराः ।
 निषण्णः केवली तत्र राजहंस इवोञ्ज्वलः ।
 देशानां कर्तुमारोभे सदेवनरपर्षदः ।
 तं नत्वा विस्मयस्मेरः कुमारो न्यषदत्पुरः ॥
 जन्तुघातो मृषावादः स्तेयं युवतिसङ्गमः ।
 परिग्रहश्च पञ्चामी मुच्यतां पापहेतवः ॥
 इति श्रुत्वा भवोद्विग्रो निजगाद पुरन्दरः ।
 भगवन् ! सर्वथा कर्तुं त्वद्भुक्तमहमक्षमः ॥
 परस्त्रीत्यागमात्रं तु करिष्ये जीवितावधि ।
 यद्विपाको मया दृष्टः संप्रत्येवातिदारुणः ॥

गुरुर्जगाद पुण्यात्मन्निदमेवातिदुष्करम् ।
 इदमेव नरामर्त्यनिर्वाणश्रीनिबन्धनम् ॥
 इदं विदधता भद्र ! त्वया सर्वमनुष्ठितम् ।
 इदं पालयतो भावी महानभ्युदयस्तव ॥
 ततः केवलिनं नत्वा परस्त्रीपरिहारतः ।
 कृतार्थं मन्यमानः स्वं कुमारोऽगात्रिजं गृहम् ॥
 अन्यदा सुन्दरोद्देशदेशदर्शनलालसम् ।
 कश्चिन्मागधमेकान्ते पप्रच्छ नृपनन्दनः ॥
 किं त्वया भ्राम्यता पृथ्वीं दृष्टं किमपि कौतुकम् ।
 सोऽवोचचेत्तत्रार्थं शुश्रूषा तन्निशम्यताम् ॥
 अस्ति भोगिवधूभोग्याभोगं भोगपुरं पुरम् ।
 पातालपुरवच्चित्रमशेषश्रीविभूषितम् ॥
 तत्र शत्रुञ्जयो राजा शस्त्रशास्त्रकृतश्रमः ।
 शिरांसि धूनयामास विद्विषां विदुषां च यः ॥
 गिरीशस्येव गङ्गोमे द्वे देव्यौ तस्य वल्लभे ।
 एका रत्नवती नाम द्वितीया मदिरावती ॥
 शुद्धबुद्धिरिवासूत नीतिं रत्नवती सुताम् ।
 रामणीयकविस्फूर्जत्कीर्तिं नाम्ना कलावतीम् ॥
 यस्याः शरीरसौन्दर्यं विभाव्य भुवनाद्भुतम् ।
 ह्रियेव दर्शनं लोके न यच्छन्ति सुराङ्गनाः ॥
 कलाकलापे सकले कलयामास कौशलम् ।
 सा क्रमान्मदनक्रीडावनं प्राप च यौवनम् ॥
 रूपादिभिरपश्यन्ती पुरुषं तुल्यमात्मनः ।
 पुरुषद्वेषिणी साऽभूदित्याश्चर्यं मयेक्षितम् ॥
 इत्याकर्ण्य दिदृक्षुस्तां निशितासिकरो निशि ।
 अनिवेद्यैव कस्यापि कुमारो निर्ययौ पुरात् ॥
 स सरोऽद्रिसरिद्रामनगराकरसङ्कुलाम् ।
 भुवं भ्राम्यंस्तरुस्तोमरम्यां प्राप महादवीम् ॥
 मध्याह्नातपतसोऽसौ तरुमूले कृतस्थितिः ।
 महापुरुष ! मां रक्षेत्यश्रृणोत्करुणस्वरम् ॥

केनापि पीड्यते काचित् वराकीति स चिन्तयन् ।
 विभ्रत् कृपां कृपाणं च तं शब्दं प्रत्यगाहुतम् ॥
 सोऽपश्यत् काननस्यान्तः स्त्रीमेकां कलशस्तनीम् ।
 पद्मास्यां पल्लवाताम्रपाणिपादां मृगेक्षणाम् ॥
 दिक्षु चक्षुः क्षिपन् कञ्चिददृष्ट्वा तत्र मानुषम् ।
 आवभावे कुमारस्तां कस्त्वां भद्रे ! विवाधते ॥

स्त्री—

यतः प्रभृति दृष्टस्त्वं तदादि मदनः प्रभो ! ।
 मां पीडयति पञ्चेशुरप्यसंख्यैरिवेषुभिः ॥
 त्वमेव मदनस्पर्द्धीं शरणं मम नापरः ।
 तत्त्वं निजशुजस्तम्भमध्यमारोप्य रक्ष माम् ॥

कुमारः—

त्वां परस्त्रीं कथं भद्रे ! स्वकराभ्यां स्पृशाम्यहम् ।

स्त्री—

पुरुषस्य परैश्च स्त्री सर्वेति प्राज्ञ ! चिन्तय ॥

कुमारः—

यद्यप्येवं तथापि त्वं मम नासि परिग्रहे ।

स्त्री—

महान्तो नाथ ! मन्यन्ते जगत्सर्वं परिग्रहे ॥

कुमारः—

तथापि तव सम्भोगः करोति दुरतिक्रमम् ।

उभयोर्लोकयोर्दुःखमतस्त्वां कथमाद्रिये ॥

स्त्री—

स्मरार्तां सानुरागाऽहं स्वार्मिस्तन्मम सङ्गमः ।

कुर्यात्तव ममान्येवमुभयोर्लोकयोः सुखम् ॥

कुमारः—

सर्वथा न करोम्येव परस्त्रीस्पर्शपातकम् ।

ततः किममुना साकं त्वया वाक्कलहेन मे ॥

इत्युक्त्वा स वनात्तस्मान्निर्गत्य वलितोऽग्रतः ।

तमाचक्षे साक्षेपमेकः शस्त्रीकरः पुमान् ॥

परस्त्रीविप्लवं कृत्वा मागास्तिष्ठ पुरो मम ।
 तस्य सिंह इवेभस्य कुमारः संमुखः स्थितः ॥
 जगाद च सदैवाहं परस्त्रीणां पराङ्मुखः ।
 संमुखः परशस्त्रीणां ब्रूहि यत्तेऽभिवाञ्छितम् ॥
 दिव्यरूपधरो भूत्वा सोऽब्रवीत्तिष्ठताग्रतः ।
 सर्वत्र शुचयो धीरा इति सत्यीकृतं त्वया ॥
 अहं स्वामी वनस्यास्य व्यन्तरः पिङ्गलाभिधः ।
 अथ वेलावनेऽम्भोधेर्मित्रपार्श्वमहं गतः ॥
 निवृत्त्य यावदायातस्तावद्रीक्ष्ये निजां प्रियाम् ।
 प्रार्थनां तव कुर्वाणां प्रच्छन्नोऽहं स्थितस्ततः ॥
 तृणवत्तामवज्ञाय यत्त्वं सत्त्वमहोदधिः ।
 प्रस्थितोऽसि तदाश्चर्यं दुष्करं किमतः परम् ॥
 तुष्टोऽहं किं ददे तुभ्यं अथावादीत्पुरन्दरः ।
 भद्र ! किं न त्वया दत्तं ददता दिव्यदर्शनम् ॥
 तस्मै याञ्छाऽनभिज्ञायाप्यमोघं देवदर्शनम् ।
 इति जल्पन् सुरश्चिन्तारत्नं दत्वा तिरोदधे ॥
 चिन्तारत्नप्रभावेण प्राप्तसर्वसमीहितः ।
 त्यागं भोगांश्च कुर्वन् स क्रमाद्भोगपुरं ययौ ॥
 राजपुत्रीसुपायेन पश्यामीति पुरन्दरः ।
 वामनः समभूद्रूपपरावर्तनविधया ॥
 कथागीतादिभिः कुर्वन् पुरलोकस्य विस्मयम् ।
 जगाम वामनः ख्यातिं गुणा हि यशसः पदम् ॥
 अन्यदाऽऽश्चर्यकारीति नृपेणाहूय वामनः ।
 त्वमस्मत्सन्निधौ तिष्ठेरित्युक्तः स तथाऽकरोत् ॥
 कलाविद् वामनश्चायमिति जातकुतूहला ।
 चेदीं प्रेष्यात्मनः पार्श्वे तमाहूत कलावती ॥
 सा प्रीतिमगमद् दृष्टे वामनेऽपि नृपात्मजे ।
 कुर्यात् कुसुदिनीं स्मेरां मेघच्छन्नोऽपि चन्द्रमाः ॥
 दृष्ट्वा राजसुतां हृष्टो दध्यौ मनसि वामनः ।
 अस्यां प्रकर्षमारूढं रूपनिर्माणकौशलम् ॥
 वक्त्रं चन्द्रविजित्वरं यदधरो बन्धूकवाधाबुधः

कण्ठः कम्बुविडम्बकोऽक्षियुगलं नीलोत्पलश्रीहरम् ।
 पाणिद्वन्द्वमशोकपल्लवरुचां लुण्ठकमस्यास्ततः
 कोऽप्यन्यत्कृतपूर्वसृष्टिमहिमा धातुः प्रयत्नो ध्रुवम् ॥
 अथ पृष्टः कलावत्या कुत्रत्योऽसीति वामनः ।
 विलासपुरवास्तव्योऽस्मीति स प्रत्यपीपदत् ॥
 किं तत्र नगरे किञ्चिदस्ति वस्त्वद्भुतं वद ।
 इति प्रोक्ते कलावत्या साकूतं वामनोऽब्रवीत् ॥
 तत्र सिंहरथो राजा तस्य पुत्र पुरन्दरः ।
 यः सौन्दर्यकलौदार्यविक्रमादिभिरद्भुतः ॥
 इत्याकर्ण्य कुमारं प्रत्यनुरागं चकार सा ।
 को वा न रज्यते लोकः श्रुतैरप्यद्भुतैर्गुणैः ॥
 त्यक्तान्यसर्वव्यापारा चिन्तयन्ती पुरन्दरम् ।
 योगिनीव परात्मानं दिवसानि निनाय सा ॥
 आसने शयने रात्रौ दिवसे भवने वने ।
 नाससाद रतिं कापि शफरीव स्थले स्थिता ॥
 जलाद्रासुमनःशय्याचन्द्रचन्दनपञ्चमान् ।
 प्रपञ्चितवपुस्तापान् मेनेऽग्नीनिव पञ्च सा ॥
 इतश्च गीतं शृण्वन्त्या वामनस्य मनोहरम् ।
 मदनो मदीरावत्या मनो बाणैरताडयत् ॥
 सा निशीथे नृपं सुप्तं त्यक्त्वोत्थाय शनैः शनैः ।
 प्रस्थिता वामनम्यर्णमङ्गरक्षैरलक्षिता ॥
 विबुद्धो नृपतिः कासौ चलितेति विचिन्तयन् ।
 मन्दं मन्दं पदन्यासमन्वगान्मदिरावतीम् ॥
 गत्वा व्यबोधयद्देवी वामनं मधुरोक्तिभिः ।
 करिष्यति किमेषेति ज्ञातुं छन्नो नृपः स्थितः ॥

वामनः—(देवीमालोक्य)

देवता सदृशी का त्वम् ?

देवी—

देव्यहं मदिरावती ।

वामनः—

अत्रागतासि किं कर्तुं

देवी—

कामार्ता त्वामुपासितुम् ॥

वामनः—

क्रूरूपो धनहीनोऽहं सुग्वे ! किं मामुपस्थिता ।

रूपनिर्जितकन्दर्पः पृथ्वीनाथः पतिस्तत्र ॥

हंसं हित्वा कलयसि बकं रत्नमुत्सृज्य घत्से

काचं कार्त्तस्वरमवगणय्यारकूटं विभर्षि ।

दुग्धं त्यक्त्वा पिबसि विकले ! काञ्जिकं यद्विमुच्य

क्षोणीनाथं रचयसि रुचि सेवितुं वामनं माम् ॥

राजा (स्वगतम्)—

साधु वामन ! धन्योऽसि यः स्तौष्यन्धं स्वनिन्दया ।

स्वं निर्गुणमपि प्रायो मन्यन्ते गुणिनं जडाः ॥

देवी—

तदेव सुन्दरं तस्य यद्यस्य प्रतिभासते ।

विमुच्य करभ्रूतं करीरे कुरुते रतिम् ॥

तन्नाथ ! किं विचारेण मद्रचः कुरु सत्वरम् ।

प्रियस्त्वं मे नरेन्द्रस्तु द्वेष्यो वार्धकदूषितः ॥

राजा (स्वगतम्)—

ताश्चहृत्कीः पुरा श्रुत्वा देवीवदननिर्गताः ।

चहृत्कीः सांप्रतं शृण्वन्न किं हृदय ! भिद्यसे ॥

वामनः—

चक्षुषाऽपि निरीक्षेऽहं नान्यामपि परस्त्रियम् ।

किं पुनर्भवतीं भद्रे ! महाराजस्य बल्लभात् ॥

राजा (स्वगतम्)—

शरीरेणैव वत्स ! त्वमहो ! वामन ! वामनः ।

कर्मभिः पुनरुत्तुङ्गस्त्वमेव जगतोऽप्यसि ॥

देवी—

परस्त्री किमहं मूर्ख ! या त्वां स्वयमुपस्थिता ।

परस्त्री कथिता सा हि या बलादुपपद्यते ॥

वामनः—

परस्त्रीं सेवितुं जातु चित्तमुत्सहते न मे ।
जननीव नमस्कार्या त्वं देवि ! मम तद्भज ॥

देवी—

करोषि यदि मे वाक्यं यदिच्छसि ददामि तत् ।
भविष्यत्यन्यथा मूढ ! सन्देहो जीवितेऽपि ते ॥

वामनः—

अखण्डितचरित्रस्य मृत्युरप्यस्तु मे वरम् ।
लभ्यते यदनाचारात् साम्राज्येनापि तेन किम् ॥
इति प्रार्थयमानासौ वामनेन निराकृता ।
विलक्ष्मीभूय संप्राप स्वस्थानं मदिरावती ॥
राजाऽपि शयने गत्वा चिन्तयामास चेतसि ।
अहो ! दुश्चरितं स्त्रीणां विचाराणामगोचरः ॥
अकृतान्याङ्गनासङ्गं सर्वाभीष्टार्थपूरकम् ।
मां विहाय विद्यते हा ! किमेषा वामने मनः ॥
प्रेमसर्वस्वशंसीनि कुर्वत्यपि चट्टानि मे ।
रमतेऽसौ हृहान्पत्र वेत्ति स्त्रीचरितं हि कः ॥
किं तद्वित्करिकर्णाद्या येन द्रव्येण निर्मिताः ।
स्त्रीणां चित्तस्य निर्माणे तदेव विधिनादृतम् ॥
धिद्धां विषयगृहं यद्विषयाः स्त्रीनिबन्धनाः ।
स्त्रीणां चरित्रमीदृक्षं यद्वक्तुमपि नोचितम् ॥
अहो ! मे मन्दभाग्यत्वं कालेनैतावतापि यत् ।
नैकोऽपि समभूत् पुत्रो यं राज्ये स्थापयाम्यहम् ॥
कलावत्यपि चेत्कुर्याच्चित्तं राजसुते क्वचित् ।
तत्तमेव निजे राज्ये निवेश्य व्रतमाददे ॥
इति चिन्ताजुषो राज्ञः प्राज्यानर्थनिबन्धनम् ।
जचाद्विषयतृष्णेव निशा नाशं समासदत् ॥
रुद्धदृष्टिस्तमस्तोमः प्राप मोह इव क्षयम् ।
दोषान्तमुदयं लेभे विवेक इव भास्करः ॥
अत्रान्तरे प्रतिहार्या विज्ञप्तः पृथिवीपतिः ।

देव ! चित्तं कलावत्या यन्न रेमे नरे क्वचित् ॥
 साम्प्रतं वामनाख्याते राजपुत्रे पुरन्दरे ।
 बद्धोत्कण्ठं तदस्वस्थं न कापि लभते रतिम् ॥
 इति श्रुत्वा नृपो हृष्टः कलावत्या गृहं ययौ ।
 आहूय वामनं तत्र निजगाद सगौरवम् ॥
 छन्नरूपस्त्वमेवासि राजपुत्रः पुरन्दरः ।
 उत्तमैश्चरितैर्ज्ञातस्तदात्मानं प्रकाशय ॥
 राजा रजनीवृत्तान्तं जानातीति विचिन्त्य सः ।
 अहो ! देवस्य दक्षत्वं इत्युक्त्वा स्वमदर्शयत् ॥
 जगाद च निशम्याहं राजपुत्रीं गुणोद्भवलाम् ।
 कृतरूपपरावर्तः कौतुकाद्द्रष्टुमागतः ॥
 मङ्गलार्थं पुरस्कृत्य कुचकुम्भौ नृपात्मजा ।
 प्रेमाद्रीं तन्मुखे दृष्टिं पुष्पवृष्टिभिवासुचत् ॥
 राजा तमद्भुतं दृष्ट्वा निजां पुत्रीं च तादृशीम् ।
 अवोचदनयोर्युक्तः सम्बन्धस्तुल्यरूपयोः ॥
 प्रशस्तेऽहि शुभे लग्ने विभूत्याऽतिप्रकृष्टया ।
 अकारयत्तयोरभूपः पाणिग्रहणमादरात् ॥
 कृतार्थः पार्थिवो राज्ये स्थापयित्वा पुरन्दरम् ।
 प्रतिपेदे स्वयं दीक्षामार्हतीं गुरुसन्निधौ ॥
 एवं परस्त्रीनियमात् प्रकृष्टां पुरन्दरः प्रापदिहापि ऋद्धिम् ।
 परत्र चासादितवाञ्छितार्थो गीर्वाणनिर्वाणसुखानि लब्धा ॥

इति परस्त्रीविरतौ पुरन्दरकथा ॥

दुपय-चउप्पय-घण-घन्न-खेत्त-घर-रुप्प-कणय-कुप्पाण ।
 जं परिमाणं तं पुण अणुव्वयं पंचमं विति ॥
 जीवो भवे अपारे गरुय-परिग्गह-भरेण अङ्गतो ।
 कुह-लहरि-परिक्खित्तो बुडुह पोओ व्व जलहिम्मि ॥
 घम्मराम-खयं खमा-कमलिणी-संघाय-निग्घायणं
 मज्जाया तडि पाडणं सुह-मणो-हंसस्स निव्वासणं ।
 बुद्धिं लोह-महण्णवस्स खणणं सत्ताणुकंपा-भुवो

संपादेह परिग्गहो गिरिनई-पुरो व्व वडुंतओ ॥
 लोह-परिचत्त-चित्तो जो कुणह परिग्गहस्स परिमाणं ।
 सो परभवे परिग्गहमपरिमियं लहइ नागो व्व ॥
 अत्थि एत्थेव दीवे भारहे वासे कुसुमपुरं नयरं ।
 दहुं मज्झद्वियमत्थ-वित्थरं हरिउमुज्जया चोरा ।
 फलिह-भवणोसु विरमंति भित्ति-ह्यमत्थया जत्थ ॥

तत्थ सीहविक्रमो राया ।

जस्स समरम्मि दहुं विमुक्क-कोसं करम्मि करवालं ।
 हारिवडिय व्व सहसा कोसं भेल्लंति रिउणो वि ॥

तस्स सयलंतेउर-सारा तारा देवी । तीए गब्भ-संभूओ रूवाइ-गुणेहिं
 भुवणच्छरिय-भूओ सयल-कला-कलाव-कुलहरं हरिविक्रमो कुमरो । कयाइ वि-
 यडु-गोट्टीए ठियस्स तस्स पढियं केणावि—

निय-पुन्न-परिक्खाए देस-वेस-भासा-विसेस-विन्नाणं ।

नव-नव-कोउग-दंसणभेगत्तं ठियाण न हवंति ॥

इमं सोऊण चित्थियं कुमारेण मए देसंतरं गंतव्वं ति । तओ कस्सवि
 अकहिऊण रयणीए निग्गओ कुमरो । परिभमंतो पत्तो-कंचणउरं । तत्थ
 पओसे पविसिउं पयट्ठो । पहरण-पाणि-पाइक्क-परिक्खित्ताइं पिहियाइं पओलि-
 दाराइं दहूण नियत्तो पसुत्तो-परिसराराम-मज्झे पल्लव-संत्थरे । पहाय-प्यायाए
 रयणीए पबुद्धो पेच्छए पुरओ गयणंगणे अणप्प-भणि-देप्पमाणं विमाणं ।
 तम्मज्झ-गयाए गरुडारूढाए कणयावदाय-देहाए चक्क-दिवि-डिक्किय-कराए देव-
 याए भणिओ सो—भो कुमार ! आरोहसु विमाणमेयं । तुहाणयणत्थमेत्था-
 गया अहं । तेण तं पणमिऊण कयंजलिणा जंपियं—देवि ! का तुमं, कत्थ
 किमत्थं वा नेसि मं ? । देवयाए भणियं—कुमार ! अत्थि एसा विसाल-साला
 विसाला नयरी । तत्थ इक्खागु-कुल-कमल-सूरो सूरो राया । तस्साहं कुल-
 देवया चक्केसरी । सो राया संपयं अपुत्तो पत्तो पर-लोयं । तस्स गोत्तिया
 रज्जत्थिणो पथट्ठा कलहिउं, भणिया पहाणेहिं—भो ! किं कुल-क्खयं कुणह ।
 अब्बेमो चक्केसरि-कुल-देवथं । सा जं भणित्थइ सो राया होहि ति । तहेव
 तेहिं कए वुत्ता मए गुत्तिया—नत्थि तुम्ह रज्ज-जुगया ।

जं पुरिसमहं रज्जे ठावेमि करेह तस्स पय-सेवं ।

रज्जं पुण पाविज्जइ पुत्तेहिं पुराणुचिन्नेहिं ॥

मुण्डं तुमं अवहिणा इहागयं आगयाहमाणेऽं ।
 हरिविक्रम-कुमर ! तओ लहु आरोहसु विमाणमिणं ॥
 तो आरूढो कुमरो गयं विमाणं नरिंद-भुवणम्मि ।
 सयल-पहाण-समक्खं ठविओ देवीए सो रज्जे ॥
 देवीइ तस्स दिन्नं चूडारयणं अणप्प-माहप्पं ।
 जत्थ सिरत्थे निवडंति मुच्छिया महियले रिडणो ॥
 सन्वेहिं वि सो नमिओ नयरम्मि भहूसवो समारद्धो ।
 आहरण-रयण-बुद्धिं काऊण तिरोहिया देवी ॥

नएण रज्जं कुणंतस्स तस्स अन्नया आगया करहमारूढा दुवे पुरिसा ।
 विन्नत्तो तेहिं राया एगंते—अत्थि निय-विहव-विहिय-सुरपुर-पराजयं जयपुरं
 नयरं । तत्थ पच्चत्थि-पत्थिव-दुज्जओ जयो राया । तस्स रइ व्व सुंदरी रइ-
 सुंदरी देवी । रज्ज-सुहं सेवताण ताण लच्छि व्व कमलच्छी जाया जय-
 लच्छी धूया । तीए जम्म-दिणे कहियं जोइसिएण, जहा—एसा कन्नगा चउण्हं
 रज्जाणं सामिणो पत्ती होहि त्ति । सा संपयं पवत्ता तारुत्तं । रत्ता अन्न-रज्ज-
 लाभत्थिणा सयं चव सा परिणेडमारद्धा । विन्नत्तो पहाणेहिं राया—देव !
 उभय-लोय-विरुद्धं ति न जुत्तं काउमेयं ति ।

जओ—

जेण कुलकसु लंघियइ अवजसु पसरइ लोइ ।
 तं गुरु-रिद्धि-निबंधणु वि न कुणइ पंडिओ कोइ ॥
 ता रज्ज-कारणं पि ह्हु धूय त्ति इमा परस्स दायव्वा ।
 जइ सोवण्णिय-छुरिया हंतव्वो किं तओ अप्पा ॥

रत्ता भणिया पहाणा—तहावि अन्नस्स न दायव्व त्ति, विणासेह एयं ।
 तओ तेहिं कया कन्ना पच्छन्ना । कहियं रत्तो विणासिय त्ति । तं जीवंति
 नाऊण कुद्धो राया तेसिं । तओ तेहिं पेसिया अम्हे तुम्ह पासं, विन्नत्तं च
 इमं, जहा—एस राया अणायाद-परो पर-लोय-परस्सुहो मह-महुर-विसयासत्तो
 सत्त-रहिओ हिओवएसं पि विसं व मन्नए । तुमं पुण एयविवरीओ रायरिसी ।
 ता जइ एगागी आगच्छसि तो इमं दुरप्पाणं परिच्चयामो त्ति । रत्ता चित्तिर्यं—
 जुत्तमिणं । जं सामी वि मुक्कमज्जाओ मुच्चइ त्ति । जं पुण 'जइ एगागी आगच्छ-
 सि'त्ति तं किं फलं । हुं नायं, सत्त-परिक्खण फलं ति । तओ रज्जसुत्थं काऊण
 गओ तेहिं सह जयपुरं । पडिच्छिओ पहाणेहिं । परिणाविओ पच्छन्नं जय-

लच्छि । पच्छा पयासिओ लोए । निवेसिओ रज्जे । निग्गओ नयराओ सयं
चेय जओ । अणुरत्त-पयइ-वगं पालइ रज्जं हरिविक्कमो ।

अन्न-दिणे सिरिपुर-नयर-सामिणा चंडसेण-राएण ।

निय-दूयं पट्टविडं भणिओ हरिविक्कमो एवं ॥

जो तुह पुव्व-नरिंदेहिं मज्झ दिन्नो निरंतरं दंडो ।

तं संपइ देसु तुमं पि अन्नहा होसु रणसज्जो ॥

जो पुव्व-पत्थिवेहिं दिन्नो दंडो तमेव संभरसु ।

देमि न दंडमहं पुण वेत्तुं वंछामि तुह पासे ॥

इय हरिविक्कमराएण जंपिए नियपुरं गओ दूओ ।

गंतूण तेण कहियं पुव्वुत्तं चंडसेणस्स ॥

तं सोडं सो कुविओ चलिओ चउरंग-सेन्न-परियरिओ ।

तत्तो पत्तो हरिविक्कमो वि निय-देस-सिमंते ॥

दुण्हिवि दलाइं मिलियाइं ताण जायं जएक्क-चित्ताणं ।

कुड्ड-वसागय-सुर-खयर-सिद्ध-रुद्धंवरं जुडं ॥

पहरण-संघट-समुच्छलंत-हुयवह-फुल्लिग-छउमेण ।

खुर-रय-घणंघयारे रणम्मि रेहंति खज्जोया ॥

हरिविक्कम-सेत्तेणं जलहि-जलेणेव उच्छलंतेण ।

निव-चंडसेण-सेणा नइ व्व पच्छामुही विहिया ॥

तो चंडसेण-निवई कुविओ उट्टेइ पवल-बल-कलिओ ।

हरिविक्कम-सेन्नं मंदरो व्व जलहिं विलोडेइ ॥

थक्को एक्को हरिणो हरि व्व हरिविक्कमो पुरो तस्स ।

रवि-मंडलं व दित्तं सिरम्मि चूडामणिं काउं ॥

चूडामणि-माहप्पेण चंडसेणस्स आगया मुच्छा ।

पडियाइं पहरणाइं हत्थेहिंलो ससिन्नस्स ॥

हरिविक्कम-सुहडेहिं गहिओ पुंजीकयाइं ताइं पुरो ।

तत्तो चूडारयणं सिराउ ओसारियं रत्ता ॥

सत्थी हूओ दट्टूण चंडसेणो ससिन्नमप्पाणं ।

पहरण-रहियं हय-विक्कमं च चिंतइ विसन्न-मणो ॥

एस हरिविक्कम-निवो अणन्न-सामन्न-पुन्न-पव्वारो ।

देवय-कय-सन्निज्झो मणुस्समेत्तं न होइ फुडं ॥

जं इमिणा सह जुद्धं पारद्धं तं मए कथमजुत्तं ।
 जो अप्य-पर-विसेसं न मुणइ सो होइ हसणिज्जो ॥
 हा दंसिउं असक्को जणस्स वयणं अहं अजस-कल्लुसं ।
 ता किं करेमि संपइ हूं नायं जामि वण-वासं ॥
 तो हरिविक्रम-पुरओ आगंतुं गिण्ह मज्झ रज्जमिणं ।
 इय भणिउं वन-वासं संपत्तो चंडसेण-निवो ॥
 हरिविक्रमो सिरिउरं गंतूण करेइ तत्थ रज्ज-ठिइं ।
 अह पुरिसा कुसुमपुराउ आगया जणय-पट्टविया ॥
 वच्छ ! अहं तुह विरहे दुहं ठिओ संपयं गिलाणोमिह ।
 ता निय-रज्जं गिण्हसु इमं ति पुरिसेहिं विन्नत्तं ॥
 तो तत्थ रज्ज-सुत्थं काउं हरिविक्रमो जणय-पासं ।
 वलिओ चउरंग-चमू-चमढिय-फणिराय-फणवक्को ॥
 सो पत्तो कुसुमपुरं पणओ जणयस्स तेण अहिसित्तो ।
 रज्जे गुरु-रिद्धीए अह पर-लोयं गओ जणओ ॥
 सो भूरि कणय-कोसं पयाव-पडिहय-पयंड-पडिवक्खं ।
 करि-तुरय-रह-समगं तिवग्ग-सारं कुणह रज्जं ॥
 अह अन्नया निसाए पच्छिम-जामम्मि सुह-विउद्धस्स ।
 जाया रन्नो चिता पुव्व-भवे किं मए बिहियं ॥
 जं रज्जाण चउण्हं इमाण सामित्तमुत्तमं पत्तं ।
 इय चित्तं कुणमाणस्स निवइणो उग्गओ सूरु ॥
 उज्जाण-वालएणं विन्नत्तं ताव देव ! उज्जाणे ।
 सुर-कय-कमल-निसन्नो केवल-नाणी कहइ धम्मं ॥
 तो परितुट्ठो राया जयलच्छी-संगओ गओ तत्थ ।
 नमिउं गुरुं निसन्नो धम्मकहं सोउआहत्तो ॥
 समए पुट्टं रत्ता निसाइ जं चित्तियं चरम-जामे ।
 केवलिणा भणियं सुण नरिंद ! जं पुच्छियं तुमए ॥
 पुव्व-भवे आसि तुमं सिरिनयर-पुरम्मि सावगो नागो ।
 नागसिरि से भज्जा दुण्हवि नेहेण जंति दिणा ॥
 अन्न-दियहम्मि तेसि पुरओ पुरिसेण भणियमेक्केण ।
 जं अच्छरियं चित्तं इहेव नयरम्मि तं सुणह ॥

देसंतराओ कत्तो वि आगओ इह पुरे नरो एक्को ।
 सयल-कला-कुल-गेहं रुवेण विणिज्जियाणंगो ॥
 सो महिलाइ नव-जोव्वणाए दट्टण मयण-विहुराए ।
 नीओ स-गिहं तंबोल-भोयणाईहिं गोरविओ ॥
 तीए सह विसय-सुहं सेवंतो सो ठिओ कहवि दियहे ।
 अन्न-दिणे अन्नाए नारीए कहवि सो दिट्ठो ॥
 तीए वि नियं गेहं नीओ काऊण गरुय-सम्मार्णं ।
 विसय-सुहं सेवंतीइ तीइ घरिओ चिरं कालं ॥
 तस्स कए अन्नोन्नं दुन्नवि नारीउ ताउ कलहंति ।
 अह कहमवि पढमाए एसो निय-गेहमाणीओ ॥
 तस्स निसाए सुत्तस्स मत्थयं छिदिऊण पट्टवियं ।
 गेहम्मि सबत्तीए पर्यपिया सा पुणो एवं ॥
 जइ तुह इमम्मि नेहो इमस्स ता मत्थएण सह कुणसु ।
 जलण-पवेसमहं पुण एयकवंधेण सह काहं ॥
 तो जलणम्मि पविट्ठाउ दोवि महिलाउ नेह-गहिलाओ ।
 अविमरिसिय-कारित्तं अकित्तिमं काम-विहुराण ॥
 तं असमंजसमायन्निऊण नागो भणेइ संविग्गो ।
 इत्थीसु असंतोसो इमस्स जाओ मरण-हेऊ ॥
 तोउहं संतोस-कए गेण्हामि परिग्गहस्स परिमाणं ।
 तं गेण्हइ सकलत्तो नागो गंतुं गुरु-समीवे ॥
 तप्पभिइ होइ नागो आजम्मं एग-दार-संतुट्ठो ।
 नागसिरी उण मणसावि कुणइ पर-पुरिस-परिहारं ॥
 जिण-भवण-पडिम-पूयाउ कारवइ पुत्थए लिहावेइ ।
 साहूण देइ दाणं सन्निज्झं कुणइ सट्ठाणं ॥
 एवं सुच्छा-रहिओ नागसिरीए पियाइ सह नागो ।
 धम्मे धणं निजुंजइ खंडइ न परिग्गह-पमाणं ॥
 अन्न-दिणे आगंतुं नागं वागरइ वाणिओ एक्को ।
 तुह पिउ-दव्वं वेत्तुं पत्तो देसंतरम्मि अहं ॥
 तत्थेव ठिओ कारण-वसेण दव्वेण तेण तत्थ मए ।
 दव्वं बहुयसुवज्जियमिण्हिं पुण आगओ इत्थ ॥

ता पिउ-दब्बं गिण्हसु तुमं इमं तो पयंपए नागो ।
 जइवि मह जणय-दब्बं तहावि गेण्हामि नाहमिणं ॥
 जं इमिणा गहिण्णं खंडिज्जइ मह परिग्गह-पमाणं ।
 तेण भणिओ वि पुण पुण जाव न गेण्हइ धणं नागो ॥
 ता रयण-भूसण-धरो तियसो होऊण सो भणइ एवं ।
 तुममेव नाग ! धन्नो पसंसिओ जो सुरिंदेण ॥
 नागो जंपइ कह तत्थ मह पसंसाइ अवसरो जाओ ।
 कहियं सुरेण एवं सक्कस्स सहा-निसन्नस्स ॥
 पय-पणमत्थमेक्को पत्तो तियसो इमस्स सीसाओ ।
 पडियं चूडारयणं तं गहियं अन्न-तियसेण ॥
 तो झत्ति कण्हरार्हए पविसणत्थं पलायमाणो सो ।
 वज्जेण हओ हरिणा सिरम्मि अन्नायकारि त्ति ॥
 तं कंदंतं दट्टं मए हरी जंपिओ जइ सुरा वि ।
 लोभ-ग्गहेण गहिया गिण्हंति परस्स रयणाइं ॥
 ता मुत्तूण मुर्णिदे नरलोए नत्थि कोवि निल्लोभो ।
 हरिणा भणियं चिइइ सिरिनयरे सावगो नागो ॥
 निल्लोभं-चक्कवट्ठी जो सपरिग्गह-पमाण-भंग-भया ।
 तुह संतियं ति भणियं पि ढोइयं गिण्हइ न दब्बं ॥
 तं सोउं रयणसिहो सुरो अहं तुह परिक्खण-निमित्तं ।
 इत्थागओम्हि हरिणा पसंसिओ भइ ! तुममेवं ॥
 भणियं सुरेण मह कहसु किं पि किच्चं करेमि जं तुज्झ ।
 नागेण जंपियं भइ ! नत्थि मह किं पि करणिज्जं ॥
 तियसो गओ सठाणं कालेण स-भारियाइ सह नागो ।
 स-परिग्गह-परिमाणं णिहोसं पालिऊण मओ ॥
 सोहम्मै संपत्तो तत्तो चविउं तुमं समुप्पन्नो ।
 नागसिरी तुज्झ पिया जाया नरनाह ! जयलच्छी ॥
 तो जाय-जाइसरणाइं दोवि जंपंति सब्भेयं ति ।
 संवेग-परिगयाइं पुत्तं ठविऊण निय-रज्जे ॥
 सब्बं परिग्गहं वज्जिऊण गेण्हंति दोवि पव्वज्जं ।
 काऊण तवं तिब्बं गयाइं सग्गं च मोक्खं च ॥

इति परिग्रहपरिमाणे हरिविक्रमकथा ।

दससु दिसासुं जं सयल-सत्त-संताण-ताण-कय-महणो ।
 गमण-परिमाण-करणं गुणव्वयं वित्ति तं पढमं ॥
 जीवो घणलोभ-ग्गह-गहिय-मणो जत्थ जत्थ संचरइ ।
 विइवइ पाणिणो तत्थ तत्थ तत्तायपिंडो व्व ॥
 संतोस-पहाण-मणो दिसासु जो कुणइ गमण-परिमाणं ।
 सो पावइ कल्लाणं इत्थवि जम्मो सुबंधु व्व ॥

तं जहा—

जंबू-जंबीर-कयंब-अंब-नितरंब-बंधुरारामा ।
 जंबुदीवे भरहे कोसंबी नाम अत्थि पुरी ॥
 पसरंत-परुप्पर-पणय-कलह-कोवेण अकय-जोगेण ।
 मिहुणाण कुणइ पीडं चंदो व्विय जत्थ रयणीसु ॥
 तत्थासि वीरसेणो नरेसरो नीइ-कंदली-कंदो ।
 पणमिर-पत्थिव-भत्थय-कुसुमावलि-लीढ-पयवीढो ॥
 तस्सासि माणणिज्जो जिणदत्तो नाम सावओ सेट्ठी ।
 तस्स तणओ सुबंधू गहिय-कलो जुव्वणं पत्तो ॥
 रइ-सरिस-रुव-रेहं सुनंद-वणियस्स वसुमइं धूर्यं ।
 गुरु-विह्व-वित्थरेणं पिडणा परिणाविओ एसो ॥
 घयवड-चवलत्तणओ समत्त-भावाण भव-समुत्थाण ।
 पंच-नमोक्कार-परो पंचत्तमुवागओ सेट्ठी ॥
 जह वच्चइ किरण-गणो अत्थमयंतेण सह दिणंदिण ।
 तह अत्थमिओ अत्थो जणएण समं सुबंधुस्स ॥
 घण-वज्जिओ सुबंधू बंधुयणस्स वि असम्मओ जाओ ।
 सो वेव पिओ पायं जणस्स जं सेवए लच्छी ॥
 अह अन्नया पयट्ठो विउत्त-जण-भीण-हणण-केवट्ठो ।
 कय-तरुण-मण-प्पमओ महुसमओ मयण-दप्पमओ ॥

नचंत-रमणि-कंकण-कलाव

कल-सद-पवोहिय-कुसुम-चाव ।

अच्छेरय-रंजिय-तरुण-सत्थ

सुर-घरिहिं हुंति रहजत्त जत्थ ॥

जहिं कुसुम-गंध-लुद्धालि-जाल-

रव-भरिय-सयल-दिस-चक्रवाल ।
 नीसेस-जगत्तय-विजय-सज्जु
 जंपंति व मयण-नरिंद-रज्जु ॥
 जहिं रत्त-सहहिं कुसुमिय-पलास
 नं फुट्टए पहिय-गण-हिययमास ।
 सहयारिहि रेहहि मंजरीओ
 नं मयण-जलण-जालावलीओ ॥
 जहि मलय-समीरण-हल्लिरेहिं
 नं नचइ लय-पल्लव-करेहिं ।
 परहुय-रवु पसरइ काणणेसु
 नं माणिणि-मय-चाओवएसु ॥

इय मयण-महा-महि-लोय-सहावहि भुवणि पयट्टइ महु समइ ।
 कय इत्थी-सत्थिहिं अत्थ-समत्थिहिं कीलण-थुवण-गमणमइ ॥
 अघण त्ति वसुमई पुण पारद्धा रोविडं विसन्न-मणा ।
 किं रोयसि त्ति पुट्टा सुबंधुणा तीइ कहियमिणं ॥
 वर-वत्थ-नियत्थाओ रयणालंकार-मंडियंगीओ ।
 अन्न-रमणीओ माणंति अज्ज मयणूसवं नाह ! ॥
 अणलंकिया कुवत्था अहं तु लज्जामि ताण मज्झम्मिं ।
 तत्तो करेमि कहमूसवं ति रोयामि दीण-मणा ॥
 तत्तो सुबंधुणा सा भणिया मह परिभवो पिए एसो ।
 संपइ तुमं परिच्चय संतावं वरसु धीरत्तं ॥
 विवरं पि पविसिडं रोहणं पि खणितं नहं पि आरुहियं ।
 जलहिं पि लंघिडं भमडियं च देसंतराहं पि ॥
 विढविय-बहुय-बिहवो मणोरहा पूरणं तुह करिस्सं ।
 किं तेण जीविणं हि उवज्जइ जं न पियकज्जे ॥
 इय भणिऊण पहाए सुबंधुणा निग्गएण गेहाओ ।
 पुर-परिसरम्मि दिट्ठो मणपज्जव-संगओ सवणो ॥
 धम्म-कहं कुणमाणं जणाण तं पणमिडं सुबंधू वि ।
 तस्स पुरओ निसन्नो कयंजली वोत्तुमाढत्तो ॥
 भयवं ! किं ते वेरग्ग-कारणं जेण जुव्वण-भरे वि ।

मणहर-मुक्ती वि तुमं पडिवन्नो दुक्करं दिक्खं ॥
 सुणिणा भणियं सुण, इत्थ आसि नयरे गुणंधरो वणिओ ।
 वरुण त्ति तस्स जणणी कुडिल-मणा गोमई गिहिणी ॥
 न सुहाइ गोमईए सासू तो चितए वडू एवं ।
 को सो होज्ज उवाओ जेण इमं नेमि पंचत्तं ॥
 पइ-पुरओ जंपइ सासुयाइ दोसे वडू असंते वि ।
 सो पियइ पाणियं तेत्तियं जेत्तियं भणइ घरिणी ॥
 भणिओ सो जणणीए जणणिं दुलह त्ति मावमत्तेसु ।
 सो मगइ दोवि घणेण लहइ घरणिं न उण जणणिं ॥
 तह वि न मन्नइ जणणिं गुणंधरो केवलं घरिणि-रत्तो ।
 भणिया जणणीए वडू विरमसु मह कइ-गोहूमे ॥
 भणिउं वडू इमाए काउं वडू मोयगाइ-पक्कलं ।
 दाहं तुह गोहूमे पुत्तो कइहं पुण दाही ॥
 कहियं पइणो तीए जणणी वुडु त्ति महइ कइहं ।
 तेणुत्तं किमजुत्तं विणोसहं चाहि-विगमो त्ति ॥
 भणिया अणेण जणणी माए कइहं मगसि तुमं किं ।
 कूडमिणं वहुयाए एवं होउ त्ति कलिऊण ॥
 सा भणइ वच्छ ! एवं अन्न-दिणे तेण घरिणि-सहिपुण ।
 नीया जणणी पिउवणमत्थमिओ दिणयरो ताव ॥
 सेसो जणो नियत्तो इमेहिं दोहिं पि विरइया चियगा ।
 खित्ता य तत्थ जणणी तावग्गी नत्थि वीसरिओ ॥
 भणिया गुणंधरेणं गिहिणी गेहाउ अग्गिमाणेसु ।
 सा भणइ गिहं जंती इह चिहंती य वीहेमि ॥
 तो दोवि गयाइं गिहं मरामि किमहं ति चित्तिउं जणणी ।
 सुत्तूण चियं खिविउं अणाइ-मडयं तहिं किं पि ॥
 सयमारूढा रुक्खं गुणंधरो गोमई य आगतुं ।
 दहिऊण चियं गेहं गयाइं दुन्निवि पहिइहं ॥
 भणि-कणय-भूसणाइं सुसिऊण पुराउ आगया तत्थ ।
 चोरा दिच्च-वसेणं जणणी जत्थत्थि तरु-चडिया ॥
 ते विभजिउं पयट्टा भणिया जणणीइ देह भागं मे ।

नूणं इमा मसाणे रयणीए रक्खसी कावि ॥
 इय भय-विहुरा चोरा नट्टा मुत्तूण सव्वमाभरणं ।
 तं पुण गहिउं जणणी गया पभाए नियं गेहं ॥
 दद्धं जणणिं पुत्तो वड्ढ य दुल्लिवि चमक्कियाइं मणे ।
 कहमागय त्ति पुट्टा सा विणय-पुरस्सरं तेहिं ॥
 तीए कहियं सग्गे गयम्हि तो विम्हिएहिं तियसेहिं ।
 दिन्नमिणं आहरणं तं वेत्तुं आगयाहमिमा ॥
 भणियं वड्ढ माए तं घन्ना जं सुरेहिं गोरविया ।
 तीए बुत्तं थेवं गोरविया डोक्करि त्ति अहं ॥
 जइ छोक्करिं कहवि ते लहंति तो गोरवं कुणंति बहं ।
 घण-लुद्धाए वड्ढ भणियमहं तत्थ वच्चिस्सं ॥
 गहियग्गि-सासुयाए तह पइणा सह गया मसाणम्मि ।
 बह्हुया चियं पविट्ठा दड्ढा जलणेण झत्ति मया ॥
 लह्हु एही मज्झ पिय त्ति चित्तिरेणं गुणंघरेण पुणो ।
 पुण पुण भणिया जणणी आगच्छइ गोमई किं न ॥
 तीए भणियं मग्गेण तेण तुह वल्लहा गया वच्छ ! ।
 जेण पुणो न नियत्तइ अहं तु कत्थवि तथा न गया ॥
 कहिओ निय-बुत्तंतो य तस्स तेणावि जंपिया जणणी ।
 तुमए कयमुच्चियमिणं सढे सढत्तं नहि अजुत्तं ॥
 लोभाउ घण-निमित्तं चलिया सग्गं पि गोमई मूढा ।
 पंचत्तं सा पत्ता तमेवमसमंजसं दद्धं ॥
 वेरग्ग-मग्ग-लग्गो गुरु-पासे संजमं पवन्नो सो ।
 एसो सोहं तव-वस-पसरिय-मणपज्जव-न्नाणो ॥
 ता भो ! सुबंधु ! तुममवि विवर-पवेसाइणो बह्हु किलेसे ।
 काउं वंछसि घण-लोभ-परिगओ तं पुण न जुत्तं ॥
 देसंतराइं भमढउ पविसउ विवरम्मि लंघउ ससुहं ।
 आरुहउ नहं तहवि हु न पावए किं पि निपुत्तो ॥
 तो संतोस-परेणं इह परलोए य कुसल-कामेण ।
 उट्ठाहो-तिरिय-दिसासु गमण-माणं विहेयव्वं ॥
 तं सोऊण सुबंधू जंपइ धन्नो मुणिंद ! तुममेव ।

जो गोमईह चरियं दहुं दिक्खं पवन्नोसि ॥
 विसय-विवसो अहं पुण पवज्जं गिण्हिउं न सक्केमि ।
 किंचि कय-कुसल-लाहं काहं दिसि-गमण-परिमाणं ॥
 जोयणमेगं मुत्तुं उड्डु-दिसाए मए न गंतव्वं ।
 आजम्ममहो-लोए विवर-पवेसो न कायव्वो ॥
 त्तिरियं जलनिहि-तरणत्थमप्पणा पवहणे न चडियव्वं ।
 निय-नयराओ जोयण-सयस्स परओ न गंतव्वं ॥
 इय-दिसि-परिमाण-वयं मुणि-पय-मूले सुबंधुणा गहियं ॥
 तो एसो विहवत्थी महीयलं भमिउमाढत्तो ॥
 अगणिय-सरीर-डुक्खो बहु उवाए इमो कुणंतो वि ।
 पत्तो न फलं जेणंतराय-विगमे हवइ सिद्धी ॥
 गाम-नगरागराइसु भममाणेणं स-नियम-सीमंते ।
 पत्तेण तेण चित्तियमओ परं मे न गंतव्वं ॥
 एत्थंतरम्मि एसो भणिओ एक्केण जोगिणा एवं ।
 भइ ! तुमं किं दिससि विसन्न-चित्तो व्व मे कहसु ॥
 भणियं अणेण भयवं ! दारिइं मे विसाय-हेउ त्ति ।
 तो जोगिएण वुत्तं मह आपसं जइ करेसि ॥
 अंक-वडियं व दासिं विहेमि ता तुज्ज अणुचरिं लच्छिं ।
 भणियं सुबंधुणा कहसु मज्झ जं किं पि करणिज्जं ॥
 अह जोइएण भणियं—इहत्थि पव्वय-तले विवरमेक्कं ।
 तत्थत्थि जक्खिणी सा तुट्ठा घणमिच्छियं देइ ॥
 तत्थ मए सह पविससु, सुबंधुणा जंपियं मए विहिओ ।
 विवर-पवेस-नियमो जावज्जीवं गुरु-समीवे ॥
 जोगी जंपइ—गिरिणो इमस्स दो जोयणाइं तुंगस्स ।
 सिहरम्मि कूवियाए सहस्स-वेहो रसो अत्थि ॥
 गिरिमारुहिउं तं दोवि गिण्हिमो तेण साहिमो कणगं ।
 भणइ सुबंधू—उड्डुं जोयण-परओ मह निवित्ती ॥
 जोगी जंपइ—पवहणमारुहिउं जलहि-पर-तडं जामो ।
 तत्थ खणिऊण रोहण-गिरिम्मि रयणाइं गिण्हेमो ॥
 भणियं सुबंधुणा—पवहणम्मि चडिउं मए जलहि-तरणं ।

पुत्रं पञ्चक्लायं, तो भणियं जोगिणा एवं ॥
 ठाणाड इमाड जोयणेहिं बारसहिं अत्थि वित्थिन्नं ।
 सूरपुरं नाम पुरं तत्थत्थि महाबलो जक्खो ॥
 सो मग्गिओ समप्पह् शेवेण कलंतरेण भूरि धणं ।
 गंतूण तत्थ ववहरसु तेण जेणेसरो होसि ॥
 भणियं अणेण—मह निय-पुराड जोयण-सयं गमण-विसओ ।
 तं पुण्णमित्थ तत्तो अओ परं जामि न पयं पि ॥
 कुविएण व भणियं जोइएण जं जं उवायमक्खेमि ।
 तं तं तुमं निसेहसि अहो अहन्नोसि निवभग्ग ! ॥
 भणियं सुबंधुणा तो पसिऊण सुणेह् निच्छयं मज्झ ।
 नियमेण अभग्गेणं धणं न जह् होइ मा होड ॥
 सुक्ख-निबंधुणु पंच-दिण धण-लुअ अहिलसमाणु ।
 जम्म-परंपर-सुक्खकरु नियसु कु भंजह् जाणु ॥
 अह चत्त-जोगि-रुवो रवि-मंडल-भासुरो सुरो होडं ।
 सो जंपिडं पवत्तो तुमं महासत्त ! धन्नोसि ॥
 जम्मि समयम्मि तुमए सुणि-पय-मूले दिसि-व्वयं गहियं ।
 जक्खो गोसुह-नामो अहं पि तत्थेव आसि तया ॥
 किं अच्चत्थ-धणत्थी निय-नियमं पालिही नवा एसो ।
 ह्य चित्तिऊण विहिया मए परिक्खा इमा तुज्झ ॥
 तो अविचलेण सत्तेण तुज्झ तुट्ठो अहं इमं देमि ।
 कणयस्स लक्खमिक्कं गिणह् तुमं जंपह् सुबंधू ॥
 कह् नेमि नियय-गेहं इक्कोहं कंचणं इमं जक्ख ! ।
 तो जक्खेणुक्खिविडं खणेण सो निय-धरं नीओ ॥
 कणगं समप्पिडं से जामि त्ति पयंपियं गओ जक्खो ।
 विम्हिय-मणो सुबंधू दहं धम्म-प्पभावमिणं ॥
 पुज्झह् जिणं तिसंझं सुणीण दाणं निरंतरं देह ।
 सयल-सुहि-सयण-मग्गण-मणोरहापूरणं कुणह् ॥ १)
 ह्य दिसि-परिमाण-वयस्स पेक्खिडं सो इहावि माहप्पं ।
 सेसाइं पि वयाइं गुरु-पय-मूलम्मि पडिवन्नो ॥
 पज्जंत-कयाणसणो चित्तवभंतर-फुरंत-परमेट्ठी ।

मरिचं गओ सुबंधु सगं च कमेण मोक्खं च ॥
इति दिग्गते सुबन्धुकथा ।

वीर्यं शुण-व्वयं पुण भोयणओ कम्मओ य होइ दुहा ।
तं भोयणओ भोगोवभोग-माणं विद्देयव्वं ॥

सइ सुज्जइ त्ति भोगो सो पुण आहार-पुप्फमाईओ ।
उवभोगो य पुणो पुण उवसुज्जइ सुवण-विलयाई ॥
असणस्स खाइमस्स य चिरइं कुज्जा निसाइ जा जीवं ।
सुहु-मज्ज-भंस-भक्खण-पमुहाण य सव्वहा नियमं ॥
पनरस-कम्मादाणाइं कोट्टवालाइणो नियोगा य ।
तं कम्मओ पणीयं तत्थ करिज्जा वुहो जयणं ॥

पुरुषः पालयन् भोगोपभोगव्रतमादृतः ।
जयद्रथ इवाभीष्टं लभतेऽत्रापि जन्मनि ॥
तद्यथा भारतक्षोणीरमणीमणिकङ्कणम् ।
सुवर्णनिकराकीर्णमस्तिरत्नपुरं पुरम् ॥
यत्र त्रासः कुमणिषु सरोगत्वमम्भोजखण्डे
दण्डच्छत्रेष्वलिकफलकेऽलीकशब्दप्रवृत्तिः ।
चन्द्रापत्ये विद्युतनयता मारवाक् पुष्पचापे
नद्यां रोधस्तरुषु कलिकोपक्रमो न प्रजासु ॥
तस्मिन् घनरथो राजा रणे यत्तरवारिणा ।
कृतवैरियशोहंसप्रवासेन घनायितम् ॥
तस्य काञ्चनगौरस्य श्रीदेवी नाम देव्यभूत् ।
विष्णुं कृष्ण इति त्यक्त्वा या बभौ श्रीरिचागता ॥
तया सार्धं स सुज्ञानो भोगान् शन्येव वासवः ।
निर्भरानन्दनिर्मग्नो गमयामास वासरान् ॥
अन्यदा सुषुवे पुत्रं श्रीदेवी दिव्यदर्शनम् ।
तस्य ऋद्ध्या नृपो नाम जयद्रथ इति व्यधात् ॥
पारीणः सर्वशास्त्राणां धुरीणः सर्वशस्त्रिणाम् ।
क्रमेण वर्द्धमानोऽसावजनिष्ट जयद्रथः ॥
स स्त्रीनेत्रमृगम्बीडावनं यातेऽपि यौवनम् ।
नादध्रे भूसुजां पुत्रीः परिणेतुमुपस्थिताः ॥

कदाचिद्राजपुत्रोऽसौ पुत्रजन्ममहोत्सवै ।
 मन्त्रिणा मन्त्रगुप्तेन भोजनार्थं न्यमन्त्रयत् ॥
 समये तद्गृहं गत्वा स सर्वरसपेशलाम् ।
 भोक्तुं रसवतीं यावत् निषण्णः कनकासने ॥
 तावत्तत्र मुनिः कश्चिन् मासक्षपणपारणे ।
 भिक्षार्थं क्षमिणां धुर्यो धर्मो मूर्त्त इवागमत् ॥
 तं दृष्ट्वेन्दुमिवोदुन्वान् समुल्लासमुपागतः ।
 तस्मै निष्पापमाहारं मन्त्री पुण्यमतिर्ददौ ॥
 मांसानि घोलवटकानन्तकायानि चोत्क्षिपन् ।
 दातुं दत्तावधानेन साधुना स न्यषिध्यत् ॥
 मन्त्रिणा प्रणतः साधुर्निर्गतः स्वाश्रयं ययौ ।
 कुमारो भोजनं कृत्वा मन्त्रिणं पृष्टवानिदम् ॥
 मांसादीन्यग्रहीद्यन्न मुनिः किं तत्र कारणम् ।
 मन्त्र्यूचे देव ! नो वेद्मि न चाप्राक्ष्यं मुनिं तदा ॥
 यद्येषि त्वं तदा गत्वा पृच्छामः साम्प्रतं मुनिम् ।
 कुमारोऽवोचदीदृक्षा द्रष्टव्याः परमर्षयः ॥
 इत्युक्त्वा मन्त्रिणा सार्धं स मुनेराश्रमं ययौ ।
 मुनिं नत्वा पुरस्तस्य प्राञ्जलिर्निषसाद् च ॥
 साधुरग्रभवदावसमुत्थं विप्लवं प्रशमयंस्तनुभाजाम् ।
 कर्तुमारभत मन्द्रनिनादो देशनामृतवृष्टिमिवाब्दः ॥
 आर्यदेशकुलरूपबलायुर्बुद्धिबन्धुरमवाप्य नरत्वम् ।
 धर्मकर्म न करोति जडो यः पोतमुज्झति पयोधिगतः सः ॥
 कुमारोऽवसरेऽपृच्छत् किं त्वं मन्त्रिगृहं गतः ।
 मांसादीन्यतिहृद्यानि दीयमानानि नाग्रहीः ॥
 मुनिनोक्तं कुमारास्तां मुनीनां गृहिणामपि ।
 जिनैर्निषिद्धं मांसादि व्रते भोगोपभोगयोः ॥
 कुमारोऽवोचदाचक्ष्व मुने ! तत्कीदृशं व्रतम् ।
 भोगोपभोगयोः सर्वं स्वरूपं तस्यासावब्रवीत् ॥
 ततोऽसौ भोगयोग्यानां वस्तूनामकरोन्मितिम् ।
 तत्याजाजन्म भोगार्थं रात्रावशनखादिभे ॥

मधुमांससुरादीनां नित्यं विरतिमग्रहीत् ।
 उपभोगार्हवस्तूनां मानं कुर्वन्नसौ पुनः ॥
 एकैव स्त्री ममाजन्म भोग्येति प्रत्यपद्यत ।
 जगद्दे गृहिणां घर्मो मन्त्रिणा साधुसन्निधौ ॥
 उभावपि मुनिं नत्वा सद्धर्मप्रतिपत्तितः ।
 घन्यं मन्यौ मुदापूर्णौ स्वं स्वं गेहमगच्छताम् ॥
 अथ रात्रौ पितुः पादान् पर्युपास्य जयद्रथः ।
 अङ्गरक्षपरिक्षिप्तः प्रसुप्तः स्वनिकेतने ॥
 अरे ! गृहीत गृहीत हेति हत हतेति सः ।
 जल्पन्निशीथे पत्न्यङ्गादाकर्षन् स्वप्नमुत्थितः ॥
 तस्यैवं शब्दमाकर्ण्य पश्यद्भिः पत्तिभिर्दिशः ।
 ददृशे केसरी साक्षात् कृतान्त इव भीषणः ॥
 निजाङ्गमृगनिर्भेदभीतेन प्राभृतीकृताः ।
 कला इव सृगाङ्गेण यो दंष्ट्राः कुटिला ददौ ॥
 हस्तिभ्रान्त्याहतान्मेघादासैरिव तडिडुणैः ।
 कडारैः केसरैः कीर्णं स्कन्धदेशमुवाह यः ॥
 तं हन्तुं पत्तयो यावत् करवालानुदक्षिपन् ।
 निश्चक्राम सृगारातिस्तावत्पूर्णपदक्रमः ॥
 पत्तिभिर्वार्यमाणोऽपि कुमारस्तस्य पृष्ठतः ।
 ययौ शीघ्रमुभौ प्रासौ पुरप्राकारसंनिधिम् ॥
 वप्रं बद्धप्रतोलीकं ललङ्घे फालया हरिः ।
 विद्युदुत्क्षिप्तनाम्नाऽऽङ्गुकरणेन नृपात्मजः ॥
 प्राकारलङ्घनाशक्ता निवृत्ताः पत्तयः पुनः ।
 अशुं कुमारवृत्तान्तं जवाद्राज्ञे व्यजिज्ञपत् ॥
 कुमारान्वेषणं कर्तुं शोकमस्तोकमुद्रहन् ।
 चतुरङ्गचमूयुक्तः क्षमापतिर्निरगाद् गृहात् ॥
 कुमारपदचिह्नेन पथा गच्छन्बहिः पुरात् ।
 वैरोढ्या भवनेऽद्राक्षीत् कुमारं पत्तितं नृपः ॥
 भूपः समुच्छलन्मूर्च्छासमुच्छादितचेतनम् ।
 सद्यः शीतोपचारेण किञ्चित् स्वस्थीचकार तद् ॥

जगाद् च निवर्तस्व वत्स ! यामो निजं गृहम् ।
सोऽवदज्जीवितं धर्तुं नाहं क्षणमपि क्षमः ॥
किं नीतेन मया तस्मात्स्वामिन्नत्रैव पावकम् ।
प्रवेक्ष्यामि पुरो देव्यास्ततो रचय मे चिताम् ॥
को हेतुर्जीवितं धर्तुं न क्षमोऽसीति जल्पितः ।
मुहुः पित्रा कुमारोऽभून्नपयाऽवनताननः ॥
हियाऽसौ कारणं वक्तुं न शक्त इति चिन्तयन् ।
कथयास्मै स्वमित्रायेत्यूचे राजा जयद्रथम् ॥
सोऽवोचच्छ्रूयतां मित्र ! निशीथे जाग्रता मया ।
दृष्टाऽद्य पुरतो बाला काचिल्लोचनरोचना ॥
शरच्चन्द्राम्भोजोत्पलकलशकुन्दप्रभृतयो
भजन्ते येऽन्यस्त्रीवपुरवयवानामुपमितिम् ।
त एवास्यास्तेषां निखिलभुवनासम्भवरूपां
पुरस्ताद्विन्यस्ता दधति नियतं किङ्करकलाम् ॥
विवृत्तशफराङ्गनालवणिमानमातन्वती-
स्तथा मयि मुमोच सा सरभसं कटाक्षच्छटाः ।
विजृम्भितरतिभ्रमो रतिपतिर्षुहुर्मां हृदि
क्रुधेव निशितैः शरैः प्रववृते प्रहर्तुं यथा ॥
कथय कमलवक्त्रे ! का त्वमत्रागता वा
किमिति मृदुवचोभिर्वचम्यहं यावदेताम् ।
निभृतपदमकस्मादेत्य सिंहेन तावत्
झगिति कवलितैषा राहुणेवेन्दुलेखा ॥
तद्वार्थं गृहीतासिरुत्थितोऽहं स निर्गतः ।
तस्याहं पृष्ठतो लग्नः सोत्रागत्य गतः क्वचित् ॥
स्त्रियास्तस्या विपत्तिर्मे जीवितत्यागकारणम् ।
कथितस्तेन मित्रेण वृत्तान्तोऽर्थं महीभृतः ॥
राज्ञोक्तं सा विपन्नेति विषादं वत्स ! मा कृथाः ।
यदन्या अपि विद्यन्ते भूपकन्या मनोहराः ॥
किं च लज्जावहं वह्निप्रवेशासद्गहं त्यज ।
युक्तो नात्मवधः कर्तुं स्त्रीकृते कृतिनां यतः ॥

स्त्रीसिंहदर्शनं रात्रौ मायाप्येषा वितर्क्यते ।
 दुर्घटस्तत्प्रवेशो हि भन्दिरे पत्तिभिर्वृते ॥
 तदागच्छ गृहं वत्स ! भावधीर्मा स्वमृत्युना ।
 जायन्ते जीवतः पुंसः कल्याणान्घखिलानि हि ॥
 सोऽघोचत्सम्भवत्येषा तात ! मायापि किं त्विमम् ।
 वृत्तान्तं देवतां पृष्ट्वा करिष्ये यदिहोचितम् ॥
 कुरु प्रसादमत्रार्थं विघ्नं मे तात ! मा कृथाः ।
 इत्युक्त्वा पुरतो देव्या निपपात जयद्रथः ॥
 प्रधानपुरुषान् मुक्त्वा तत्याश्वेऽगातृपो गृहम् ।
 किमन्यच्छक्यते कर्तुं मानुषे हि दृढाग्रहे ॥
 सत्त्वाधारं निराहारं कुमारं कृतनिश्चयम् ।
 ससमाहर्निशि प्रोचे प्रत्यक्षीभूय देवता ॥
 भोः ! कुमार ! किमर्थं मामाराधयसि ? , सोऽब्रवीत् ।
 देवि ! स्त्रीसिंहवृत्तान्तं वद मे, दैव्यचीकथत् ॥
 अस्ति स्वस्तिमती नाम पुरी पारेपरेऽम्बुधेः ।
 योजनानां सहस्राणि सा बहूनि भवत्यतः ॥
 तां प्रशास्ति नृपः शूरो राजराज इवालकाम् ।
 न्यायविक्रमधर्माणामेको यः केलिमन्दिरम् ॥
 तस्यास्ति विजयादेवी स्मरस्येव रतिः प्रिया ।
 सा रूपनिर्जितश्रीकां श्रीमतीं सुषुवे सुताम् ॥
 सा क्रमादक्रमाधीतकला प्रासापि यौवनम् ।
 पुरुषद्वेषिणी केनाप्युद्वाहं सह नेच्छति ॥
 ततश्चिन्तान्घिनिर्मग्नो घावदस्ति धराधिपः ।
 तावन्नैमित्तिकः कश्चिदागमद् व्योमवर्त्मना ॥
 तं निवेद्यासने हैमे सत्कृत्य च नृपोऽब्रवीत् ।
 श्रीमत्या मत्सुतायाः को भावी भर्त्सेति कथ्यताम् ॥
 सोऽप्युवाच सहस्रेषु योजनानां बहुष्वितः ।
 पुरन्दरपुरप्रख्यमस्ति रत्नपुरं पुरम् ॥
 तस्मिन् धनरथो राजा तस्य स्रजुर्जयद्रथः ।
 सोऽस्याः पूर्वभवे भर्ता स एव स्यादिहापि च ॥

किंत्वेतयोर्विवाहेच्छा स्यात्परस्परदर्शने ।
 राज्ञोक्तमनयोस्तत्स्यादियद्दरस्थयोः कथम् ॥
 अथैव निशि कुष्माण्डी देवी तत्कारयिष्यति ।
 ब्राह्मणेऽहि विवाहं च तदाराधय तां नृप ! ॥
 इत्युक्त्वाऽगान्निमित्तज्ञो राज्ञाऽऽराध्यत देवता ।
 प्रत्यक्षीभूय साऽवोचत् किं कार्यं नृप ! , सोऽवदत् ॥
 जयद्रथकुमारस्य श्रीमत्याश्च परस्परम् ।
 यथा स्याद्दर्शनं देवि ! तथा मे कुर्वन्नुग्रहम् ॥
 स्ववाहनहरिर्देव्या नियुक्तः श्रीमतीमिह ।
 आनीय दर्शयित्वा त्वां पुनस्तत्रैव नीतवान् ॥
 इति स्त्रीसिंहवृत्तान्तः कुमार ! कथितस्तव ।
 तेनोक्तं देवि ! तत्राहं यथा यामि तथा कुरु ॥
 मांसं समर्प्य वैरोढ्या प्रोचे भुङ्क्ष्व झटित्यदः ।
 नभोगमनसामर्थ्यं येन स्यादद्भुतं तव ॥
 सोऽवददेवि ! मांसस्य प्रत्याख्यानमहं व्यधाम् ।
 देव्योक्तमधुनैवेदं तद्भि भक्षय दाडिमम् ॥
 अस्य प्रभावाद्येन त्वं तत्र गत्वा निवर्तसे ।
 तेनोक्तं कथमद्भीदं विरतो रात्रीभोजनात् ॥
 दिव्यकन्यां पुरस्कृत्य कुमारं देवताऽवदत् ।
 एतामुद्ब्रह्म येन स्यास्त्वं खेचरशिशरोभणिः ॥
 तेनोचे मैवमादिक्षः कन्यां यद्युद्ब्रह्माम्यहम् ।
 श्रीमत्युद्ब्रह्मवाञ्छा मे व्रतभङ्गाय जायते ॥
 एकैव ह्यस्तु मे पत्नीत्युपभोगव्रतं व्यधाम् ।
 ततः ऋधेव वैरोढ्या वक्तुमेवं प्रचक्रमे ॥
 न करोषि ममादेशं स्वार्थमर्थयसे च यत् ।
 तन्मूर्खोऽसि प्रभोर्वामः फलं कोऽप्यश्नुते नहि ॥
 तेनोक्तं देवि ! कुर्वेऽन्यद्दुःसाधमपि ते वचः ।
 व्रतभङ्गो पुनर्येन स्यान्न तत्कर्तुमुत्सहे ॥
 इत्यालोच्य व्रते दार्ष्यं वैरोढ्या तुष्टमानसा ।
 कुमारस्यार्पयामास गुटिके द्वे जगाद च ॥

करिष्यति मुखे क्षिप्ता तवैका व्योमगामिताम् ।
 द्वितीया त्वीप्सितं रूपमित्युक्त्वा देवता ययौ ॥
 कुमारः पश्यतां पुंसां शुटिकायाः प्रभावतः ।
 उत्पत्य क्षणमात्रेण पुरीं स्वस्तिमतीमगात् ॥
 श्रीपुञ्जश्रेष्ठिनो हृष्टे निषसाद् जयद्रथः ।
 पृष्टस्तेन कुतः को वा त्वं महात्मनिहागतः ? ॥
 कुमारो जल्पतिस्मात्र प्रासो रत्नपुरादहम् ।
 कौतुकेन भुवं आम्यन् राजपुत्रो जयद्रथः ॥
 स्थातव्यं मद्गृहे भद्र ! पितुर्गृह इव त्वया ।
 इत्युक्त्वा तं गृहे नीत्वा श्रेष्ठी खानाचकारयत् ॥
 तद्रूपालापशीलाद्यैः कुटुम्बं श्रेष्ठिनोर्व्यधात् ।
 कुमारे तत्क्षणात्प्रीतिः गुणाः प्रेम्णो हि कारणम् ॥
 श्रेष्ठिपुत्री विशेषेण स्वसेव प्रीतिमत्यभूत् ।
 द्वितीयेऽहि कुमारेण सा पृष्टा सादरं प्रगे ॥
 स्वसः ! किमद्य रात्रौ त्वं न दृष्टाऽथ जगाद् सा ।
 ममास्ति श्रीमती नाम आतर्भूपसुता सखी ॥
 तत्पार्श्वेऽहं स्थिता रात्रौ, सोऽवोचन्नय तत्र माम् ।
 साऽवदद्वीक्षते नैषा पुरुषद्वेषिणी नरम् ॥
 तेनोक्तं रमणीरूपं करिष्ये साऽभ्यघाततः ।
 एवमस्त्विति तत् कृत्वा सोऽगात् तत्र तथा समम् ॥
 उवाच श्रीमती केयं सखि ! श्रेष्ठिसुताऽवदत् ।
 मत्सखीयं कलास्तस्याः कापीत्यूचे नृपात्मजा ॥
 श्रेष्ठिपुत्री जगादैवं वेत्त्येषा सकलाः कलाः ।
 तदा च श्रीमती हंसीं विपुक्तां फलकेऽलिखत् ॥
 तां जयद्रथ इत्यूचे त्वया विरहपीडिता ।
 लिखितेयं परं नास्यास्तादृग् दृष्ट्यादि दृश्यते ॥
 तर्हि त्वमालिखेत्युक्त्वा फलकं वर्णकैः सह ।
 जयद्रथकुमाराय राजपुत्री समर्पयत् ॥
 लिखित्वा तादृशीं सद्यो राजहंसीं जयद्रथः ।
 श्रीमत्यै दर्शयामास तां सा दृष्ट्वैवमब्रवीत् ॥

आश्चर्यं चित्रचातुर्यं चित्ताभिप्रायसूचकम् ।
 तथा ह्यस्या दृशोर्युगं बाष्पबिन्दूनि च क्षरत् ॥
 प्रम्लानमाननं चञ्चूः शिथिलात्तमृणालिका ।
 ग्रीवाऽतीव श्लथा पक्षद्वन्द्वमुत्पतनाक्षमम् ॥
 शून्यं चेदमवास्थानमवस्थां विरहातुराम् ।
 आख्याति व्यक्तमेतस्या अनाख्यातामपि स्वयम् ॥
 कलाविदीदृशी कस्मादियत्कालं सखि ! त्वया ।
 नानीतेयं गृहे क्षिप्वा निधानमिव किं घृता ॥
 इत्यादिभिर्विनोदैस्तास्तस्थुः प्रीतिपराश्चिरम् ।
 श्रेष्ठिपुत्री कुमारश्च भोक्तुं स्वं सन्न जग्मतुः ॥
 (ततः स्वं सदनं गत्वा विलम्ब्य च कियच्चिरं ॥ —पाठान्तरम्)
 मध्याह्नेऽगमदेकाकी स्त्रीरूपेण जयद्रथः ।
 श्रीमत्याः पार्श्वमालापैः क्षणं नीत्वा जगाद् ताम् ॥
 रमणी रमणीयाऽपि विना पतिपरिग्रहम् ।
 ऋते सुवर्णसम्बन्धं मणीव न विराजते ॥
 ततः कञ्चिज्जगन्नेत्रानन्दनं नृपनन्दनम् ।
 विशालकुलसम्भृतं परिणेतुं त्वमर्हसि ॥
 राजपुत्री जगादैवं पूर्वं रूपादिभिर्गुणैः ।
 आत्मतुल्यमपश्यन्ती मर्त्यं कमपि नाश्रयम् ॥
 पश्चान्नैमित्तिकादिष्टदेवताराधनावशात् ।
 स मयाऽदर्शि यश्चित्ते दङ्कोत्कीर्ण इव स्थितः ॥
 लोकोत्तरगुणाधारं दूरस्थमपि तं विना ।
 न शक्यमपि भर्तारं कर्तुमिच्छति मे मनः ॥
 उवाचैवं कुमारस्त्री यद्येवं यौवनं तव ।
 भोगशून्यं वृथारण्ये मालत्या मुकुलं यथा ॥
 दविष्टः स यतस्तस्य पक्षौ नोत्पतनक्षमौ ।
 न नभोगामिनी विद्या कथं स्यात्तेन सङ्गमः ॥
 वल्लभे दुर्लभे सुभ्रु ! कुरुष्वान्यमपि प्रियम् ।
 किं हि शाल्योदनालाभे भुज्यते न युगंधरी ॥
 वभाषे श्रीमत्या न पतिमुचितं यद्यपि लभे

तथाप्यन्यं कर्तुं कथमपि न मे वाञ्छति मनः ।
 क्वचित् किं न प्राप्तं श्रवणप्रथमाख्यानकामिदं
 वरं शून्या शाला भवतु न पुनस्तस्करभृता ॥
 तथा देव्या विवाहो मे कथितो द्वादशे दिने ।
 दशाहानि गतान्यद्य द्वे दिने तिष्ठतोऽधुना ॥
 तयोर्मध्ये विवाहार्थं भ्रुवभेष्यति मे प्रियः ।
 सत्या हि देवतानाणी वामं स्फुरति चाक्षि मे ॥
 ममाङ्गं त्वत्करस्पर्शात् किं च रोमाञ्चमञ्चति ।
 त्वद्भक्तदर्शनादन्यत्कामयेते न लोचने ॥
 त्वद्वाक्येनादृतेनेव सिक्तमुज्जृम्भते मनः ।
 तदहं तर्क्याभ्येवं स्त्रीरूपेण त्वमेव सः ॥
 तं किं प्रत्यभिजानासि त्वमित्याख्यज्जयद्रथः ।
 हसित्वा श्रीमती प्रोचे किमत्रार्थेऽपि संशयः ॥
 कृष्ट्वाऽसौ गुदिकां वक्त्राज्जातः सहजरूपभृत् ।
 तं दृष्ट्वा विकसचक्षुः श्रीमती विस्मिताऽवदत् ॥
 अद्य पुण्यद्वमो नाथ ! फलितो मे त्वदागमात् ।
 त्वन्निमित्तमित्यत्कालं घृताः प्राणाः कुरुचितम् ॥
 किन्तु त्वं कथमायातरतत्र हेतुं जयद्रथः ।
 देव्याराधनमाख्याय जगाम श्रेष्ठिमन्दिरम् ॥
 राजा विदितवृत्तान्तो द्वितीयेऽह्नि जयद्रथम् ।
 गौर्यैव हिमबानीशं श्रीमत्या पर्यगाययत् ॥
 दिनानि कतिचित्तत्र स्थित्वा प्रीतिपुरत्सरम् ।
 गृहीत्वा श्वसुरानुज्ञां श्रीमतीं च जयद्रथः ॥
 गुदिकायाः प्रभावेण न्योम्ना स्वपुरमगमत् ।
 परितोषं परं पित्रोः शुचाविधुरयोर्व्यध्यात् ॥
 इति घनरथ-पुत्रः प्राप भोगोपभोग-
 व्रतविरचितचित्तश्चिन्तितं वरित्वहापि ।
 अयमधिगतमर्त्यामर्त्यशर्मा क्रमेण
 श्रुदितसकलकर्मा लप्स्यते मोक्षलक्ष्मीम् ॥
 इति भोगोपभोगव्रते जयद्रथकथा ॥

दोस-सुर्यंग-करंडो अणत्थ-दंडो अणत्थ-दुमसंडो ।
 जं तस्स विरमणत्थं तं वज्रंति गुण-व्वयं तइयं ॥
 तणु-सयण-घराईणं अत्थे जं जंतु-पीडणं दंडो ।
 सो होइ अत्थ-दंडो अणत्थ-दंडो उ विवरीओ ॥
 पावोवएस-अवज्झाण-हिंस-दाण-प्पमाय-भेएहिं ।
 चउहा अणत्थ-दंडो अणंत-नाणीहिं निदिट्ठो ॥
 करिसण-वणिज्ज-हय-वसण-छेय-गोदमण-पमुह-पावाण ।
 जो उवएसो कीरइ परस्स पावोवएसो सो ॥
 वरिसंतु घणा मा वा, भरंतु रिउणो, अहं निवो होज्ज ।
 सो जिणंड, परो भज्जउ, एवं चित्तणमवज्झाणं ॥
 हल-सुसल्लुक्खल-सगडगिं-खग्ग-धणु-वाण-परसु-पमुहाणं ।
 हिंसा-निबंधणाणं सम्पणं हिंसदाणमिणं ॥
 जं मज्ज-विसय-विकहाइ-सेवणं पंचहा प्रमाओ सो ।
 अह व घय-दुद्ध-तेल्लाइ-भायण-च्छायणालस्सं ॥
 कय-परपीडमसंबद्ध-भासणं वज्जरंति मोहरिअं ।
 तं पुण अणत्थ-दंडस्स पढममंगं ति मोत्तव्वं ॥
 होइ वयणं सुर्यंघं म्हुरो सद्धो तह त्ति जं भणियं ।
 आणं कुणंति तियसावि तस्स जो चयइ मुहरत्तं ॥
 वज्जिय-अणत्थ-दंडो खंदो जाओ निवो पुरिस-चंदो ।
 मोहरियं काउं किंचिं रुद्ध-जीवो दुहं पत्तो ॥

तं जहा—

अत्थि अंग-जणवयावयंस-कप्पा चंपा नयरी ।
 बहु-पोय-वाणियाणीय-श्यण-लोभेण आगओ जलही ।
 पायार-हय-पवेसो रेहइ परिहा-मिसेण जहिं ॥
 तत्थं समुल्लसिय-लोय-लोयणाणंदो कुरुचंदो राया ।
 रिउ-रमणी-आणण-काणणेसु त्रिलसंत-पत्तवल्लीओ ।
 नीयाड खयं तरवारि-वारिणा जस्स अच्छरियं ॥
 तस्स सयलंतेउर-तिलय-कप्पा वप्पा देवी ।
 जीए सरीर-लच्छिं नियच्छिउं अत्थि अच्छरिय-भूयं ।
 अच्छंति अच्छराओ समच्छराउ व्व छन्नाओ ॥

तीए पडिपुल्ल-चंद-सुविणय-सूइओ समुप्पन्नो पुत्तो । कयं रत्ता गरु-
य-रिद्धिए वड्ढावणयं । सुविणाणुसारेण निम्मियं से पुरिसचंदो त्ति नामं ।
सो पइदिणं पवड्ढमाणो कमेण कय-ज्जणाणंदो चंदो व्व जाओ सयल-कला-
कलाव-कुसलो । पत्तो पगरिसं गीय-कलाए । पवन्नो मणुल्ल-लावन्न-पुल्लं ता-
रुल्लं । अन्नया पयट्ठो वसंत-समओ ।

जस्सि दाहिण-मारुओ पसरए कामानल्लुहीवणो
देहं चच्चइ चंदणेण घुसिणं मुत्तूण इत्थी-यणो ।

हेमालंकरणो व्व मंजरि-जुओ चूओक्करो छज्जए

माणं माणवईण कोइल-रचो निव्वासए सव्वंओ ॥

तत्थ विसेसुज्जल-नेवत्थ-सच्छाय-काय-च्छवीहिं वयंसएहिं परिगओ
गओ कुमारो मणोरमुज्जाणं । पयट्ठो विविह-विणोएहिं कीळिउं ।

मुत्तुं तरु-कुसुमाइं अदब्भ-सोरब्भ-वासिय-दियंतं ।

सुह-पवण-परिमलमणुसरंति भमरा कुमारस्स ॥

अह कोउगेण कुमरो किंनर-सर-सुंदरेण सइेण ।

अन्नन्न-वन्न-संदोह-संगयं गायए गीयं ॥

तं गीयं गायंतं दड्ढं पप्फुल्ल-लोचणो लोओ ।

मन्नइ अमय-रसेण व सित्तं सव्वंगमप्पाणं ॥

कुमरो मणहर-रुवो गीयं महुर-रसरेण गायंतो ।

कस्स न हरेइ चित्तं जहा सुवन्नं च सुरहिं च ॥

तस्स गुण-रयण-निहिणो अणन्न-सरिसेहिं रूव-गीएहिं ।

रमणीउ विसेसेणं अवहिय-हिययाउ जायाओ ॥

तो जत्थ जत्थ कुमरो परिसक्कइ तत्थ तत्थ तप्पभिइं ।

परिचत्त-सयल-कज्जंतराउ तरुणीउ धावंति ॥

इमं असमंजसं दहूण विन्नत्तो नायरएहिं राया-देव ! जइवि निहोसो
कुमारो तहवि तग्गुणेहिं हय-हियओ नयर-नारीयणो न सम्मं वट्टेइ । ता तहा
कयव्वं देवेण जहा कुमारो भवणव्वंभंतरे चेव चिट्ठइ त्ति । तओ रत्ता भणिओ
सो—वच्छ ! वाहिं भमंतस्स कलव्भासो न होइ त्ति, गिइे चेव चिट्ठसु तुमं ।
तहेव तं काउमाढत्तो कुमारो । कयाए कत्तो वि निरोह-निमित्तमत्तणो सु-
णिऊण सिहो व्व पंजरत्थो एवं किच्चिरं चिट्ठिस्सामि त्ति चिंतंतो खग्ग-वीओ
निग्गओ नयराओ । परिव्वमंतो पत्तो पारियत्त-विसयं । ठिओ गाम-देउले ।

एस्थंतरे अत्यंगयं गयण-लच्छि-मणि-कुंडलं मत्तंड-मंडलं । विर्यभियं भमर-
माला-सामलं तिमिर-पडलं । दिदो कुमारेण नाइदूरे कणय-पुंजो व्व जलंतो
जलणो । गओ सो तत्थ कोउगेण । पेच्छए धाउं धम्मंते धाउवाइगे । पडउ
वसुहार त्ति जंपियं अणेण । तेहिं भणियं सागयं ति । उवविदो ताण समीवे
कुमरो । छुदो तेहिं जोगो सो कुमार-प्पभावेण वंतरेहिं न अवहरिओ त्ति
जाया कणग-सिद्धी ।

तो धाउवाइगेहिं विचितियं सुपुरिसस्स एयस्स ।
एस पभावो सिद्धं चिराउ जं कंचणं अज्ज ॥
गिण्हसु इमं ति भणिओ कुमरो कहिऊण तेहिं सब्भावं ।
तं तेण ताण दिन्नं इमा उदारण जं पयई ॥
तेहिं उदारत्तणओ मुणिओ सो एस राय-पुत्तो त्ति ।
छन्नोवि परिमलेणं कहिज्जइ किं न कप्पूरो ॥
तो विन्नत्तो कुमरो इमेहिं अम्हाण देसु ओलग्गं ।
दिन्ना इमाण सा तेण ते वि उल्लगिउं लग्गा ॥
भणिया कुमरेण इमे इण्हि तुम्हाण किं किलेसेण ।
सोऊण पुरिसचंदं नरिंदमिज्जइ दुयं तुम्हे ॥
अह सो परिबभमंतो क्रमेण कंपिल्लमागओ नयरं ।
नय-रंजिय-जण-निवहो नराहिवो तस्स नरसीहो ॥
तस्स त्थि सुया सुर-सुंदरि व्व सोहग्गसुंदरी नाम ।
रूवाइ-गुणवभहिया न खिवइ दिट्ठिं पुरिसमेत्ते ॥
लोयम्मि पुरिस-विद्देसिणी त्ति तत्तो गया पसिद्धि सा ।
तीइ गवक्ख-ठियाए दिदो कुमरो परिभमंतो ॥
पचक्ख-कामदेवो इमो त्ति भत्तीइ रायपुत्तीए ।
तं अच्चिउं विमुक्का कुवलय-माल व्व निय-दिट्ठी ॥
कुमरेण वि सा दिट्ठा रूवेण रइ व्व विम्हिय-मणेण ।
तीए भावो धावीइ लक्खिओ संनिहि-ठियाए ॥
को कत्थ व एस ठिओ त्ति जाणणत्थं इमीइ निय-धूया ।
पट्टविया सोवि ठिओ देवउल-गवक्खगे गंतुं ॥
अनीहमानोऽपि बलाद्देशज्ञोऽपि मानवः ।
स्वकर्मवातोत्पातेन नीयते तत्र यत्फलम् ॥

सो लिहइ सिलोगमिमं गवक्खगे तम्मि अद्ध-लिहियम्मि ।
 पडिया खडिया तत्तो कुमरेण पसारिउं हत्थं ॥
 अप्पसु इमं ति भणियं तो अप्पइ तस्स चित्त-पुत्तलिया ।
 पुन्न-प्पभावओ, सा अहिट्टिया देवघाह जओ ॥
 तं घावि-सुया दहूण विम्हिया कहइ नियय-जणणीए ।
 सावि नरिद-सुयाए कहिउं पुच्छइ किमेयं ति ॥
 सा भणइ राय-पुत्तो खु एस आसन-रज्ज-लाभो य ।
 अन्नस्स परिसी नहि पयईइ विणीय-परिणयया ॥
 भणियं घावीइ न इत्थ संसओ जं तए वि ससिणेहं ।
 सो सब्बविओ नहि रमइ कहवि हंती विणा हंसं ॥
 राय-सुयाए भणियं लिहियं किं तेण तो गवेसेउं ।
 घावीए कहियं से वज्जरियं राय-धूयाए ॥
 आसनं च फलंतरमिमस्स एवं विहेण लिहणेण ।
 घावी भणइ तुमं सो परिणेही किं फलं अन्नं ॥
 एवं तक्केमि अहं राय-सुया लज्जिया सपरितोसं ।
 इत्थंतरे वियरिओ मत्त-करी खंममुक्खणिउं ॥
 असमंजसमाढत्तो काउं अवगणिय-मिठ-पडियारो ।
 भंजिउमिमो पयट्ठो कल्लगंतेउरावासं ॥
 आउलमणेण रत्ता भणिउं जो सक्कए इमं वेत्तुं ।
 सो गिणहउ त्ति सोउं गय-वासं आगओ कुमरो ॥
 सो विज्जुस्सित्त-करणेण रायहत्थिम्मि तम्मि आरूढो ।
 वद्धासणो य गहिऊण अंकुसं तं वसीकुणइ ॥
 उवलन्निखऊण केणावि बंदिणा पडियमेत्थ समयम्मि ।
 ऊरुचंद-राय-पुत्तो जयइ कुमारो पुरिसचंदो ॥
 दिट्ठो य साहिलासं पुणो पुणो सो नरिद-धूयाए ।
 परितुट्ठेण निवेण कओ कुमारस्स सक्कारो ॥
 धूया भणाविया पत्थिवेण तुह पुत्ति ! एस उच्चिओ त्ति ।
 हरिस-वियसंत-वयणाइ चित्तिर्यं राय-पुत्तीए ॥
 एकं मह मणइट्ठो अन्नं ताएण एस आइट्ठो ।
 तं खलु संपन्नमिणं इट्ठं विज्जोवइट्ठं च ॥

अणुमयमिणं ति मुणिंओ तीए परितोसि-चिष-दंसर्णओ ।

कारविओ वीवाहो रत्ना सह पुरिसचंदेण ॥

करि-तुरय-रयण-भूसण-पटंसुय-पहुह-दाणओ रत्ना ।

सक्कारिओ कुमारो तीए सह सेवए विसए ॥

मुणिऊण इमं पिउणा नीओ नयरं सगोरवं कुमरो ।

ठविओ रत्ने गहिया सयं तु दिक्खा गुरु-सगासे ॥

भूवालेहिं निच्चमच्चिज्जमाणो नाएणेसो पालए रत्न-लच्छि ।

सचं सचं होइ तं जंपए जं तत्तो पत्तो सचवाह ति किच्छि ॥

अन्नया विउत्थिओ तस्स पत्थिवो भीमो । तस्सोवरि चलिओ चउरंग-
चमू-चमढियासेस-सेस-चूळा-रयण-चक्को पुरिसचंदो । पत्तो भीम-नयरं ।
भीमो वि काऊण जंताइ-डुग्ग-सामग्गिं निग्गओ नयराओ । पुरिसचंदेण वि-
समंतओ रोहियं नयरं । वीय-पायारो व्व कओ कुंजर-परिक्खेवो ।

तस्स कडगस्स वाहिं सलिलं तुहं किमेत्थ अच्छेरं ।

बहुयत्तणेण जलहिं पि सोसिउं तं खमं जम्हा ॥

सिन्नं विसन्नमेयं जल-विरहे तत्थ ठाउमचयंतं ।

वचिहइ सयं चिय सत्तु-सिन्नमिय हरिसिओ भीमो ॥

पहाणेहिं विन्नत्तो राया—देव ! जलाभावओ इत्थ न तीरए ठाउं, तो
संपयं अवक्कमिउमुचियं ति । पुरिसचंदेण वुत्तं-मा वचह विसायं । इण्हि चैव
भविस्सइ वुट्ठी । तओ तक्खणा तूल-लवो व्व लहुओ पाउब्भूओ गयणंगणे
घणो । सुयण-सिणेहो व्व सब्बओ वित्थरिओ सो । समरे सुहइ व्व
खग्ग-लट्ठिं पयट्ठो पयासिउं विज्जलेहं । मत्त-गओ व्व लग्गो गहिरं गज्जिउं ।
सुपुरिसो व्व वित्तं आढत्तो वरिसिउं समंतओ सलिलं । सेन्न-जण-मणोरहे
व्व सर-निवहे पय-पूरेण पूरिऊण विरओ । इमं च वइयरं मुणिऊण अमोह-
वयणो पुरिसचंदो ति भीयो भीमो । परिहिय-कंबलो कंठ-कय-कुहाडो उव-
णीय-पहाण-पाहुडो पडिवन्नो सेवं । समागओ निय-नयरं पुरिसचंदो । अत्थि
य तस्स सोहग्गसुन्दरी-गवभ-संभवो सुर-कुमारो व्व सयल-लोय-लोयणा-
णंदणो सेणो णाम णंदणो । गाहिओ कला-कलावं विसेसओ । सयल-सत्थ-पा-
रगो ति पत्तो पसिद्धिं । कुणइ बहूणां सब्बत्थ-संसओच्छेयं । कयाइ भरह-
रहस्स-वक्खाण-विसए दुण्हं गंधव्वियाण जाओ विवाओ । तन्निण्णए पमाण
भूओ कओ कुमारो । समागया दोवि तस्स पासं । मिलिओ वियड्ड-लोओ ।

दोहि वि निय-निय-पक्खं अक्खिऊण भणिओ कुमरो—कुमार ! सव्व-सत्थ-
परसत्थ-पारगो तुमं, ता छिंद संदेहं । कुमरो वि तासिं जाव निण्णयं जंपिडं
पयद्यो, ताव कम्म-दोसओ खुद्द-देवयाए कओ कुमारस्स वायावहारो । सो न
सक्कए किं पि जंपिडं । हा ! किमेयं ति विसन्नो सव्व-लोओ । कराविया रत्ता
बहु-प्पयारा मंत-तंताइ-किरिया । कुसामि-सेव व्व सव्वा सा जाया निप्फला ।
तत्तो राया पलविडं पयद्यो ।

हा पुत्त ! समत्त-कला-कलाव-कोसल्ल-भूसिय-सरीर ! ।
पत्तोसि देव्व-वसओ कह मूयत्तण-वसणमेयं ॥
अमयं पि जस्स पुरओ न चेय महुरत्तणेण हरइ मणं ।
तं जायमम्ह दुलहं तुह वयण-विणिग्गयं वयणं ॥
पत्तोसि जय-घडायं अखलिय-पसरेण जेण तुह मज्झे ।
तं कइया तुह वयणं कय-सवण-सुहं सुणिस्सामो ॥
एवमइक्कंते कित्तियम्मि काले समागओ तत्थ ।
काम-करि-विजय-सिंहो आयरिओ विजयसिंहो ति ॥
नाणा-विह-संदेहे जणाण सो हणइ ओहिनाणेण ।
तं नमणत्थं राया कुमरं वेत्तूण संपत्तो ॥
नमिओ गुरुं निविट्ठो पारद्धा धम्म-देसणा गुरुणा ।
दुत्तर-भव-पारावार-पार-गमणे तरी-तुल्ला ।
समयम्मि पुच्छइ निचो सेणकुमारेण किं कयं पावं ।
पुव्वम्मि भवे भयवं ! पत्तं मूयत्तणं जेण ॥
भणियं गुरुणा—पत्थिव ! इहेव आसी कुमार-गामम्मि ।
अन्नोन्न-नेह-सुत्ता खंदो रुदो अ दो मित्ता ॥
ते अन्न-दिणे दुन्निवि साहूण उवास्सयम्मि संपत्ता ।
तहिं तेहिं आयन्नियमणत्थदंड-व्वय-सरूवं ॥
तो वेत्तुं सम्मत्तं दोहिं वि गहियं अणत्थदंड-वयं ।
तं पालिडं अखंडं खंदो मरिडं गओ सग्गे ॥
अह जायम्मि चिवाए दुण्हं पुरिसाण दव्व-विसयम्मि ।
एक्केण कयं उत्तरमत्तेण न सक्कियं काडं ॥
तं उदिसियं सुहरत्तणेण रुहेण जंपियं एवं ।
मूओ इमो वराओ विसुत्तरं सक्कए काडं ॥

तं वयणमसंबद्धं वोक्तुं बद्धं अणेण मूयत्तं ।
 सो वि मरिऊण पच्छा सग्गे तत्थेव उप्पन्नो ॥
 चविऊण खंद-जीवो जाओसि तुमं नरिद ! जं तुमए ।
 चत्तो अणत्थदंडो तं पत्ता एरिसी रिद्धी ॥
 चविऊण रुद्ध-जीवो सेणकुमारो इमो समुप्पन्नो ।
 पत्तो इमो वि रिद्धि अणत्थदंड-व्वय-वसेणं ॥
 केवलमिभिणा विहियं जं पुव्व-भवम्मि किं पि मोहरियं ।
 तव्वसओ विहिओ देवयाइ वायावहारो से ॥
 इत्थंतरम्मि गुरुणो तव-प्पभावेण पडिहय-प्पसरा ।
 सा वंतरी रडंती नट्ठा मुत्तूण तं कुमरं ॥
 तो जाय-जाइसरणा नमिऊण गुरुं दुवेवि जंपंति ।
 मुणि-नाह ! सव्वमेयं सच्चं तुमए जमुवइट्ठं ॥
 थेवं पि हु दुच्चरियं विवाग-विरसं ति मुणियमम्हेहिं ।
 ता करिय रज्ज-सुत्थं काहामो संजम-ग्गहणं ॥
 अह गुरुणा वागरियं मणुयत्तं दुल्लहं चलं जीयं ।
 विसया विसं व विसमा दुग्गइ-गामणं विणा धम्मं ॥
 इय जाणिऊण जुज्जइ वियक्खणेणं खणं पि न पमाओ ।
 ते पणमिऊण सूरिं निय-गेहसुवागया दोवि ॥
 रत्ता भणिओ कुमरो कुरु रज्जमहं तु संजमं काहं ।
 भणइ कुमरो न रज्जं करेमि अणुभूय-पाव-फलो ॥
 तो पव्वइया दुन्नि वि रज्जं दाऊण भागिणेयस्स ।
 कय-तिव्व-तवा मरिडं कमेण सग्गं सिवं च गया ॥
 इति तृतीयगुणव्रते पुरुषचंद्रकथा ।

जं समणस्स व सावज्ज-जोग-वज्जणमरत्त-दुट्ठस्स ।
 तं सम-भाव-सरुवं पढमं सिक्खा-वयं भिति ॥
 जो राग-दोस-रहिओ गहिडं सामाइयं न खंडेइ ।
 सो सावओ वि साहइ सागरचंदो व्व पर-लोयं ॥
 इह जंबुदीव-भरहे सग्गो व्व सुरट्ठ-मंडलो अत्थि ।
 जत्थ अमर व्व मणुया रमणीओ अच्छराओ व्व ॥

तत्थ पुरी वारवई नव-वारस-जोयणाईं पिहु-दीहा ।
 जा केवल कणयमई सहइ सुमेरुस बहिणि व्व ॥
 पुहवीह एक-वीरो नरिंद-सोलस-सहस्स-पणय-पओ ।
 भरहइ-चक्कवटी नवमो कणहो निवो तत्थ ॥
 तस्सासि जेट्ट-चंधू बलदेवो नाम पबल-वाहु-बलो ।
 तस्स निसदो त्ति पुत्तो असदो जो सव्व-कज्जेसु ॥
 तस्स सुओ संजाओ निय-कुल-नहयल-अलंकरण-भूओ ।
 सागरचंदो चंदो व्व जणिय-जण-लोयणाणंदो ॥
 सिक्खिय-कला-कलावो सो संपत्तो कमेण तारुणं ।
 जं दहूण पगिहं चत्तो तियसेहिं रूव-मओ ॥
 मेहु व्व सिहीण रवि व्व पंकयाणं ससि व्व कुमुयाणं ।
 अचंत-वल्लहो सो संब-प्पमुहाण सव्वेसिं ॥
 अह तत्थ अत्थि वित्थिन्न-हत्थि-रह-तुरय-पत्ति-परिवारो ।
 निक्कवड-विक्कम-धणो धणसेणो नाम मंडलिओ ॥
 नव-कमल-गम्भगोरी कमल-मुही कमल-रत्त-कर-चरणा ।
 कमल व्व कमल-नयणा कमलामेल त्ति से धूया ॥
 सा जोव्वणं पवन्ना दिन्ना जणएण गरुय-रिद्धिए ।
 निव-उग्गसेण-अंशुवभवस्स नहसेण-नामस्स ॥
 तम्मि समयम्मि पत्तो तस्स गिहं नारओ नहयलेण ।
 वीणक्खमाल-भिसिया-पवत्तिया-छत्तिया-हत्थो ॥
 कन्नाइ तीह लाभे तिलोय-सामित्तणाभिसेए व्व ।
 परिओस-परिवसेणं न पूहओ नारओ तेण ॥
 तो कुविओ नहसेणस्स नारओ तग्गिहाड उप्पइलं ।
 सागरचंद-कुमारस्स मंदिरे ज्ञत्ति संपत्तो ॥
 अब्बुट्टाणासण-अग्घ-दाण-पणिवाय-पमुहसुवयारं ।
 कालं सागरचंदेण पुच्छिओ नारओ एवं ॥
 भयवं ! भुवणे भमिरेण किंचि अब्बसुयं तए दिहं ।
 भणियं रिसिणा दिहं, कुमरेण पर्यंपियं किं तं ॥
 तो नारएण कहियं—कुमार ! इत्थेव अत्थि नयरीए ।
 धणसेण-निवइ-धूया कमलामेल त्ति वर-रूवा ॥

जा वयणेण विरायइ सारय-पुन्निम-निस व्व चंदेणं ।
 अहरेण सहइ जा विहुमेण जलरासि-वेल व्व ॥
 छज्जइ अच्छि-च्छोदेहिं, जा तिरिच्छेहिं कामदेव्रस्स ।
 उच्छलिर-मच्छ-रिंछोलि-छाइया केलि-सरिसि.व्व ॥
 थलं-कमलिणि,व्व चलणेहिं सोहए जा सहाव-रत्तेहिं ।
 जंगम-लय व्व जा पल्लवेहिं लक्खिज्जइ करेहिं ॥
 तं सोज्जण कुमारेण भयण-सर-सल्लिएण संलत्तं ।
 किं सा कस्सइ दिन्नाऽदिन्न त्ति निवेइयं मुणिणा ॥
 भणियं कुमारेणं कहं तीए सह होज्ज संपओगो मे ।
 न मुणामि त्ति भणित्ता तियसरिसी गयणमुप्पइओ ॥
 पत्तो कमलामेलाए अंतियं तीइ विहिय-सव्वारो ।
 सो पुच्छिओ य तीए दिट्ठं अच्छेरयं किं पि ॥
 तो नारयेण वुत्तं बारवईए इहेव नयरीए ।
 नव-पंकयच्छि ! अच्छेरयाइं दिट्ठाइं दुत्ति मए ॥
 एक्कं सागरचंदो कुरूव-चूडामणी गुणिक्क-निही ।
 बीयं पुण नहसेणो कुरूव-सीमा अणत्थ-गिहं ॥
 इय सोउं सा बाला सागरचंदम्मि गाढमणुरत्ता ।
 नहसेणे उ विरत्ता महाविसं जेण कन्न-विसं ॥
 सा जंपिउं पवत्ता वाह-जलुप्पील-तीमिय-कवोला ।
 भयवं ! अहं अहन्ना जायं मह जीवियं विहलं ॥
 दिन्नाऽहं नहसेणस्स तस्स जणएण वेरिणा जइ वि ।
 तह वि न तं परिणस्सं किं तु मरणं करिस्सामि ॥
 जं पुण मणमणुरत्तं सागरचंदम्मि मज्झ तमजुत्तं ।
 जं पुन्न-विहीणाणं सिज्झंति मणोरहा कत्तो ? ॥

जओ—

जं मणु मूढह माणुसह वंछइ दुल्लह वत्थु ।
 तं ससि-मंडल-गहण किहिं गयणि पसारइ हत्थु ॥
 सा नारएण वुत्ता भव धीरा मा करेसु संतावं ।
 जं सो सागरचंदो तइ तिब्बं वहइ अणुरायं ॥
 तेण सह संपओगो कह मे होज्ज त्ति मा वियप्पेसु ।

जं दुग्धं पि वत्थुं घट्टइ चिय दिक्कमणुकूलं ॥
 एवं कमलामेलं बुद्धविद्यं नारयेण आगंतुं ।
 कहियं सागरचंदस्स सा तुमं इच्छइ मयच्छी ॥
 पुच्चं पि तप्पडत्ति सोडं सो आसि तीए अणुरत्तो ।
 सा तुममिच्छइ वाला इ कहिए दढयरं जाओ ॥
 तं चिय चिंतइ चित्ते सो तं चिय चित्त-पट्टए लिहइ ।
 तं चिय जंपइ जीहाइ नियइ सुविणे वि तं चेव ॥
 जइ हुज्ज अहं खयरो खगो व्व तो उड्डिऊण सहस त्ति ।
 पिच्छामि मुहं तीए इय संकप्पे कुणइ कुमरो ॥
 सो मिल्लइ नीसासे दीहुण्हे जेहिं आह्या संता ।
 मलिण-मुहा संजाया नृणं पास-ट्टिया भित्ता ॥
 सो तस्स समुल्लसिओ संतावो जत्थ सलिल-पसईए ।
 वित्ताउ तक्खणेणं छणंति सूसंति सुन्नंणे ॥
 चंदण-चंद-जलहा कयलीदल-पवण-कुसुम-सिज्जाओ ।
 न हरंति देह-दाहं विरहानल-संभवं तस्स ॥
 रज्जइ न गीय-नट्टाइएसु न कुणइ सरीर-सक्कारं ।
 न पयट्टइ कीलासुं सा नाऽऽहारं पि अहिलसइ ॥
 मुच्छा-मीलिय-नयणो पुणरुत्तं सो महीइ निवडंतो ।
 सिसिरो-वयार-करणे ण कहं वि पावेइ चेयन्नं ॥
 पसयच्छि ! पसीयसु देसु दंसणं किं करेसि महं कोवं ।
 खम इकं अवराहं इय जंपइ सो असंबद्धं ॥
 कज्जाऽकज्ज-हियाऽहिय-उच्चिया-ऽणुच्चियाइ-वत्थु-परमत्थं ।
 न मुणइ किं पि कुमारो सुन्न-मणो मज्ज-मत्तो व्व ॥
 दट्टूण तारिसं तं सुहिं सयणेहिं विभावियं एयं ।
 मयणास्स दसं नवमिं संपत्तो संपयं एसो ॥
 जइ पुण दसमिं दसं पि वच्चिस्सइ ता धुवं इमो मरिही ।
 इय चित्ता अकंता ते सब्बे आउली-भूया ॥
 इत्थंतरम्मि तत्थाऽऽगण संबेण पट्टओ होडं ।
 केलीइ ढक्कियं निय-करेहिं कुमरस्स अच्छि-जुयं ॥
 कमलामेले ! मिल्लसु नयण-जुयं मे वगोर-मिहुणं व ।

अज्ज तुह वयण-चंदस्स दंसणाओ लहउ तत्ति ॥
 एवं कुमरेण पयंपियम्मि संबेण भासिउं हसिउं ।
 नाऽहं कमलामेला कमलामेलो अहं किंतु ॥
 तो भणियं कुमरेणं अचिलंबं संब ! मज्झ मेलिहिसि ।
 कमल-दल-दीह-नयणं कमलामेलं तुमं चव ॥
 ताहे तेहिं कुमारेहिं मज्ज-पाणं कराविओ संबो ।
 सो मज्ज-पाण-मत्तो अब्भुवगच्छाविओ एयं ॥
 कमलमेला-मेलो मए कुमारस्स कारियव्वो त्ति ।
 अह मय-विगमे संबो एवं चित्तेउमाहत्तो ॥
 मत्तेण अब्भुवगयं अहो ! मए दुक्करं इमं वत्थुं ।
 ता कह निव्वहियव्वं जं रहस-कयं दहइ कज्जं ॥
 अहवा कायव्वं चिय समेणं विसमेण वा इमं कज्जं ।
 पुरिसस्स भूसणं जं भणंति पडिवन्न-निव्वहणं ॥
 इय चिंतिऊण संबेण गूढ-पुरिसेहिं झत्ति कारविया ।
 उज्जाणाउ सुरंगा कमलामेला-गिहं जाव ॥
 तं नारयस्स कहियं रहस्समिसिणा वि तीह बालाए ।
 पज्जुन्नकुमाराओ पन्नत्ती मग्गिया विज्जा ॥
 तव्वसउ विज्जाहर-रूवं काऊण सव्व-कुमरेहिं ।
 नहसेण-विवाह-दिणे कमलामेलं सुरंगाए ॥
 नेऊण तमुज्जाणं सागरचंदेण सह कुमारेण ।
 परिणाविया तओ ते परितुड्डमणा ठिया तत्थ ॥
 अह निय-गिहे अदट्ठं कमलामेलं गवेसमाणेहिं ।
 सयणेहिं कह वि दिट्ठा उज्जाणे कीलमाणी सा ॥
 विज्जाहर-रूवधरा दिट्ठा संबाइणो कुमारा य ।
 विज्जाहरेहिं हरिया इम त्ति मुणिऊण ते सव्वे ॥
 धणसेण-उग्गसेण-प्पसुहा चउरंग-सिन्न-संनद्धा ।
 जुब्बे समुज्जया निज्जिया य संबाइ-कुमरेहिं ॥
 तो जाणिय-वुत्तंतो जणइणो निग्गओ सयं सबलो ।
 कन्ना-कयग्गहे निग्गहेमि खयर त्ति जंपंतो ॥
 पयडिय-निय-रूवेणं संबेण विलग्गिऊण पाएसु ।

नारायणस्स 'कहिओ कल्ला-परिणयण-वुत्ततो ॥
 तो दिन्ना कण्हेणं सागरचंदस्स चैव सा कल्ला ।
 धणसेण-उग्गसेणा खमाविया उवसमं पत्ता ॥
 एवं कओ बिलक्खो नहसेणो खामिओ वि न पसन्नो ।
 धरिणी-पराभवेणं को वा कोवाउरो न ह्वे ? ॥
 सो काउं असमत्थो सागरचंदस्स विप्पियं किं पि ।
 छिद्दाणि मग्गमाणो कुविय-मणो गमइ दियहाइं ॥
 अह तत्थ समोसरिओ अट्टारस-मुणि-सहस्स-परियरिओ ।
 नव-कणय-कमल-गामी अरिद्धसामी तिजय-सामी ॥
 तस्स पय-प्पणमत्थं सागरचंदो गओ गयारूढो ।
 तं नमिऊण निसन्नो धम्म-कहं सोउमाढत्तो ॥
 लद्धूण दुल्लहं माणुसत्तमथिरं च जाणियं जीयं ।
 जइयव्वं जिण-धम्मै सुर-नर-सिव-सुक्ख-संजणणे ॥
 पुव्वं पडिबन्न-गिहत्थ-धम्म-संबंधि-वारस-वओ वि ।
 सो तीए देसणाए वाढं धम्मुज्जुओ जाओ ॥
 तत्तो चउइसीए निसाह् वाहिं मसाण-आसत्ते ।
 काउस्सग्गेण ठिओ सो सामाइय-वयं काउं ॥
 तं दहुं नहसेणेण चित्तियं अज्ज बहुय-कालाओ ।
 साहेमि निय-समीहियमिमस्स रिउणो विणासेण ॥
 रोसेणं तेण सागरचंद-मत्थए कुंडि-वओ ठविउं ।
 जल्लिर-च्चियं-उगाराणं भरिओ पावाण अप्पा य ॥
 अह वेयणा सरीरे संजाया तस्स जीवियंतकरी ।
 तह वि अविचलिय-चित्तो सो चित्तिउमेवमाढत्तो ॥
 मा ऊणसु जीय ! खेयं दीणत्तं दूरओ परिच्चयसु ।
 पुव्वाऽऽरोविय-पाव-हुमस्स जम्हा फलं एयं ॥
 कम्मं ऊणइ सयं चिय तस्स फलं मुंजए सयं जीवो ।
 तो कि परम्मि रोसो विवेइणो जुज्जए काउं ॥
 रे जीय ! तए पुव्वं समज्जियं किं पि जं अस्तुह-कम्मं ।
 तं निट्ठवइ इमो तुह अगणंतो अत्तणो बंधं ॥
 ता उवयारी एसो जुग्गो चिय तुज्ज तुट्ठि-दाणस्स ।

एयम्मि जइ पउस्ससि ता होसि कयग्घ-सेहरओ ॥
 इय तत्त-भावणाए वेयण-विहुरो वि अचल-सम-भावो ।
 मुत्तूण पइ-गेहं सागरचंदो गओ सग्गं ॥
 सो तत्थ तियस-सुंदरि-संदोहाणंद-यारि-मुह-चंदो ।
 सुह-सागरा-ऽवगाढो सागर-संखं गमइ कालं ॥
 इति सामायिकप्रते सागरचन्द्रकथा ॥

जं पुव्व-गहिय-सयल-व्वयाण संखेव-करणमणुदियहं ।
 देसावगासियं तं भणंति सिक्खावयं वीयं ॥
 जीवो पमाय-वहुलो पमाय-परिवज्जणे ह्वइ धम्मो ।
 ता कीरइ पइदियहं संखेवस्साऽवि संखेवो ॥
 सच्छंद-पयाराइं जहा अणत्थे पडंति डिंभाइं ।
 अनिजंति-य-वावारा जीवा निवडंति तह निरए ॥
 तेणाऽवाय-परंपर-विसम-विस-प्पसर-रुंभण-निमित्तं ।
 निदिट्ठं रक्खा-कंडयं व सिक्खावयं एयं ॥
 अणुवित्तीए वि ह्ठु ओसहं व जो कुणइ वयमिणं मणुओ ।
 पवणंजउ व्व पावइ सो इह लोए वि कल्ल्याणं ॥
 इत्थेव जंबुदीवे भरहम्मि वराड-विसय-अवयंसं ।
 कय-सयल-जणा-ऽऽणंदं नंदिरं नाम वर-नयरं ॥
 तत्थाऽऽसि विजयसेणो राया रिउ-भइ-निहलण-दक्खो ।
 समयगलं भवणं चिय न उण मणं जस्स कह्या वि ॥
 तत्थेव आसि जिणधम्म-निच्चलो निच्च-लोय-गोरव्वो ।
 गणणाऽइकंत-धणो धणउ व्व धणंजओ सिट्ठी ॥
 सयल-घरकज्ज-सज्जा बहु-लज्जा तस्स सज्जणी भज्जा ।
 देव-गुरू-भत्ति-जुत्तो पुत्तो पवणंजओ ताणं ॥
 घर-दासीए जाओ सरिसो रूवाइ-गुण-कलावेण ।
 सेहरओ से मित्तो निच्चो सव्वत्थ वि सहाओ ॥
 निय-निय-धावार-परा गमंति ते वासराइं सव्वे वि ।
 अह अत्थाण-निसन्नस्स विजयसेणस्स भूवइणो ॥
 सन्भूयवाहणा नाण-गग्ग-नेमित्तिएण विन्नत्तं ।

जायाइं कित्तियाइं पडु ! संपइ दुन्निमित्ताइं ॥
 तव्वसओ लोयाणं होही जं खास-सास-पसुहेहिं ।
 रोमेहिं महापीड त्ति देव ! संभावयामि अहं ॥
 रत्ता भणियं कित्तिय-दिणाइं होही इमा पीडा ।
 सुत्तं निमित्तिणा मयण-तेरिसिं जाव न हु पुरओ ॥
 किं कायव्वं इण्हि अज्ज वि सा मयण-तेरिसी दूरे ।
 होही अपेग-लोग-क्खओ त्ति खिन्नो दढं राया ॥
 करुणा-परेण रत्ता मंती जयसुंदरो इमं भणियो ।
 सोहसु किं पि उवायं जणस्स कुसलं हवइ जेण ॥
 तो भणियममच्चेणं इमस्स पक्खस्स तेरसीए वि ।
 नयरम्मि मयण-तेरसि-महूसवं देव ! कारवसु ॥
 जेण दुन्निमित्त-सीमा-घडणेण जणस्स होइ कल्ल्याणं ।
 रत्ता भणियो मंती जुत्तमिणं जंपियं तुमए ॥
 तो मयण-तेरसिमहो नयरे घोसाविओ अकाले वि ।
 पारद्धा रिद्धीए मयरद्धय-भंदिरे जत्ता ॥
 तो तरुणी-घट्टाइं कथ-वच्चरि-चारु-गाण-नट्टाइं ।
 घण-रूच-मरट्टाइं वणम्मि गंतुं पवट्टाइं ॥
 निक्खंता रह-कुंजर-तुरंग-जंपाण-चाहणाऽऽरूढा ।
 रयणा-ऽलंकार-पसत्थ-वत्थ-पवरा पुर-जुवाणा ॥
 पवणंजओ घणंजय-सिद्धि-सुओ तं महूसवं दट्टुं ।
 रहमाण्हिडं चलिओ किकर-नर-नियर-परियरिओ ॥
 पत्तस्स गोउरं तस्स रहवरो लण्णिऊण पडिखलिओ ।
 अभिसुहमित्तेणं दिन्न-सिद्धि-सुय-सागर-रहेण ॥
 पवणंजएण भणियं अरे ! ठिओ रुंभिऊण रह-मगं ।
 को एसो निययरहं परियत्तिय वच्चए किं न ॥
 तो सागरेण भणियं अरे ! परावत्तिऊण नियय-रहं ।
 किं वच्चिस्सामि अहं किं न कुणसि वच्चसे एवं ॥
 किं अप्पाणं केणावि भइ ! चागाइणा गुणेण तुमं ।
 जेट्टं ममाड मन्नसि जं एवं जंपसि सदप्पं ॥
 एवं परोप्परं कोव-निव्वभरं ताण उल्लुवंताणं ।

मिलिओ लोगो वोत्तूण नाय-मग्गं नियत्तो सो ॥
 कुल-रूव-कला-जोव्वण-घण-निव-सम्माण-दाण-पमुहेहिं ।
 नय-कारणेहिं विवसा गेण्हंति न दो वि ते सिक्खं ॥
 तह थक्केहिं रहेहिं रुद्धा लोयाण निग्गम-पवेसा ।
 ते सुणिय-वइयरेहिं भणिया जणएहिं आगंतुं ॥
 भो ! किं न कुग्गहमिणं मेल्लह जं एग-ठाण-वासीणं ।
 सयणाणं उवयारीण अणुचियं जुद्धमन्नोन्नं ॥
 निय-मंदिरेसु वच्चह रहे परावत्तिऊण जइ तुभे ।
 ता को घण-क्खओ किं वसणं को वा कुल-कलंको ? ॥
 अविमरिसियकारीणं खत्तिय-कुल-संभवाण अभिमाणो ।
 काउं जुज्जइ एसो, न दीहदंसीण वणिघाणं ॥
 एवं पल्लविएहि वि तेहिं न मुक्को दुरग्गहो कह वि ।
 तो अविणीए पुत्ते सुणिउं गेहं गया जणया ॥
 अह नाय-वइयरेणं नरवइणा पेसिया पहाण-नरा ।
 कुग्गह-गहिले दहुं सेट्ठि-सुए तेहिं भणियमिणं ॥
 भो ! पुव्व-पुरिस-विडविय-घणंसघ-मइणो मयं किमुव्वहह ।
 जं न सुणह नय-मग्गं अवगणह गुरूवएसं च ॥
 अत्तुक्करिसो जइ अत्थि तुम्ह गंतूण ता इओ चेव ।
 बाहु-सहाया देसंउतरम्मि विहवज्जणं कुणह ॥
 जो विडविय-बहु-दव्वो एही वरिसेण तुम्ह मज्झाओ ।
 अणिवारिय-दाणेणं च अत्थिणो सुत्थिए काही ॥
 सो चिय वच्चउ अखलिय-रहो परावत्तिऊण इयर-रहं ।
 तं ते तह त्ति पडिवज्जिऊण देसंतरेसु गया ॥
 इमिणा कमेण गेहाउ निग्गंतुं नव-घणज्जणं काउं ।
 इय तुट्टमणो दाहिण-दिसाइ पवणंजओ चलिओ ॥
 पुव्व-कय-सुकय-वसओ सो पत्तो पुंडरीप-तित्थम्मि ।
 तत्थउत्थि हय-विवक्खो वर-जक्खो पुंडरीयक्खो ॥
 अन्न-सुरेसु न चक्खुं पि खिवइ पवणंजओ जिणं मुत्तं ।
 तह, वि कुतुहल-वसओ जक्ख-हरं दहुमाहत्तो ॥
 अह तत्थ सत्थवाहो पइय-लोयावलोयणउक्खित्तो ।

अविभाविय-मुक्क-कमो महीइ खलिऊण निवडंतो ॥
 पवणंजएण घरिओ दक्खत्तणओ दया-परिगएण ।
 पवणंजओ य हिट्ठेण तेण नीओ नियावासं ॥
 मुंजाविऊण भणिओ पवणंजय ! वच्छ ! मज्झ धूयाए ।
 सुवणब्भुय-भूयाए घर-लच्छीए य होसु पई ॥
 पवणंजएण वुत्तं जुत्तमिणं किं तु अमुणिय-कुलस्स ।
 किं देसि मज्झ धूयं कहं च जाणामि से णामं ॥
 सो जंपिडं पवसो—अत्थि मही-रमणि-रयण-कंचीए ।
 कंचीपुरीइ लच्छीहरो त्ति नामेण सत्थाहो ॥
 अट्ठ-दस-कणय-कोडीण नायगो णेग-लोय-उवयारी ।
 अह तस्स घरे पत्तो बंभु त्ति निमित्तिओ पवरो ॥
 सम्माणेडं सो तेण पुच्छिओ निच्छिऊण भो ! कहसु ।
 नेमित्थिय ! मह आडं अओ परं कित्थियं कालं ? ॥
 होही मह धूयाए मणोरमाए इमीइ को भत्ता ? ।
 मज्झ अपुत्तस्स इमा घर-लच्छी कं व अणुसरिही ? ॥
 वुत्तं निमित्तिणा भद्द ! जीवियं जाव तुज्झ छम्मासा ।
 अंतं सत्त दिणाइं तिच्चा सिर-वेयणा होही ॥
 धूया कमल-दलच्छी तुह घर-लच्छी य सुकय-केलि-गिहं ।
 वइदेसियमणुसरिही पुरिसं पवणंजयं नाम ॥
 सो य तए नायव्वो स-प्पुरिसो पंच-जोयणंतरिए ।
 तित्थम्मि पुंडरीए गएण जक्खस जत्ताए ॥
 जो खलिऊण पडंतं तुमं धरिस्सइ इमो धुवं सो त्ति ।
 तं सोऊण विसज्जिय-निमित्तिणा चित्थियं तेण ॥
 हा ! विरसो संसारो जीवाण तरंग-भंगुरं जीयं ।
 तो जामि तत्थ तित्थे जाव न वच्चामि मच्चु-मुहं ॥
 अन्नहं हरिही राया घरसारं इय विणिच्छिडं चित्ते ।
 सो इह तित्थे पत्तो वेत्तुं सब्बं पि म्भिय-विभवं ॥
 एसो सोऽहं खलिऊण निवडमाणो य रक्खिओ तुमए ।
 ता मह धूयं परिणेषु गेह-लच्छिं वि गिण्हेसु ॥
 तो तेण सुह-सुद्धत्ते मणोरमाए कर्यं कर-ग्गहणं ।

पत्तो य सत्थवाहो परं पमोयं कयत्थो त्ति ॥
 कहवय-दिणाऽवसाणे संजाया सीस-वेयणा तस्स ।
 तो निच्छियं अणेणं आसन्नं अप्पणो मरणं ॥
 घण-कणय-रयण-पमुहं परिग्गहं अप्पिऊण सव्वं सो ।
 पवणंजओ अणेणं सप्पणयं जंपिओ एवं ॥
 वच्छ ! तुह किच्च-कहणं धवलीकरणं ससिस्स व अजोत्तं ।
 तह वि गुरु-नेह-विवसो भणामि तुहमवहिओ सुणसु ॥
 घरलच्छीए सहिया समप्पिया तुह मए[इमा]धूया ।
 ता वट्टिज्ज इमीए तहा जहा संभरइ न ममं ॥
 थेव-दिणाइं थिरोऽहं जं जमदूइ व्व दुस्सहा मज्झ ।
 जाया सिरम्मि वियणा भणियं पवणं जएणेवं ॥
 ताय ! किमेवं तुममाउलो सि तुह झत्ति वाहि-विडंसं ।
 काहामि ओसहेहिं विसिट्ठ-विज्जोवइट्ठेहिं ॥
 लच्छीहरेण भणियं धम्मो च्चिय वच्छ ! ओसहं इण्हि ।
 जं सक्को वि न सक्कइ तुट्ठंतं संधियं जीयं ॥

तत्तो सो समए[कय]निय-कुलो-चियंत-किच्चो पत्तो पंचत्तं । कयं से सो-
 गनि-भरेण पवणंजएण पारलोइयं कम्मं । कह वि निवारिया रुयंती मणोरम
 गमियाइं तत्थेव कह वि दिणाइं । गहिऊण उचियाइं कयाणयाइं कहिऊण
 पुव्व-वइयरं मणोरमाए चलिओ निय-देसं । मग्ग-नगरेसु ववहारेण तेण अज्जि-
 याउ दुन्नि सुवन्न-कोडीओ । पत्तो सो निय-नयरं । आणंदिय-सयणो पविट्ठो
 तत्थ । वित्थरेण अणदिणाइं दिन्नाणिवारियदाणो(?)सलहिओ रायाइ-लोएण ।
 सागरो वि गओ उत्तर-दिसं । अत्थं विणा न सक्कए अत्थमुवज्जिउं । तहावि-
 महाकट्ठेण अज्जिया पंच दीणार-सहस्सा । आसन्ना मयण-तेरसि त्ति सहाय-
 संगतो आगतो निय-नगर-नियड-गामे । निसाए सुत्तस्स तस्स सव्वस्सं गहि-
 ऊण पलाणा सहाया । विउद्धो सागरो चरम-जामे । हा ! मुट्ठो सहाएहिं ति
 विसन्नो चित्तेण, पवणंजओ वि एवमागतो भविस्सइ त्ति पविज्जे(ट्ठो?) लज्जंतो
 वि निसाए वि नियघरं । नाय-वुत्तंतेण भणिओ जणगाइणा—रहस-कयकज्ज-
 स्स एरिसो चेव विवागो त्ति । आणाविओ सागरेण गोउराओ रहो । हसिओ
 सो जणेण । गरूयाण चडण-पडणं ति थिरीकओ पिउणा । पवणंजओ वि सव्व-
 त्थ गिज्जंतणुणो अखलिय-रहो भमिओ मयणूसवे । गमेइ कालं सुहेण । सागरो

वि गरुया-ऽमरिसो तस्स मारणोवाए चित्तेइ । अन्नया चाउम्मासियदिणे पडि-
वन्न-पोसहेण जंपिओ पिडणा पवणंजओ—वच्छ ! तुमं पि कुणसु पोसहं । पु-
त्तेण वुत्तं—ताय ! न सक्केमि किं पि काउं । पिडणा भणियं—तहा वि गेहवा-
हिं गमणं वृज्जिअण कुणसु देसावगासियं । अणिच्छंतेणाऽवि तह त्ति. कयं ज-
णयाणुवत्तीए । पिड-पासे चिट्ठंतस्स आगओ गेहदासी-सुओ सेहरओ । तेण
भणियं भो ! पवणंजय ! सहस्सक्खेण इंदियालिएण महायणस्स पुरओ पा-
रद्धमिंदयालं । तत्थ तुहाऽऽहवणत्थं महायण-पेसिओ पुरिसो आगओ त्ति ।
पडिवन्न-देसावगासिएण पवणंजएण अदिन्न-पच्चुत्तरे भणिओ सो सिट्ठिणीए—

पवणंजय-नेवत्थं काउं सेहरय, ! वच्छ ! गच्छ तुमं ।
तुममेव जणो सरिसत्तणेण पवणंजयं सुणिही ॥
सो वि हु तहेव काउं गंतूण महायणस्स मज्झम्मि ।
उवविट्ठो रयणीए पेक्खणयं दट्ठुमाढत्तो ॥
अह पुव्व-वेर-विबसेण डुविह-तम-रुद्ध-दिट्ठि-पसरण ।
छुरियाह सेहरो सागरेण पवणंजओ त्ति हओ ॥
अहह ! ! पवणंजओ मारिड त्ति लोयाण कलयलो जाओ ।
इयरो पुण संखुद्धो न सक्किओ नासिउं सहसा ॥
तलवर-भडेहि रुद्धो खित्तो गुत्तीह निवइ-वयणेण ।
केणवि नरेण सिट्ठं सिट्ठिस्स घणंजयस्स इमं ॥
तं वुत्तंतं सोउं विसन्न-चित्तेण सिट्ठिणा भणियं ।
हा ! ! सागरेण निहओ सेहरओ ताव सूढेण ॥
अह लहिही वराओ विणासमेसो वि दिअसेट्ठि-सुओ ।
पवणंजएण वोत्तं मोयाविस्सामि ताय ! मिणं ॥
सो तेण घणं रन्नो दाउं मोयाविओ पहायम्मि ।
पवणंजओ जणेणं पसंसिओ सुकयकारि त्ति ॥
सो पिडणा संलत्तो जुत्तं जं मोहओ इमो तुमए ।
अवयारिम्मि वि करुणा कज्ज त्ति जिणेहिं जं कहियं ॥
अवयारयम्मि निहए सच्चा वि सक्कहा-निहणं [होह] !
उवयारमारिए पुण तम्मि चिरं चिट्ठए एसा ॥
पवणंजओ न पत्तो निहणं देसावगासियं काउं ;
इहरा सेहरयस्स व तस्स अणत्थो इमो होज्जा ॥

तप्पभिहं जिणधम्मं काऊण चिरं विसुद्ध-भाव-जुओ ।
 सग्गापवग्ग-सुक्खं कमेण पवणंजओ लहिही ॥
 इति देशावकासिकव्रते पवनंजयकथा ॥

आहार-देह-भूसण-अर्धम-वाचार-चाय-रूवं जं ।
 पव्वेसु पोसहं तं तइयं सिक्खा-वयं विति ॥
 अट्टमि-चउइसी-पसुह-पव्व-दियहेसु जो कुणइ एयं ।
 पावइ उभय-भवेसुं सो रणसूरु व्व कल्लाणं ॥
 अत्थिऽत्थ जंबुदीवे भारहवासम्मि मज्झिमे खंडे ।
 महि-महिलाए कंचण-कंची कंचणपुरी नयरी ॥
 जीए पायारं पक्खिणो वि न खमंति लंघिउं तुंगं ।
 तल्लंघण-कय-कंखा हुंति विलक्खा खलु विपक्खा ॥
 तत्थ नरिंदो अमराउरीइ इंदो व्व आसि रणसूरो ।
 जस्स पयावेण हया अरिणो गिरिणो व्व वज्जेण ॥
 तस्स मणे मणिमय-दप्पणे व्व विमले सया वि संकंता ।
 सिरिकंता नाम पिया सयलंतेउर-तिलय-तुल्ला ॥
 तीए अणन्न-सरिसं रूवं दहुं कोलहल-वसेण ।
 सग्गद्विया वि तियसा अणमिस-नयणा धुवं जाया ॥
 तव्वयण-दंसणं चिय राया रज्जं पि मुणइ सग्गं व ।
 तव्विरहे पुण एसो मन्नइ नरयं व रज्जं पि ॥
 अह अन्न-दिणे अत्थाण-मंडवे जाव चिइइ नरिंदो ।
 उव्वमड-भड-परियरिओ तारय-सहिओ ससहरु व्व ॥
 कत्तो वि ताव पत्तो कराल-करवाल-खेडय-सणाहो ।
 निव्वमय-भयंकरो भिउडि-भीम-भालो भडो एक्को ॥
 अत्थाण-मंडवत्थं भड-सत्थं पिच्छिउं अवन्नाए ।
 दंसिय-अणन्न-दप्पो रायाणं भणिउमाहत्तो ॥
 किं न कुणसि जिणधम्मं विसए द्विय सेवसे विगय-संको ।
 किं निय-बल-दप्पेणं मच्चु-भडाणं न बीहेसि ॥
 ता अच्छं तु जम-भडा सुरासुराणं पि दप्प-दलणा जे ।
 एक्केण मए वि समं जुज्झसु जइ अत्थि बाहु-बलं ॥

अह हत्थि-तुरय-रह-सुहृद-संतियं तुज्झ अत्थि सामत्थं ।
 ता तं पयडेसु तुमं जेण खणं तं पि पेक्खेमि ॥
 इय मुणिकुण निवेणं तस्स वहत्थं भडा समाइहा ।
 न निसामियं इमेहिं चित्तंगएहिं व निव-वयणं ॥
 लिप्प-यडिय व्व लिहिय व्व जाय-निद्द व्व मज्ज-मत्त व्व ।
 आइहा वि निवेणं ठिया भडा निच्चला सव्वे ॥
 तो रोस-परवसेणं नरवइणा कड्ढिओ नियय-खग्गो ।
 तस्स भडस्स वहत्थं हत्थाओ निवडिओ सो वि ॥
 १....

कुविय-कयंत-कडक्खियस्स खिविऊण दंसंगुलीड वयणम्मि (?) ।
 चलणेसु मज्झ लगेसु तुमं जइ जीवियं महसि ॥
 जं पुण कड्ढुसि खगं तस्स फलं पावसु त्ति भणिकुण ।
 केसेसु निव गहियं झत्ति गयणं गतो सुहृदो ॥
 जोयण-सयाइं नेऊण पंच तिरियं अरन्नमज्झम्मि ।
 सुक्को सुहृदेण निवो सयं तु कत्थ वि गतो एसो ॥
 तो चित्तिडं पवत्तो राया दुब्बिलसियं अहह ! विहिणो ।
 सा कत्थ राय-लच्छी मज्झ सा कत्थ य अवत्था ? ॥
 सुविणे वि जं न दीसइ जं चित्तिज्जइ मणे वि न कयावि ।
 सुहमसुहं वा पुरिसस्स दंसए तं विही सव्वं ॥
 न तथा दुहावए मं घण-परियण-सयण-रज्ज-विद्धंसो ।
 सिरिकंता-देवीए विरहो जह दूमइ मणं मे ॥
 देवीए विरहिओ अहं खणं पि न खमामि जीवियं घरिडं ।
 देवी वि मज्झ विरहे मरणं पत्त त्ति तक्केमि ॥
 ता किं मरण-कएऽहं पडामि तुंगाओ सेल-सिंगाओ ।
 जाला-कराल-भीमै किं वा जलणम्मि पविसामि ॥
 किं वा तरु-साहाए पासं कंठम्मि अप्पणो देमि ।
 गहिरम्मि नई-तीरे किं वा देहं पवाहेमि ॥
 अह वा काडरिसोऽहं जो मरण-मणोरहे करेमि मणे ।
 जं दुस्सहे वि वसणे धीर चिय हुंति सप्पुरिसा ॥
 इय चित्तिऊण रत्ताऽरत्ते चंकम्मिडं पयट्टेण ।

दिद्वो सहयार-तले तवो व्व मुत्तो मुणी एक्को ॥
 नमिऊण भत्ति-पुव्वं रत्ता विम्हिय-मणेण सो भणिओ ।
 भयवं ! तुह तिहुयण-लोय-लोयणा-SSणंदणं रूवं ॥
 ता किं तुमं पवन्नो दिक्खं नव-जोव्वणं वि वट्ठो ? ।
 किं वा सुण्णमरणं एगागी सेवसे एवं ? ॥
 सुणिणा भणियं सुणिडं असासयं रूव-जोव्वण-प्पसुहं ।
 घत्ता गिण्हंति वयं भव-SSन्नवोत्तारण-तरंडं ॥
 सुहि-सयण-वग्ग-मज्झे निवसंतस्स वि न होइ मणुअस्स ।
 केणाऽवि परित्ताणं मरणाम्मि उवट्ठिए संते ॥
 तुह एयं पच्चक्खं भडेण इमिणा ह्ठेण धिप्पंते ।
 सुहि-सयण-परियणेहिं न रक्खिओ जं नरिंद ! तुमं ॥
 भणियं रत्ता भयवं ! दिव्व-त्ताणी तुमं तओ कहसु ।
 किं इत्थ अहं खित्तो निक्कारण-वेरिणा तेण ॥
 सुणिणा भणियं सुहडो न वेरिओ तुज्झ किं तु उवयारी ।
 पंचम-कप्प-निवासी एसो अमियप्पिओ देवो ॥
 मह पणमण-ऽत्थमित्थाऽऽणएण एएण पुच्छिओ म्हि अर्यं ।
 को मह चवियम्मि सुरो मज्झ विमाणम्मि होहि त्ति ? ॥
 नाणेण मए कहिओ तुमं विमाणम्मि तम्मि भावि-सुरो ।
 तुमसुहिसियं देवेण पुच्छिओ हं पुणो वि इमं ॥
 भयवं ! किं जिणघम्मं सो कुणह न व त्ति तो मए कहियं ।
 तुमए इह आणीओ गिणिह्हिइ गिहत्थ-घम्मं सो ॥
 इय सोऊण सुरेणं अप्पाणं पयडिडं पयंड-भडं ।
 सुहडे सहानिसत्ते य थंभिडं तुमसिहाणीओ ॥
 ता जिणघम्मं पडिवज्जिऊण पालसु तुमं महाराय ! ।
 जेण परलोय-पत्तो कल्लाण-परंपरं लहसि ॥
 इय मुणि-वयणं सोडं पडिवन्नं सावगत्तणं रत्ता ।
 संवेग-माणसेणं एसो य अभिग्गहो गहिओ ॥
 अट्ठमि-चउइसीसुं कायव्वं पोसहं निसासु मए ।
 तं पुण न पारियव्वं न जाव सूख्खमो होइ ॥
 अह पच्चक्खीहोडं भणियं अमयप्पियेण देवेण ।

एवं किलेसिओ जं तुमं मए खमसु तं राय ! ॥
 रत्ना भणियं एसो मज्झ किलेसो वि कुणह परिओसं ।
 जत्थ मए जिण-धम्मो ति-लोय-चिंतामणी पत्तो ॥
 खिविज्जण अह अरत्ते तुमए लंघाविओ छि भवरत्तं ।
 धम्म-पडिवज्जणेणं ता उवयारी तुमं मज्झ ॥
 इय सोऊण सुरेणं मुणिंद-पय-पंकए कय-पणामो ।
 नेऊण कंचणपुरे मुक्को निय-मंदिरे राया ॥
 कय-सव्व-जणा-SSणंदो जिणिंद-पूया-परायणो राया ।
 मुणि-पञ्जुवासण-परो परमा-SSगम-सवण-विहिय-मणो ॥
 रह-जत्ता-कथजत्तो समत्त-सत्ता-SSभयं पयासंतो ।
 पव्वेसु पोसह-वयं पडिवज्जंतो गमह कालं ॥
 अन्न-दिणे रयणीए जाओ अंतेउरम्मि अक्कदो ।
 तं सोऊण निवेणं पयंपियं हा ! किमेयं ति ? ॥
 कहियं पडिहारीए संपह अंतेउरम्मि तुह देव ! ।
 एक्को पुरिसो पत्तो कत्तो वि अतक्किया-SSगमणो ॥
 हा ! पाणनाह ! मं रक्ख रक्खसेणं अणेण णिज्जंतिं ।
 इय विलवंतिं देवि गहिऊण सो गओ गयणे ॥
 तं सोऊण नरिंदो अक्कड-क्कड-प्पहार-विहुरु व्व ।
 मुच्छा-निमीलिय-SSच्छो घस त्ति घरणी-यले पडिओ ॥
 अक्कद-परेणं परियणेण सिसिरोवघार-करणेण ।
 सत्थीकओ नरिंदो आढत्तो विलविउं एवं ॥
 हा ! चंद-वयणि ! हा ! अमय-वयणि ! हा ! कमल-नयणि ! देवि ! तुमं ।
 हा ! ईस-गमणि हा ! रमणि-मउलि-मणि ! कत्थ दीसिहिसि ? ॥
 जह मालईह विरहे भमरो जह कमलिणीह कलहंसो ।
 पावह न कहिं पि रई तह तुह विरहे अहं देवि ! ॥
 वंदीहिं पडिज्जंतं खोपी-रक्खण-खमं पि बाहु-बलं ।
 सोउं अहं न सक्को जस्सेवं हीरह कलत्तं ॥
 विरहे सिरिक्कताए अक्कतो तह निवो विसाएण ।
 जह सुख-दुक्ख-निसि-दिवस-छुहा-पिवासाउ न मुणेह ॥
 परिचत्त-रत्त-कज्जो निरुद्ध-नीसेस-काय-वावारो ।

मरण-कय-ऽज्झवसाओ विन्नत्तो मंतिणा निवई ॥
 देव ! न जुत्तं तुम्हाणं एरिसं सोय-करणमणवरयं ।
 पहुणो वि चितयाए जेण विसीयइ जगं सव्वं ॥
 सामिम्मि विसन्न-मणे को अन्नो हरिस-निब्भरो भमइ ।
 मेहच्छन्ने सूरे अंधारिज्जइ न किं भुवणं ? ॥
 इय जा जंपइ मंती ता वायस-सर-वियक्खण-नरेण ।
 इक्केण इमं भणिओ राया वायस-सरं सोउं ॥
 देव ! इमो महुर-सरो वासंतो वायसो कहइ एवं ।
 तुह देवी-संजोगो होही उत्तर-दिसि-गयस्स ॥
 ता अविलंबं कीरउ पयाणगं देव ! उत्तर-दिसाए ।
 तुह रत्त-पंच-मज्झे जेण पिया-संगमो होइ ॥
 तो भणियममच्चेणं देव ! इमो दिइ-पच्चओ पुरिसो ।
 सउण-बलेणं जं किं पि जंपए होइ तं सव्वं ॥
 इय सोऊण नरिंदो सहसा पत्तो अमंदमाणंदं ।
 चउरंग-चमू-कलिओ चलिओ उत्तर-दिसा-समुहं ॥
 सो खुड-मुड-हरिणं-ऽगणाण दइण लोयण-विलासे ।
 देवीइ दंसिया किं इमाण एए त्ति चितंतो ॥
 मोर-कलावा देवीइ केसपासो विनत्ति(?) मघंतो ।
 देवी-वर-हसिय-सिया दुम-कुसुम-भर त्ति भासंतो ॥
 देवी-कर-चलणाणं सहोयरा पल्लव त्ति तुल्लंतो ।
 सुह-सउण-दाहिणंग-प्फुरणेहिं दु-गुणि-उच्छाहो ॥
 पंच पयाणाइं गओ पंचम-दियहे चउइसिं मुणिउं ।
 सेन्नस्स रक्खणत्थं आइसिउं सुहइ-संघायं ॥
 आसन्न-घणंजय-जक्ख-भंदिरे निसिसुहम्मि गंतूण ।
 भूमिं पमज्जिउं पत्थिवेण पोसह-चयं गहियं ॥
 कुलिसाऽऽहय-कुल-पव्वय-सइ-रउहो कओ निसीहम्मि ।
 जक्खेण अट्टहासो निच-सत्त-परिक्खण-निमित्तं ॥
 सूराणं पि मणु-क्कप-कारओ कायराण पाण-हरो ।
 सत्त-पवरेण रत्ता बालय-हासो व्व सो गणिओ ॥
 तत्तो कवाल-कत्तिय-भीम-करा पललक-चलण-पहाणा ।
 गल-कलिय-कसिण-सप्या पर्यंसिया काल-वेयाला ॥

रत्नो खोहण-हेउं विहियाओ तेहिं विविह-चिद्वाओ ।
 जायाउ ताउ नवरं अंधे नहं व विहलाओ ॥
 तत्तो कया पिसाया विमुक्क-फुकार-फणि-गणा-SSभरणा ।
 नर-मुंड-माल-मंडिय-कंठ-यला कविल-केस-भरा ॥
 गिणहह भिदह छिदह मारह भक्खह इमं ति जंपंता ।
 तो परिणिया नडा इव मणं पि जाया न भय-जणया ॥
 तयणु घणंजय-जक्खो नरिंद-सत्तेण रंजिओ चित्ते ।
 मणि-मउड-कुंडल-घरो पच्चक्खो भणिउमाढत्तो ॥
 पारेसु पोसह-वरं तुहोऽहं देमि मग्गसि तुमं जं ।
 इय जंपिरे वि जक्खे न पोसहो पारिओ रत्ना ॥
 गोसम्मि पोसहं पारिऊण रत्ना परंपिओ जक्खो ।
 तुह दंसणेण वि अहं तुहो मग्गेमि किं अवरं ॥
 जक्खेण भणियमुवसग्ग-करणओ तुह कयं मए दुक्खं ।
 दाऊण इच्छिय-वरं तमहं अवणेउमिच्छामि ॥
 रत्ना भणिओ जक्खो जइ एवं ता कहेसु मह देवी ।
 केण हरिय त्ति तत्तो आढत्तो अक्खिउं जक्खो ॥
 वेयडू-पन्वए दाहिणाइ सेढीइ आहरण-भूयं ।
 नह-लच्छि-केलि-कमलं नयरं नहवल्लहं अत्थि ॥
 तत्थऽत्थि खयर-नाहो सोहग्ग-निहि त्ति पसरिय-पयाओ ।
 सोहग्गसुन्दरी तस्स अत्थि घरिणी रह-सरिच्छा ॥
 पणय-कुवियाइ तीए कयाइ सो खेयरो इमं भणिओ ।
 कायस्स व मणि-माला किमहं कु-पइस्स तुह जुग्गा ॥
 जो मज्झ रुव-लावन्न-विणय-लज्जाइ-गुण-जुयाए वि ।
 काउं अवराहसए कुणासि तुमं निच्चमवमाणं ॥
 चिद्दउ गुणेहि अहिया समावि मह नत्थि इत्थिया अत्ता ।
 भणियं खयरेण पिए ! मा कुरु गच्चं निय-गुणेहिं ॥
 नूणं गुणेहि अहियं तुह रमणिं आणिऊण दंसेमि ।
 इय वुत्तुं निय-नयराउ खेयरेसो विणिक्खंतो ॥
 पुहइं परिउममंतो पत्तो अंतेउरे तुह नरिंद ! ।
 निरुवम-रूवाइ-गुणं देविं ददूण सिरिकंतं ॥
 गहिऊण नियं नयरिं पत्तो तदंसणेण तेण तहिं ।

सच्चंगसुन्दरीए हरिओ रूवाह-गुण-गव्वो ॥
 सो मयण-पर-वस-मणो देविं धित्तुं गओ रयण-सेलं ।
 संभोग-सुहृत्थं तीह पत्थणं काउमाढत्तो ॥
 ससि-विंव-वयणि ! कायंव-गमणि ! विंवोद्वि ! मय-सिलिंधच्छि ! !
 मह कंबु-कंठि ! कंठा-ऽवलंविणी होसु अविलंबं ॥
 तो हियय-जलिय-पह-विरह-जलण-जाल व्व तीह नीसासा ।
 लणहा मुक्का ददो व्व जेहिं काली-कओ खयरो ॥
 निय-नयणाइं पिहियाइं तीह लंबंत-अलय-पडलेण ।
 नील-पडेण व पर-पुरिस-दंसणं परिहरंतीए ॥
 नयणं-ऽज्जणेण मल्लिणं बाह-जलं पयडियं तथा तीए ।
 मसि-कुच्चियं व दाउं सयले चिज्जाहर-कुलम्मि ॥
 भणिओ इमं च खयरो किं खिज्जसि जंपिण्ण किं बहुणा ।
 निय-पिययमं विमुत्तुं पयावणोच्चिय लग्गह ममगे (?) ॥
 जह पुण हडेण काहिसि निल्लज्ज-सिरोमणे ! अणायारं ।
 ता निय-दसणेहिं अहं रसणं दसिउं मरिस्सामि ॥
 इय तीए पडिसिद्धो वि विसय-गिद्धो अणंग-सर-विद्धो ।
 + + + + +
 तो रयणसेल-पहुणा पयडीहोऊण वंतर-सुरेण ।
 भणिओ खयरो इत्थाऽऽगओ सि हरिऊण पर-भज्जं ॥
 तं पुण हडेण रमिउं जं महसि सहामि तं न दुच्चरियं ।
 इय भणिउं लगुडेणं हओ मओ सो गओ कुगहं ॥
 तुह घरणिं आणेमि त्ति जंपियं पव्वयं गओ जक्खो ।
 तं धित्तुमागओ अप्पिउं च पत्तो अदिस्सत्तं ॥
 तो हरिसिएहिं कहियं दोहिं पि परोप्परं विरह-दुक्खं ।
 अह निय-नयरं पत्तो परिपुन्न-मणोरहो राया ॥
 काउं सावग-धम्मं चिर-कालं पालिऊण सो रज्जं ।
 तत्थ ठविऊण पुत्तं पज्जंते अणसणं धित्तुं ॥
 मरिऊण समुप्पन्नो देवो कप्पम्मि वंभलोयम्मि ।
 अमयप्पिय-सुरठाणम्मि चंदकंते विमाणम्मि ॥
 इति पौषध्वज्जते रणसूरकथा ॥

साहूण संविभागो जो कीरइ भक्त-पाण-पसुहेहिं ।
 तं अतिहि-संविभागं तुरियं सिक्खावयं विंति ॥
 जो अतिहि-संविभागं परिपालइ पवर-सत्त-संजुसो ।
 नरदेवो व्व सडओ इहाऽवि सो लहइ कल्लणं ॥

तं जहा—इहेव जंबुदीवे भारहे वासे विसिद्ध-सुर-भवन-सुव्वंत-असंख-
 संख-रुद्धं संखजरं नयरं । जत्थ पयडिय-पओसाओ जामिणीओ न कामिणीओ।
 कट्ट-सज्जा लोयाणं रहा न मणोरहा । अणीइ-जुत्ताइं खित्ताइं न स-प्पुरिस-
 चरित्ताइं । अलया-लंक्रियाइं रमणी-आणणाइं न काणणाइं । तत्थ पवल-पर-
 वल-जलहि-निम्महण-मंदरो पडिवक्ख-कामिणि-कुडुंव-संकडीय-सयल-सेल-कं-
 दरो पुंंदरो राया । तत्स भाया निरुवम-रुवाइ-गुण-निजिय-नरदेवो नरदेवो
 नामा । सो पयईए उदारो अत्थि-सत्थत्स अच्चत्थं अत्थं देइ । अन्नया
 पडिहारेण विन्नत्तो—कुमार ! हुवारं सरस्सई-कुडुंवं तुमं दहु-भणं चिट्ठइ ।
 विम्हिय-मणेण कुमारेण वुत्तं—सिग्घं पवेसेहि । पवेसियं तेण, तं नि-
 विट्ठं पुरओ । कुमारेण पुच्छिओ मूल-पुरिसो—कत्तो तुमं ? । तेण वुत्तं—देसं-
 तराड गुण-विसैस-जाणगं तुमं सोऊण आगओ अहं, एसो मे पुत्तो, एसा
 मे भज्जा, इमा पुण पुत्त-पत्ती, चत्तारि वि कइणो । कुमारेण वुत्तं—जइ एवं
 ता “असारात्सारमुद्धरेत्” इति समत्सं पूरेसु । पुरिसेण परिभाविऊण
 भणियं—

दानं वित्ताहनं वाचः कीर्तिधम्मौ तथाऽऽयुषः ।

परोपकरणं कायादसारात्सारमुद्धरेत् ॥

कुमारेण वुत्तो पुत्तो—“ गृह्यतां जन्मनः फलं ” इति तुमं पूरेसु ।
 तेण भणियं—

देवभक्त्या शुरुपास्त्या सर्वसत्त्वानुकम्पया ।

सत्सङ्गत्याऽऽगमश्रुत्या गृह्यतां जन्मनः फलम् ॥

भणिया पुत्त-माया—“ कवणु पियावडं खीरु”त्ति तुमं पूरेसु ।
 तीए वुत्तं—

रावणु जायड जहिं दियहि दह-सुहु एक-सरीरु ।

चित्ताविय तइयहिं जणणि कवणु पियावडं खीरु ॥

पुत्त-वरिणी भणिया—“ कंठि व लुल्लहं काड”त्ति तुमं पूरेसु ।
 तीए पडियं—

इड अच्चम्भुड दिहु मईं कंठि व लुल्लइं काड ।

कीइवि विरह-करालियहे उह्वाविय उवराड ॥

तओ तेसिं तुहु-चित्तेण कुमारेण दिन्ना चउरो सुवन्न-लक्खा । मुणिय-
मिणं रत्ता भणियं सकोवं ।

मुद्धत्तणेण कुमरो उचिया-णुचियं वियाणइ न किंचि ।

जं एवं विणिजुंजइ अच्चत्थं अत्थमत्थाणे ॥

सलहिज्जइ उचियं चिय वित्तं दितो नरो न उण बहुयं ।

कस्स न उव्वेय-करो वरिसंतो जलहरो पउरं ॥

सुयमेयं कुमारेण । तओ मए कित्तियं दिन्नं । परं इतिण्णाऽवि मइ
कुविओ राया । ता किमित्थाऽवत्थाणेणं ति चित्तिऊण निसाए निग्गओ नय-
राओ एगागी कुंमारो । परिब्भमंतेण तेण दिट्ठो एगत्थ गामे अणेग-साहु-
सहिओ हिओवएस-परो परोवयार-निरओ निरय-कूव-निवडंत-जंतु-हत्था-
ऽवलंबो विमलवोहो नाम सूरी । तं पणमिऊण निविट्ठो पुरओ कुमारो । पारद्धा
धम्म-देसणा गुरुणा । दंसियं संसारा-ऽसारत्तणं । कहियाइं अकय-सुकयाण
नारय-तिरिय-डुक्खाइं । परुवियं निरावाहमक्खयं मोक्ख-सुक्खं । अक्खिओ
तस्स साहणोवाओ साहु-धम्मो । संविग्ग-मणेण तेण भणियं-भयवं ! अक्ख-
मोऽहं इमं काडं । तओ कहिओ बारस-विहो सावग-धम्मो । पडिच्चो सो
कुमारेण, भणियं च—भयवं ! हहा ! मए इत्तियं कालं कओ कु-पत्तेसु वित्त-
व्वओ सपयं पुण नत्थि मे किंचि जं देमि साहूणं । जइ पुण मज्झ किं पि
संपज्जिही ता मए असण-वसण-सयणा-ऽऽसणोसहाइयं साहूणं दायव्वं ।
नवरं भोयण-समए समागयाणं साहूणं संविभागं काऊण भुत्तव्वं ति कओ
निच्छओ । धन्नो त्ति पसंसिओ गुरुणा । कमेणाऽऽगओ गयपुरं ।

तत्थाऽऽसि निवो खेमंकरो त्ति कय-सयल-खोणि-तल-खेमो ।

तस्स सुतारादेवी देवि व्व पगिहु-ह्व-धरा ॥

सो पुत्तस्स अभावाड सुन्न-चित्तो तणं व रत्तं पि ।

राया मन्नइ जम्हा जयं वि सुन्नं अपुत्तस्स ॥

अह देवीए गब्भो जाओ त्तो नीवो गओ तोसं ।

को वा न तूसए चित्तिय-ऽत्थ-संभावणाए वि ? ॥

देवीइ पसव-भासे संपन्ने निवइणो समुप्पन्नो ।

पुव्व-कय-कम्म-वसओ वाही सब्बोसहा-ऽसज्झो ॥

रोगेण तेण राया नीओ निहणं तवो ध्व कोवेण ।

संपज्जंति न जम्हा मणोरहा पुन्न-रहियाण ॥

देवीइ अत्थि गम्भे सुओ त्ति बुद्धीइ पालियं रज्जं ।

कइ वि दियहाइं मइ-विजिय-तिअस-मंतीहिं मंतीहिं ॥

जाया देवीए धूया, विसन्ना सा, धीरविद्या मंतीहिं । देवीए पुत्तो जाओ
त्ति पयासिऊण धूयं चैव रज्जं कारविस्सामो । धरियच्चा तए इमा पुत्त-वैसेण ।
तओ कराविओ नयरे पुत्त-जम्मूसवो । कयं से पियंकरो त्ति नामं । सा य
संपुन्न-चंद-सुंदर-सुही जाया जुव्वणा-ऽभिमुही । तं तारिसं दहूण मंतीहिं
अच्चिया अच्चुया नाम कुल-देवया । पच्चक्खी भूया सा विन्नत्ता मंतीहिं-देवि !
दंसुसे कं पि पुरिसं । जं राय-धूयाए रज्ज-लच्छीए य पइं करेमो । अच्चुयाए
भणियं—

सीहु दमेवि जु वाहिहइ, इक्कु वि जिणिहइ सित्तु ।

कुमारि पियंकरि देवि तसु, अप्पहु रज्जु समत्तु ॥

तओ तिरोहिया देवी । ठिओ स तत्थ नयरे बुद्ध-महिलाए मंदिरे
कुमारो, पुत्तो त्ति पडिबन्नो तीए । करेइ सो पियंकरस्स रन्नो सेवं । अन्नया
घय-गुल-संगए मंडए धित्तूण इंधणऽत्थं गओ अरन्नं । सुत्तु-कामेण पलोइयाड
दिसाड । दिट्ठो इओ तओ परिव्वभमतो साहु । गंतूण समीवं पणामिऊण
पुच्छिओ सो—भयवं ! किमेवं परिव्वभमसि ? साहुणा वुत्तं—सत्थाओ परि-
व्वभट्ठो मगं अयाणंतो एवं भमामि । चित्थिं कुमारेण—अहो ! कइं, एसो
महप्पा छुहिओ कत्थ भिक्खं पाविही ? अहं पुण गिहं गओ भुंजिस्सामि ।
ता इमस्स मंडगे दाऊण करेमि कय-ऽत्थमप्पाणं त्ति सद्धा-वसुल्लसिय-रोमंवेण
दिन्ना सुणिणो मंडगा । दंसिओ मग्गो । गओ सुणी अन्नत्थ ।

इओ य तन्नयरा-ऽऽसन्न-गिरि-निगुंज-गओ सीहो गो-महिस-माणुसाईणं
उवहवं करेइ । तस्स वहत्थं हत्थ-गहिय-सत्थं पयटं राय-साहणं । तं विह्वंतो
समागओ कुमारासन्नं केसरी । कुमारो वि सत्त-सारत्तणओ विज्जुक्खित्त-
करणेण आरूढो सिंहस्स पिट्ठं । वाम-करेण धरिऊण तं कप्पेसु वाहिडं पवत्तो ।
अहो ! अच्छरियं त्ति भणंतेहि दिट्ठो साहण-भडेहि । तेण अणुगम्ममाणो
पत्तो नयरं, गओ य रायउलं । सिहा-ऽवलोयणुत्तत्थ-हत्थि-पारद्ध-हलबोलं तं
कुमारं अमरं व मणोहरं पिव्वंतस्स रन्नो वियंभिओ अणुराओ । संपन्नं पंच-
सर-पसर-पर-वसं चित्तं । अलंकियं सेय-जल-धिंदु-संदोहेण नडालं । समुल्लसि-

ओ सव्वंगं रोमंचो । पयद्दा विसद्व-कंदोद-दल-सरिच्छा तिरिच्छं अच्छि-वि-
च्छोहा । संजाया सज्झस-वस-खलंतक्खरा वाणी । भणिया रत्ता मंति-
णो—एसो अम्ह संतिओ रायउत्तो । अहो ! इमस्स निरुवभो विक्कमो । लहु-
कय-सयल-सत्तं सत्तं । वियंभिय-भुवणच्छरियं चरियं । जं इमिणा मणुस्स-
मित्तेण दमिऊण केसरी कओ वाहो व्व वाहणं । मंतीहि वुत्तं—देव ! एवं । ता
इमस्स कीरउ महंतो पसाओ । तओ रत्ता दिन्नाइं सुवन्नारलंकार-पसत्थ-वत्थाई-
णि । वियरिया एक्कंगस्स वि कणग-लक्खं वित्ती ।

इत्थंतरे तत्थागएण सावित्थी-सामिणो नरसिंहस्स रत्तो पुरिसेण दिट्ठ-
मेयं सव्वं । चित्तिं च किं एस पत्थिवो इत्थी ? , जं एयं सिंहाखुडं पुरिसं-
दहूण इमस्स वियंभिया मयण-विचारो । सम्मं निरुव्वंतेण दिट्ठं थेव-थणुवभ-
मणहरं रत्तो वच्छत्थलं । हुं निच्छिडं एसा कल्लगे त्ति । तओ गंतूण साहियं
इमं नरसिंहस्स रत्तो । तेणावि सिक्खविऊण पेसिओ दूओ । सो आगओ ग-
यपुरं । भणिया तेण मंतिणो पेसिओऽहं नरसिंहराएण, आणत्तं च तुम्ह एयं—

पडिबज्जह मह सेवं दंडं पट्टवह इत्थि-हय-पसुहं ।

जइ जीविण कज्जं रणसज्जा अन्नहा होह ॥

भणियं मंतीहि—तए राया पुत्तो त्ति इत्तिं कालं ।

दंडो न मग्गिओ संपयं [य] धूय त्ति मुणिऊण ॥

मग्गंतो दंडं किं न लज्जसि निच्छियं[पर-]छल्लेसी ।

ता न तुमं नरसिंहो नवरं नरसारमेओ सि ॥

तुज्झ न देमो दंडं तुह पासे किं तु मग्गिमो अम्हे ।

इय दूय ! कहसु सव्वं सिग्घं गंतूण निय-पहुणो ॥

तं सोडं सो कुविओ चलिओ चउरंग-बल-ससूहेण ।

महिवीढमक्कमंतो पत्तो निय-देस-सीमंते ॥

तं सोडं जाव कुणंति मंतिणो कडग-गमण-संजुत्तिं ।

ता भणिया कुमरेणं किं तुम्हाणं किलेसेण ? ॥

एक्को वि अहं काहं समत्त-सत्तूण दप्प-निहलणं ।

पट्टवह मए य समं सामंते पेक्खगे कइ व ॥

कुल-देवयाइ वयणं सरिओ दहूण सिंह-दमणं च ।

धुवमेस दिव्व-सत्ति त्ति निच्छिडं मंति-वग्गेण ॥

तत्तो तहेव विहियं कमेण कुमरो गओ अरि-समीवं ।

अरिणो क्हावियमिणं झत्ति तुमं होसु रण-सज्जो ॥
 तेणावि कया पगुणा वर-कणय-गुडा विचित्त-चिंध-जुया ।
 करिणो सुवन्न-गिरिणो व्व जंगमा कप्पतरु-चलिया ॥
 सज्जीकया रहवरा जय-लच्छि-चलंत-केलि-निलय व्व ।
 पक्खरिया तुरय-गणा गहिय-सरीरा समीर व्व ॥
 सन्नद्धा जम-नूय व्व विविह-पहरण-भयंकरा सुहडा ।
 इय चउरंग-दलेणं नरसिंहो उट्टिओ समरे ॥
 अणुमग्ग-विलग्गेणं सामंत-प्पसुह-सुहड-वग्गेणं ।
 कंठीरवमारुहिडं कुमरो पुरओ ठिओ तस्स ॥
 कंठीरवेण पुच्छ-च्छडाइ तह ताडियं धरणि-पिट्ठं ।
 कय-पलय-काल-संकं व्वहरिडं जह समाढत्तं ॥
 तुट्ठंत-मूल-बंधा पडिया फल-कुसुम-सालिणो तरुणो ।
 वज्जेण ह्याइं पिव तुट्ठाइं गिरीण सिहराइं ॥
 किं फुट्ठं वंभंडं पडिओ गयणाउ विज्जु-दंडो वा ।
 इय संकाओ सयलं सत्तु-वलं आउलं जायं ॥
 तत्तो सीहेण कओ गिरि-गुह-पडि-सह-भीसणो सद्दो ।
 कप्पंत-काल-गज्जंत-मेह-निग्घोस-हुव्विसहो ॥
 हण्डिं व मयंकमयं उप्पडइ खणं नहंगणे सीहो ।
 पुण पडइ कुलिस-निट्ठुर-कम-भर-निहलिय-महिवट्ठो ॥
 तत्तो नरसिह-निवस्स कुंजरा सिंह-भय-विट्ठुर-हियया ।
 अवगणिय-महामत्ता मत्ता वि पलाइया झत्ति ॥
 भय-वसओ अवगण्डं वग्गाओ महीइ आसवार-भडा ।
 उल्लालिज्जण खित्ता तुरएहिं रएण नट्ठेहिं ॥
 सुहडाण पहरणाइं भय-वस-कंपंत-पाणि-पायाणं ॥
 पडियाइं पायवाण व पवणाहय-पक्क-पत्ताइं ॥
 इय नासंतं सित्रं दट्ठूण भयाओ सो वि नरसिंहो ।
 निय-हत्थि संठविडं कहं पि थक्को रणे एक्को ॥
 नरसिंह-हत्थि-कुंभ-त्थलम्मि चडिओ हरी वि उप्पइडं ।
 तो भूमि-निहिय-दसणो सज्ज-विट्ठुरो ठिओ हत्थी ॥
 भय-वस-वियलंत-समत्त-पहरणो मुक्क-विकसुक्करिसो ।

नरसिंहो चिय थक्को तत्थ हत्थि-कुंम-त्थले लुढिओ ॥
 कड्डिय-करवालेणं मरह त्ति पर्यंपिओ कुमारेण ।
 दंत-गहियंशुली तं नरसिंहो भणिलमादत्तो ॥
 रक्ख मह जीवियं तुज्झ सेवगोऽहं खमेसु अवराहं ।
 न पुणो काहं एवं जं हुंति खमा-परा गरुया ॥
 तो कुमारेण विमुक्को नरसिंहो अप्पणो पुणो जम्मं ।
 मन्नंतो परितुट्ठो को व न तूसइ वसण-विगमे ॥
 करि-तुरय-रयण-कणया लंकाराईणि तेण दिन्नाहं ।
 गहिऊण पसन्न-मणो समागओ गयपुरं कुमरो ॥
 सोळं कुमार-चरियं परितुट्ठा मंतिणो समग्गा वि ।
 जाओ दढमणुराओ पियं करीए कुमारम्मि ॥
 परिणाविऊण परिचत्त-राय-वेसं पियं करीं कुमरो ।
 रज्जम्मि परिट्टविओ विहिओ य महुसवो नयरे ॥
 कुलदेवयाह भणियं मए वरं रायकन्नया-जुग्गं ।
 पिच्छन्तीए दिट्ठो नरदेवो एस राय-सुओ ॥
 मुणिणो अरन्न-पडियस्स मग्गं चुक्कस्स छुह-किलंतस्स ।
 छुहिण्ण सयं ठाळं इमिणा जं भोयणं दिन्नं ॥
 सत्तेण तेण तोसिय-मणाइ काडण वाहणं सिंहं ।
 सत्तिं च सत्तु-विजए इमस्स रज्जं मए दिन्नं ॥
 ता जो इमस्स आणं विलंघिही तस्स निग्गहं काहं ।
 इय सयल-जण-समक्खं भणिऊण तिरोहिआ देवी ॥
 अप्पडिहय-प्पयावेण तेण परिपालियं चिरं रज्जं ।
 पुव्वं पि जे न सिद्धा ते वि निवा साहिया तेण ॥
 नयरे नयरे जिण-मंदिराहं कारावियाहं तुंगाहं ।
 सब्बत्थ वित्थरेणं जिण-रह-जत्ताड विहियाओ ॥
 सम्माणिऊण सब्बो मुणीण भत्तिं कराविओ लोओ ।
 संवेग-परिगएणं गुरु-पासे आगमो मुणिओ ॥
 एवं गिहत्थ-धम्मं काऊण समाहिणा मओ एसो ।
 उप्पन्नो सुर-लोए तओ चुओ पाविही मोक्खं ॥
 इति अतिथिदाने नरदेव-कथा ॥

एवं नरिंद ! तुह अक्खियाइं एयाइं बारस-वयाइं ।
 रत्ता भणियं भयवं ! अणुग्गहो मे कओ तुमए ॥
 पंच-मह-व्वय-भारो धुवं गिरिंदो व्व दुव्वहो ताव ।
 तं जे वहंति सम्मं ते दुक्कर-कारए व्वे ॥
 ते वि ह्हु सलाहणिज्जा न कस्स परिमिय-परिग्गहा-ऽऽरंभा ।
 सक्कंति पालिउं जे इमाइं बारस-वयाइं पि ॥
 गुरुणा भणियं आणंद-कामदेवाइणो पुरा जाया ।
 जेहिं परिपालियाइं इमाइं सावय-वयाइं दढं ॥
 इण्हि तु वर-गिहत्थो इहत्थि नामेण छड्डुओ सेट्ठी ।
 परिमिय-परिग्गहो विहिय-पाव-वावार-परिहारो ॥
 जो अहिगय-नव-तत्तो संतोस-परो विवेय-रयण-निही ।
 देव-गुरु-धम्म-कज्जेसु दिन्न-निय-भुय-विदत्त-धणो ॥
 सो अम्ह पाय-मूले पुवं पडिबज्जिऊण भावेण ।
 बारस-वयाइं एयाइं पालए निरइयाराइं ॥
 रत्ता भणियं एसो आसि धणद्धो त्ति मज्झ गोरव्वो ।
 साहम्मिउ त्ति संपइ बंधु व्व विसेसओ जाओ ॥
 भयवं ! अहं पि काहं सावय-धम्मस्स बारस-विहस्स ।
 परिपालणे पयत्तं वसुहा-सामित्त-अणुरुवं ॥
 तो गुरुणा वागरियं नरिंद ! तुममेव पुन्नवंतो सि ।
 जो एरिसो वि सावय-वयाण परिपालणं कुणसि ॥
 इथ सोमप्पह-कहिए कुमार-निव-हेमचंद-पडिबच्चे ।
 जिण-धम्म-प्पडिबोहे पत्थावो वत्तिओ तुरिओ ॥

इत्याचार्यश्रीसोमप्रभविरचिते कुमारपालप्रतिबोधे

चतुर्थः प्रस्तावः ॥

॥ ॐ ॥

अथ पञ्चमः प्रस्तावः ।



अहं गुरुणा वागारियं जो जीवदयं समीहए काउं ।
तेण कसायाण पराजयम्मि जत्तो विहेयव्वो ॥
जम्हा कसाय-विवसो किच्चमकिच्चं च किं पि अमुणंतो ।
निदय-मणो पयट्टह जीवो जीवाण पीडासु ॥
तो कोह-माण-माया-लोभा चउरो चउव्विहा हुंति ।
एक्किक्कसो अणंताणुबंघि-पमुहेहिं भेएहि ॥
कज्जाकज्ज-विचारण-चेयल्ल-हरस्स विसहरस्सेव ।
कोवस्स कोऽवगासं मइमं मण-मंदिरे दिज्जा ? ॥
सुद्धु जलणो जलंतो वि दहइ तं चव जत्थ संलग्गो ।
कोह-जलणाउ जलिओ सठाणमन्नं परभवं च ॥
जिण-पवयण-मेह-समुब्भवेण पसमामएण कोव-दवं ।
विज्झवइ जो नरो होइ सिव-फलं तस्स धम्म-वणं ॥
कोवेण कुगइ-दुक्खं जीवा पावंति सिंह-वग्घ व्व ।
होउं खमा-परा पुण लहंति सग्गापवग्ग-सुहं ॥

तं जहा—

अत्थि इत्थेव भरहे सिंहउरं नयरं ।

जं सहइ दीहर-ऽच्छं पगिह-रयणं सुहालय-सणाहं ।

महिला-मुहं व भालोवलक्खिर्यं किं तु न कयावि ॥

तत्थ विहू राया ।

जस्स असिणा घणेणं तमाल-नीलेण स-जल-धारेण ।

संछाइया अरीणं पयाव-तवणो जस-ससी य ॥

तस्स गुण-रयण-खाणी दुज्जण-मुह-कमल-काणण-हिमाणी ।

कंदप्प-राय-हाणी देवी लच्छि त्ति मिउवाणी ॥

तेसिं पुव्व-कय-सुकयाणुरुवं रज्ज-सुहं सेवंताण समुप्पन्ना दुवे जमल-पुत्ता ।

काराविओ रत्ता नवंत-तरुणि-थण-वट्ट-तुट्टं-हार-तारइय-भवणंगणो पुत्तजम्मू-

सवो । दिनाइं तेहिं नामाइं एकस्स सिंहो वीयस्स वग्घो त्ति । गया दो वि बुद्धिं । समए गहिय-कला-कलावा जाया जुव्वणाभिरामा ।

ते दो वि सरिस-वन्ना सरिस-पमाणा सरिच्छ-संठाणा ।

सरिच्छग-सद्-चिट्ठा बालत्तणओ वि संपन्ना ॥

उच्छंग-लालियाण वि पिडणो वि मुणंति ताणमविसेसं ।

कि पुण सेसा लोया, अह तत्थ विर्यंभिओ गिभो ॥

जहिं हुइ-नरिंदु व सयल्लु भुवणु परिपीडइ तिच्च-करेहिं तवणु ।

जहिं दूहव-महिलय-जण समग संतावइ सूयसरीर लग्ग ॥

जहिं तण्हा-तरलिय-पहिं वहतं अणुसरहिं सरसए व जेव कंत ।

जहिं चंदणु चंदु-जलइ-हारु सजणु व दिति आणंदु फारु ॥

जहिं सेवहिं धारा-जंतु नीरु जण सिसि सनाइ कामिणि सरीरु ।

जहिं दक्खा-वाणिय पियहिं महुर गुरु-वयण नाइ भव-त्ताव-विहुर ॥

जहिं निय-निय-कड-कुसुम-ज्जलेण.....सारसा व चंदण-जलेण ।

सिब्बंतड तरुणिहिं तरुणु लोड संताव चत्तु पावइ पमोड ॥

तत्थ गिंमे गया कीलत्थं उज्जाणं दो वि कुमार। विविह-कीलाड कुणं-तो आढत्तो गीयं गाइउं सिंहो । वग्घो पुण पयट्ठो पुप्फावचयं काउं । इत्थंतरे वेयड्ड-पव्वयावयंस कणयपुर-नयर-वासी सुवेग-विज्जाहरो जरा-जुन्नो अचंतं मणहरं निय-कन्नगं अन्नन्न-विज्जाहरेहिं पत्थिज्जं पि जुद्ध-भयेण तेसिं अदाऊण भू-गोयरस्स कस्स वि देमि त्ति तं वेत्तूण तत्थागओ । खणामित्तं सुयं तेहिं सिंहस्स गीयं । अहो गीय-कला-पगरिसो एस त्ति चित्तिं चित्ते । कन्नगा वि जणयाणुन्नाया पयट्ठा गाइउं । तं सोउं चित्तिं सिंहेण ।

जं निरुवम-रूवाए इमीए अचंत-सुंदरो सवो ।

एकं सुवन्नमन्नं सुरहिं तं संपयं जायं ॥

तह तीए अक्खित्तो सिंहो महुरेहिं रूव-सदेहिं ।

जह छल-गवेसिणो वम्महस्स सर-गोयरं पत्तो ॥

वग्घो वि गीयं सोऊण लयंतरिओ कन्नगं पिच्छिउं पयट्ठो । अक्खित्तो तीए रूव-सदेहिं मुत्तूण कुसुम-वयं कुसुम-सर-पर-वसो पविट्ठो कयली-हरं । कन्नगावि विरया गीयाओ पयट्ठा उज्जाण-लच्छि पिच्छिउं । कह वि पत्ता कय-लीहरे । दिट्ठो तत्थ तीए पल्लव-सत्थरे पत्थरे व्व रइं अलहंतो दाह-दीहं नीस-संतो वग्घो । जो मए दिट्ठो गायंतो सो चेव एसो त्ति भणंतीए पुच्छिओ—

किं ते बाहू ? त्ति । तेण वुत्तं—जो न पर-दुक्खेण दुक्खिओ, न दुक्ख-विमु-
क्खण-खमो वा किं तस्स सीसइ । तीए वुत्तं—सुहय ! दुक्खिया अहं तुह दुक्खेण,
खयरत्तणओ सब्ब-दुक्ख-हरण-क्खमा य । ता कहसु निय-संताव-निमित्तं ।

सो जंपइ—जइ एवं ता सुण, जप्पभिइ सुयणु ! दिहासि ।

तप्पभिइ मज्झ पीडं मणम्मि मयणो कुणइ वाढं ॥

तो जइ मह दुक्खेणं दुहिया सि, मणम्मि वसइ तुज्झ दया ।

तो परिणेऊण ममं मह जीविय-सामिणी होसु ॥

कन्नगाए वुत्तं—

किमजुत्तं, जओ जणओ वि मे वर-उत्तेसणत्थमित्थागओ, ता जाव मं
अन्नस्स सो न देइ, ताव तुमं मए सयं चेव वरिओ सि त्ति । तओ स कंठाड
खित्ता वग्घस्स कंठे कुसुममाला । भणियं च, अहं ताव विज्जाहरी, तुमं पि
मम पासाओ गिण्हं पढिय-सिद्धाओ विज्जाओ, जेण विज्जाहरो होहिसि । गहि-
याड तेण विज्जाड, जाओ सो विज्जाहरो । विवाह-पडणो होसु त्ति भणंती नि-
ग्गया कन्नगा कयलीहराओ । खयरेणावि भणिओ सिंहो—कुमार ! रंजिओ
हं तुह गीएण । ता भण किं ते पियं करेमि ? । सिंहेण वुत्तं—जं अहं मग्गेमि
तं तुमए दायब्बं । खयरेण वुत्तं एवं । सिंहेण वुत्तं—ता देसु मे निय-धूर्यं ।
खयरेण वुत्तं मम मणो-गयं चेव मग्गियं तुमए । किं अणुचियं नागवल्लीए
पूग-पायव-रोहणं । परं धूया मे विज्जाहरी, ता तुज्झ वि देमि पढिय-सिद्धाओ
विज्जाओ जेण दुण्हं पि तुम्हं विज्जाहराणं अणुरूवो संबधो होइ । गहियाओ
विज्जाओ सिंहेण, गंतूण कहियं तेण पिडणो, मए खयर-कन्नगा लद्ध त्ति ।
इओ य तत्थ समागओ खयर पासं वग्घो । सिंह-भंतीए वग्घमुहिसिडं खयरेण
भणिया धूया, वच्छे ! तुमं मए एयस्स दिन्न त्ति । तीए चित्तियं—अहो ! मे
दिब्बमणुकूलं, जो चेव मए कयली-हरे वरिओ पिडणा वि तस्सेव अहं दिन्न
त्ति । भणिओ तीए जणओ—ताय ! जणसु तुमं विवाह-सामग्गिं । तओ
तेण विहिओ विवाह-मंडवो । ठविया तत्थ अपेग-खयर-रामा-समेया कन्नगा ।
वग्घेणावि कहियं पिऊणं—मए वि खयर-कन्नगा लद्ध त्ति । भणियं अणेहिं
अहो ! अम्हं पुन्न-परिणई, जं जाया जुगवं दुवे देव-कुमारोवमा कुमरा ।
दोहि वि लद्धाओ जुगवं खयर-कन्नाओ । तओ तेहिं विवाहो-चियं विहिं
काराविऊण उज्जाणमाणीया दो वि कुमारा । पुच्छिया य—का कन्नगा केण

लद्ध ? त्ति । वग्घेण वुत्तं, संसुहाए चउरियाए जा चिट्ठइ, सा मए लद्धा । सिं-
हेण हक्कारिऊण खेयरो भणिओ—कत्थ सा कन्नगा, जा तुमए मञ्ज्ज दिन्ना ?
खयरेण दंसिआ स च्चेव कन्नगा । वग्घेण वुत्तं—एसा तुमए मञ्ज्ज दिन्न त्ति ।
खयरेण वुत्तं—दुण्हं पि तुम्ह सरिस-रूवत्तणेण भंतं मे चित्तं । परं मए जस्स
कन्ना दिन्ना तस्स विज्जाओ वि दिन्नाओ, तप्पभावेण जो गयण-गमण-सत्ति-
मंतो सो मे धूर्यं परिणोड । तं सोऊण दो वि राय-हंस व्व उप्पइया गयणे, पुणो
वि आगया भूमिं । खेयरेण वुत्तं—विज्जा-सत्तीए विउव्वह चउरंगं सेत्तं ।
दोहिं पि तद्देव कयं । खेयरेण वुत्तं—दो वि तुम्मे तुल्ल-शुणा, एक्का इमा कन्नगा,
न याणामि कस्स दिन्न त्ति । ता किं करेमि ? । पिऊहि भणियं—वाम-दाहि-
णेसु नयणेसु व नत्थि अम्ह दोसु वि कुमारेसु विसेसो, ता बुज्झिऊण एक्को
को वि परिणोड एयं । वग्घेण भणिओ सिंहो—खण-मित्त-पढम-पसवेण तुमं
मे गरुओ बंधू, तओ जा मइ अणुरत्ता तं पइ मणं पि काउं ते न जुत्तं ।
सिंहेण भणियं मइ गुरु-बंधवे अपरिणीयम्मि तुज्झ वि न जुत्तं परिणयणं ।
वग्घेण वुत्तं—नेहेण गुरु-बंधवो त्ति मन्निज्जसि तुमं, अन्नहा एक-कालं एक-
जणणी-गब्भ-समुग्गवाणं अम्हाणं का गुरु-लहु-ववत्था? । सिंहेण वुत्तं—अरे !
कमागयं मे गरुयत्तणं पि तुमए हारवियं, ता होसु मए समं समर-सज्जो ।

अह वग्घेणं भणियं जह खयर-सुयं पडुच्च अणुराओ ।

जाओ अम्हं तह होड संपयं संपराड त्ति ॥

तो दो वि दप्प-वसओ सन्नच्छा दंत-दट्ट-उट्ट-उट्टा ।

कर-गहिय-खग्ग-फलया संगामं काउमाहत्ता ॥

वग्गंति दो वि हक्कंति दो वि पहरंति दोवि अन्नोऽन्नं ।

वंचंति दो वि घाए दो वि पउंजंति दिव्वत्थं ॥

खणामुप्पयंति गयणे निवडंति महीयले खणं दो वि ।

खणामोसरंति खणमग्गिभडंति महिस व्व रोसंघा ॥

ददूण वि दूरंतं हा ! हा ! अमयं पि किं विसं जायं ।

जं परिणयणं कुमराण परिणयं जुद्ध-रूवेण ॥

अम्हे चिय कय-पुत्ता इय बुद्धी पुव्वमासि अम्ह मणे ।

संपइ पुण निवग्गं अप्पाणं मन्निमो अम्हे ॥

जं एक-कुक्खि-पभवा[दुण्ह] वि कलहंति एक-रमणि-कए ।

किं को वि निवारिस्सइ इमे त्ति खेयं कुणंताण ॥

कुमर-सयणाण गयणाड आगओ तत्थ चारण-स्समणो ।
 तेण भणियं किमेवं कुणह कुमारा पुण वि कलहं ! ॥
 स्रइय-भुयंग-कुंजर-कुरंग-गंडय-तवस्सिणो तुब्भे ।
 पुव्वं कलहं काळं कोवंधा मरणभणुपत्ता ॥
 तं सोऊण कुमारा सुमरिय-पुव्वानुभूय-कोव-फला ।
 मुत्तूण जुद्ध-बुद्धिं पणया मुणिणो निसन्नस्स ॥
 रत्ता वि मुणिं नमिडं भणिओ तुमए कओ महं पसाओ ।
 जं पढियं किं पि इमे कुमारा मिल्हाविया समरं ॥
 ता कह किं तं पढियं, भणइ मुणी पुव्व-जम्म-कोव-फलं ।
 कुमराण मए कहियं तुमं पि तं सुणसु नर-नाह ! ॥
 स्रपुरे नयरे नर-वइस्स दो स्रइया इमे आसि ।
 एक्को तत्थ मयहरो बीओ मयहर-परं महइ ॥
 अह मयहरो निवेणं भणिओ भो ! तुज्झ कित्तिया सत्ती ! ।
 सो भणइ स्रइ-रंधे खिचामि तिमिरे वि तंतुमहं ॥
 बीओ[य] भणइ अहं तु स्रइं उल्लालिऊण मिल्हेमि ।
 जह हिट्ठा-ठविए दोरयम्मि सयमेव पविसेइ ॥
 तो निय-निय-विन्नाणं निवस्स दोहिं पि दंसियं तेहिं ।
 बीयस्स मयहरत्तं तुट्ठेण निवेण तो दिन्नं ॥
 एकस्स पयस्स कए कयाइ कुद्धा परुपरं दो वि ।
 कलहं काऊण मया जाया मलयाचले सप्पा ॥
 संपत्ता पोढत्तं मिलिया चंदण-दुभे इमे दो वि ।
 अन्नोऽन्न-दंसणेणं कुविय-मणा दिन्न-फण-घाया ॥
 कलहायंता दड्ढा दवग्गिणा कुंजरा समुप्पत्ता ।
 एक-करिणी-निमित्तं कलहं काळं मया दो वि ॥
 जाया मरुम्मि हरिणा जुद्धंता दो वि एक-हरिणि-कए ।
 वाहेण हया जुगवं उप्पत्ता गंडया मिलिया ॥
 ते एक-पल्ल-कए कलहंता कहमे मया पडिडं ।
 होऊण नरा जाया एकस्स तवस्सिणो सीसा ॥
 कालेण गुरुम्मि मए कलहं दो वि एक-मढ-कत्ते ।
 अन्नो-ऽन्न-पहार-कया महीइ पडिया मए दिट्ठा ॥

उवसामिऊण परमिद्धि-भंत-सवर्णं कराविया दो वि ।
 मरिऊण त-प्पभावेण दो वि तुह नंदणा जाया ॥
 संगामं कुणमाणा इमे पुणो एक्क-खेयरी-कज्जे ।
 दिट्ठा मए दयाए बुज्झविया कहिय-पुब्ब-भवे ॥
 तो भणियं कुमरोहिं सब्बमिणं अवितहं तए कहियं ।
 निरयंघकूव-कुहरे निवडंता रक्खिया अग्हे ॥
 अणुभूयं कोव-फलं अओ परं उवसमं करिस्सामो ।
 ता देसु अग्हे दिक्खं तो दुत्ति वि दिक्खिया मुणिणा ॥
 उवसग्ग-परे वि परे खमा-पहाणा परुप्परमकुब्धा ।
 कत्थ वि विसए मरिऊण दो वि पत्ता तियस-लोयं ॥
 इति कोपविषये सिंहव्याघ्र-कथा ।

अट्ट-भय-ट्ठाणेहिं मत्तो अंतो-निविट्ट-संकु व्व ।
 कस्स वि अनमंतो तिहुयणं पि मच्चइ तणं व नरो ॥
 मय-धट्ठो उट्ट-सुहो गयणम्मि गणंतओ रिक्खाइं ।
 अनिरिक्खिय-सुह-मग्गो भवावडे पडइ किं चोज्जं ॥
 राया-अमबाईणं पि सेवओ माणवज्जिओ चेव ।
 लहइ मण-वंछियत्थं पुरिसो माणी पुण अणत्थं ॥
 माणी उव्वेय-करो न पावए कामिणीण काम-सुहं ।
 इत्थीण काम-सत्थेसु कम्मणं महवं जग्हा ॥
 मोक्ख-तरु-धीय-भूओ माण-त्थइस्स नत्थि घम्मो वि ।
 घम्मस्स जओ समए विणड चिय वन्निओ मूलं ॥
 जाइ-कुलाइ-मएहिं नद्धिओ जीवो वि विडंबणं लहइ ।
 तेहिं पुण वज्जिओ गोवणो व्व सुह-भायणं होइ ॥
 तं जहा—

अत्थि इत्थेव भरहे चंदपुरी नयरी ।
 सरयव्व-विग्गमादव्व-देव-भवण-प्पहा-कडप्पेण ।
 अमरपुरिं पि हसंति व्व सहइ जा नियय-रिड्डीए ॥
 तत्थ दमियारी राया ।
 नक्खत्त-कुसुम-टिवडिक्कियाइ हरिणं-क-मंडल-कलाए ।

बंभंड-मंडवो जस्स कित्ति-वल्लीइ संछन्नो ॥
 तस्सासि पवर-बुद्धी समत्थ-सत्थत्थ-वित्थर-पवीणो ।
 कय-सयल-कज्ज-रज्जो मंती नामेण गोविंदो ॥
 सावित्ति व्व विरंचिस्स वल्लहा तस्स गोमई गिहिणी ।
 तेसिं पगिट्ठ-रूवो संजाओ गोघणो पुत्तो ॥
 समए पढाविओ सो वागरणाईणि सयल-सत्थाई ।
 कलहो व्व करिंदत्तं कमेण तारुत्तमारूढो ॥
 अह जलहिणो व्व वेला फुरिया चित्तम्मि तस्स दप्प-कला ।
 अहमेव जाइ-कुल-रूव-नाण-पमुहे हि पवरो त्ति ॥
 जो को वि अत्थि सत्थत्थ-पारगो सो मए समं वायं ।
 कुणउ त्ति भणंतो सो पुरम्मि पुग्गाइं वाएइ ॥
 नरनाह-मंति-पुत्तो त्ति तेण सह को वि कुणइ न विघायं ।
 तो गाहं सो गहिओ अहमेव बुद्धो त्ति गब्बेण ॥
 सो पिडणा सिक्खविओ वच्छ ! सगन्नस्स अणुचिओ गब्बो ।
 तुच्छाण फुरइ चित्ते पायं अत्तुक्करिस-बुद्धी ॥
 जं स-गुण-गव्व-गहिलो तुमं न गरूए वि नमसि तमजुत्तं ।
 पुरिसस्स नम्मया नम्मय व्व उदयावहा जम्हा ॥
 गुणिणो जणस्स गब्बो गरूओ हरिणो ससिस्स व कलंको ।
 ता पुत्त ! तं विमुत्तुं वट्टसु सप्पुरिस-मग्गेण ॥
 पर-दूसणं न जंपइ थेवं पि गुणं परस्स वज्जरइ ।
 न कुणइ परे असूयं न परं परिहवइ सप्पुरिसो ॥
 भरिओ वि न मज्जइ सायरो व्व फलिओ वि नमइ रुक्खो व ।
 पुत्तो वि चयइ चंदो व्व कुडिल-भावं महा-पुरिसो ॥
 सो पिडणा सिक्खविओ वि निट्ठुरो महवं न पडिवन्नो ।
 परिक्रमिओ वि बहुसो काओ किं मरगओ होइ ? ॥

तओ सो पर्यंड-पंडिच्च-दप्प-दुपिच्छो मए इमम्मि नयरे सब्बे विबुहा
 गहाविया मोणं, नयरंतरेसु वि एवं करेमि त्ति चिंतंतो निग्गओ निय-न-
 यरीओ । अवरावर-वियक्खणोहि सह वयण-कलहं कुणंतो परिब्भमिओ भूरि-
 देसेसु । कयाइ केणाऽवि कहियं तस्स, जहा, सीह-गुहा-पल्ली-सामिणो माणभं-
 ग-मार्यंगस्स धूया पगिट्ठ-रूवा निय-छइल्लत्तणओ उत्ताणा भणइ नत्थि को वि

सो वियड्डो जेण समं जंपेमि । तं सोऊण कया गोघणेण पइन्ना मए सा निरु-
त्तरा कायव्व ति । सो अभिमान-वसओ वीसरिऊण अप्पणो परस्स य जाइं
गओ पड्डि । पविट्ठो पड्डिनाह-भवणं, दिट्ठो तत्थ आसणत्थो पड्डि-नाहो । तप्प-
णमत्थमागया धूया । तं दट्ठुं चित्थियं गोघणेण अहो ! अक्खमुयं इमीए ताव
रूवं । भणिओ पड्डिनाहेण गोघणो—को तुमं किमत्थ वा इत्थ आगओ ? ।
गोघणेण वुत्तं—सुण,

गोकर्णः कान्यकुब्जे सदसि नरपते ! उज्जयिन्यां जयन्तो
वाराणस्यां स्वयम्भूर्गजपुरनगरे निर्जितः पद्मनाभः ।

भूयांसोऽन्येऽपि मूकव्रतमधिगमिता वादिनो येन सोऽयं
पल्लीनाथ ! त्वदीयां दुहितरमधुना गोघनो द्रष्टुमागात् ॥

पड्डिनाहेण जंपियं—पंडिच्च-दप्पेण इत्थियं भूमिमाणीओ तुमं । धूयाए ह-
सिऊण भणियं—एएसि पंडियाणं व ममाऽवि पराजए समुज्जओ सि, ता सुण;
मेइणि-संभवित्थी-तणओ चुक्खओ सु पुणु अजाओ ।

जणणि-सहोयक निय-जणओ जोयइ जगि सविस्ताओ ॥

इमस्स परमत्थं कहेसु । परिभावंतेणावि नावगओ गोघणेण तस्स-
त्थो । पड्डिनाहेण वुत्तं—पुत्ति ! तुमं कहसु । तीए भणियं सुणह—वसंतउरे
नयरे सुभगा नाम वेसा । सिद्धो नाम वाणि-उत्तो अणुरत्तो तीए । जाया सा
शुक्विणी । तीए पसव-मासे चिर-रूढ-वण-रेहं पट्टि-देसे दट्ठुण सिद्धेण पुच्छिया
अक्का किं तुह सुयाए एयं ति । तीए कहियं इओ खुइसणहं धरिसाणं परओ
चित्त-कसिण-पंचमीए पओसे पुव्व-दिसाए एसा दो-वरिसा मए मेइणीए पड्डि-
या पाविया । ता एवं तक्केमि कत्तस वि सुव्वयंतस्स सगडाओ पड्डियाए
इमीए दिव्व-वसओ चक्केण अक्कंताए वि अमयाए एसा चक्क-वसणि ति । एवं
सोउं सिद्धेण जंपियं—पिय-हराओ इत्थ पुरे मह मायाए मए सह सगडारू-
ढाए इंतीए पड्डिया पुत्ती ता वरिस-मास-तिहि-समग्ग-पसुहाण संवायाउ ममे-
सा नूणं स च्चिय लहुय-बहिणी ।

धिद्वी ! मए अक्कळं कयं इमीए सह विहि-वसएण ।

ता किं करेमि वच्चामि कत्थ कह होज्ज मह सुद्धी ? ॥

इय सो विसन्न-चित्तो गेहाओ विणिग्गओ गओ कह वि ।

तमपिच्छंती सुभगा दुह-विहुरा मरणमावन्ना ॥

तया तीए क्षत्ति उयरं दारिऊण कड्डिओ गब्भाओ पुत्तो, संवड्डिओ सो

अक्काए । जुव्वणत्थेण तेण पुच्छिया अक्का कत्थ मे जणओ । तीए कहियं—
 कत्थ वि गओ त्ति । एवं मेइणीए पुहवीए पडिया पाविय त्ति मेइणी-संभवा
 जा इत्थी, न उण मेयणीइ संभवा । तीए पुत्तो चुक्खो पवित्तो नामओ सो
 पुण उदरं दारिऊण कड्ढिओ त्ति अजाओ, न पसूओ । सो जणणी-भाघरं
 जणयं गवेसइ त्ति भावत्थो । गोघणेण वुत्तं—अहो ! इमीए वियट्ठिमा,
 अहो ! वयण-विन्नासो, ताऽहं रंजिओ अ, अलं रंजिओ य । भणिओ सो
 पल्लिनाहेण—भो ! जइ तुमए इमं न नायं ता किं इत्तिएणाऽवि लहुओ सि ।
 गरुओ पंढिओ तुमं । ता कहसु किं ते कीरइ ? । तेण भणियं जस्स पढियं न
 याणेमि तस्स सेवगेण मए होयव्वं ति कया पइत्ता पुव्वं । अओ ! तुह धूयाए
 सेवं काउमिच्छामि । पल्लिनाहेण चित्तियं—हा ! किमेवं एसो निय-जीहाए
 जंपइ त्ति । हुं नायं, दिट्ठि-वियारेण मम धूया-ऽणुरत्तो व्व एसो लक्खिज्जइ ।
 मम धूया वि गुणवंताणुरागिणी, ता होउ एसिं दुण्हं पि सरिसाणं संबंधो त्ति ।
 तओ भणिओ गोघणो—भइ ! गुणवंतो तुमं । तुह सेवं करिस्सइ मे धूया, ता
 परिणेषु एयं ति । परितुट्ठेण पडिवन्नमेयं । गोघणो परिणाविओ पल्लिनाहेण तं
 धूर्यं । सो तीए सह विसए सेवए । अह माणभंग-मार्यंगे पंचत्तं संपत्ते सच्चिय
 पल्लीवई जाओ । पारद्धि-कए कइयाऽवि चंड-चंडाल-चक्क-कलिएण चलिएण
 तेण दिट्ठो मग्गे पडिमा-ठिओ साहू ।

तं असउणो त्ति हणितं धावंतो गोघणो गहिय-खग्गो ।
 तिब्ब-तव-तोसियाए देवीए थंभिओ घरिओ ॥
 थंभो व्व थिरो निप्फंद-लोयणो तं मुणिं पलोयंतो ।
 सो चित्तियं पवत्तो को एस महापभावो त्ति ॥
 सम्मं परिभावंतेण तेण उवलक्खिओ अहो ! एसो ।
 मुगिहीय-नामधेयो गोविंदो च्चिय मह पिप्य त्ति ॥
 ता एयं पणमामि त्ति चित्तियं मुक्क-पहरणो चलिओ ।
 सो देवयाए मुक्को महि-निहिअ-सिरो मुणिं पणओ ॥
 पुरओ ठाउं भणियं अणेण सो एस ताय । दुप्पुत्तो ।
 तुह कुल-कलंक-भूओ निकिद्ध-चिट्ठो अदट्ठव्वो ॥
 ता मह कहाऽवि चिट्ठव महाणुभावाण जा असोयव्वा ।
 निय-चरियं पुण कहिउं कुणउ ममाणुग्गहं ताओ ॥
 वुत्तंतमिणं मुणिऊण आगया गोघणस्स गिहिणी वि ।

मुणिणो नमिऊण कमे कयंजली सा ठिया पुरओ ॥
 तो पारिऊण पडिमं भणियं समणेण वच्छ ! गेहाओ ।
 तह निक्खंते खेओ संजाओ मह अणक्खेओ ॥
 तुह विरहेण मणं मे कत्थ वि वत्थुम्मि रइमलभमाणं ।
 पत्थिव-पओयणेसु वि कमेण मंदायरं जायं ॥
 अन्न-दिणे उज्जाणं गएण दिट्ठो मए मुणी इक्को ।
 तं भत्तीए नमिउं उवविट्ठो तस्स पुरओऽहं ॥
 तेण भणियं किमेयं सुय-कल्ले खिज्जसे जओ भह ! ।
 हुंते वि सुए न गुणो न को वि अगुणो अहुंतम्मि ॥
 पुव्व-कय-सुकय-वसओ जीवो सुहिओ हविज्ज इह लोए ।
 इह भव-सुकएणं पुण परलोए पावए सुक्खं ॥
 पुत्ताण अभावम्मि वि सुहिणो दीसंति के वि सुकय-वसा ।
 हुंतेसु वि तेसु परे न सुहं पावंति पाव-हया ॥
 ता सुत्तं सुय-सौर्यं जिण-भणियं धम्ममिक्कमायरसु ।
 जो पर-जम्म-सहाओ होढं जीवस्स कुणइ सुहं ॥
 ताऽहं विसय-विरत्तो पडिवन्नो संजमं गुरु-समीवे ।
 मह तिव्व-त्तव-पभावेणं ओहि-नाणं समुप्पन्नं ॥
 तुज्झ पडिवोह-समयं मुणिऊण इहागओ अहं एसो ।
 तो गोषणेण वुत्तं भयवं ! हा पाव-कम्मोऽहं ॥
 एवं विडंबणं जो मएण पत्तोऽम्हि जंपियं मुणिणा ।
 थेवा इमा पुरा-भव-अणुभूय-विडंबणाहितो ॥

जओ—

जाओ सि खरो सुणहो कोलो छागो कमेलगो मूओ ।
 जाइ-कुलाइ-मयाओ संकर-जम्मम्मि विहियाओ ॥
 ता गोषणेण भणियं भयवं ! कह मे अणुग्गहं काढं ।
 पत्तं मए कहमिणं मुणिणा भणियं सुणसु वच्छ ! ॥
 इह आसि कासि-नयरी-वत्थव्वो संकरो वर-गिहत्थो ।
 सुह-जाइ-कुलुप्पन्नो ख्व-कला-विहव-संपन्नो ॥
 मज्झ विसुद्धा जाई गरुयं पुत्तं मणोहरं ख्वं ।
 परमं कला-कलावे कोसलमत्तुल्लमीसरियं ॥

इचाइ-मयद्वाणेहि विनडिओ निदुरेहि वयणेहि ।
 लोयं अहिक्विखवंतो सो बंधइ नीय-गुत्ताइं ॥
 मरिऊण रासहो सो संजाओ भार-वहण-खिचंगो ।
 जीयं गमिऊण मओ सुणहो जाओ गओ पोदिं ॥
 असुइं चि य भक्खंतो मरिडं सो गड्डु-सूयरो जाओ ।
 पंक-लुलिओ नियाडं खविडं सो छगलगो जाओ ॥
 संकर-सुएण किणिडं हणिओ सो संकरस्स मय-कज्जे ।
 तत्तो/जाओ करहो कयाइ गुरु-भार-अक्कंतो ॥
 पडिऊण दुत्तडीए सो वेयण-विहुर-विग्गहो मरिओ ।
 चंपापुरीइ माहण-गिहम्मि दासो समुप्पन्नो ॥
 सो मूयओ वराओ कयाइ मासोववास-पारणए ।
 भिक्खा-कए पविट्ठो समणो माहण-गिहे तम्मि ॥
 असुद्धो अफरिसणिज्जो जइ वि इमो तह वि तव-पहाणु त्ति ।
 मन्नंतीए सो माहणीए पडिलाभिओ सम्मं ॥
 मह सामिणी कयत्था जा दाणं देइ साहुणो एवं ।
 इय अणुमोयंतेणं दासेण उवज्जियं सुकयं ॥
 सुकएण तेण दासो मरिडं जाओ सि वच्छ ! मह पुत्तो ।
 तं पुण पुच्च-मय-फलं [जं] चंडालाण मिलिओ सि ॥
 मरिऊण माहणी सा जाया मुणिदाणओ इमा सगुणा ।
 समण-दुगंछाए पुण चंडाल-कुलम्मि उप्पन्ना ॥
 तो सुमरिय पुच्चभवो पर्यपए गोधणो सह पियाए ।
 अणुभूयं माण-फलं अओ परं तं न काहामि ॥
 तत्तो इमिणा सम्मत्त-पुच्चगं सावगत्तणं गहियं ।
 गुरु-पासे गरहंतेण माण-जणियं पुरा-पावं ॥
 तं पालिऊण सम्मं समाहिणा अणसणेण मरिऊण ।
 सोहम्मो दो वि सुरा ति-पल्ल-परमाडणो जाया ॥

इति मानविपाके गोधन-कथा ॥

धम्म-वण-जलण-जाला मोह-महा-मयगलाण [जा] साला ।
 कुगइ-बह्व-वर-माला माया सुह-मइ-हरण-हाला ॥

शेव-कए कवड-परो निविडं निविडं तमावया-लकखं ।
 लकखइ न जणो लगुडं पयं पियंतो विडालो व्व ॥
 माया-वसेण कवड-प्पओग-कुसला अक्खिमायरिडं ।
 पत्ता इहेव सयमेव लज्जिडं नाइणी निहणं ॥

तं जहा—

इह जयपुरं पुरं अत्थि जत्थ वित्थिन्न-पन्न-पुन्नाओ ।
 पवरावण-वीहीओ वाहिं मज्जे य रेहंति ॥
 तत्थासि विजयघम्मो राया सूरस्स जस्स न समत्थो ।
 दहुं पि मंडलगं भएण रिड-कोसिय-समूहो ॥
 रत्तो तस्स बहु-मओ मयंक-निम्मल-शुणागरो सिट्ठी ।
 तत्थासि गंगदत्तो तग्गिहिणी गंगिला नाम ॥
 नागो त्ति ताण पुत्तो विसिद्ध-रूवो सहावओ सरलो ।
 सयल-कला-कुल-निलओ कमेण सो जुव्वणं पत्तो ॥
 ईसर-वणिणो धूया परिणीया तेण नागिणी नाम ।
 सा नागिणी व्व दुट्ठा कुडिल-सहावा वियड-भोगा ॥
 महुरं जंपंतीए तीए अणुक्कलमायरंतीए ।
 सासू-ससुराण मणं परमं परिओसमाणीयं ॥
 भत्ता हिया विणीया एसा अम्हं ति ते विचितंति ।
 को वा कवड-पओगेण कीरए न धुवमप्पवसो ॥
 इंतस्स भत्तुणो सा अब्भुट्ठाणं ससंभमं कुणइ ।
 सयमासणं समप्पइ पक्खालइ अप्पणा पाए ॥
 पय-पक्खालण-सलिलं देइ सिरे देव-न्हवण-सलिलं व ।
 चिद्धइ अणन्न-दिट्ठी पुरओ आणं पडिच्छंती ॥
 सुत्तम्मि तम्मि सुंजइ सुयइ पसुत्तम्मि जगए पुवं ।
 इय कवड-परं तं चिय मन्नइ नागो सुघरिणि त्ति ॥
 अह अन्नया वसंतो वियंभिओ जणिय-जण-मणाणंदो ।
 तम्मि गओ नयर-जणो सब्बो कीलत्थमुज्जाणे ॥
 नागो वि तत्थ गंतुं कंदुग-कीलं करेइ मित्त-जुओ ।
 अह तत्थ काऽवि गणिया हरिया खयरेण एक्केण ॥
 गणिया-परिवारेणं पुक्करिअं अत्थि को वि सप्पुरिसो ।

खयरैण निज्जमाणिं जो रक्खइ सामिणिं अम्ह ॥
 तो संजाय-दएणं नागेण नहंगणम्मि गच्छंतो ।
 तह कणय-कंदुगेणं मम्म-पएसे हओ खयरो ॥
 खयरस्स जहा पडिया पहार-पीडा-विहत्थ-हत्थस्स ।
 सा सरवरस्स मज्झे अमुणिय-गयणावडण-दुक्खा ॥
 नागेण पविसिउं सरवरम्मि धरिया झड त्ति बुड्ढंती ।
 तीरं सुहेण नेउं जणणीए अप्पिया गणिया ॥
 परितुट्ठाए तीए भणिओ सो सिट्ठि-पुत्त ! मह धूरं ।
 रक्खंतैणं जीवावियऽम्हि तुमए सपरिवारा ॥
 सो नीओ निय-गेहं काउं सम्माणमुत्तमं भणिओ ।
 घरमेयमेस विभवो अहं च सव्वं तुहायत्तं ॥
 निय-विक्रमेण किणिया जा तुमए रक्खिऊण वसणाओ ।
 मयणलयाए तीए किं पुण वत्तव्वमेयाए ॥
 मयणलयाए वुत्तं सुहय ! जहा निवसिओ सि अम्ह मणे ।
 भवणे वि इमम्मि तहा तुमए निच्चं पि वसियव्वं ॥
 एवं सिणेह-वयणेहिं ताहिं उवरोहिओ तहा नागो ।
 जह मयणलयाए सह चिट्ठइ बहुविह-विणोएहिं ॥
 जाणिय-वुत्तंतैणं नागो जणएण जंपिओ एवं ।
 वच्छ ! वणियाण अम्हं न पोरिसं एरिसं सरिसं ॥
 घडिओ खु विक्रमो खत्तियाण सो सोहए न वणियाण ।
 करहस्स जं न घडियं न रेहए नेउरं तं सो ॥

किं च—

पुरिसस्स हियाहिय-चित्तगस्स जुज्जइ न सेविउं वेसा ।
 मुणियो अत्तम व्व तवं जा विहवं सुट्ठु निट्ठवइ ॥
 भणइ सुओ ताय ! तया तुमुलं सोऊण मह मणं जायं ।
 तह करुणा-रस-विवसं जह वणिओऽहं त्ति वीसरियं ॥
 निउण-मइणो वि सहसा नरस्स तं किं चि आवडइ कज्जं ।
 उच्चियाणुच्चिय-विवेगो न जम्हि हियए परिप्पुरइ ॥
 वेसा-संगोऽणुच्चिओ त्ति जं च आइससि ताय ! तं जुत्तं ।
 किं तु न घणात्थिणी सा कुणइ कह्खु त्ति मइ नेहं ॥

अह क्तिण्ण वि काले गयम्मि अधिरत्तणेण जीयस्स ।
 परलोयं संपत्तो जणओ जणणी य नागस्स ॥
 सासु-सुसरेसु दिवं गएसु गणिया-गिह-ट्टिए नागे ।
 पर-पुरिसेहि सह घणं निरग्गला नागिणी खाइ ॥
 चोरेहि हरियमेयं ति कुणइ कवडुत्तराई नागस्स ।
 सोऊण सरल-सहावो तह ति पडिवज्जए सच्चं ॥
 अह भणइ नागिणी तं सु चिय सलहिज्जए जए पुरिसो ।
 निय-भुय-विदत्त-वित्तो क्तिं धम्मं च जो कुणइ ॥
 देसंतर-गमणेणं विणा न पुक्खल-घणागमो होइ ।
 ता जुच्चणम्मि जुज्जइ तुह पिय ! देसंतरं गंतुं ॥
 तं हिय-चयणं नागो मन्नतो भणइ भणसि सुहु पिए ! ।
 तं पुण मयणलयाए अक्खइ सा जंपए नागं ॥
 पिययम ! अन्नासत्ता तुह भज्जा ते उवइसइ एवं ।
 नहि देसंतर-गमणं पियस्स महिला महइ कहवि ॥
 नागो भणइ मइ चिय अणुरत्ता नागिणी सई पवरा ।
 पर-पुरिसे रमण-मणं वि कुणइ न कया वि सीय व्व ॥
 गणिया जंपइ पिययम ! न मुणसि इत्थीण कवड-चरियाइं ।
 जाउ कुणंति अकज्जं तहा परं पत्तियावन्ति ॥

कि च—

सिद्धि-सुयाए कवडं इण्हि चिय जं कयं इहेव पुरे ।
 तं सुणसु भणइ नागो कहसु पिए ! तं कहइ गणिया ॥
 इत्थेव पुरे सिद्धी मणोरहो नाम अत्थि अत्थीणं ।
 अत्थ-पयाण-समत्थो लच्छी नामेण तस्स पिया ॥
 ताण चउण्हं पुत्ताण उवरि जाया मणोरह-सएहि ।
 सुंदरिम-विणिज्जिय-तियस-सुंदरी सुंदरी घूया ॥
 तीए परिणयणाओ अणंतरं चेव उवरओ भत्ता ।
 भणियं पिउणा वच्छे ! विरसो चिय एस संसारो ॥
 पहवन्ति मच्चु-पासा अखलिय-पसरा सुरासुराणं पि ।
 ता चिट्ठ चत्त-खेया गिह-कम्मं किं पि-अकुणंती ॥
 अन्नदिणम्मि गवक्खे ठियाइ तीए पहम्मि वचन्तो ।

राय-सुओ सव्वुत्तम-रुवो नव-जुव्वणो दिट्ठो ॥
 पच्चत्त-काम-एव-वभमेण सुक्काड तम्मि दिट्ठीओ ।
 नीलुप्पल-मालाओ तीए अह वंदिणा पढियं ॥
 जयइ विजय-लच्छी-संगओ वंग-देसा-
 हिवइ-भुवणपालस्संगओ कामपालो ।
 अइसय-रमणिज्जं पेक्खिउं जस्स रुवं
 धुवममर-वहूओ मच्च-लोकं महंति ॥
 एयं सेट्ठि-सुयाए सुणिऊण वियाणियं जहा एसो ।
 वंगाहिव-राय-सुओ नामेणं कामपालो त्ति ॥
 राय-सुएण वि दिट्ठा सिट्ठि-सुया साणुराय-दिट्ठीए ।
 सो तं चिय चिंततो विज्जं व गओ नियावासं ॥
 काम-ज्जरेण गहिओ चिद्धइ कत्थ वि रइं अलभमाणो ।
 जाया दढमस्सत्था सेट्ठि-सुया मयण-सर-विहुरा ॥
 सेट्ठी तओ विसन्नो कुडिलं पब्बाइगं गिहे पत्तं ।
 ददूण भणइ भदे ! मह धूया वाढमस्सत्था ॥
 तं सज्जी कुणसु तुमं सा जंपइ सेट्ठि ! ताव पेच्छामि ।
 पत्ता तीए पासं सुणिउं से वम्मह-वियारं ॥
 एगंते भणइ मए तुह अस्सत्थत्त-कारणं सुणियं ।
 ता साहसु सव्वभावं तं संपाडेमि जेणाऽहं ॥
 अन्ना न गइ त्ति कहेइ तीइ सा राय-पुत्त-बुत्तंतं ।
 सा कवड-निही जंपइ वच्चसु आइच्च-वारम्मि ॥
 आइच्च-हरे आइच्च-अच्चण-मिसेण कारविस्सामि ।
 तइंसणं तहिं तुह इय भणियं उट्ठिया एसा ॥
 सेट्ठिस्स कहइ दोसो नियत्तिओ तुहं सुयाए किंचि मए ।
 रवि-चारे रवि-पूयाइ सव्वहा पुण नियत्तिहिइ ॥
 तो राय-सुयावासं पत्ता बुत्ता य तस्स भिचेहिं ।
 भयवइ ! किं चि वियाणसि सां भणइ सुणामि सव्वं पि ॥
 ते थिति अम्ह सामी दढमसमत्थो करेसु तं सज्जं ।
 काहामि त्ति भणंती सा नीया राय-सुय-पासं ॥
 सो रहसि तीइ भणिओ सेट्ठि-सुया-दंसण-च्छलं लहिउं ।

छलिओ मयण-पिसाएण तेण जाओ सि अस्सत्थो ॥
 हसिउं राय-सुएणं भणियं भयवइ ! कहं मुणसि एयं ? ।
 अहवा होइ फुडं दिव्व-नाण-नयणो तवस्सि-जणो ॥
 सत्थत्तणे उवायं चित्तमु सा भणइ चिंतिओ च्चैय ।
 रवि-वारे रवि-भवणे गच्छसु जेणिच्छियं लहसि ॥
 अह पत्ता सेट्ठि-सुया सयण-जुया रविगिहम्मि रवि-पूयं ।
 काउं विनिगच्छंती राय-सुएणं भुए गहिया ॥
 तो पुक्करियमिमीए छिवियाए मज्झ अन्न-पुरिसेण ।
 अग्गि विणा न सुहिं ति झडित्ति कड्डेह कट्टाईं ॥
 पिडणा नियत्तिया सा कहं पि तो आगया नियं गेहं ।
 पच्चाइयं पयंपइ तं आणसु कहं वि रयणीए ॥
 तहेव विहियं तीए जाओ दुणहं पि संगमो ।
 'पट्ट-कर्णो भियते मन्त्र' इय तीए विचिंतिउं ॥
 पच्चाइयं पसुत्तं ततो कथाइएहिं पिहिज्जण ।
 भवणं पलीवियं निग्गयाइं दुन्नि वि निह्वय-निह्वयं ॥
 पच्चाइया निरग्गल-मइ-प्पवंचा वि वंचिया तीए ।
 कवड्डकडाण कय-दुक्कडाण नणु, किच्चिरं कुसलं ॥
 तीए सह राय-सुओ गओ सभवणम्मि अह गिहे दड्डं ।
 पच्चाइगं सुयं चिय मन्नतो विलवए सेट्ठी ॥
 हा पुत्ति ! तए पर-पुरिस-फरिस-विह्वुराए मग्गिओ अग्गी ।
 दिन्ना न मए सयमेव साहिओ तहं वि सो तुमए ॥
 तुमए च्चिय एक्काए पुत्ति ! मुहं मज्झ उल्ललं विहियं ।
 रमणीण मंडणं जं सीलं तुहं च्चैव तं दिट्ठं ॥
 तीए मय-किच्चाइं काउं अट्ठीणि खिवइ सो तित्थे ।
 अह कइवय-दियएहि राय-सुयस्स वि घणं तुट्ठं ॥
 सो भणइ पिए ! जामो निय-देसं तं भणेइ सेट्ठि-सुया ।
 मा कुरु एवं इत्थेव पूरिही सब्बमवि सेट्ठी ॥
 कहियं च तस्स कल्ले तीए एवं तुमं करेसु ति ।
 तो गंतुं राय-सुओ हट्ठे सिट्ठिं भणइ एवं ॥
 दव्वेसु देह मह पट्ट-साडियं तेण अप्पिया साडी ।

सा घरिणि-दंसणत्थं पट्टविया राय-पुत्तेण ॥
 अमणहर त्ति न गहिया तीए तो पेसिया पुणो अन्ना ।
 सा वि न गहिया तीए दु-तिन्नि-वारं कयं एवं ॥
 सिट्ठी जंपइ स च्चिय इह एउ किमन्न-पाय-घसणेण ।
 तत्तो समागया सा तं दट्टुं सेट्टिणा भणियं ॥
 एसा सा मह धूया राय-सुओ भणइ किं न संभरसि ? ।
 किं धूयमग्गि-दट्टुं किं सिट्ठि ! सिणेह-गहिलो सि ? ॥
 सिट्ठी जंपइ सरिसत्तणेण मूढो म्हि भणइ राय-सुओ ।
 सिट्ठि ! न दोसो तुह जेण सरिस-वत्थूसु होइ भमो ॥
 सरिसत्तणओ जाओ आइच्च-हरे भमो तथा मज्झ ।
 जेण मए तह धूया छिक्का निय-घरिणि-बुद्धीए ॥
 संपइ पुण संपन्नो तुज्झ भमो जो तुमं मह कलत्तं ।
 निय-धूयं भणसि अओ भमेण दुत्ति वि समा अम्हे ॥
 सिट्ठी जंपइ धूया-सरिसा एसा वि मज्झ धूय त्ति ।
 ता तुज्झ जेण कज्जं तं गिण्हसु मह सयासाओ ॥
 इय इत्थीणं चरियं गहणं निउणो वि नाह ! न मुणेइ ।
 तत्तो जंपइ नागो पिच्छिस्समहं घरिणि-चरियं ॥
 अह दिसि-जत्तारंभं काउं नागेण नागिणी बुत्ता ।
 जामि पिए ! देसंतरमहं तुमं चिट्ठ गेहम्मि ॥
 सा भणइ तुज्झ विरहे अ-रइ-करं मह घरं मसाणं व ।
 किं तु अजुत्तं पिय-वयण-लंघणं तेण चिट्ठामि ॥
 सो पत्थिओ पसत्थे दिणम्मि गंतूण जोयणे कइ वि ।
 देसंतरे घणत्थं पट्टविउं वाणियं अन्नं ॥
 नागो सयं नियत्तो चिट्ठइ गणिया-गिहे पविसिऊण ।
 कइयाइ निसाए गओ स-गिहं कप्पडिय-वेसेण ॥
 तं भणइ नागिणी किं देसंतरिओ सि ? सो भणइ एवं ।
 सा भणइ कुणसि कज्जं जइ मे ता रूवर्यं देमि ॥
 तेणुत्तं तुह कज्जं काहं सा भणइ पडलयं एयं ।
 गिण्हसु इमिणा गहियं तेण समं सा गया बार्हिं ॥
 तत्थत्थि सूलि-भित्तो पुरिसो गरुए कर्हिं पि अवराहे ।

सो पुण तीए दइओ सा तं बुसिणेण रंजेइ ॥
 कुसुमेहि पूयए तस्स दोयए खज्ज-मोयग-प्पसुहं ।
 पुण आगच्छइ गेहं सा कप्पडियं भणइ एवं ॥
 सुवसु तुमं घर-दारे गोसे गिण्हिज्ज ख्वगं जं ते ।
 सुवइ तहि कप्पडिओ तीए अन्नो वि अत्थि पिओ ॥
 सो आगओ गिहं से सुणिउं तव्वइयरं भणइ एयं ।
 सो चोरो तुज्झ पिओ मयं पि अत्थेसि जं रंढे ! ॥
 सिद्धो वि अणिट्ठोऽहं ता तुमए मह न किं पि कज्जं ति ।
 जंपंतो सो सुत्तो सिज्जाइ परम्महो ठावं ॥
 कुणइ मह मम्म-भेयं इमो ति कुवियाइ तीइ तस्स सिरं ।
 छिन्नं छुरियाए अहह ! साहसं किं पि महिल्लाणं ॥
 पुण भणिओ कप्पडिओ खण खड्डं देमि ख्वगं बीयं ।
 तेणाऽवि कोउगेणं गिहेग-देसम्मि सा खणिया ॥
 मारिय-पुरिस-सरीरं पक्खित्तं खंडिउं तहि तीए ।
 तत्तो विग्घिय-चित्तो पत्तो गणिया-गिहे नागो ॥
 मयणलयाए अक्खइ मह घरिणी लक्खिया तए सुट्ठु ।
 सप्पस्स सुणइ घसणिं सप्पो च्चिय इय कयं सब्बं ॥
 सो ताव ठिओ तत्थेव जाव देसंतराउ संपत्तो ।
 गहियत्थो वणिउत्तो तेण समं तो गओ गेहं ॥
 पुब्बं व वसइ सह नागिणीइ नागो अभिन्न-सुह-रागो ।
 नहि दंसंति धिरागं गरुया गरुए वि अवरारहे ॥
 कहया वि अक्खजूए नागो घरिणीइ ख्वगं जिणिओ ।
 पुण पुण तं मग्गंती भणिया नागेण सा एवं ॥
 चिट्ठंति तुज्झ पासे लद्धा दो ख्वगा मए पुब्बं ।
 तेसि एक्को वलिओ बीओ पुण संपयं लद्धो ॥
 तीए बुत्तं के दुद्धि ख्वगा तो पर्यंपए नागो ।
 एक्को पडलय-त्रयणे खड्डा-खणणम्मि पुण बीओ ॥
 तं सोऊण हहा ! मह चरियं सब्बं अणेण द्विट्ठं ति ।
 दुक्खेण फुट्ट-हियया मया गया नागिणी निरयं ॥
 लोगो जंपइ नागं देसि न किं सुंठि-सुंत्तलहियं ? ।

भज्जाइ मरंतीए तत्तो नागेण संलत्तं ॥
 लेक्खइ चोक्खइ जो मरइ निय-दुच्चरिय-वसेण ।
 सुंठि-सुंचलु किं करेइ तसु दिघं अवरेण ॥
 इय नागिणीए चरियं पवंच-वहुलं पलोइडं नागो ।
 वेरग्ग-भग्ग-लग्गो आढत्तो चित्तिडं एवं ॥
 कूड-कुडुंब-कुडीओ विवेय-मायंड-मेह-मालाओ ।
 को महइ बाल-वालुंकि-वाल-कुडिलाओ महिलाओ ॥
 रज्जइ कर-चलणाहर-दलेसु तरुणीणं निच-रत्तेसु ।
 खण-रत्त-विरत्तं पुण मूढो सुणइ मणं तासि ॥
 मयण-धणु-लट्ठि-वंकासु तूसए कामिणीण भसुहासु ।
 ताण न याणइ मूढो चित्तं तु सहस्स-गुण-वंकं ॥
 तुच्छं मज्झं कट्ठिणं थण-त्थलं चंचलं च नयण-जुयं ।
 पर-मोहत्थं महिला पयडंति न एरिसं तु मणं ॥
 तुंग-थण-त्थल-विसमे असंभवं रमणि-देह-मरु-देसे ।
 सेवेइ संवरं जो पीडिज्जइ सो न तणहाए ॥
 एवं संवेय-परो विसय-विरत्तो वि विसय-भइ-जुत्तो ।
 नागो नाण-दिवागर-गुरु-पासे सुणइ जिण-धम्मं ॥
 तो कवड-वत्त-चित्तो चारित्तं गेण्हइ तवं काडं ।
 समए मरिऊण गओ संगं मोक्खं च सो लहिही ॥
 इति मायायां नागिनी-कथा ॥

जो कोह-माण-माया-परिहार-परो वि वज्जइ न लोहं ।
 पोओ व्व सागरे सो भवम्मि बुडुइ कु-कम्म-गुरु ॥
 ससि-कर-धवला वि गुणा निय-आसय-वाह-कारए लोहे ।
 आवट्ठंति जल-कणा लोहम्मि व जलण-संसत्ते ॥
 इह लोयम्मि किलेसे लहिडं लोभाड सागरो गरुए ।
 पर-लोए संपत्तो दुग्गइ-दुक्खाइं तिक्खाइं ॥

तं जहा—

अत्थि भरहम्मि नयरी मिहिला मंहिल व्व मणहरांगारा ।
 पायारेण वरेणं परिचरिया जा परांगम्मा ॥

वेसमण-समाण-घणो तत्थ वणी अत्थि सागरो नाम ।
 अत्थं चिय पुरिसत्थं मन्नइ सो लोभ-गह-गहिओ ॥
 करिसण-हृद्-कलंतर-वाणिज्ज-पमुहे घणज्जणोवाए ।
 विविहे सो कुणइ सया अगणंतो अप्पणो दुक्खं ॥
 कहया वि तेण दिट्ठो जोगप्पो जोगिओ गरुय-गव्वो ।
 तत्तो का तुह सत्ति ? त्ति पुच्छिओ जंपए जोगी ॥
 रत्तीए वि दिणं दिणे वि रयणिं दंसेमि सेलेऽखिले
 उप्पाडेमि नहंगणाड गहणं पाडेमि भूमी-यले ।
 पारावारमहं तरेमि जलणं थंमेमि रुंमेमि वा
 दुब्बारं परचक्कमत्थि न जए तं मज्झ जं दुक्करं ॥
 तो सागरेण वुत्तो जोगिंद ! न मे पओयणं किं पि ।
 गह-गिरि-पमुहेहि पाडिएहि उप्पाडिएहिं वा ॥
 जइ अत्थि कणय-सिद्धी ता तं दंसेसु मे किमत्तेण ।
 तो जोगिएण भणियं कणगं आपोसु किंचि तुमं ॥
 तं झत्ति जेण दु-गुणं करेमि तो सागरेण आणीयं ।
 कणयस्स करिसमेक्कं कवडेण तमग्गिणा घमियं ॥
 खिविऊण नियय-कणयं छन्नं तं जोगिणा कयं दु-गुणं ।
 तो कुणइ विग्गिओ तस्स आयरं सागरो गरुयं ॥
 जोगी भणइ किलेसेण इत्तिएणेव होइ बहुयं पि ।
 तो कणग-पल-सयं सागरेण जोगिस्स उवणीयं ॥
 तं सयल-निसं दोहि वि घमियं जलणेण तो चरम-जामे ।
 सुत्तम्मि सागरे गिण्हिऊण तं जोगिओ नट्ठो ॥
 हा ! सुट्ठो त्ति विसन्नो कयाऽवि केणाऽवि सागरो भणिओ ।
 देसंतर-वाणिज्जे कीरंतं होइ घण-लाहो ॥
 काऊण महासत्थं गहिऊण कयाणगाइं विविहाइं ।
 लंघिय-विसम-अरन्नो सो पत्तो तामिलित्ति-पुरिं ॥
 कय-विक्कए कुणंतस्स तस्स जाओ तहिं बहुय-लाभो ।
 सो तहऽवि असंतुट्ठो समुद्धमवगाहिचं महइ ॥
 तेण गहियं पवहणं कइमयं अप्पणो चरित्तं व ।
 चित्तं न जत्थ थेवो वि विलसए लोह-संबंधो ॥

दीवंतर-जुगाइं किणियाइं कयाणगाइं विविहाइं ।
 कण-घय-तिल्ल-जलिंघण-पमुहाणं संगहो विहिओ ॥
 दा वि-कर-सुक्काण कोत्थला भरिया ।
 सत्थग्गि-तिल्ल-कंजिय जोहा गहिया य जुद्धत्थं ॥
 अह पिळ्ळियं पवहणं वज्जंताउज्ज-रव-भरिय-भुवणं ।
 तत्थ कय-मंगलो परियणेण सह सागरो चडिओ ॥
 पवणुप्पाडिय-सिय-वड-जणिय-जवं जाव तं कमह जलहिं ।
 तो छ-प्पड व्व कमले गयणे लहुओ घणो जाओ ॥
 सो कमसो वित्थरिओ कसिण-करालो कयंत-महिसो व्व ।
 फुरिया दिसासु जम-कत्तिय व्व दुइंसणा विज्जू ॥
 जाओ गज्जो वंभंड-भंड-फुट्टण-रवो व्व भय-हेऊ ।
 लद्धावसरो पिसुणो व्व दूसहो पसरिओ पवणो ॥
 पीय-सुरो व्व विसंडुल-पय-प्पयारो महोयही जाओ ।
 फुट्टं तओ पवहणं पडियं उद्दाड भंडं च ॥
 अह सागरेण लद्धं फलयं पिय-माणुसं व हियएण ।
 घित्तूण तं समुदे सो भमिओ सत्त-दियहाइं ॥
 पत्तो कहं पि तीरे सो दिट्ठो निदएहिं मिच्छेहिं ।
 पावंति लोह-विचसा जं वसणुत्तिरिविडिं जीवा ॥
 सो नीओ निय-ठाणं भुज्जं भोयाविओ य पुट्टि-करं ।
 तो तेण चित्थियमिणं किमिमे[मम]भोयणं दित्ति ॥
 अन्नदियहिम्मि एसो सब्वंगं पिच्छिऊण मिच्छेहिं ।
 x x x x x x x
 नीहरिय-रुहिर-धारो निवेसिओ बाहिर-पएसे ॥
 तस्सादूरम्मि ठिओ चावारोविय-सरो नरो य पच्छन्नं(?) ।
 तो सागरंग-लुद्धो पक्खि-विसेसो तहिं पत्तो ॥
 तं गिणहंतो पक्खी नरेण विद्धो महल्ल-भल्लीए ।
 सो तप्पहार-विहुरो धरणीए नियडिऊण मओ ॥
 करि-कुंभ-यडम्मि व मुत्तियाइं हिययम्मि तस्स रयणाइं ।
 चिट्ठंति तं छुरीए छित्तुं मिच्छेहिं गहियाइं ॥

इय सागरस्स कीरह पुण पुण मिच्छेहिं दुस्सहं दुक्खं ।
 अन्न-दियहे नरेणं भल्लीए मंद-चिट्ठो त्ति ॥
 पक्खी धित्तुं सागरमुप्पहओ सागरोवरी जंतो ।
 सागर-गयम्मि पोए पहार-पीडाउलो पडिओ ॥
 मुक्को य जीविएणं तो संभंतेण पोय-वणिएण ।
 को एसो बुत्तंतो त्ति सायरं सायरो पुट्ठो ॥
 निय-बुत्तंतं कहिउं सो भणइ इमस्स पक्खिणो हिययं ।
 भित्तूण गिण्ह रयणाइं ताइं तो तेण गहियाइं ॥
 तं रयण-लाभ-हेउत्तणेण उवगारिणं विभावंतो ।
 पत्थोसहेहि विविहेहिं पोय-वणिओ कुणइ पवणं ॥
 तं पवहणं विलगं सुरइ-विसयम्मि मंगलउरम्मि ।
 मुत्तुं पोयं चित्तइ तत्थ ठिओ सागरो एवं ॥
 घणउ व्व तथा नयराओ निग्गओ गहिय-बहुय-विहवोऽहं ।
 इण्ह तु निद्धणो कह पु तत्थ रोरो व्व गच्छामि ॥
 एवं विसन्न-वयणो दिट्ठो सो वंभणेण एक्केण ।
 भणिओ य भइ ! दीसंसि किमेवमुव्विग्ग-चित्तो व्व ? ॥
 तो सागरेण भणियं जइ वि अकहणिज्जमप्पणो चरियं ।
 तह वि तुह पढम-दंसण-पयंडिय-नेहस्स अक्खेमि ॥
 तो सब्बं निय-चरियं कहियं विप्पस्स तेण भणियमिणं ।
 अघणो त्ति मा' विसूरसु तुह संपाडेमि जेण घणं ॥
 इह अत्थि उज्जयंते गिरिम्मि विवरं समीहियत्थ करं ।
 तस्स पवेसण-कप्पो सवित्थरो अत्थि मह पासे ॥
 तो मज्झ जइ सहाओ होसि तुमं ता दुवे वि पविसामो ।
 दिव्वंगणाउ जं मग्गियं दित्ति ॥
 घण-लुड-बुद्धिणा सागरेण भणियं इमं करेमो त्ति ।
 कय-उचिय-सयल-किच्चा आढत्ता पविसिउं दो वि ॥
 विप्पो वच्चइ पुरओ करत्थ-कप्पोवइह-मग्गेण ।
 पजलंत-महिस-पुच्छेण पिट्ठओ सागरो एइ ॥
 पाएहि जंति कत्थ वि कत्थ वि जाणूहि कत्थ वि उरेण ।
 ते कत्थ वि पिट्ठेणं कदिण-तडुग्घट-सव्वंगगा ॥

पिच्छंति दो वि कथ वि फार-फणा-भीसणे कसिण-सप्पे ।
 तह कथ वि वेयाले कर-कंपिय-कत्तिय-कवाले ॥
 भक्खिस्सामि पिए ! ऽहं पुरस्सरं अणुचरं तु भक्ख तुमं ।
 इय जंपंतं कथ वि भयं-करं भूय-मिहुणं च ॥
 इह विविह-भीसणेहिं अखुब्भमाणा कमेण वच्चंता ।
 पिच्छंति कंचणमयं महग्घ-मणि-मंडियं भवणं ॥
 मणि-कणय-भूसणालं कियाड पासंति तत्थ देवीओ ।
 आराहिडं पयद्दा तम्मज्जे सामिणिं दो वि ॥
 तुद्दाए ताण जवा तीए वत्थंचलम्मि पक्खिस्ता ।
 ते तेहि अवन्नाए छड्ढित्ता जंपियं एवं ॥
 अम्हेहि कयं कट्टं गरुयं तो अम्ह देवि ! जइ देसि ।
 चिंता-रयणाहं दुव्वे-तो जामो नऽन्नहा जामो ॥
 तो कुवियाए देवीए दो वि हणिऊण वाम-पाएण ।
 पक्खित्ता विवराओ ब्राहिं अन्नऽन्न-ठाणेसु ॥
 मिहिलाउज्जाणे सागरेण पडिओ पलोहओ अप्पा ।
 वत्थंचले विलग्गा कइ वि जवा तह सुवन्नमया ॥
 सो चिंतइ अहह ! मए मूदेणं छड्ढिया सुवन्न-जवा ।
 संभवइ सक्क-नासो अह वा लोहंन-बुद्धीणं ॥
 सो निय-गेहम्मि गओ हा ! नद्दा जल-निहिम्मि मे लच्छी ।
 इय शूरंतो निच्चं-चंदेण सुएण संलत्तो ॥
 साहसियं उज्जमिणं तुमं पि मुत्तूण जा गया लच्छी ।
 सा वच्च किं तीए ताय ! इया स च्चिय वराई ॥
 निम्नं गच्छति निस्सगेव नितरां निद्रेव विष्कम्भते
 चैतन्यं मदिरेव पुष्यति मदं धूम्येव दत्तेऽन्धताम् ।
 चापल्यं चपलेव चुम्बति दवज्वालेव तृष्णां नय-
 त्युल्लासं कुलटाङ्गनेव कमला स्वैरं परिभ्राम्यति ॥
 किं च तुह ताय ! भवणे कमागया अत्थि पुक्खला लच्छी ।
 तुमए मए य जा उण उवज्जिया सा वि निस्सीमा ॥
 इय बुज्जविओ वि सुएण सागरो गरुय-लोह-पडिबद्धो ।
 निहं न मज्झ-रत्ते वि लहइ लच्छि विचिंततो ॥

तस्सत्थि सुन्न-मज्झा गरुहं गेहंगणम्मि मंजूसा ।
 गयण-गमण-क्खमाओ चंदस्स वि दुद्धि भज्जाओ ॥
 तारिं एक्का मंजूसमारुहइ वहइ तं पुणो वीया ।
 तो कीलणत्थमन्नत्थ दो वि वचंति रयणीए ॥
 कहया वि सागरेणं इमं कुणंतीड ताड दिट्ठाओ ।
 चरियं अहो ! वहुणं इमं ति सो विम्हियं पत्तो ॥
 बुत्तंतमिणं कहिडं एगंते भणइ सागरो भिच्चं ।
 जाणग ! मंजूसाए चिट्ठ तुमं पविसिओ छन्नो ॥
 तो वचंति इमाओ कत्थ त्ति वियाणिऊण मे कहस्सु ।
 तेणावि तहेव कथं रयणीए ताड चलियाओ ॥
 गच्छंतीणं तारिं उवरि समुद्धो मणो-हरं रुवं ।
 उच्छलिय-मच्छ-अच्छीहि छज्जए पिच्छमाणो व्व ॥
 सो तईसण-तुद्धो सहइ सहासो व्व फेण-पडलेण ।
 लहरीइ ताण परिरंभणत्थमुत्तंभिय-मुओ व्व ॥
 जल-निहि-मज्झ-द्विय-रयण-दीव-तिलए गयाड कणयपुरे ।
 ताओ तहिं इच्छाए रमिडं पुण आगयाड गिहं ॥
 अह भणिओ कम्मयरेण सागरो सिट्ठि ! सुण रयणि-वित्तं ।
 तुह बहुयाओ कत्थ वि नयरम्मि गयाड गयणेण ॥
 पुर-बाहिं मंजूसिं मुत्तं पत्ताड ताड मज्झम्मि ।
 तत्तो मंजूसाओ मए मुहं कड्ढियं किं पि ॥
 तो दिट्ठा पसरिय-कंति-भासुरा तत्थ रयण-पासाया ।
 सुर-पव्वओ व तुंगो तह पायारो पिसंडिमओ ॥
 पायार-समीवे कणय-इट्ट-खंडाई तह य दिट्ठाई ।
 कंतीए हुरंतीए तमेव लक्खिज्ज नाणाई ॥
 बहुयाण भएणाऽहं मंजूसाओ न निग्गओ बाहिं ।
 तत्तो वित्तुमणेण वि ताई न गहियाई सिट्ठि ! मए ॥
 तो सागरेण भणियं अहो ! किलीवो सि जाणग ! हयास !! ।
 जेण न गहियाई तए कह वि कणय-इट्ट-खंडाई ॥
 ता अन्नस्स न एयं कहियव्वं जेण तत्थ गंतूण ।
 सयमेव अहं आणेमि ताण भरिऊण मंजूसं ॥

कत्स वि न कहिस्सामि त्ति जंपियं तेण, अन्नया सिट्ठी ।
 मंजूसाए मज्झे छन्नं निसि पविसिऊण ठिओ ॥
 निम्मिय-मयणाहिविलेवणाउ परिहिय-पसत्थ-वत्थाओ ।
 रयणमय-भूसणाओ बहूउ पगुणाउ जायाओ ॥
 लहुई बुत्ता जेट्ठाइ अज्ज तुमसुक्खिवेसु मंजूसं ।
 सा भणइ बहिणि ! तुममारुहेसु जेणुक्खिवामि इमं ॥
 चडिया मंजूसाए जिट्ठा मंजूससुक्खिवइ लहुई ।
 दो वि चलियाउ गयणे वेगेण विलंघिउं जलहिं ॥
 पत्ताओ कणयपुरे पुरबाहिं ठाविऊण मंजूसं ।
 मज्झम्मि पविट्ठाओ तो सिट्ठी निग्गओ बाहिं ॥
 सो कणय-इट्ठ-खंडं जं जं पिच्छइ फुरंत-लोह-भरो ।
 मंजूसाए मज्झे तं तं पक्खिवइ वेगेण ॥
 तत्थ सयं च पविसिउं चिट्ठइ अह आगयाउ वहुयाओ ।
 चलियाउ तहेव समुइ-उवरि लहुई भणइ जेट्ठं ॥
 मंजूसाए भारो बहुओ केणाऽवि कारणेणऽज्ज ।
 तो जलहिम्मि खियिस्सं एयं गयणेण गच्छ तुमं ॥
 तं सोउं भणियं सागरेण मा सागरम्मि मंजूसं ।
 वहुयाउ ! खिवइ जम्हा मरामि तुम्हाण समुरोऽहं ॥
 इय समुर-वारियाहिं वि अणेण विन्नायमम्ह चरियं ति ।
 रोसेण झत्ति खित्ता जलहिम्मि वहुहि मंजूसा ॥
 मा इहसु गहिल ! गामं ति वारिओ संभरावियं सुट्ठु ।
 इय भणिरो सो गामं जह दहइ तहेव ताहिं कयं ॥
 मंजूसा-मज्झ-ठिओ य सागरो सागरम्मि दुक्खेण ।
 मरिऊण गओ कु-गइं तत्तो भव-सागरं भमिही ॥
 वहुयाउ आगयाओ स-गिहं गोसे अपिच्छिउं पियरं ।
 चंदो जंपइ जणओ कत्थ गओ दीसए जन्नो ॥
 तो जाणणेण सच्चं बुत्तंतं अक्खिऊण चंदस्स ।
 भणियमिणं मंजूसा जं नत्थि तओ विचक्खेमि ॥
 सिट्ठी इमाहिं खित्तो मंजूसाए समं समुइम्मि ।
 तं सोऊण विसन्नो आढत्तो विलविउं चंदो ॥

हा ताय ! ति-जय-विक्त्वाय ! अतुल-ववसाय ! साहस-सहाय ! ।

तुमए इक्षेण विणा भुवणं सुन्नं व मन्नेमि ॥

इय सोय-परो चंदो नीओ मित्तेण संनिहिं गुरुणो ।

भव-निव्वेय-पहाणा तस्स कया देसणा गुरुणा ॥

संसारसारतां दृष्ट्वा शोकः कार्यो न धीमता ।

लोभस्तु परिहर्तव्यः सर्वानर्थनिबन्धनम् ॥

कृतसर्वविनाशेन सर्वव्यसनवेदना ।

लोभेन लभते जन्तुर्दुःखानि जातु नो सुखम् ॥

वन्हिस्तृप्यति नेन्धनैरिह यथा नाम्भोभिरम्भोनिधि-

स्तद्रह्लोभघनाघनैरपि धनैर्जन्तुर्न संतुष्यति ।

नत्वेवं मनुते विमुच्य विभवं निःशेषमन्यं भवं

यात्याऽऽत्मा तदहं मुधैव विदघाम्येनांसि भूयांसि किम् ॥

इति श्रुत्वा चन्द्रो रचितजिनधर्माभ्युपगमः

स्त्रियौ पूर्वं त्यक्त्वा सपदि परिणीताऽन्ययुवतिः ।

अक्रुर्षन्नारम्भं विपुलमलङ्घं लोभमभजन्

जिनानर्चन् साधून् [सु]परिचरन् जन्म नयति ॥

स्वद्रव्यैर्जिनमन्दिराणि रचयत्यभ्यर्चयत्यऽहंत-

स्त्रिर्भक्त्या व्रतिनां तनोत्युपचयं वस्त्राक्षपात्रादिभिः ।

घत्ते पुस्तकलेखनोद्यममुपष्टम्भाति साधर्मिकान्

दीनाद्युद्धरणं करोति कलयत्येवं स पुण्यार्जनम् ॥

वयसि परिणतेऽसौ लोभमालोच्य विश्वं

विषयविषविषण्णः साधुदीक्षां प्रपन्नः ।

तनुमतनुतपोभिः कर्शयित्वाऽऽयुषोऽन्ते

दिवमगमदवासो निर्धृतिं च क्रमेण ॥

इति लोभविपाके सागर-कथा ॥

इय हेमसूरि-मुणि-पुंगवस्स मुणिज्जण देसणं राया ।

जाणिय-समत्त-त्तो जिण-धम्म-परायणो जाओ ॥

तो पंच-नमुद्धारं सुमरंतो जग्गए रयणि-सेसे ।

चित्तइ अय दो वि हिय(?)*देव-गुरु-धम्म-पडिवात्ति ॥

* अस्पष्टार्थोऽयं पाठ । जिनमण्डनगणिविरचितं-कुमारपालप्रबोधे इ ' चित्तइ य दोवि हियए ' (पृ० १० प्र०) इत्येवमुपलभ्यते ।

काञ्जण काय-सुद्धिं कुसुमामिस-थोत्त-विविह-पूयाए ।
 पुञ्जह जिण-पडिमाओ पंचहिं दंडेहिं वंदेह ॥
 निच्चं पच्चक्खाणं कुणह जहासत्ति सत्त-गुण-निलओ ।
 सयल-जय-लच्छि-तिलओ तिलयावसरम्मि उवविसइ ॥
 करि-कंधराधिरूढो समत्त-सामंत-मंति-परियरिओ ।
 वच्चह जिणिंद-भवणं विहि-पुव्वं तत्थ पविसेइ ॥
 अट्ट-प्पयार-पूयाइ पूह्वं वीयराय-पडिमाओ ।
 पणमइ महि-निहिय-सिरो थुणइ पवित्तेहिं थोत्तेहिं ॥
 गुरु-हेमचंद-चलणे चंदण-कप्पूर-कणय-कमलेहिं ।
 संपूर्इज्जण पणमइ पच्चक्खाणं पयासेइ ॥
 गुरु-पुरओ उवविसिउं पर-लोय-सुहावहं सुणइ घम्मं ।
 गंतूण गिहं वियरइ जणस्स विज्जित्तियावसरं ॥
 विहियग्ग-कूर-थालो पुणो वि घर-चेइयाइं अच्चेइ ।
 कय-उच्चिय-संविभागो भुंजेइ पवित्तमाहारं ॥
 सुत्तत्तरं सहाए वियारए सह बुहेहिं सत्थत्थं ।
 [अंत्यानी-मंडव-मंडणम्मि सिंहासणे ठाइ ॥
 अट्टमि-चउदसि-वज्जं पुणो वि भुंजइ दिणट्टमे भागे ।
 कुसुमाइएहिं घर-चेइयाइं अच्चेइ संझाए ॥]

२ × × × × ×

एवं खु पुन्न-निहिणो गमंति कालं सु-चरिएहिं ॥

३ × × × ×

कइया वि निव-निउत्तो कहइ कहं सिद्धवाल-कई ॥

कुमइ खुट्टइ जं सुणंताहं

आवट्टइ पाव-मल्ल,

अइ-विसुद्ध-वासण विसट्टइ,

ओहट्टइ मोह-विसु,

विसमु विसय-वासंगु तुट्टइ;

१ [] एतद्विद्वान्तर्गतः सार्धंगायात्मक-पाठो मूलग्रन्थे नुदितोऽस्ति, परन्तु जिनमण्डनगणि-विर-चित्ते कुमारपाल-प्रबन्धे सख्यपल्लवत्वात् तत् बद्धृत्य निवेसितोऽप्रायमस्माभिरिति ।

२-३-अत्रापि कियान् पाठः क्षण्डित इव प्रतिभाति सम्बन्धार्थस्यानवगमकत्वात् ।

चित्ति बहुदृह धम्म-गुणु वट्टह पसम-सिणेहु ।
 जीव-मणंदिय-संलवणु तं बुह-यण हु सुणेहु ॥ १ ॥
 अत्थि पट्टणु देहु नामेण,
 लायन्न-लच्छिहि निलओ,
 आयु-कम्म-पायार-संगओ,
 सुह-डुक्ख-छुह-तिस-हरिस-
 सोय-पसुह-लोय-संगओ,
 नाणाविह-नाडी-सरणि-भमिर-समीरतभारु ।
 भूरिधम्म-पयडिय-महिमु सुपरिट्ठिय-नव-चारु ॥ २ ॥
 तत्थ नरिंदो अप्पा बहुविह-भोगोवभोग-तत्त्थो ।
 बुद्धि-महादेवीए सहिओ रज्जं कुणह निच्चं ॥ ३ ॥
 तासु चिट्ठह मणु महामंति,
 तणि अप्पु ससु मन्नियउ,
 जो महल्ल-कोसल्ल-भायणु,
 वहु-पसर-संपत्त-जसु,
 रज्ज-कज्ज-चित्तण-परायणु,
 तह पंचिदिय-पयड-गुण फरिसण-रसण-ग्घाण- ।
 लोयण-सवण-निओ कर अप्पह पंच पहाण ॥ ४ ॥
 अह कया वि हु लहिवि पत्थावु,
 तसु अप्पह ससुहओ,
 मणिण वुत्तु कर बेवि जोडिउ,
 जः कवि अन्नाण घसिखिवहिं,
 डुक्खि बहु जीव-कोडिओ,
 एक्कह एयह दट्टयह निय-जीयह कज्जेण ।
 ताहं अहम्मह निम्मविओ किं जीविउ वज्जेण ॥ ५ ॥
 एउ निमुणिवि अप्प न खाहु,
 साणक्खु तक्खणि भणह,
 अह पसाहं सुहु मज्झ मत्तओ,
 निय-जोगाय न हु मुणहि,
 नूण सूढ परि सुचवंतओ,

विविहारंभु अबंभपरु कर्हिं तुहं कर्हिं जिय रक्ख ।
नयण-विह्वण किं हुंति नर रयण-परिक्ख सलक्ख ॥ ६ ॥

जे महन्वय पंच उव्वहर्हिं,
तद्यु दुक्करु जे करर्हिं,
जे चरित्तु पालर्हिं निरुत्तं,
जीवोह-रक्खण-वयणु,
मुण्ह ताहं जं पणह जुत्तं,
जं पुणु तुहु जंपेसि जड ! तं असरिसु पडिहाइ ।
मणन्निल्लक्खण किं सहइ नेऊरु उड्डुह पाइ ॥ ७ ॥

चवल चप्फल विसयवासत्त,
नीसत्त अविवेय तुहुं,
करर्हिं किं पि दुक्कम्मु तम्मण,
पइ जम्मु पावेमि हं,
जव्वसेण वहु-विह-विडंबण,
तो मणु भणइ गुणुत्तमह सामिहि तुज्झ पसाइं ।
गरुय मणोरह जइ करं तो वारिज्जं काइं ॥ ८ ॥

किं च किं पहु करिविअ पसाओ,
ववसाउ जंपेइ मह,
घणअणत्थ वित्थरण-पच्चलु,
जिण कारणि हं करं,
न य किं पि न हु एउ चप्फलु,
जे उण पइं फरिसिण-पमुह पंच-पहाण-निउत्त ।
मत्त-निरंकुस-हत्थि जिम्ब करिर्हिंति कज्ज अनुत्त ॥ ९ ॥

तहं मज्झिम फेडिवि कुविपहाणु
मइ अन्नह अप्पिउ तस्स ठाणु ।
एयाइं पलोयउ सामि सालु
पयडंतं निच्चु अणत्थ-जालु ॥ १० ॥
फरिसिदिउ पभणइ हं जि एक्कु
रुंवेवि सरीरु समग्गु थक्कु ।
इह अप्फु मणुव नहि अत्थि कोइ

अवर्दिद्य अणु वर मञ्जु जोइ ॥ ११ ॥
 नहु गम्मु अगम्मु व किं पि गणइ
 अब्बंभ कल्लस अहिलास कुणइ ।
 सकलत्ति वि हुंतइ महइ वेस
 पररमणि गमणि पयइइ किलेस ॥ १२ ॥
 सिसिरम्मि निवाय घरग्गि-सयडि
 घण-घुसिण-तेल्ल-बहुवत्थ-सवडि ।
 चंदण-रस-कुसुम-जलावगाह
 धारागिहि गिंभि महेइ नाह ! ॥ १३ ॥
 पाडसि पय-पंक-पसंग तहु
 वंछइ अच्छिइ भवणयलु लहु ।
 जइ कुणइ विविह विसयाणुवित्ति
 तेह वि हु न एहु पावेइ तित्ति ॥ १४ ॥
 एक्क वि फासिदिउ, बुह्यण निंदिउ,
 करइ किंपि दुच्चरिउ तिहि ।
 नाणा विहु जम्मि हि, पीडिओ कम्मिहि,
 सहसि विडंघण सामि जिह ॥ १५ ॥
 तह भक्खाभक्ख विवेय-मूढं
 रस-विसय-गिडि-दोलाधिरुहु ।
 अविभाविय पेयापेयवत्थु
 रसणु वि कुणेइ बहु-विहु अणत्थु ॥ १६ ॥
 जं हरिण-ससय-संवर-वराह
 वणि संचरंत अकयावराह ।
 तण-सलिलमित्त-संतुट्ट-चित्त
 मम्मर-रव-सवणुन्भंत-नेत्त ॥ १७ ॥
 हिंसंति के वि भिगया पयट्ट
 पसरंत-निरंतर-तुरय-घट्ट ।
 कर-कलिय-कुंत-कोदंड-नाण
 संसय-तुल-रोविय-नियय-पाण ॥ १८ ॥
 जं गहिरि सलिलि वियरंत मीण
 निक्कलण के वि निहणहिं निहीण ।

जं लावय-तित्तिरि-दहिय-मोर
 मोरंति अहोस वि के वि घोर ॥ १९ ॥
 तं रसणह विलसिउ, दुक्कय-कलुसिउ,
 तुम्हं कित्तिउ कित्तियइ ।
 जं वरिससएण वि, अइनिउणेण वि,
 कह वि न जंपिउ सक्कियइ ॥ २१ ॥
 घाणिंदिउ जं किर सुरहि दब्बु
 वियलिय विवेउ तं महइ सब्बु ।
 जं असुरहि तिहिं पुण करेइ रोसु
 ता एउ वि जाण अणप्प-दोसु ॥ २२ ॥
 तह जइ वि दिट्ठि वन्नि अ अवला
 तहवि ह्नु दुरप्प अचंत चवला ।
 सुइ असुइ वि किं पि न परिहरेइ
 जं जुत्तु अजुत्तु वि तं निएइ ॥ २३ ॥
 परदारपवत्तणि फरिसणस्स
 दूइत्तु एह पयडइ अवस्स ।
 लोलत्तकरणि रसणह सहाय
 इय न कुणइ कित्तिय पडु ! अवाय ॥ २४ ॥
 जिव सवणु सुणइ विडवग्ग वयण
 तिव मुणि-उवएसु न रुद्ध नयणु ।
 तह गेय-वेस-कलि-सवण-हेउ
 उत्तम्मइ निच्चु वि निव्विवेउ ॥ २५ ॥
 इय विसयपलक्कओ, इहु एक्केक्कु,
 इंदिउ जगडइ जग्गु सयलु ।
 जेसु पंच वि एयइं, कयवहु खेयइं,
 खिल्लहिं पडु ! तसु कउ कुसलु ॥ २६ ॥
 ता वियक्खणु देव ! लक्खेसु,
 जे इत्थ फरिसणपमुह,
 पइं पहाण पंच विपरिड्ठिय,
 चवलत्तणि ते कुणाहिं,

तुञ्ज दुक्ख भवि भवि अणिद्विय,
 जइ पित्तिल्लसि मह न तउ वंघिवि एक्खु घरेसु ।
 तिण विणु तसु वावारु जइ ता मह दूसणु देसु ॥ २७ ॥
 न तए कुल-सील-गुणा परिकिखया किं च फरिसणाईण ।
 अपरिकिखय-कुल-सीलाहि दिंति पट्टणो दुहं भिच्चा ॥ २८ ॥

ता विथक्खण देव पुच्छेसु,
 कुलसीलगुण इंदियहं,
 बुद्धिदेवि वरबंधु विमरसु,
 तह दुईउ पयरिसु कुमरु,
 जह विवेउ विप्फुरइ असरिसु ॥ २९ ॥

तो समागय तत्थ ते वि,
 पणमंत मत्थय नमिवि,
 महिनिविट्ठ तो अप्पराइण,
 पभणेवि महुरक्खरिहि,
 आसणंति गरूयाणुरायण,

पुच्छइ एयहं पंचह वि कुलसीलाइ कहेह ।
 ता विमरिसु जोडेवि कर साहइ सामि ! सुणेह ॥ ३० ॥
 पट्टु ! अत्थ चित्त-वित्ती महाडवी विथड-आवयाइत्ता ।
 पयडिय-कु-जम्म-लक्खा चोजं अवराह-संजुत्ता ॥ ३१ ॥
 तत्थ महामोहो नाम नरवई विहिय-भुवण-संखोहो ।
 नाणावरणीय-प्पमुह-सत्त-मंडलिय-कय-सोहो ॥ ३२ ॥
 अट्ठासण-संलीणा तस्स महामूढया महादेवी ।
 तीइ तइलोक-दमणिक्क-विक्रमा नंदणा दुत्ति ॥ ३३ ॥
 राजस-चित्तस्स पुरस्स सामिओ राग-केसरी पढमो ।
 तामस-चित्त-पुर-पहू दोस-गर्यंदो पुण दुइज्जो ॥ ३४ ॥
 मिच्छा-दंसण-नामेण मंती मोह-नरिंदस्स चित्तए रज्जं ।
 मय-कोह-लोह-भच्छर-चम्मह-पसुहा भडा इत्थ ॥ ३५ ॥
 अह तस्स चित्त-विकखेव-मंडवे तन्हवेइ उच्छंणे ।
 मोह-निवस्स विवज्जास-आसणे संनिविट्ठस्स ॥ ३६ ॥
 मिच्छा-दंसण-नामेण मंतिणा सविनएण विन्नत्तं ।

असममसमंजसं देव ! वदए अम्ह कयडम्मि ॥ ३७ ॥
 चारित्त-धम्म-वसुहा-ऽहिवस्स संतोस-नामओ चरडो ।
 तुज्झ जणं जइण-पुरे विवेय-गिरि-संठिए नेइ ॥ ३८ ॥
 तो कुविओ मोह-निवो भणिओ कुमरेण राय-केसरिणा ।
 देव ! किमेवं किज्झइ थोवारंमे वि संरंभो ॥ ३९ ॥
 जओ मज्झ विसयाहिलासो मंती करणाइं तस्स डिंभाइं ।
 जग-जगडणेहि एएहिं तुज्झ पयडिज्जे कित्ती ॥ ४० ॥
 ताव चिय संतोसो फुरइ न जा दिति धाडिमेयाइं ।
 किं च इमाण कसाया निचं पि सयं चिय सहाया ॥ ४१ ॥
 संतोस-चरड-निज्जंतमम्ह लोयं बला नियत्तेडं ।
 एक्कं पि समत्थं इमाण पट्टु ! किं पुणो पंच ॥ ४२ ॥
 ता देव ! निदेसं देसु झत्ति एयाण जेण जइण-पुरे ।
 निज्जंतं संतोसेण लोयमेभाणि रक्खंति ॥ ४३ ॥
 तो जुत्तं ति पयंपिय ताणि निउत्ताणि मोहराएण ।
 संतोस-विद्व-कए देव ! वियक्खण ! वियाणेसु ॥ ४४ ॥
 इय विमरिसेण कहियम्मि पयरिसो भणइ सच्चमेयं ति ।
 तो मण-मंती जंपइ कहेमि पट्टुणो किमहमलियं ? ॥ ४५ ॥
 ता इंदिएहिं वुत्तं संपइ अम्हे वि देव ! विन्नविमो ।
 जंपइ अप्पा विन्नवह तो भणइ फरिसणं एवं ॥ ४६ ॥

अम्ह सामिय ! नत्थि कह्या वि,

तुम्हेहि सह दंसणु वि,
 तेण कस्स गुणदोस जंपहुं,
 तं कम्मु अम्हिहि करहुं,

मंती मणिण फुट्टु जत्थ खिप्पहुं,

अम्हि सयत्थहिं न हु कह व कम्मि पयट्टहुं लोइ ।
 करि फरिसाइ वि बहु मुणहुं जइ मणु पासि न होइ ॥ ४७ ॥
 तुह वाहणस्स देहस्स पालणत्थं पयट्टिमो अम्हे ।
 फरिसाइसु विसएसुं अरत्त-दुट्ठा तुहाणाए ॥ ४८ ॥
 जं तेसु फुरइ रागो दोसो वा तं मणस्स माहप्पं ।
 विरमइ मणम्मि रुडे जम्हा अम्हाण वावारो ॥ ४९ ॥

जइ पुण रुद्धे वि मणे इंदियमेकं पि कुणइ वाचारं ।
 दोसेण तस्स ता मज्झ निग्गहो देव ! कायव्वो ॥ ५० ॥
 जेव मंकडु चल सहावेण,
 अन्नन्न-रुक्खिहि रमइ,
 मणुवि तेवि अन्नन-विसइहि,
 एकत्थ वंधइ न रइ,
 नरइ नेइ पइं पडु कुवरि इहि,
 तह सब्वहं विसयहं जइवि निच्चु करइ अणुवित्ति ।
 रक्खसु जिव दारुणु तह वि एहु न पावइ तित्ति ॥ ५१ ॥
 जं व दिन्नउं अम्ह कुल दोसु,
 मण-मंतिण दुम्महिण,
 भणिवि डिंभ विसयाहिलासह,
 तं दूसणु अम्ह न हु,
 पडु अच्छु सामिउ वि वासह,
 जं सो वि हु अम्हह जणउं संकेएण मणस्स ।
 करइ रायकेसरि कुमर रज्जुह चित्त अवस्स ॥ ५२ ॥
 पडु ! अप्पह नरिंदाणं दुम्मंती दूसए गुण-कलावं ।
 एकं पि तुंविणीए वीर्यं नासेइ गुलभारं ॥ ५३ ॥
 इय भणियइ फरिसिण-इंदिएण,
 मणु जंपइ कंपंतउ भएण ।
 अवरारुह को वि न हुं इंदियाण,
 न हु मज्झ वि बुज्झसु निव-पहाण ! ॥ ५४ ॥
 किं पुण जि पुव्वजम्मेषु अहिय,
 पइं देव ! सुहासुह-कम्म-विहिय ।
 सुह-दुक्ख-दंड तुह दिंति ताइं,
 अवराण उवरि रुसेसि काइं ? ॥ ५५ ॥
 सब्वो वि पुव्व-भव-निम्मियाण,
 कम्महं विवाणु पावइ नियाण ।
 अवरारु-गुणेषु निमित्तमत्तु,
 परु होइ जिणागमि एहु तत्तु ॥ ५६ ॥

अणुकिइलं कि भुंजइ कम्मु कोइ,
 नासेइ संकउ तं कस्स लोइ ।
 ता सकउं कम्मु अणुभुंजमाणु,
 जणु कीस होइ दुम्मणु अयाणु ॥ ५७ ॥
 इय जिणमयसुत्तिहि, बहुविहु जुत्तिहि,
 जंपिवि थक्कइ मंतिमणु ।
 कयपरियरु संपइ, एउ परंपइ,
 समडफरु फरिसणु करणु ॥ ५८ ॥
 दुक्ख कारणु सामि ! मणु एक्कु,
 जं पुव्व-कय-कम्मु तुह,
 दुहु निमित्तु एएण जंपिओ,
 कम्मस्स वि तासु महं,
 मणुजि एक्कु कारणु विद्यप्पिओ,
 जं वावारह सयलह वि गरुयउ मण-वावारु,
 करइ जु तंदुलमच्छह वि सत्तम नरय-दुवारु ॥ ५९ ॥
 भणइ मणं जइ एवं दुह-हेऊ इंदियाइं न हु कम्मं ।
 जव्वसओ कंदप्पो दिप्पइ जलणो व्व घय-सित्तो ॥ ६० ॥

तहा हि—

जं तिलुत्तम-रुव-वक्खित्तु,
 खण बंधु चउसुहु हुउ,
 धरइ गोरि अडंगि संकरु,
 कंदप्प-परवसु चलण,
 जं पियाइ पणमइ पुरंदरु,
 जं केसु नच्चावियउ गोठंगणि गोवीहिं ।
 इंदिय-वग्गह विप्फुरिओ तं वन्नियह कईहिं ॥ ६१ ॥
 तो फरिसेणं वुत्तं बंभाईएहि काम-विचसेहिं ।
 पत्तो अजसो कामस्स कारणं तत्थ मणमेव ॥ ६२ ॥
 तो कुद्वेण मणेणं भणियं जइ अप्प ! महसि कल्लाणं ।
 सयलिंदिय-चोर-वद्ध(?) ता बंधसु फुरिसणं एक्कं ॥ ६३ ॥
 ताव फरिसणु एहु भणइ पहु !,

एकु बंधिज्जलं काहं,
 हलं जं सया वि निद्रो सुविद्वं,
 इहु तरलिउ लोलयहिं,
 रसणु असणु मुंजेह मिद्वं,
 भक्खाभक्खु न चितवइ न गणइ पेयापेउ ।
 ता परमत्थिण रसणु पर मज्झ वियारह हेउ ॥ ६४ ॥
 इय परोप्परु मणह इंदियह,
 पंचन्ह वि कलहभरि,
 वट्टमाणि अह अप्पराइण,
 संलत्तु भो ! निदुर ! हु,
 करहु पसमु नणु किं विवाइण ?,
 भवि भवि एत्तिउ कालु किउ मह तुम्हह संसग्गु,
 जइ पुणु लग्गइ पसमणुणु सो थेवो वि न लग्गु ॥ ६५ ॥
 किं च मए तुम्हाणं निच्चं असमंजसेहिं चरिएहिं ।
 भव-अडवि-भमण-दुक्खं जं जं पत्तं निसामेह ॥ ६६ ॥
 जं मच्छ-जम्मु अंतो सुहुत्तु,
 लहिऊण मज्झि दुज्झाण-जुत्तु ।
 छावट्टि-सायर-वहु-दुह-निहाणि,
 हं नरयवासि ठिउ अपइठाणि ॥ ६७ ॥
 तह नरयवासि जं परवसेण,
 मइ नरयवाल-मुग्गुर-हएण ।
 अवग्गु वज्ज-कंटय-सणाहु,
 सिंयलि-तरु-जणिय-सरीर-वाह ॥ ६८ ॥
 कंदंतु कल्लणु जं हडिण धरवि,
 खाविय निय मंसु भडित्तु करिवि ।
 जं वेयण-विहुरिय-सच्च-गत्तु,
 हं पाइवं तलयवं तंबु तत्तु ॥ ६९ ॥
 जं पूय-रुहिर-वस-वाहिणीइ,
 मज्जाविल वेयरणी-नईइ ।
 जं तत्त-पुलिणि चणउ च्च मुग्गु,
 जं सलवेह दुहु पत्तु दुग्गु ॥ ७० ॥

जं वज्र-जलण-जालोलि-तत्त,
 मइं लोहमइय महिलावसत्त ।
 जंमहि हिमु कुसइं खंडु करिवि,
 उट्टिओ खणेण पारउ व्व मिलिवि ॥ ७१ ॥
 जं कुंभिपाकि पक्कओ परधु,
 जं चंड-तुंड-पक्खीहि खडु ।
 जं तिलु व निपीलिउ लोह-जंति,
 जं वसहि व वाहिउ भरि महंति ॥ ७२ ॥
 अच्छोडिओ जं सिच्चउ व्व सिलहिं,
 करवत्ति भित्तु जं कंठ कयलहिं ।
 जं तलेउ कट्टल्लिहिं पप्पुडु व्व,
 सत्थेहि छिन्नु जं चिच्चडु व्व ॥ ७३ ॥
 असिचत्त व गिजं आउदेहि,
 असि-सव्वल-सेल्ल-सिलीमुहेहि ।
 जम-जीह-समेहि रडंतु विरसु,
 सव्वंगु वियारिउ दीणु विवसु ॥ ७४ ॥
 तं तुम्ह पसाइण, मइं सविसाइण,
 सत्तिहि नरएहि सुत्तु दुडु ।
 जहि तिलतुसमत्तु वि
 वेयण विहुर हं नत्थि सुडु ॥ ७५ ॥
 तिरियत्तणि जं दुह-चक्कवालु,
 मइं दूसडु पत्तु अणंत-कालु ।
 तं न कुणइ कस्स सुणिज्जमाणु,
 उक्कंपु खणिण मणि अप्पमाणु ॥ ७६ ॥
 उस्सप्पिणि तह अवसप्पिणीउ,
 नीसंख सहंतउ ताउ सीओ ।
 पत्तेउ वसिउ हउं दारुणेसु,
 पुढवी-जल-जलण-समीरणेसु ॥ ७७ ॥
 पत्तेय-अणंत-वणसईसु,
 मोहोदय-दूसिय-दुग्गईसु ।

वस्सप्पिणि अवस्सप्पिणि अणंत,
 हं वसिं संहंतु दुह महंत ॥ ७८ ॥
 अह कह वि सव्व-जण-निदिप्पसु,
 उप्पन्नउ दु-ति-चउरिदिप्पसु ।
 हं पावि वि पुण पुण जस्सु मरणु,
 चिरु तत्थ पत्तु दुह न ह्नु सरणु ॥ ७९ ॥
 पंचंदिउ थल-जल-नहयरेसु,
 हं ह्यउ किलिह-कलेवरेसु ।
 सत्थेहि भिन्नु जालेहि रुद्धु,
 पुणुरुत्तु वहिउ वाहेहिं मुद्धु ॥ ८० ॥
 सीयायव-ह्नुह-तिस-वाह-दाह-
 वह-नक्क-वेह-अंकण-निरोह ।
 लउडंक्कुस-आर-कस-प्पहार,
 हं विवसु सहाविउ वारवार ॥ ८१ ॥
 तुम्ह दुच्चरियह, जगि विप्फुरियहं,
 नूण पभाविण हं ह्यउ ।
 तिरियत्तु पवन्नउ, सुह-मह-सुन्नओ,
 विविह-दुसह-दुह-संजुयओ ॥ ८२ ॥
 जं अग्गि-वन्न-सूहेहि विद्धु,
 समकालु लहइ दुद्धु सुह-समिद्धु ।
 महं लद्धु वसंतिण गव्ववासि,
 किरि तासु अद्दु गुणु दुक्खरासि ॥ ८३ ॥
 तह जोणि-जंत-पीलणु संहंतु,
 हं कट्टिण गव्वमह नीहरंतु ।
 रोअणिवि असक्कउ हीणसत्त,
 तसु कोडि लक्ख-गुणु दुक्खु पत्तु ॥ ८४ ॥
 बालत्तणु असुह विलित्त-वेद्धु,
 दुहकर दंसणुग्गम कल्ल-वेद्धु ।
 चितंतह सव्व-विवेय-रहिउ,
 मह हियं होइ उक्कंप-सहिउ ॥ ८५ ॥

दविणास विणासिय सयल सुक्ख,
 तह विसय भास भोलविय मुक्ख ।
 रक्खस-पिसाय सारिच्छ ते वि,
 मह पुट्टि लग्ग तरुणत्तणे वि ॥ ८६ ॥
 महं किविण सिरोमणि अगुणठाण,
 कुल-सील-रहिय अविसेस-नाण ।
 ओलगिय सामि सकोवनयण,
 दविणासवसिण अपसन्नवयण ॥ ८७ ॥
 संवुत्त मज्झ पिथ-विप्पओगु,
 कय-जीविय-संसउ हुयउ रोगु ।
 संपन्न निविडु चारयनिरोहु,
 जोयउ बलवंतिहि सहु विरोहु ॥ ८८ ॥
 इंदिय पहुत्त वज्जिउ अदंतु,
 खलियक्खरु खणि खणि वाहरंतु ।
 गमणासहु मुहु वियलंतु लालु,
 हओ विहिय जरहिं नं पुण वि बालु ॥ ८९ ॥
 खणु सधणु अधणु खणु तुहु रुहु,
 खणु हसिरु रुहरु खणु सिद्धु रुहु ।
 खणु धीरु भीरु हउं विविहभंगि,
 नच्चिउ नउ व्व नर-जम्मि रंगि ॥ ९० ॥
 इय दुक्खु अणिट्टिउ, मज्झ उवट्टिउ,
 न भवि तुम्हह दुन्नइण ।
 जं हिइय वहंतह, सुणह कर्हंतह,
 होइ धसक्कउ निच्छइण ॥ ९१ ॥
 नर-जम्मि आसि जो मज्झ सत्तु,
 सुर-जम्मि पत्तु सु वि सुरवरत्तु ।
 तं पिच्छिवि सो मह हियइ जाउ,
 कहिउं पि न तीरइ जो विसाउ ॥ ९२ ॥
 महं हीण सुरिण उत्तम सुराण,
 सुर-लोइ गएण वि विहिअ आण ।

सगोवि गयह कुक्कुरु हवति,
 किरि पुन्न विहूणाह इह न भंति ॥ ९३ ॥
 चवणम्मि दइय-तियसंगणाइं,
 तणु-कंति-भरिय-गयण-गणाइ ।
 विरहानल झल्लुसिय.....
मग्गि वि नरय दुक्खु ॥ ९४ ॥
 जइ हउं पडुत्तु सुरलोइ कह वि,
 विसयास वियंभिय मज्झ तह वि ।
 जइ रासुहु पत्तउ सग्ग लोइ,
 परिहरइ न दावणु पुट्ठि तोइ ॥ ९५ ॥
 कंदप्प-सह-प्पसर-पसर-भीरु,
 रइ-कलह-कोव-कंपिर-सरीरु ।
 घरदासु व्व पियाइ पाएसु पडिओ,
 हउं ही वि शुत्तु विसयास-नडिओ ॥ ९६ ॥
 ईसा-विसाय-भय-मोह-माय,
 मय-कोह-लोह-वम्मह-पमाय ।
 मह सग्ग गयस्स वि पिट्ठि लग्ग,
 ववहरय जेव रिणिअह समग्ग ॥ ९७ ॥
 सुररिद्धि नियवि हरिसिक्क-भवणु,
 निव्वेय-हेउ चित्ते वि चवणु ।
 तह जाणि विनाणि कुठाणि जम्मु,
 जन्न उट्टु फुट्टु तं बलिउ कम्मु ॥ ९८ ॥
 खाणि वणि वणाउ भवणाउ भवणु,
 हउं अल्लियं तु सयणाउ सयणु ।
 दिवचवण समइ दुहु पत्तु दीणु,
 जिम्ब तत्तसिलायलि खित्तु मीणु ॥ ९९ ॥
 इय तुम्हह अविणअ, सुर-भवि परिणउ,
 मज्झ दुक्खरूवेण तिम्ब ।
 उक्कंसु पयट्टह, अरइ विसट्टह,
 सग्गसुहस्स वि उवरि जिम्ब ॥ १०० ॥

मण-करणाहं तुम्हे ता पसमं भयह चयह चवलत्तं ।
 जं जिण-मुणि-जीव-दयासु चेव लीणा मई मज्झ ॥ १०१ ॥
 कर-सरोरुहि निहिय मुत्तिउ व्व,
 तइलोक्ख पेक्खइ कलिउ
 भूय-भाविभावमाण-भाविहि,
 जो केवलनाण-वसि
 परिणमंतमाणा सहाविहि,
 अट्टारस-दोसिहि रहिओ सिव-पुर-पह-सत्थाहु,
 सोज्जि निविट्टउ मह हियइ देव एक्कु जिणनाहु ॥ १०२ ॥
 जे परिग्गहु गहु व दुहमूल,
 तह रज्जु रज्जु व विसु व
 विसय-सोक्खु पियदारु दारु व,
 वज्जेवि धणु वंधणु व,
 भूसणाणुपवभारु भारु व,
 निव्वियप्प अप्पह परह संजमभरु पडिवन्न ।
 ते धम्मज्जय जइण मुणि गुरु मह चित्ति निसन्न ॥ १०३ ॥
 जं वियंभइ दीहु आउखु,
 जं खुवु निरुवसु प्फुरइ
 जं समग्गु सोहग्गु वग्गइ,
 जं होइ आरोग्गु वरु
 जं उदग्गु गुणवग्गु जग्गइ,
 जं भुवणंगणि कित्ति-वहु नच्चइ पयडमडप्प ।
 पसरइ जीवदयालयह सासफलरिद्धि अणप्प ॥ १०४ ॥
 इमिणा कमेण निउणो मणिंदियाहं ठवेज्ज सुह-मग्गे ।
 एवं मुणिज्जण बुहा चित्तम्मि चमक्किया सव्वे ॥ १०५ ॥
 इति जीव-मनः-करण-संलाप-कथा ॥

अन्न-दिणे अन्न-विबुहेण जंपियं देव ! किं पि पुच्छिस्सं ।
 रत्ता भणियं पुच्छसु बुहो पयट्ठो भणिउमेवं ॥
 अत्थि उज्जेणी नाम नयरी ।
 मुणिणो फुरंतमोहा रायकुलं कलहसंकुलं निच्चं ।

भवणाइं सविलयाइं ससि-जुणहा दोसिणी जत्थ ।।

तत्थ विक्कमाइवो राया ।

कुंकुम-विसुहो जाओ जस्स पयावेण पिंजरो लोओ ।

तह सिय-जंस-पसरेंण अलंकिओ कुसुम-निरविक्खो ।।

सो विक्कमकंत-सयल-नरिंदो सुवन्न-पुरिस-सिद्धि-सुत्थीकय-ऽत्थि-विंदो सयल-कला-पत्त-पगरिसो विविह-दिब्ब-सत्ति-जणिय-जण-क्करिसो कयाइ चिं-तिउं पवत्तो । मज्झ सेनाइं पि इक्कं पर-पुर-प्पवेसं जाणंति, अहं पुण दुइज्जं तं जाणितमिच्छामि । तज्जाणणत्थं रज्जं सुत्थं काऊणवहुय-बीओ पयट्ठो पुहविं भमिउं, पत्तो पइट्ठणं । दिट्ठो तत्थ पर-पुर-प्पवेस-सिद्धो पुरिसो । आढत्तो तं सेविउं राया । भणिओ सिद्धेण—भो ! को तुमं किमत्थं वा मं सेवसि ? । कहिओ रत्ता निय-वुत्तंतो । सिद्धेण वुत्तं—जुगो ति तुमं सिक्ख, बड्डओ पुण न तारिसो ति चिट्ठ ।

जओ—

होइ अणत्थफलं चिय कयं कुपत्ते परेण सुकयं पि ।

परिणमइ विसत्तेणं दिन्नं दुद्धं पि सप्पस्स ।।

रत्ता वुत्तं—सहायउ ति कहं वंचेमि । एवं होउ ति भणिऊण सिद्धेण दो वि सिक्खविया पर-पुर-प्पवेसं । सिद्धमापुच्छिऊण राया सबड्डओ नियत्तो, प-त्तो निय-नयर-बाहिं । तत्थ तम्मि दिणे पट्टहत्थी विवन्नो, दिट्ठो रत्ता, भणिओ बड्डओ—परिक्खेमि पर-पुर-प्पवेस-सत्ति । बड्डएण वुत्तं—जहाऽभिरुहयं करेउ देवो । तओ राया कत्थवि मढे निय-देहस्स रक्खणं ठविऊण बड्डयं निय-देहाउ निगंतूण पविट्ठो सयं हत्थि-देहं । उट्ठिऊण पयट्ठो पट्ट-हत्थी वियरिउं । कवड-ब-ड्डएण रत्तो देहं पविसिऊण जाणावियं मंतीणं जहा राया आगओ । तेहिं गरु-य-रिद्धिओ पवेसिओ सो नयरे । करेइ रज्जं मंती हिं समं, रमइ अंते-उरेणं । एसो राय-सरिसो वि सरीरेणं चरिएहिं अन्नारिसो व्व पडिहाइ ति चिं-तंति ते सब्बे । राया वि हत्थि-देहत्थो निय-सरीर-पविट्ठं दड्डण बड्डयं 'अहो सि-द्ध-वयणं सब्बंति चिंतंतो सुत्तूण नयरं गओ अड्डविं । तत्थ भमंतेण तेण दिट्ठो पुरिसो क्वखगए कीरे सरप्पओगेण विणासंतो, विवन्न-जन्न-कीर-सरीरे पविसि-ऊण गयणत्थेण रत्ता भणिओ पुरिसो—भो ! जइ मह वयणं करेसि ता तुमं रिद्धं करोमि । तेण वुत्तं—जं तुमं भणसि तं करोमि । कीरेण वुत्तं—चिन्तूण मं वव नय-रं । पुरिसेण भणियं—एवं करिस्सं । तओ आगओ सुगो पुरिस-कर-यले । गओ

उज्जेणिं पुरिं पुरिसो । [भणिओ कीरेण सो] चहुट्टए बहुअ-दब्बेण मं विक्किणोसु ।
तहेव काळं पयट्ठो पुरिसो । दिट्ठो गणियाए कीए वि कीरो.मणोहरो, मणुस्स-
भासा-जंपिरो य । विम्बिय-मणाए भणिओ पुरिसो-देसु । पुरिसेण वुत्तं-गिण्ह
पंचहिं सएहिं । इत्थंतरे आगओ नयरि-सिट्ठि-सुओ, तेण वुत्तं-छहिं सएहिं मे
देसु । गणियाए वुत्तो पुरिसो-मम तुमए पुव्वं दिज्जो त्ति । मा इमस्स देसु । पु-
रिसेण वुत्तं-मम इमो मुल्लमहिगं देह त्ति देमि । एवं कलहंताणि ताणि तला-
रेण नीयाणि रायडलं । देवया-पणमणत्थं निग्गयाए महादेवीए दिट्ठो कीरो ।
पुरिसस्स जं मगियं मुल्लं दाऊण मम समप्पेसु एयं । तहेव कयं तलारेण ।
नीओ निय-निकेयणं कीरो देवीए । अइवल्लहो त्ति निरंतरं तेण कीलए देवी ।

राय त्ति मुणह देवी जइ वि न तं तह वि तम्मि लहइ रइं ।

दुद्धं ति असुणियं पि हु पीर्यं दुद्धं कुणह तुट्ठिं ॥

बहुएण अहं छलिउ त्ति लज्जमाणो सुगो न पयडेह ।

रायाणं अप्पाणं इमं खु छेयाण छेयत्तं ॥

विविह-कला-कलावेहिं तुट्ठा देवी पयंपए कीरं-जीवामि तइ जीयंते, मर-
माणे पुण मरामि त्ति । कयाइ देवी-संतियाए सेज्जाए उवरि संचरंती घरको-
इला चेडीए लट्ठि-प्पहारेणाऽऽहया मया य । तस्सरीरे कीर-सरीरं मुत्तूण संकं-
तो राया वेगेण गंतुं पविट्ठो कहिं पि विवरे । कीरं विवन्नं दट्ठूण विसन्ना देवी—
मणहरसरीर ! हा ! कीर ! कत्थ पत्तो सि ? किं न जंपेसि ? ।

तुह वयणं असुणंती खणं पि ठावं न संक्काऽहं ।

एवं झूरिऊण तीए भणिया अंतिणो—कट्ठेह चंदणागरु-कट्ठाइं । कीरेण स
ह मए भरियव्वं ति पडिवन्नं । तन्निव्वाहणत्थं साहिस्सामि जलणं । मुणिय-वुत्तं-
तो समागओ तत्थ राय-सरीरत्थो बहुओ । पन्नविया तेण विचित्त-जुत्तीहिं देवी ।
तहा वि न मिल्लए मरण-ग्गहं । देवीए वुत्तं-जइ कीरो जीवइ । बहुएण भणि-
यं-अहं जीवावेमि एयं । तओ, कस्स वि पवेसो न दायव्वो त्ति भणिऊण पाइ-
के, रायसरीराओ संकामिओ अप्पा कीर-सरीरे । रत्ता वि घरकोकिला-सरीरं
मुत्तूण अहिट्ठियं निय-सरीरं । भणियं च—अहो ! कयगवत्तणं बहुयस्स ।

देवीए विम्बियाइ विन्नविओ पत्थिवो—किमेयं ? ति ।

रत्ता निय-वुत्तंतो सब्बो. वि निवेइओ तीए ॥

करुणा-परेण रत्ता मुक्को कीरो कयावराहो वि ।

जं सप्पुरिसा न कुणंति पोरिसं देव-निहएसु ॥ .

तो काऊण पसायं पड्डु ! मह संदेहमेयमवणेसु ।
 किं पर-पुर-प्पवेसो एसो संभवइ नो व त्ति ॥
 ता रत्ता वज्जरियं असंभवो एस पर-पुर-पवेसो ।
 जं पुच्छिण्ण पुच्चं सुणिवइणा मज्झ कहियमिणं ॥
 जो जेण सरीरेणं जाओ पुच्च-भव-कम्म-जणिण्ण ।
 सो आउए अपुत्ते कह वि न तं मेल्लिडं लहइ ॥
 वच्चइ चउदस-पुच्ची महाविदेहम्मि केवलि-समीवे ।
 आहारग-देहेणं कयाइ संदेह-विगमत्थं ॥
 जं सच्चहा असुत्तुं सदेहमंतो सुहुत्तमज्झम्मि ।
 तं पर-पुर-प्पवेसो असंभवं तो वि विक्खाओ ॥
 इति परपुरप्रवेशनिषेधे विक्रमादित्यकथानकम् ।

जं च पर-देह-संकम-सरिच्छमच्छरियमित्थ सं[भ]वइ
 विज्जा-पभाव-विहियं तं सुणह कहेमि गुरु-कहियं ॥
 चेयणमचेयणं वा वत्थं विज्जा-बलेण चालेइ ।
 विज्जा-सिद्धो पुरिसो आयरिया अज्ज-खउड व्व ॥

जहा—

इह जंबुदीव-भरहे भरुयच्छं नाम पट्टणं अत्थि ।
 लोया पोया य गुणोहं-पवर-गुरु-सिय-वडा जत्थ ॥
 कहिया वि अज्ज-खउडा विहरंता तत्थ आगया गुरुणो ।
 ते विज्जा-सिद्धा देवयाउ वट्टंति ताण वसे ॥
 ताणऽत्थि भाइणेज्जो सीसो बालो अईव मेहावी ।
 सो विज्जं कत्ताहेइण्ण गिण्हेइ गुरु-पासे ॥
 विज्जा-सिद्धो जाओ सो विज्जा-सिद्ध-गुरु-पभावेण ।
 तं भरुयच्छे ठविडं साहु-समेयं गया गुरुणो ॥
 शुडसत्थं नाम पुरं जं तत्थ पुरा शुडस्स पिंढेहिं ।
 भगं परबलमेयं तो शुडसत्थं ति विक्खायं ॥
 नाग-रमणीइ वेणी गहिया विवरम्मि पविसिडं जेण ।
 सो वेणि-वच्छराड त्ति पायडो तत्थ अत्थि निवो ॥
 तह आसि गरुय-गच्चो तत्थ परिच्चायगो महावाई ।

साहृहि जिओ वाए सो अधिईए मओ संतो ॥
 नामेण वडुकरओ गुडसत्थे तत्थ वंतरो जाओ ।
 तत्थ न देह मुणीणं वसिडं सो विहिय-उवसग्गो ॥
 तस्सोवसम-निमित्तं गुरुणो तत्थागया दिवस-विगमे ।
 पुर-मज्झे वसहीए पट्टविडं साहृणो सब्बे ॥
 ठविडं कल्लेसु उवाहणाउ जक्खस्स अग्गओ सुत्ता ।
 देवओ पहाए समागओ ते तहा दट्ठं ॥
 लोयस्स कहइ लोओ समागओ उट्टसु त्ति सो भणइ ।
 उट्ठंति न गुरुणो पुण गुरुण अवणेइ पावरणं ॥
 तं जत्थ जत्थ अवणेइ पेच्छए तत्थ तत्थ अहट्ठाणं ।
 रत्तो निवेइयमिणं तेणाइट्ठं हणह एयं ॥
 तो आढत्ता गुरुणो हणिडं लोएण कडलट्ठीहि ।
 लग्गंति ते पहारा रत्तो अंतेउरीणंगे ॥
 हा ! को वि अदिट्ठो पहणइ त्ति अम्हे ताओ विलवंति ।
 मुणिऊण इमं रत्ता गंतुं ते खामिआ गुरुणो ॥
 अह गुरुणो पुर-मज्झे चलिया तो ताण पिट्टओ जक्खो ।
 संचलइ उप्पिडंतो तहउन्न-देवाण पडिमाओ ॥
 तत्थासि जक्खभवणे पाहाणमईओ दुन्नि दोणीओ ।
 ताओ वि पट्टियाओ ठियाउ पुरओ मुणिदाणं ॥
 एयं दट्ठं विम्हिय-मणेण गुरुणो जणेण संलत्ता ।
 मिल्लह इमाणि सब्बाणि ताणि मुक्खाणि तो गुरुणा ॥
 दोणीओ अ मंतीडं नयर-दुवारे तडेसु मुक्खाओ ।
 सट्ठाणमाणही सो अत्तो जो मज्झ सरिसो त्ति ॥
 इय वडुकरय-जक्खो विज्जा-सिद्धेहि उवसमं नीओ ।
 जिण-पवयणस्स पवरा पहावणा तत्थ तह विहिया ॥
 अह भरुयच्छ-पुराओ समागया तत्थ साहृणो दुन्नि ।
 तेहि कहियं गुरुणं अम्हे संवेण पट्टविया ॥
 पट्टु ! तुम्ह भाइणेज्जो मुणिणो मुत्तूण भोयणे गिट्ठो ।
 भिक्खूण गओ मज्झे करणेहि न गंजिओ को वा ? ॥
 विज्जा-पभावओ से पत्ताणि उवासगाण गेहाउ ।

गयणंगणेण वर-खज्ज-सुज्ज-भरियाणि इति मढं ॥
 तं अच्छरियं ददूण तम्मि भत्ति कुणन्ति सड्ढावि ।
 ता आगंतुं संघस्स हरह ओभावणं एयं ॥
 तं सोडं गुडसत्थाड झत्ति भरुयच्छमागया गुरुणो ।
 तेसि तु पत्तगाणं पुरो ठिओ मत्तओ जाइ ॥
 सो उण उवासगाणं गिहेसु पवरासणम्मि ठविऊण ।
 सरसस्स भरिज्जइ भोयणस्स सह सेस-पत्तेहिं ॥
 गयणेण इति सव्वाइं अन्नया सेय-वत्थ-पिहियाइं ।
 तम्मि दिणम्मि गुरुहिं विउव्विया अंतरम्मि सिला ॥
 पत्ताणि तत्थ तो लत्तिगऊण भग्गाइं ताइं सव्वाइं ।
 तो चेल्लएण नायं इहागया अज्ज-खउड त्ति ॥
 तो चेल्लओ भएणं नट्ठो बुद्धालए गया गुरुणो ।
 ते संलत्ता भिक्खूहि पडह पाएसु बुद्धस्स ॥
 भणियं आयरिएहिं सुद्धोदण-पुत्त ! एहि वंद ममं ।
 तो निगंतुं बुद्धो पडिओ पाए स सूरीण ॥
 तत्थ दुवारं थूलो सो भणिओ एहि पडसु पाएसु ।
 तो झत्ति सो वि पडिओ अह उट्टेहि त्ति संलत्तो ॥
 अट्ठो ण उट्टि एसो एवं चिय संपयं पि सो अत्थि ।
 भणिओ बुद्धो चिड्डसु सट्ठाणे एक-पासेण ॥
 थक्को तहेव एसो इमेहिं जं नामिओ नियंठो सो ।
 लोयम्मि तो पसिद्धा नियंठनाम त्ति ते गुरुणो ॥
 एवं विज्जा-सिद्ध-प्पभावओ देवया-कयावेसं ।
 वेयणमचेयणं वा करेइ मण-चित्थियं चिट्ठं ॥
 जं पुण मरणेण विणा जीवो पर-वेह-संकमं कुणइ ।
 नियय-सरीरं मुत्तूण सव्वहा तन्न संभवइ ॥
 इय विज्जा-माहप्यं अच्चवमुयमज्ज-खउड-सूरीणं ।
 ददूण वच्छराओ पडिवन्नो वीपराय-मयं ॥
 ताराइ बुद्धदेवीइ मंदिरं तेण कारियं पुढवं ।
 आसन्न-गिरिम्मि तओ भन्नइ ताराउरं त्ति इमो ॥
 तेणेव तत्थ पच्छा भवणं सिद्धाइयाइ कारवियं ।

तं पुण काल-वसेणं दियंबरेहिं परिग्गहियं ॥
 तत्थ ममाएसेणं अजिय-जिणिंदस्स मंदिरं तुंगं ।
 दंडाहिव-अभएणं जसदेव-सुएण निम्मवियं ॥

इति आर्थ-खपुटाचार्य-कथा ॥

तो राया बुहवग्गं विसज्जिउं दिवस-चरम-जामम्मि ।
 अत्थाणी-मंडव-मंडणम्मि सिंहासणे ठाह ॥
 सामंत-मंति-मंडलिय-.....पमुहाण दंसणं देह ।
 विन्नत्तीओ तेसिं सुणइ कुणइ तह पडीयारं ॥
 कय-निव्विवेय-जण-विन्धियाइं करि-अंक-मल्ल-जुद्धाइं ।
 रज्जट्टिइ त्ति कइया वि पेच्छए छिन्नवंछो वि ॥
 अट्टमि-चउदसि-वज्जं पुणो वि भुंजइ दिणट्टमे भाए ।
 कुसुमाइएहिं घर-चेइयाइं अचेइ संझाए ॥
 निसि निविसिज्जण पट्टे आरत्तिय-मंगलाइं कारवइ ।
 वारवह्व-निवहेणं मागह-गण-गिज्जमाण-गुणो ॥
 तो निहं काउमणो मयण-भुयंगम-विस-प्पसम-मंतं ।
 संथुणइ थूलभद-प्पमुह-महासुणि-चरियमेवं ॥

पुरि चिद्धइ पाडलिपुत्त नामु,

घण-कण-सुवन्न-रयणाभिरामु ।

तहिं नवमु नंद पालेइ रज्जु,

पडिवक्ख-महीहर-हलण-वज्जु ॥ १ ॥

मुणिपत्त-कप्प-जल-सित्तु गत्तु,

बालत्तणि जसु रोगेहि चत्तु ।

तसु कप्पयमंतिहि वंसि हूओ,

सगडालु मंति निववक्खुभूओ ॥ २ ॥

तसु थूलभहु सुओ आसि पढसु,

मयणु व्व मणोहर रूव परसु ।

जो जम्मदियहि देवयहिं बुत्तु,

इह होही चउदह-पुव्व-जुत्तु ॥ ३ ॥

सिरिउ त्ति विइज्जउ आसि पुत्तु,

नय-विणय-परक्कम-वुद्धि-जुत्तु ।
 तह जक्खा-पसुह पसिद्ध पत्त,
 मेहाइ गुणिहिं भइणीउ सत्त ॥ ४ ॥
 अह पत्तु कयाइ वसंतसमओ,
 संजणिय-सयल-जण-चित्त-पमओ ।
 उल्लासिय-रुक्ख-पवाल-जालु,
 पसरंत-चारु-चच्चरि व्व मालु ॥ १ ॥
 जहिं वण-लय-पयडिय-कुसुम-वरिस,
 महु-कंत समागय जणियहरिस ।
 पवमाण-चलिर-नव-पल्लवेहिं,
 नच्चंति नाइ कोमलकरेहिं ॥ २ ॥
 नव-पल्लव-रत्त-असोअ-विडवि,
 महुलच्छिहि सडं परिणयणु घडवि ।
 जहिं रेहहिं नाइ कुंसुंभरत्त,
 वत्थेहिं नियंसिय सयलगत्त ॥ ३ ॥
 हसइ व्व फुल्ल-मल्लिय-गणेहिं,
 नच्चइ व पवण-वेविर-वणेहिं ।
 गायइ भमरावलि रविण नाइ,
 जो सयमवि मयणुम्मत्तु भाइ ॥ ४ ॥
 घणमयणमहूसवि, पिज्जंतासवि,
 तहि वसंति जणचित्तहरि ।
 कय-विसय-पसंसिहिं, नीओ वयं सिहिं,
 थूलभहु कोसाहि धरि ॥ ५ ॥
 कणय-खंभिहिं नाइ कंदलिय,
 जहिं नाइ पल्लविय
 चीणवत्थ वित्थिय वियाणिहिं,
 नं कुसुमिय मुत्तियहि
 सव्वओ वि अवऊलठाणिहि,
 कंचणकलसिहि जणि फलिय सहइ लच्छिलयचित्त ।
 कोसा वेसा पुव्वकयसुकय जलिण जं एव सित्त ॥ ६ ॥

थूलभद्रो तम्मि पासाइ,
 मणि-खंड-मंडिय-कणय-
 मय-गवक्ख-उच्छंगि संठिय,
 कोस त्ति वेसा पवर
 ख्व-नाण-गव्वावगुंठिय,
 रयणालंकिय-सयल-तणु उज्जल-वेस-विसिद्ध ।
 नं सुर-रमणि विमाण-गय लोयण विसइ पविद्ध ॥ ७ ॥
 जसु वयणविणिज्जिउ नं ससंक्कु,
 अप्पाणु निसिहिं दंसइ स-संक्कु ।
 जसु नयण-कंति-जिय-लज्ज-भरिण,
 वण-घासु पवन्नय नाइ हरिण ॥ ८ ॥
 जसु सहहिं केस-घण कसण-वन्न,
 नं छप्पय मुह पंकय पवन्न ।
 भुवणिक्क-धीर-कंदप्प-धणुह,
 सुंदरिमविडंबहि जासु भसुह ॥ ९ ॥
 जसु अहर हरिय-सोहग्ग-सारु,
 नं विहुम सेवइ जलहि खारु ।
 जसु दंतपंति सुंदेरु रुंदु,
 नहु सीओसहं तु वि लहइ कुंडु ॥ १० ॥
 असणंगुलि पल्लव नहपसूण,
 जसु सरलमुयाउ लयाउ नूण ।
 घण-पीण-तुंग-थण-भार-सत्तु,
 जसु मज्झु तणुत्तणु नं पवत्तु ॥ ११ ॥
 थूलभद्रिण तीइ कोसाइ,
 निय-दिद्धि जा पडुविय
 अंगि चंगलावन्ननिवभरि,
 तीए वि हु अंगि तसु
 असमसोह सोहग्गसुंदरि,
 अवरुप्परु अणुरायगुणु दोहिहि पयडंतीहिं ।
 थूलभद्र कोसहं पदसु किउ दूइत्तणु तीहिं ॥ १२ ॥

तो जगुत्तम-रूव-लावन्न,
 संपत्ति-दंसण-वसिण
 विसयमाण विम्हय परव्वसु,
 पफुल्ल-लौयत्तण-जुयल्ल
 थूलभहु अणुरत्त-भाणसु,
 निम्मल-मुत्तिय-हारमिसि रइय चउक्कि पहिड्डु ।
 पढसु पविड्डु हिय तसु पच्छा भवणि पविड्डु ॥ १३ ॥
 कलिउ दप्पणु वयण-उउमेण,
 रोलंबकुलसंवलिय
 कुसुमवुट्ठि दिट्ठिहिं पयासिय,
 पल्हत्थ उवरिल्ल घण-
 कणय-कलस-मंगल्ल-दरिसिय,
 चंदणु दंसिउ हसियमिसि इय कोसहिं असमाणु ।
 घरि पविसंतह तासु किउ नियअंगिहि सम्माणु ॥ १४ ॥
 × × × × ×
 इअ थुविज्जणं आसणमुवणीयं तीए थुलभइस्स ।
 सो तत्थ निससो उदय-सेल-सिहरम्मि चंदो व्व ॥ १९ ॥
 दहूण तस्स रूवं तीए सिढिलिय-सरूव-गव्वाए ।
 विन्नाण-पयडणत्थं मणोहरा वाइया वीणा ॥ २० ॥
 अह कोसल्ल-पयासण-उल्लसिय-महल्ल-कोउहल्लेण ।
 धित्तुं वीणा तह कहवि वाइया थूलभहेण ॥ २१ ॥
 कोसा कोसल्लमयं जह मिल्लइ तक्खणेण सल्लं व ।
 तो ण्हाण-भोयणार्हेणि थूलभइं करावेह ॥ २२ ॥
 कव्व-यंधिहिं कह-पव्वेहि,
 पण्डुत्तरपयडिणिहि
 नम्म-वयण-लीला-पसंगिहि,
 वच्छायण-भरह-भाव-
 सूरि-भाव-संलाव-भंगिहि,
 अक्ख-विणोइण ते गमहिं जा वुत्ति वि दिण-सेसु ।
 ता पच्छिम-दिसि कामिणिहि अंकि निविड्डु दिणेसु ॥ २३ ॥

तो समुग्गड मयण-नरनाह,
 अहिसेय-मंगल-कलसु
 दिसि-पुरंधि-आयरिसमंडल,
 नह-लच्छि-चंदण-तिलओ
 रयणि रमणि-ससि-कंत-कुंडल,
 सब्ब-कला-संपत्तु रसिय-जण-संतोसु कुणंतु ।
 अमयमयइ कर-फंसि-सुहि तहि कुसुइणि वियसावंतु ॥ २४ ॥
 भरह-भासिय-भाव-संबडु,
 पारडु संगीउ तहिं
 कोसवेस नच्चिय वियक्खणि,
 रंजिय-मणु घणु दविणु
 थूलभद्रु तसु देइ तक्खणि,
 तयणंतरु अणुरत्तमण मयणपल्लंकि निसन्न ।
 माणिय-मयण-विलास-सुह दुत्ति वि निह पवन्न ॥ २५ ॥
 इय तत्थ थूलभद्रो पिउ-संपाडिय-समग्ग-भोगंगो ।
 परिचत्त-सेस-कज्जो बारस-वरिसाइं संबसइ ॥ २६ ॥
 अह तत्थ वसइ विप्पो बडु-सत्थ-वियक्खणो वरुइ त्ति ।
 अट्टत्तर-वित्त-सएणं थुणइ निच्चं पि सो नंदं ॥ २७ ॥
 तह वि न नंदो से देइ किं पि पिच्छेइ किं तु मंति-सुहं ।
 मिच्छत्तं ति न मंती वि तस्स कव्वाइं वझेइ ॥ २८ ॥
 ओलगिगया बुद्धेणं मंति-पिया भणइ किं कुणसि कट्टं ।
 भणइ बुहो भण मंतिं जह मह कव्वाइं वझेइ ॥ २९ ॥
 तीए भणिओ मंती वन्नइ कव्वाइं सुहु पढइ त्ति ।
 तो वियरइ अट्टत्तर-दीणार-सयं बुहस्स निचो ॥ ३० ॥
 तो विचिंतइ मंति सगडाल,
 निव-कोसु निट्ठिउ सयल्लु
 अन्नदिअहि विन्नवइ नरवरु,
 एयस्स किं देह पडु !
 दिवसि दिवसि इत्तिउ घणुक्करु,
 सो जंपइ तइ वन्नियओ त्तिणि एयह घणु देमि ।

मंति भणइ पर-कव्व-चरण पढइ तेण सलहेमि ॥ ३१ ॥

नंदु जंपइ पढइ पर-कव्व,
कह एस वररुइ सुकइ
कहइ मंति मह धूय सत्त वि,
एयाइं कव्वाइं

पहु ! पढइं बालाउ हुंत वि,

तत्थ तुम्ह नरनाह ! जइ मणि वट्टइ संदेहु ।

ताउ पढंति य कोउगिण ता तुम्हे निसुणेहु ॥ ३२ ॥

एक्केण दोहिं तीहिं चउहिं पंचहिं छहिं य सत्तेहिं ।

वारेहिं धरंति कमा परपढियं मंति-धूयाओ ॥ ३३ ॥

जवणियंतरि ताउ ठवियाउ,

तो वररुइ आगइउ

थुणइ नंदु तं ताउ निसुणहिं,

चक्कम्मि तम्मिय कमिण

कव्व सव्व सव्वाउ पभणहिं,

तो नरनाहिण वररुइण कुविऊण वारु निसिद्धु ।

वररुइ ताव विलक्खमण उलगगइ सुरसिधु ॥ ३४ ॥

खिविवि संझिहि सलिल दिणार,

गोसग्गि सुरसरि थुणइ

हणइ जंत-संचारु पाइण,

उच्छलिवि ते वि वररुइहिं

चडहिं हत्थि तेण घाइण,

लोउ पइंपइ वररुइह गंग पसन्निय देइ ।

सुणिवि नंदु बुत्तंतु इहु सयडालस्स कहेइ ॥ ३५ ॥

सो पर्यंपइ गंग जइ देइ,

दीणार पेच्छंतयह

मह इमस्स तो देइ निच्छिउ,

संझाइ तो सिक्खवि

विं पुरिसु तत्थ मंतिण विसज्जिउ,

सो घच्चिवि पच्छवु ठिओ जा अच्छइ पेच्छंतु ।

दिद्वो वररुह तेण तओ तर्हि दीणार ठवंतु ॥ ३६ ॥

ते वि अप्पिय तेण आणेवि,

मंतिस्स गोसग्गि गओ

सपरिवारु तर्हि नंदु नरवह,

तो गंग वररुह थुणइ

जंतु-हत्थ-पाएहिं जोवह,

तत्थ न किंचि वि सो लहइ होइ विसन्नु मणेण ।

ते नंदह दीणार तओ दंसिय सयडालेण ॥ ३७ ॥

कहिउ सयल्लु वि संझुत्तंतु,

तो जाओ वररुह विमणु

पुण वि मंति-छिदाइं मग्गइ,

ओलग्गइ मंति-घर-

दासी सा वि घरवत्त संपइ,

तर्हि किज्जइ भोअणु-निवह सिरियय परिणयत्थु ।

तह पक्खर-सन्नाह-शुड-असि-पमुहाउह-सत्थु ॥ ३८ ॥

इय मुणिय दासि-वुत्तं चित्तइ चित्तम्मि वररुहं हिद्वो ।

पत्तो मए इयाणिं मंतिस्स विणासणोवाओ ॥ ३९ ॥

दवि लद्धुअ डिंभरूवाण,

सो पाढइ कोवि न हु

मुणइ एउ जं मंति करिसइ,

मारिचिणु नंदु निवु

नंदरज्जि सिरियओ ठवेसइ,

तिग-चच्चर-चउहइहिं एउ पढंतइं ताइं ।

नंदिण बाहिं निग्गयण अन्नहिं दिअहिं सुआइं ॥ ४० ॥

पुरिसु पेसिवि निवइ सवियक्कु,

जोआवइ मंतिघरु

कहिउ तेण किज्जंत आउहु,

ता मंतीहि पणमिअह

कुविओ नंदु जोअइ न सम्मुहु,

घरि गउ मंति भणेइ तउ सिरिया ! जइ महु पुत्तु ।

तुहं नंदह पडिहारु तड करहि महारउं वुत्तु ॥ ४१ ॥
 नंदु कुदुड तेण मह सीसु,
 तुहु खंडि पणमंतयह
 तासु पुरओ असिदंड घाइण,
 रक्खेसु ती सेसु कुल
 मज्झ दोसि हम्मंतु राइण,
 इय सुणि सिरियउ पिउवयणु करयल-दक्खिय कहु ।
 कंपइ हा ! हा ! केम्ब हउं पिउवहु करउं अहहु ॥ ४२ ॥
 मंति साहइ वच्छ ! मा झूर,
 इउ नीइ-सत्थिहिं कहिउ
 कुलहि कज्जि जं एकु सुच्चइ,
 कुलरक्खिण कारणिण
 तेण मज्झ मरणं पि रुच्चइ,
 हउं खाइसु विसु तालउडु नंद पणासु करंतु ।
 पिउवह-पावि न लिप्पिहिंसि मइं गयजीवु हणंतु ॥ ४३ ॥
 तेण मन्निउ कह वि पिउवयणु,
 तो मंतिण तालउडु
 खडु नंदरायह नमंतिण,
 सिरिएण तक्खणि खंडिउं
 तासु सीसु खग्गिण पुरंतिण,
 हा ! हा ! करिवि भणेइ निवु सिरियय ! किउ किमकज्जु ।
 सो जंपइ जो पहु अहिउ तिण पिउणा वि न कज्जु ॥ ४४ ॥
 ताव चिन्तइ मंति-मय-किच्चि,
 राएण सिरियउ भणिउ
 देमि तुज्झ मंतिउ तुहुउ,
 सो जंपइ पयह उच्चिउ
 थूलभहु भहु अत्थि जेहुउ,
 सो नंदिण कोसाघरह भणिअउ हक्कारेवि ।
 गिन्हसु पिउपउ तिण भणिउ गिन्हउं पहु ! चितेवि ॥ ४५ ॥
 इमिणा मिसेण एसो मा वच्चउ पुण घरम्मि गणियाए ।

इय रक्षा सो भणिओ चित्तिसु असोग-वणियाए ॥ ४६ ॥

एवं ति भणिय तो थूलभहु,

चित्तेइ तत्थ परमत्थ भहु ।

मणुयत्तह सारु ति-वग्ग-सिद्धि,

तिहि विग्घहेउ अहिगार-रिद्धि ॥ ४७ ॥

जं तत्थ राय-चित्ताणुकूल,

आरंभ कुणंतह पाव-मूल ।

कउ मंतिहि जायइ विमल-धम्मु,

जिणि लभइ सासउ सिद्धि-सम्मु ॥ ४८ ॥

पर-पीड-करेविणु जं पमूअ,

गिन्हहिं निउ गिरुहि रूव जलूअ ।

नरनाहिण घिप्पइ नं पि दब्बु,

निप्पीलिवि सहुं पाणेहिं सव्वु ॥ ४९ ॥

पर-वसहं सव्वु भय-भिभलाहं,

अन्नन्न-पओअण वाउलाहं ।

अहिगारि-जणहं कामभोअ,

संभवहिं विर्यंभिअ गुरु-पमोय ॥ ५० ॥

कोसा-घर बारस-वच्छरेहिं,

विसइहिं न तित्तु लोउत्तरेहिं ।

बहु रज्ज-कज्ज-वक्खित्त-चित्तु,

किं संपइ होहिसि मूढ-चित्तु ॥ ५१ ॥

पइ जम्म-मरणु कल्लोलमत्तु,

भव-जलहि भमिवि मणुअत्तु पत्तु ।

परिहरिवि विसय-फलु तासु लेहि,

किं कोडि कवडिइं हारवेहि ॥ ५२ ॥

वज्जेवि धम्मु जो विसय-सुक्खु,

परिणाम-विरसु सेवइ सुर-रक्खु ।

सो पिअइ दुट्ठु जर-गहिउ सुट्ठु,

सो भक्खइ मंसु गलंतु कुट्ठु ॥ ५३ ॥

दिण पंच करिवि नर-वइ-निओशु,

संपाइवि अप्पह पाव-जोगु ।
 दुब्बार-दुसह-दुह-लक्ख-रुवि,
 गंतव्वु जीव नरयंध-कूवि ॥ ५४ ॥
 महु महु रुचए वि निवाहिगारु,
 परंत विडंबण-दुक्ख-सारु ।
 करि जीव ! धम्मु वल्लिवि पमाउ,
 जिम्ब नरह न पावहि पच्चवाउ ॥ ५५ ॥
 परिहरिवि सब्ब सावज्ज-कम्मु,
 जो जीवु न जुव्वणि कुणह धम्मु ।
 सो मरण-यालि परिमलह हत्थु,
 गुणि तुट्ठह जिम्ब धाणुक्कु एत्थ ॥ ५६ ॥
 इय विसय-विरत्तउ, पसम-पसत्तउ, ।
 थूलभहु संविग्गमणु ।
 सिव-सुक्ख-कयायरु, भव-भय-कायरु,
 महह चित्ति दुच्चर चरणु ॥ ५७ ॥
 पंच मुट्ठिहिं केस लुंचेवि,
 पाउरिअ कंबल रयणु
 छिंदिऊण रयहरणु निम्मिवि,
 निवह पासि गंतूण
 तुह धम्म-लाहु होउ त्ति जंपिवि,
 नरवह ! चित्तिउं एउ मइं थूलभहु पभणेइ ।
 राइण वुत्तु सुचित्तिअउं अह सो पुरह चलेहि ॥ ५८ ॥
 नंदु जंपइ पेच्छ कवडेण,
 गणियाइ पविसइ भवणि
 किं नव ? त्ति आयास-तल-गउ,
 जा नियइ ता सो वि
 तेण कुहिय-भयगमग्गेण निग्गउ,
 नित वि संतउ जेण जणु सेसउ मुहुइं ठएइ ।
 भयवं विसय-विरत्त-मणु तो नरवर जंपेइ ॥ ५९ ॥
 ठविउ सिरिअउ निविण मंति त्ति

अह पासि पत्तउ गुरुहु
 थूलभहु संभूअविजयह,
 पडिवज्जइ नियम-भरु
 धवल-कित्ति-पंडुरिय-त्ति-जयह,
 सिरिउ वि कोसहि निच्चु घरि भाइ सिणेहिण जाइ ।
 वररुइ रत्तउ कोस-लहु-बहिणिहिं उवकोसाइ ॥ ६० ॥
 वाम-करयल-कलिय-मुह-कमल,
 सिंगार-परिमुक्कु तणु
 वाह-सलिल-संसित्त-थणहर,
 विरहग्गि-संतत्त-मण
 दीह-सास-परिसोसियाहर,
 थूलभहु-नामुच्चरण-गुण-कित्तण-कयतोस ।
 पुरिसंतर-संगम-विमुह कह वि गमइ दिण कोस ॥ ६१ ॥
 निअइ सिरिअउ छिइ वररुइहि,
 तो कोस-सम्मुहु भणइ
 एअ हेउ पिउ मरणु अन्हहिं,
 संपत्तु बंधव-विरहु
 तह विउगु दइएण तुम्हिहि,
 ता वररुइ पाएसु सुर तीइ वि भइणी वुत्त ।
 जं तुहं मत्त अमत्तु इहु एरिस जोड न जुत्त ॥ ६२ ॥
 तो बहु-जुत्तीहि बुहो तीए भणिओ अणिच्छमाणो वि ।
 चंदपहं पियइ सुरं दुळं ति जहा जणो मुणइ ॥ ६३ ॥
 कहिउ कोसहिं एउ सिरिअस्स,
 अह अन्नदिणि निवु भणइ
 सिरिअ ! जणउ तुह आसि मह हिउ,
 सो जंपइ सच्चु एहु
 किं तु मत्तवाल्लिण विणासिउ,
 राउ पर्यंपइ किं पिअइ दिअवरु वररुइ मज्जु ।
 सिरिउ भणइ संदेहु जइ ता पिच्छिज्जउ अज्जु ॥ ६४ ॥
 ताव सिरिइणि फुल्लवडु वुत्तु,

तुहुं देज्ज वररुइहि करि
 मयण-हल्लिण भाविअलं पंकउ,
 अन्नाइं वन्नाण करिय
 तयणु तेण सव्वं पि तह कउ,
 तं अग्घाइउ वररुइण वमिअउ मज्ज खणेण ।
 तो नीहारिवि निग्गहिउ तत्त-तउअ-पाणेण ॥ ६५ ॥
 थूलमहु वि कुणइ तव तिब्बु,
 अह पत्तउ कुसुमपुरि
 गुरुसमेउ पाउस-समागमि,
 तहिं गच्छि गिण्हहिं नियम
 खवग तिन्नि वन्निय जिणागमि,
 चउमासु वि सीहह गुहहिं निरसणु एक्कु निससु ।
 बीअउ दिट्ठिविसाहि-बिलि कूवफलइ तह अन्नु ॥ ६६ ॥
 ते तिन्नि वि उवसंता सीह-भुअंगा-उरहट्टियमणुस्स ।
 अणिहीण तवनिहीणं मुणीण तेसिं पहावेण ॥ ६७ ॥
 थूलमहिण भणिउ गुरुपासि,
 वसिअब्बु चउमास मइं
 कोस-वेस-घरि निच्चभोअणि,
 तो पत्तु तहिं सम्बविधि
 सा पहिद्व चित्तेइ निय-मणि,
 एइ दइउ तव भग्गु इहु विरइ वि अन्नुट्ठाणु ॥
 एहु किं करिमि भणेइ मुणि मग्गइ वास-ट्ठाणु ॥ ६८ ॥
 कोस जंपइ वसह इह नाह !,
 को घरइ घरु पत्थियउ
 तुम्ह कज्जि जो वहइ निय-तणु,
 सह लच्छिहिं इंति अहि
 कवणु देह झंपउ सचेअणु,
 थूलमहु तो ठाइ मुणि उववणि घरि कोसाहि ।
 निद्ध भिक्ख सो तहिं जि घरि गिण्हइ असम्म-समाहि ॥ ६९ ॥
 कोस चित्तइ मज्झ अणुरत्तु,

अणुअत्तिउ एहु मइं
 तवह भग्गु असहाउ घरि मह,
 ता पुव्व-पुत्तोदइण
 फलि अत्तण संपइ मणोरह,
 लद्धुं दुद्धु विडालिअहिं सउणिं आमिसु पत्तु ।
 हिअय पणच्चसि किं न तुहं सिद्धुं कज्जु समत्तु ॥ ७० ॥
 ताव सुंदरु करिवि सिंगारु,
 मुणिपासि वच्चिवि चवइ
 विरह-जलण-संततु मह मणु,
 तं अज्ज विज्झविउ तुह
 अमय-सरिसु जं लद्धु दंसणु,
 हउं ठिअ एत्तिअ दिण दुहिण चत्ताऽवर नरसंग ।
 पेसिअ सुहय संगम सुहिण निव्वावहि महु अंग ॥ ७१ ॥
 तहु सिणेहहु ताहंत्ताणिआऽहं,
 तहं नाह गुण-कित्तणहं
 किं न देसि पडिवयणु निट्टुर,
 किं एरिसु जुत्तु मइं
 अवगणेसि जं पिम्म-बंधुर,
 थूलभइ इउ जंपिओ वि जं पडिवयणु न देह ।
 ताव कोस कुसुमिय-मयण विविह विआर करेइ ॥ ७२ ॥
 कर समुक्खिवि पयड भूअ मूल,
 आमेत्तु वंधइ ददु वि
 अंगभंगु पुण पुण पयासइ,
 उवरिल्लु दीसंत थण
 संठवेइ सविलासु भासइ,
 लायन्निक्क-निवास-पउ पयडइ नाहि-पएसु ।
 नियइ तिरिच्छिहिं लोअणिहि सिद्धिलइ नीवि-निवेसु ॥ ७३ ॥
 इअ निम्मिय मयण-विलास कोस,
 मुणि थूलभहु पेच्छिवि सतोस ।
 सविसेस विर्यंभिअ धम्मज्ञाणु,

भावेद् महिल इग्गाइ निआणु ॥ ७४ ॥
 सुंदरिम-विणिज्जिय-तरुण-कमलु,
 जं एअहि पिच्छहि चलण-जुअलु ।
 तुहं तेण पणुल्लिउ जीव रइ,
 पाविहिसि दुरुत्तर-निरय-गडु ॥ ७५ ॥
 जं कलिय-खंभ-सुंदेर-चोरु,
 तुहं एअहि जच्च-सुवन्न-गोरु ।
 सरलोरु-दंडु जुग सच्चवेहि,
 तं नरय-भवण-तोरणु मुणेहि ॥ ७६ ॥
 जइ एअहि पीण नियंवि सुद्धु,
 भव-चारय-ठिउ तुहं जीव मुद्धु ।
 ता दाविअ विविह-विडंबणाउ,
 दुसहाउ सहिस्ससि जायणाउ ॥ ७७ ॥
 परिहरिवि जीव ! जिण-धम्म-मग्गु,
 जइ एअहि नाहि-दहम्मि मग्गु ।
 ता नूण अणुत्तर-सुक्ख-पसरु,
 पाविहिसि नेअ निच्चाण-नयरु ॥ ७८ ॥
 जइ एअहि तुंग-धण-त्थलेहिं,
 विसमम्मिहि अइधणच्चक्कलेहिं ।
 पक्खलिउ कह वि भवरञ्चु भीसु,
 लंघिहिसि जीव ! ता न हु असीसु ॥ ७९ ॥
 जइ एअहि सुअ-पासेहि बन्धु,
 तुहं काहिसि जीव ! असबसंधु ।
 ता मोह दुरुत्तर-गुत्ति-हइ,
 चिरकालु वसिस्ससि जीव ! मूढ ॥ ८० ॥
 जो एअहि घण-कुंतल-कलावु,
 सो सप्पसमूहु महप्पभावु ।
 मह धम्म-उच्चाण-निह-गहण-विग्गु,
 संजणह एउ चित्तसु सिग्गु ॥ ८१ ॥
 इअ निच्चल-चित्तह, पसम-पवित्तह,

थूलभद्र-मुणि-पुंगवह ।

मणु कोस-मणोहर, पीण-पउहर,
हरिउ न सकइ सा तवह ॥ ८२ ॥

कहइ मुणी से धम्मं तं सा सोऊण साविघा जाया ।
तह राय-निउगं वज्जिऊण पच्चक्खइ अवंभं ॥ ८३ ॥

खमग तिन्नि वि पुन्नि चउमासि,
गुरुपासि वच्चिहिं गुरु वि
किं चि ताण संमाणु दंसइ,
तहं दुष्करकारयह

सागउ त्ति संमुहं सासइ,
थूलभद्रु इंतउ नियवि गुरु कय गुरु सम्माणु ।
दुक्कर-दुक्कर-कारगह सागउ भणइ पहाणु ॥ ८४ ॥

मुणिवि तिन्नि वि खमगं गुरुवयणु,
सामरिस चिंतंति मणि
थूलभद्रु मंतिस्स नंदणु,
तिण एअह गुरु कुणइ
गुरुअ-माणु हियआहिनंदणु,

अह बीअइ पाउस-समइ दुक्कर-तव-मय-मत्तु ।
कोसाघरि गुरु वारिउ वि सीह-गुहा-मुणि पत्तु ॥ ८५ ॥

मुणि निअच्छि कोस चित्तेइ,

इह नूण मह एइ घरि
थूलभद्र-भच्छरु वहंतउ,

ता मूढु अप्पह परह

न वि विसेसु जाणइ निरुत्तउ,

कायह हंसह खर-करहि खज्जोअह सूरस्सु ।

एरंडह चंदणतरुहु कास-भसीसिअवस्सु ॥ ८६ ॥

सो वि उववण-गेहि तहि ठाइ,

कोसा वि उवसंतमण

मुणिहि पासि परिमुक्क-पाविण,

अविभूसिअ भूसिअ व

सुणइ घम्मु सुंदर-सहाविण,
 तहि मुहचंद-पलोअणिण पसरिय-राय-समुइ ।
 तो कोसहि सो संग-सुहु पत्थइ गय-वय-मुहु ॥ ८७ ॥
 कोस चितइ जइ वि इहु खुखिउ,
 बलवंत कम्मह वसिण
 तहा वि मग्गि ठाविमि उवाइण,
 तो पभणइ देहि महु
 दम्मु लाभु किं धम्मलाभेण,
 सो पुच्छइ केतिउ दविणु अह सा मग्गइ लक्खु ।
 सो अलाहिवि गुरु-तरुह-फलु पंगु बह्हुअओ विलक्खु ॥ ८८ ॥
 तीइ वुत्तइ सो सनिव्वेउ,
 मा खिज्जसि किंचि तुहं
 झत्ति वच्च नेवाल-मंडल्लु,
 तहिं देइ सावउ निवइ
 लक्खु मुल्लु साहुस्स कंबल्लु,
 सो तहिं पत्तउ दिहु निवु दिन्नउ कंबल तेण ।
 तं गोविउ दंडय तलइ तो वाहुडिउ जवेण ॥ ८९ ॥
 पत्तु अडविहि दिहु चोरेहिं,
 दीणार-लक्खगमण
 पिसुणु सउणु तहं जाउ तक्खणि,
 गच्छंतु सो अवगणिउ
 तेहि मुणि वि समणु त्ति निअ-अणि,
 लक्खगमण सूअणु सउणु पुणु संजायउ तेसिं ।
 ता वालिवि पुच्छिउ समणु सउणु परिक्खणरेसि ॥ ९० ॥
 सच्चु जंपसु अभउ तुह समण !,
 दीणारहं लक्खु फुहु
 तुज्जु अत्थि कहि कत्थ गोविउ,
 तेणावि कंबल-रयणु
 दंड-मज्झि संठिउ निवेइउ,
 तो मुक्खउ गउ दित्तु तिण कंबल्लु कोसहि हत्थि ।

सो पेच्छंतह तीह तसु खित्तु खालि अपसत्थि ॥ ९१ ॥

समणु दुम्मणु भणइ तो एउ,

बहु मुल्लु कंबलरयणु

कीस कोसि ! पइ क्खालि खित्तउ,

देसंतरि परिभमिचि

मइ महंत-दुक्खेण पत्तउं,

कोस भणइ महापुरिस ! तुहं कंबलु सोएसि ।

जं दुल्लहु संजम-खणु हारिस तं न मुणेसि ॥ ९२ ॥

जं परीसह सहिवि बावीस,

पंचिदियवसि करिवि

धरिवि जोगु चलु मणु तिरुंभिचि,

दुल्लिग्गह-कोह-मय-

माय-लोभ-मत्सरु तिरुंभिचि,

पंचमहव्वयभरु वहवि पइं संचिउ चारित्तु ।

तं आरामु व हुअवहिण भण-खोहेण पलित्तु ॥ ९३ ॥

जाउ वासवघणु व दुग्गिज्झ,

किपागु व मुह-महर

विसहर व्व विस्सास-वज्जिअ,

महर व्व मह-भोहकर

गिरिणइ व्व नीयाणुल्लिग्गिअ,

तहं वेसहं पत्थण-घणिण किं व भंजसि तव-नाव ।

भव-सायर-मज्जंत-जण-त्तारण-पयड-पहाव ॥ ९४ ॥

इअ कोसा-उवएसामय-रसुच्छिन्न-भयण-मुच्छेण ।

मुणिणा भणियं भदे ! तुह वयणं साहु साहु त्ति ॥ ९५ ॥

मिच्छामि दुक्कडं तं अबंभ-विसयम्मि जं तुमं वुत्ता ।

सा भणइ तुमं धन्नो जेण मणं ठाविडं मग्गे ॥ ९६ ॥

वित्ति पाउसि गयउ गुरु-पासि,

कय-पाय-पणमणु समणु

मुणिवि सच्चु नाणेण सूरिहि,

निब्भच्छिउ तो भ

थूलभद्दु गुण-सलिल-पूरिहि,
 जो पद्दु ! सित्तज मह हियइ मच्छर-तरु संजाउ ।
 तसु महं संपइ कुसुम-भरु दिट्टउ दुट्टु विवाउ ॥ ९७ ॥
 जइ वि मारिसु कुणइ तवु तिब्बु,
 निम्महि अवम्मह मयह
 तह वि थूलभइह न तुल्लउ,
 जा कोस कुसलिकमण
 अणणुरत्त पत्थेइ मुल्लउ,
 कसणवत्तु उप्पयइ नहि भंजइ जइ वि अवीहु ।
 तह वि दुरेह हरेह न हु पावइ गोवरखीहु ॥ ९८ ॥
 रत्ता दिन्ना रहियस्स सा थुणइ थूलभइमच्चत्थं ।
 सो तीइ रंजणत्थं निय-विन्नाणं पयासेइ ॥ ९९ ॥
 फुलिय अपूउ तेण पिच्छेवि,
 वायायणसंठिय प्पक्खित्तु
 बाणु सो खुत्तु लुंबच्चिहि,
 तसु पुंखित्तउ अवभाव,
 सुवि अवरु धम्म सरकयम्मिहि,
 धरिवि सहत्थिण कप्परि वि उवरि खुरु-प्पसरेण ।
 अप्पिय कोसह संगहि वि अम्बय लुम्बि करेण ॥ १०० ॥
 कोसा नच्चइ सिद्धत्थ-रासि-सिहरत्थ-सुई-अग्गम्मि ।
 रहिओ सिरं धुणंतो विन्नाणं वन्नए तीए ॥ १०० ॥
 सा पर्यंपइ भो ! महापुरिस !,
 जं अम्बय लुम्बि पइ
 खुडिय ठिइण इह तन्न दुक्करु,
 जं सरिसव-सुइ-सिरि
 नच्चियऽम्हि तं पि हु न दुक्करु,
 तं दुक्करु जं पमय-वणि वसियउ चाउम्मासु ।
 थूलभद्दु चारित्तनिहि निहणिय विसय पिवासु ॥ १०१ ॥
 मह सन्निहाणि चउमास वसियउ,
 जं तह वि न विसय-सुहेहि रसिय ।

तं कसण-भूर्यंगम वयणि थक्कु,
 मुणि थूलभहु तह वि न हु डक्कु ॥ १०२ ॥
 मह तिह कडक्खह विसइ पत्तु,
 जं तह वि न जायउ विसय-सत्तु ।
 तं निसिय-खग्ग-धारग्गि-धीरु,
 चंकमिउ वि च्छिन्नउ न मुणि-वीरु ॥ १०३ ॥
 जं विसय-सुक्ख-सेवा-निरीहु,
 मह पासि वसंतउ वि समण-सीहु ।
 पज्जलंत-जलण-जालाइ वुच्छु,
 तं तह वि न पत्तउ दाह दच्छु ॥ १०४ ॥
 जं सुणिवि सिण्हि-समिह-वयण,
 मह पत्थण-पणय-पहाण-वयण ।
 मुणि-नाहु अखंडिय वंभचरणु,
 विसु घुंदि वि तं विउ सत्थकरणु ॥ १०५ ॥
 इय थुणह थूलभदं कोसा-संसग्ग-अग्गि-मग्गस्स ।
 जस्स सुवत्तस्स व निम्मलस्स जाओ गुणुक्करिसो ॥ १०६ ॥
 इति स्थूलिभद्र-कथा ॥

परमेष्ठिनमस्कारं ततः संस्मृत्य भूपतिः ।

x x x x

तस्य माहात्म्यमीदृक्षं गुरुव्रतं वक्ति तद्यथा ॥

जम्बूद्वीपे भारतक्षेत्रमध्ये
 घर्मक्रीडाभूर्नगर्यस्त्ययोध्या ।

यत्प्राकारं कौतुकायातशेष-

श्रीलुण्टाकः प्राज्यशीर्षश्चकासे ॥ १ ॥

तन्नारातिस्त्रैणवैघव्यदाना-

लङ्कभीर्णाः साम्भवर्मा नृपोऽभूत् ।

स्वायत्तानां यः प्रतापेन तेने

दिक्षान्तानां क्रुद्धुमालेपलक्ष्मीम् ॥ २ ॥

देवी तस्याभवलक्ष्मी[लक्ष्मी]रिव मनोहरा ।

त्रिवर्गसेवया श्लाघ्यं तौ निजं जन्म निन्यतुः ॥ ३ ॥
 अथानयोः समुत्पेदे कन्दर्प इव नन्दनः ।
 कृतसर्वजनानन्दो नन्दनो नामविश्रुतः ॥ ४ ॥
 वद्विष्णुः सोऽन्वहं कान्त्या रोचिष्णुश्चन्द्रमा इव ।
 चरिष्णुर्विनयव्योम्नि जग्राह सकलाः कलाः ॥ ५ ॥
 कदाचिद्वाजपुत्रोऽयं नगर्यां क्रीडया भ्रमन् ।
 तामुत्सवमयीं दृष्ट्वा मर्त्यं कश्चन पृष्ठवान् ॥ ६ ॥
 किं कारणमियं प्रोद्यत्यताका प्रतिमन्दिरम् ।
 नगरी कनकस्तम्भनिबद्धमणितोरणा ॥ ७ ॥
 तेनोचेऽत्र पुरारक्षः पुरासन्नसरिज्जलैः ।
 उद्धमानं महामानं मातुलिङ्गं व्यलोकयत ॥ ८ ॥
 प्रविश्यान्तस्तदादाय महाराजाय चार्पयत् ।
 वर्णगन्धरसोत्कृष्टं तं दृष्ट्वा मुमुदे नृपः ॥ ९ ॥
 राजा सत्कृत्य तं प्राप्तं कुत्रेदमिति पृष्ठवान् ।
 नद्यामित्युक्तवानेष ततोऽमुं पार्थिवोऽवदत् ॥ १० ॥
 अन्वेषय वनं मौलं यत्रेदमुदपद्यत ।
 ऊर्ध्वभागे व्रजश्रेष नद्यास्तीरे ददर्श तत् ॥ ११ ॥
 तत्र प्रविश्य गृह्णाति यः फलं सृत्पुमेति सः ।
 इति ज्ञात्वा पुरारक्षः पुरः क्षोणिभुजोऽवदत् ॥ १२ ॥
 राज्ञोचे फलमानेयमेकैकं प्रत्यहं त्वया ।
 एकैकं तत्र वारेण प्रवेद्य परपूरुषम् ॥ १३ ॥
 फलादानेऽन्वहं तस्मिन्नेकैको त्रियते पुमान् ।
 कियत्यपि गते काले पुरलोके विधीदति ॥ १४ ॥
 वारको जिनदासस्य श्रावकस्य समाययौ ।
 ययौ तत्र विवेशान्तः स नमस्कारमुद्गृणन् ॥ १५ ॥
 तन्निशम्य स्मरन्पूर्वभवन्नतविराघनाम् ।
 वनाधिष्ठायकः क्षुद्रः व्यन्तरः प्रतिबुद्धवान् ॥ १६ ॥
 प्रत्यक्षीभूय नत्या तं श्रावकं सो मुदाऽवदत् ।
 दास्यामि फलमेकैकं स्थानस्थस्यैव तेऽन्वहम् ॥ १७ ॥
 असौ व्यावृत्त्य वृत्तान्तं तं नृपस्य न्यवेदयत् ।

प्रामोत्युच्छीर्षके शश्वदेकैकं व्यन्तरात् फलम् ॥ १८ ॥

तदर्पयति राज्ञे स तुष्टेन तेन पूजितः ।

अकालमृत्युविश्रान्त्या कारितश्चोत्सवः पुरि ॥ १९ ॥

इति निशम्य महोत्सवकारणं

वृपसुतो निजगाद जगत्यहो ।

इह भवेऽपि विपादितविप्लवं

स्फुरति पञ्चनमस्कृतिवैभवम् ॥ २० ॥

ततः पञ्चनमस्कारं कुमारो मुनिसन्निधौ ।

मन्त्रवद्विधिनाऽधीत्य त्रिसन्ध्यं नित्यमस्मरत् ॥ २१ ॥

अथागत्य पुमानेको राजपुत्रं व्यजिज्ञपत् ।

अस्ति चेदकमन्त्रो मे दत्तः सिद्धेन केनचित् ॥ २२ ॥

तस्य षण्मासपर्यन्तां पूर्वसेवामहं व्यधाम् ।

अधुनोत्तरसेवा तु कर्तव्यामेव तिष्ठति (?) ॥ २३ ॥

सा सर्वलक्षणोपेतं विना नोत्तरसाधकम् ।

तादृशस्तु त्वमेवातो मन्त्रसिद्धौ सखा भव ॥ २४ ॥

परोपरोधप्राधान्यात्प्रतिपेदे स तद्वचः ।

महान्तो हि प्रकृत्यैव परोपकृतिकर्मठाः ॥ २५ ॥

ततः कृष्णचतुर्दश्यां रात्रौ राजसुतान्वितः ।

पूजोपकरणं विभ्रच्छमशानं साधको ययौ ॥ २६ ॥

यत्कचिच्छरदभ्रौघशुभ्रादभ्रास्थिदन्तुरम् ।

क्वचिच्चितानलज्वालाजालपल्लविताम्बरम् ॥ २७ ॥

क्वचित्कलितकङ्कालकालवेतालभीषणम् ।

क्वचित्क्रीडद्गताशङ्कशाकिनीकुलसङ्कुलम् ॥ २८ ॥

क्वचिद्वाक्षसदुर्वीक्षं क्वचिद्भूतभयङ्करम् ।

क्वचित्सधूकफूत्कारं क्वचिद् घोरशिवारवम् ॥ २९ ॥

कृत्वाऽस्मिन्मण्डलं पुष्पदीपनैवेद्यमण्डितम् ।

तत्राग्निकुण्डे मन्त्रेण साधकोऽक्षिपदाहुतीः ॥ ३० ॥

कुमारोऽस्थान्नमस्कारं स्मरन्नुत्तरसाधकः ।

तत्र सन्त्रासनप्रह्ला बह्वयोऽभूवन्विभीषिकाः ॥ ३१ ॥

सादृहासस्ततोऽधावत् साधकं प्रति राक्षसः ।

जल्पन्मित्यसिना शीर्षं पद्मलावं लुत्नामि ते ॥ ३२ ॥

द्राक्कुमारोऽन्तरे भूत्वा को मय्युत्तरसाधके ।
 वाञ्छत्येष वधं कर्तुं साधकस्येत्यभाषत ॥ ३३ ॥
 अबोचद्राक्षसो ज्योम्नि दिव्यस्त्री दर्शिता मया ।
 तां दृष्ट्वाऽगादसौ क्षौभं वध्यस्तेनैष दोषवान् ॥ ३४ ॥
 साधकस्यास्य योऽनर्थं चेतसापि विचिन्तयेत् ।
 हस्तग्राहं गृहीत्वा तं निग्रहीष्य इति ब्रुवन् ॥ ३५ ॥
 कुमारो राक्षसाभ्यर्णं प्रचचाल यथा यथा ।
 प्रतस्थे द्राक्पदैः पश्चाद्राक्षसोऽपि तथा तथा ॥ ३६ ॥
 कुमारोऽबोचदूर्द्धस्त्वं तिष्ठ किं यासि चेद्भटः ।
 अबदद्राक्षसो भद्र ! मन्त्रं स्मरति यं भवान् ॥ ३७ ॥
 तत्प्रभावात् ते तेजः सोढुमग्नेरिव क्षमे ।
 तदपैमि पदैः पश्चात्सिद्धस्तेऽस्मि विसृञ्च माम् ॥ ३८ ॥
 दुस्साधमपि तेऽभीष्टं साधयिष्यामि चिन्तितम् ।
 सिध्य त्वं साधकस्येति निजगाद नृपात्मजः ॥ ३९ ॥
 राक्षसोऽवददेतस्य तादृशी नास्ति योग्यता ।
 यया स्यादीदृशी सिद्धिः किंत्वेषोऽपि त्वदाश्रितः ॥ ४० ॥
 लप्स्यतेऽभीप्सितं सर्वमित्युक्त्वाऽसौ तिरोदवे ।
 तं दृष्ट्वा साधकः सर्वविरतो मन्त्रसाधनात् ॥ ४१ ॥
 कुमारः साधकेनोक्तः सिद्धो मे चेदको भुवम् ।
 येनादिष्टं प्रभुः सेव्यो विश्वचिन्तामणिर्भवान् ॥ ४२ ॥
 कुमारः स्वगृहं गत्वा साधकं मुनिसन्निधौ ।
 अध्यापयन्नमस्कारं स तं सततमस्मरत् ॥ ४३ ॥
 चेटकस्य प्रभावेन कुमारः साधकान्वितः ।
 आम्यन् व्योम्ना जगद्गुह्यं कदाचिन्मिथिलामगात् ॥ ४४ ॥
 या स्फाटिकाधो भवनावतंसैर्हिरण्ययः सप्तभिरासदीप्तिः ।
 जहेऽन्तारिक्षस्थविमानगजवर्षस्य (?) गीर्वाणपुरस्य शोभां ॥ ४५ ॥
 मध्ये वनं तत्र पवित्रमासीच्चैत्यं नमेर्यन्मणिपुत्रिकाभिः ।
 जिनस्य पूजार्थमुपागताभिः रम्यैरामाभिरिवाभिरामम् ॥ ४६ ॥
 कुमारो विस्मितस्तत्र प्रविष्टः प्रतिमां नमैः ।
 विलोक्य विकसद्भक्तः सोत्कर्षमिदमब्रवीत् ॥ ४७ ॥

प्रशमरसनिमग्नं दृष्टियुगमं प्रसन्नं

वदनकमलमङ्कः कामिनीसङ्गशून्यः ।

करयुगमपि यत्ते शस्त्रसम्बन्धवन्ध्यं

तदसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेकः ॥ ४८ ॥

नमिनार्थं नमस्कृत्य चैत्यं पश्यन् कुतूहलात् ।

गान्धारीं देवतां तस्मिन्नेकदेशे ददर्श सः ॥ ४९ ॥

तदर्चां कुर्वती काचित्स्त्री विलोक्य नृपात्मजम् ।

दध्यौ मनसि कोऽप्येषः पुरुषो मधुराकृतिः ॥ ५० ॥

प्राञ्जलिः साऽब्रवीदत्र द्वाग्निद(?) प्रसीद मे ।

निवेद.....[स्वकी]यं नाम च प्रभो ! ॥ ५१ ॥

उपविश्य कुमारोऽपि परानुग्रहसाग्रहः ।

कथयेति समादिक्षत्साधकं दृष्टिसञ्ज्ञया ॥ ५२ ॥

अयोध्यापतिपुत्रोऽयं नन्दनो नाम कौतुकात् ।

भुवं भ्राम्यन्निहायात इति तां साधको व्यधात् ॥ ५३ ॥

सहर्षं साऽब्रवीत्पञ्चपरमेष्ठिप्रभावतः ।

साम्प्रतं मद्भयस्यायाः फलितः पुण्यपादपः ॥ ५४ ॥

तत्तस्याः प्रीतिमाधाय त्वदागमनसम्भवाम् ।

यावदायाम्यहं तावत्त्वयाऽत्रैव प्रतीक्ष्यताम् ॥ ५५ ॥

इत्युक्त्वा सा ययौ शीघ्रं साधकं नन्दनोऽब्रवीत् ।

को हेतुर्यदसौ ज्ञात्वा मत्स्वरूपमगात्कचित् ॥ ५६ ॥

साधकोऽवददन्यत्किं स्त्री काचिदनुरागिणी ।

विशालकुलसम्भूता त्वदागमनमिच्छति ॥ ५७ ॥

तन्निवेदयितुं तस्या हर्षेणैषाऽगमद्भुतम् ।

धन्यानां सम्भवन्त्येव सम्पदो हि पदे पदे ॥ ५८ ॥

स्त्री गत्वा नन्दनोदन्तं राजपुत्र्यै न्यवेदयत् ।

तं श्रुत्वा सा घनध्वानं मयूरीव मुदं ययौ ॥ ५९ ॥

गाढोत्कण्ठा स्त्रिया सार्द्धं साधिरुह्य सुखासनम् ।

चैत्ये तत्राऽऽययौ पूजाव्याजेन सपरिच्छदा ॥ ६० ॥

तां दृष्ट्वा विस्मयस्मेरः स्मरार्त्तिप्रसरादिव ।

मूर्च्छानं धूनयन्ध्रुवे नन्दनः साधकं प्रति ॥ ६१ ॥

युक्तं नक्तं विकासः कुवलय ! कला(?)यस्य वर्ण्यः प्रचार-
 दृच्छन्नश्चन्द्र ! त्वदीयस्त्वमुचितमकृथा विहुमाब्धौ प्रवेशम् ।
 साध्वी धृत्तिर्जलान्तस्तव कमल ! वरः कुन्द ! वासो वने ते
 येनास्या नेत्रवक्राधरकरदशनश्रीभिरस्तारुचिर्वः ॥ ६२ ॥
 राजपुत्री कुमारस्य निरीक्ष्य रमणीयताम् ।
 सखीं प्रति जगादैवं विस्मयाकुलमानसा ॥ ६३ ॥
 कन्दर्प ! त्यज रूपदर्पमधुनाऽनङ्गः प्रसिद्धोसि य--
 युक्तश्चन्द्र ! कलङ्किनो न भवतः सौन्दर्यलक्ष्मीमदः ।
 निस्पन्दाक्षिसहस्रविद्धवपुषः का शक्र ! ते रम्यता
 किं त्वेकः कुरुते ममैष पुरुषः पीयूषवर्षं दृशोः ॥ ६४ ॥
 मुहुः केतकपत्रामैः कटाक्षैरवलोक्य तम् ।
 राजकन्या जगामान्तश्चैत्यं पूजयितुं जिनम् ॥ ६५ ॥
 स्त्रीं निवेद्य कुमारस्य पुरस्तादब्रवीदिदम् ।
 यदौत्सुक्यादगां स्वामिंस्तत्रार्थं शृणु कारणम् ॥ ६६ ॥
 अत्रास्ति नृपतिर्मेघो यो विपक्षमहीभृताम् ।
 स्रोध क्रोधदावाग्निं प्रकृष्टत * * * * * ॥ ६७ ॥
 तस्य देव्या जयावल्याः कुक्षिशुक्तिसमुद्भवा ।
 पुत्री मुक्तावली नाम जज्ञे क्षोणिविभूषणम् ॥ ६८ ॥
 इयं सा बाल्यमुल्लङ्घ्य क्रमाद्विद्यास्वधीतिनी ।
 वर्द्धिष्णू रूपधेयर्द्धेः पावनं यौवनं ययौ ॥ ६९ ॥
 अन्यदा घननिर्मुक्तघननीरौघनिर्भराम् ।
 कौतुकान्नगरासन्नां * * * * * दियम् ॥ ७० ॥
 तत्रास्ति मिलितो लोकः प्रचुरस्तटयोर्द्वयोः ।
 तामभ्रंलिहकल्लोलां विलङ्घयितुमक्षमः ॥ ७१ ॥
 ततः परतदान्नाद्याः काचिदागन्तुमङ्गना ।
 ऐच्छदूर्वाक्तटे यावत्तावद्दे मिलिते तटे ॥ ७२ ॥
 तेन मार्गेण साऽऽगत्य सत्वरं स्नेहनिर्भरा ।
 मिलिताऽर्वाक्तटे सख्याः सर्वो लोकश्च विस्मितः ॥ ७३ ॥
 तां राजतनयाऽपृच्छद्भद्रे ! किमिदमद्भुतम् ।

* आदर्शयुक्तकल्पपत्रस्य मुद्रितांशत्वेन सङ्गितोऽयं पाठः । एवमपि ज्ञेयम् ।

साऽचीकथदिहैवास्ति [॥ ७४ ॥]

..... [१]

दत्तस्याहं सुता सोमा बाल्यान्मे विमला सखी ॥ ७५ ॥

कदाचिदनया सार्द्धं साध्वीनां सन्निधिगता ।

श्रुत्वा पञ्चनमस्कारं सप्रभावमपाविषम् ॥ ७६ ॥

परिणीता पुरेऽन्यत्र ततोऽद्याहमिहागमम् ।

विमलामन्यतीरस्थां दृष्ट्वात्कण्ठापराऽभवम् ॥ ७७ ॥

प्रविविक्षुर्नदीं पञ्चनमस्कारमचिन्तयम् ।

तत्प्रभावादुभे नद्या [॥ ७८ ॥]

.....यः ।

इहलोकेऽप्यहो पञ्चनमस्कारः सुभावहः ॥ ७९ ॥

अहं सा विमलासार्द्धं महाराजसुताऽप्यसौ ।

साध्वीनां सन्निधिं गत्वा नमस्कारमशिक्षत् ॥ ८० ॥

चैत्ये चात्र समागत्य प्रत्यहं तमचिन्तयम् ।

ततः प्रभृति मे सख्यं राजपुत्र्या सहाऽभवत् ॥ ८१ ॥

अन्यदा कः पतिर्मे स्यादिति चिन्तां व्यधादियम् ।

गान्धारी देवताऽवोचत् स्वप्ने राजसुतामिदम् ॥ ८२ ॥

अयोध्याधिपतेः पुत्रो नन्दनः स्यात्पतिस्तव ।

इत्याकर्ण्य परां प्रीतिं लेभे साऽचीकथञ्च मे ॥ ८३ ॥

अमुमर्थमविज्ञाय पित्राऽसौ प्रतिपादिता ।

कौशान्बीपतिपुत्राय सूरसेनाय सादरम् ॥ ८४ ॥

चतुरङ्गचमूयुक्तः स वोढुं मामिहागतः ।

रजन्यामद्य लग्नं चेत्याकर्ण्येयमखिद्यत् ॥ ८५ ॥

न चेन्मे सन्ति भाग्यानि बल्लभो लभ्यते ययैः ।

किं गान्धार्यपि मिथ्या स्याद्यदेवं विदधे विधिः ॥ ८६ ॥

देव्याऽऽदिष्टं पतिं मुक्त्वा न [१]

..... [॥ ८७ ॥]

अजानन्मे पिता चित्तं चर्मचक्षुः करोत्विदम् ॥

दिव्यं चक्षुर्विधिश्चक्रे किं हहेति शुशोच सा ॥ ८८ ॥

तदिमां कुरु सानन्दां कुमार ! स्वपरिग्रहात् ।

इत्युक्त्वा विमला तत्र राजपुत्रीं समानयत् ॥ ८९ ॥

कुमारोऽबोचदाभाति निष्ठुरेव सखी तव ।

न करोति यदातिथ्यं दूरादस्माकमीयुषाम् ॥ ९० ॥

राजकन्याऽभ्यधादन्यत्किम..... [१]

..... [॥ ९१ ॥

इत्युदीर्य सहर्षं सा पुष्पमालां न्यधापयत् ।

सख्या कण्ठे कुमारस्य ताम्बूलं च समार्पयत् ॥ ९२ ॥

कुमारोऽपि निजात्कण्ठाद्वारं सख्या न्यवेशयत् ।

तत्कण्ठे सा सुधासिक्तमिवात्मानममन्यत ॥ ९३ ॥

आगतोऽत्रान्तरे तत्र कञ्चुकीदमुवाच ताम् ।

विवाहलग्नमासन्नमिति त्वां देव्यजूहवत् ॥ ९४ ॥

ऊचे राजसुता स्वामिन् ! किं करोम्ययुना वद ।

कुमारो न्यगदङ्गच्छ विषादं मा कृथाः प्रिये ॥ ९५ ॥

ततो विमलया साद्धीं राजपुत्री गृहं ययौ ।

राजपुत्रोऽपि तत्रागात् सन्ध्यायां साधकान्वितः ॥ ९६ ॥

कृत्वा मुक्तावलीरूपं साधकं तत्र नन्दनः ।

सूरसेनकुमारेण समये पर्यणाययत् ॥ ९७ ॥

स्वयं चेटकदेवेन विहितोद्वाहमङ्गलः ।

कुमारो विमलासाक्ष्ये राजकन्यामुदूहवान् ॥ ९८ ॥

स्वावासं सूरसेनस्तु नीत्वा साधकमभ्यधात् ।

प्रियेऽद्य परिणीय त्वामहं लोकोत्तरोऽभवम् ॥ ९९ ॥

अभ्यधात्साधकः सत्यं जज्ञे लो[कोत्तरो भवान् ।]

..... [॥ १०० ॥]

सूरसेनः सवैलक्ष्यं वभाषे किं भवान्पुमान् ।

स्त्रीरूपं साधकस्त्यक्त्वा वदत्यस्य पुमानहम् ॥ १०१ ॥

सूरसेनोऽभ्यधात्कस्त्वमत्रादिष्टोसि केन वा ।

तेनोक्तं राजपुत्रस्य नन्दनस्यास्मि सेवकः ॥ १०२ ॥

नियुक्तस्तेन चात्रार्थं सूरसेनस्ततोऽवदत् ।

ध्रुवं राजसुतामेतां स एव परिणीतवान् ॥ १०३ ॥

तेनोचे कोऽत्र सं[देहः]..... [१]

.....धुना त्वसौ ॥ १०४ ॥
 इत्यादिष्टैर्भटैर्बद्धः स्वयं न्युदितबन्धनः ।
 आगत्य साधकः सर्वं नन्दनस्य न्यवेदयत् ॥ १०५ ॥
 क्रुद्धः सन्नधहस्त्यश्वरथपत्तिः पुरोऽभ्यगात् ।
 नन्दनेन समं योद्धुं दुस्सहः स्त्रीपराभवः ॥ १०६ ॥
 कन्यया परिणीयान्यमन्यथा मद्रचः कृतम् ।
 इत्यालोच्य पिता मेघस्तस्थौ माध्यस्थ्यमाश्रितः ॥ १०७ ॥
 [1]
सीनः स्वयं साधकमादिशत् ॥ १०८ ॥
 निवारय जवादेनं मिलितक्रोष्टुजागरम् ।
 सोऽपाङ्गालग्रशस्त्रौघो नमस्कारप्रभावतः ॥ १०९ ॥
 क्षणं कृत्वा रणक्रीडां जनयन् जनविस्मयम् ।
 सूरसेनस्य निःशेषां नष्टचेष्टां चमूं व्यधात् ॥ ११० ॥
 केचिदाकृष्टकोदण्डाः केचिदुत्पादितासयः ।
 केचिदुद्धृतकुं.....तस्थुर्निर्विक्रमा भटाः ॥ १११ ॥
 अहो ! महाप्रभावोऽसौ नमस्कर्तुं ममोचितः ।
 यदीयः सेवकोऽप्येवं दिव्यशक्तिर्विजृम्भते ॥ ११२ ॥
 इति ध्यायन्सुराज्ञात्वा साधकेन व्यमोच्यसौ ।
 सूरसेनः सनिर्वेदं नत्वा नन्दनमब्रवीत् ॥ ११३ ॥
 जातः परिभवारम्भे निजशक्तिमजानतः ।
 संरम्भः शरभ्यस्येव घने त्वयि ममाफलम् [॥ ११४ ॥]
 [1]
वेत्युक्त्वा नन्दनेन स सत्कृतः ॥ ११५ ॥
 स्वस्त्रीयां मेघराजेन सूरसेनो विवाहितः ।
 सत्कृत्य वल्लालङ्कारैर्विसृष्टः स्वपुरीं ययौ ॥ ११६ ॥
 दिनानि कतिचित्तत्र धृत्वा मेघेन नन्दनः ।
 सत्कृतो हास्तिकाश्वीयसुवर्णाभरणादिभिः ॥ ११७ ॥
 मेघपार्थिवमापृच्छय गजाश्वरथपत्तिभिः ।
 मुक्तावली गृहीत्वाऽसावयोध्यामागतः [१पुनः ॥ ११८ ॥]
 [1]

गृहीत्वा संयमं कृत्वा तपस्तीव्रं ययौ दीवम् ॥ ११९ ॥
 जिनानर्षेणमत्साधून् कृपया पालयन् महीम् ।
 मुक्तावल्या समं क्रीडन्नन्दनो राज्यमन्वशात् ॥ १२० ॥
 न सिद्धाः पूर्वजानां ये नृपास्तेऽपि वशं ययुः ।
 नन्दनस्य विना यत्नं नमस्कारप्रभावतः ॥ १२१ ॥
 अथ तत्रावधिज्ञानी चन्दनो शुररागमत् ।
 देव्या सार्द्धं दृपो भ..... [॥ १२२ ॥
नो बभूव वां (?) ।
 पूर्वाभ्यासान्द्रपोऽवादीत्कथं शुररभाषत ॥ १२३ ॥
 इहैवासीत् पुरोध्याने मिथुनं शुक्रपक्षिणोः ।
 तत्कदाचिन्मुनिं दृष्ट्वा प्रतिभास्यं मुदं ययौ ॥ १२४ ॥
 मुनिर्विज्ञाय तच्चित्तं कृपालुस्तदपाठयत् ।
 परमेष्ठिनमस्कारं तच्च तं नित्यमस्मरत् ॥ १२५ ॥
 शुक्रो मृत्वा भवान् जज्ञे राजन्देवी शुकी त्वियम् ।
 स्मृ..... [॥ १२६ ॥]
 नन्दनश्चन्दनाचार्यपाश्वे सम्यक्त्वमग्रहीत् ।
 देव्या सार्द्धं प्रपेदे च क्रमेण द्वादशव्रतीम् ॥ १२७ ॥
 इति नमस्कृतिमन्त्रफलं विद्वन्नुभयजन्मभवं प्रियया समम् ।
 नरपतिनितरां कृततत्स्मृतिस्त्रिदिवमोक्षसुखानि च लप्स्यते ॥ १२८ ॥
 किञ्चैतज्जगति ख्यातं भृगुकच्छपुरे पुरा ।
 मुनिदत्तं नमस्कारं स्मृत्वा शङ्कुनिका मृता ॥ १२९ ॥
 सिंहलद्वीपभूमर्तुः पुत्री जाता मुदर्शना ।
 श्रावकोक्तं नमस्कारं श्रुत्वा प्राग्जन्म साऽस्मरत् ॥ १३० ॥
 आगत्य भृगुकच्छे सा चैत्यं श्रीसुव्रतप्रभोः ।
 अकारयच्छङ्कुनिकाविहारं.....ताम्बरम् ॥ १३१ ॥
 तत्र गत्वा समं पूज्यैर्जिनं नत्वा मयाऽम्बडः ।
 दण्डनाथः समादिष्टस्तं विहारं नर्व व्यधात् ॥ १३२ ॥
 इति नमस्कारे नन्दन-कथा ॥

परमेष्ठिनमस्कारं स्मरन् भूपतिरभ्यधात् ।
नमस्कारस्य महात्म्यं दृष्टप्रत्ययमेव मे ॥

तथा हि—

स्वर्यं सकलसैन्येन दिग्ग्यात्रा कुर्वतोऽपि मे ।
असिध्यत नार्थोऽनर्थः प्रत्युत कोऽप्यभूत् ॥

अधुना तन्नमस्कारं स्मरतो मम शत्रवः ।

वणिजैरपि जीयन्ते दण्डेशैरम्बडादिभिः ॥

स्वचक्रं परचक्रं वा नानर्थं कुरुते क्वचित् ।

दुर्भिक्षस्य न नामापि श्रूयते वसुधातले ॥

ततस्तमस्मरन्नेवं निद्रां भजति पार्थिवः ।

रात्रिशेषे तु जागर्ति मागधोक्तैर्जिनस्तवैः ॥

सूल-जलोयर-सास-खास-खय-खसर-कवत्थिय,

कुट्ट-गलंत-समत्त-गत्त-कंठ-माल-कयत्थिय,

पडल-समन्निय-नयण-वयण-निविडिर-रुहिर-ज्झर,

अरस-अरोयय-गहिय-अहिय-पसरिय-दाह-ज्जर,

गुररोय-परंपर-पीडिय-विसज्ज-सरीर ति हुंति पर ।

तद्वल्लुक्क-पयड-माहप्प-निहि पासनाहु पुज्जहं जि नर ॥

जंगम-गिरि-सरंभ-रुंभ-कुंभयड-भयंकरु,

मय-जल-परिमल-मिलिय-भसल-कलयल-कय-ढंबरु,

वल-उदग्ग-भग्ग-उद्दाम-दुसुक्करु,

उप्पाडिय-जम-दंढ-चंड-सुंडाउडामरु,

धावंतु वि कोव-करालु करि करइ न किंचि वि नरहं तहं ।

तियसिंद-नमंसिय-पय-कमलु पासणाहु मणि वसइ जहं ॥

गयण-मग्ग-संलग्ग-लोल-कल्लोल-परंपरु,

निक्करुणुक्कड-नक्क-चक्क-चंक्रमण-दुहंकरु,

उच्छलंत-गुरु-पुच्छ-मच्छ-रिंछोलि-निरंतरु,

विलसमाण-जाला-जडाल-बडवानल-दुत्तरु,

आवत्त-सयायलु जलहि लहु गोपड जिम्ब ते नित्थरहि ।

मीसेस-वसण-गण-निट्ठवणु पासनाहु जे संभरहि ॥

हर-गल-गवल-तमाल-भसल-कज्जल-कालप्पहु,

कुविय-कयंत-चवेड-वियड-फड-फुक्क-भयावहु,
 तरल-ललंत-दु-जीहु जीव-कवलण-कय-भोगणु,
 मुत्ति-मंत तं पाव-पुंज गंजारुण-लोयणु,
 पसरन्त-रोस-भरु निम्भरु वि न भउ शुअंगसु तसु करइ ।
 तुह पासनाह दुह-निदलणु नाममंतु जो संभरइ ॥
 तडि-कडार-केसर-कडप्प-टिविडिक्किय-कंधरु,
 गय-भय-हरण-रउह-सइ-प्रुरिय-गिरि-कंदरु,
 निविड-चवेडा-दलिय-दरिय-मयगल-कुंभत्थलु,
 कुडिल-दाट्ट-दुपेच्छु पुच्छ-अच्छोडिय-महियलु,
 तसु फुडु फुलिंनयणु दूरिण केसरि उसरइ ।
 उदाम-उवइव-विइवणु पासनाहु जो मणि धरइ ॥
 उल्लसंत-जाला-कलाव-कवलिय-गयणंगणु,
 पसरिय-फार-फुलिंग-संग-डु-गुणिय-तारा-गणु,
 वित्थरंत-धूमंधयार-संरुड-दियंतरु,
 इज्झमाण अपमाणं पाणि विरसा-रव-निम्भरु,
 पज्जलंघु-जलणु जलु पूरु जिम्ब तसु संतावु न संजणइ ।
 दुह-पुंज-कुंज-भंजणु पवणु पासनाह जो संथुणइ ॥
 सगुडु-स-घयवड-गडपदंत-गय-षडषडणुकडु,
 पहरण-निवह-विहत्थ-हत्थ-अठ्ठिभडिय-भडुम्भडु ,
 तुरय-खुर-क्खय-खोणि-रेणु-भर-कुंचिय-नहलु,
 पयडिय-तंडव-रुंड-मुंड-मंडिय-महि-मंडलु,
 नित्थिरिवि समर-संमहु नर तिजय-लच्छि निच्छइं लहहि ।
 पहु पासनाह निम्मल-चरिय जे तइं चित्ति समुब्बहहि ॥
 हरिण-हरिस-संहरण-सइ-सहुल-डुहावह,
 तक्कर-चक्क-मुसिज्जमाण-माणव-घण-विग्गह,
 भीम-भिल्ल-दुल्लंघ-लील-परिसक्किर-करि-कुल,
 भमिर-भूय-झोटिग-जक्ख-रक्खस-सय-संकुल,
 खेमेण महाडवि उत्तरिवि ते नर पाविहि निय-सरणु ।
 पहु पासनाह कालिमल-हरण पइं पडिवज्जहि जे सरणु ॥
 ततः पञ्चनमस्कारघर्मस्मरणपूर्वकम् ।
 वन्दित्वा पार्थिवो देवान् भवोद्विग्नोऽभ्यधादिदम् ॥

हहा ! विषयपङ्कौघमग्नस्तिष्ठति मादृशः ।
धन्यो दशार्णभद्रः स राज्यं तत्याज यः क्षणात् ॥

तद्यथा—

प्राकारप्रचराकारं पुरुषं परिखाऽङ्गना ।
यत्रोर्मीदोर्भिरालिङ्ग्य तस्थौ घनरसोल्बणा ॥
अस्त्यत्र भारते क्षेत्रे तद्दशार्णपुरं पुरम् ।
एलकाक्षमिति प्रोक्तं तद्यथा कथ्यते तथा ॥
जिनधर्मैर्बहिर्धृतस्तत्र कश्चिद्भूद्राणिक् ।
वको हंसीमिवायोग्यः आविकामुदुवाह सः ॥
सा सन्ध्याचक्ष्यकं कृत्वा प्रत्याख्याद्रात्रिभोजनम् ।
पतिः प्रोचे किमेतेन प्रत्याख्यानेन सुन्दरि ! ॥
किं रात्रौ कश्चिदुत्थाय भुङ्क्ते इत्यहसत्स ताम् ।
सोऽन्यदोचेहमप्यद्य प्रत्याखामि निशासनम् ॥
नाथ ! भक्ष्यसि तत्त्वं मा प्रत्याख्या इति साऽवदत् ।
भर्त्रोक्तमहमुत्थाय रात्रावधि किमन्यदा ॥
आविकां प्रहसत्येष तत्पश्याम्यस्य निश्चयम् ।
इत्येका देवता दध्यौ धर्मः कस्य न हि प्रियः ॥
तत्रैवासीत् स्वसा तस्य तस्या रूपेण देवता ।
आनिन्ये भोजनं रात्रौ भ्रातर्भुङ्क्वेति चाभ्यघात् ॥
तदासौ भोक्तुमारंभे निषिद्धो भार्ययाऽवदत् ।
किमेभिस्तावकैर्वाक्चैर्दिव्यं मुञ्चामि भोजनम् ॥
ततस्तलप्रहारेण देव्या तस्याक्षिगोलकौ ।
पातितौ आविका वीक्ष्य मापकीर्तिर्ममास्त्विति ॥
विचिन्त्य पत्युः क्षेमार्थं कायोत्सर्गेण सा स्थिता ।
न पत्यौ प्रतिकूलेऽपि प्रतिकूलाः कुलस्त्रियः ॥
अर्द्धरात्रे समागत्य आविकां देवताऽवदत् ।
किं कार्यमिति साऽवोचन्ममेदमयशो हर ॥
व्यापादितस्य तत्कालमेलकस्याक्षिणी ततः ।
देव्या शिघ्रं समानीय सजीवे तस्य योजिते ॥
प्रातर्लोकस्तमप्राक्षीहेलकस्थेव..... [।]
.....रात्रिवृत्तान्तं स न्यवेदयत् ॥

अहो ! धर्मस्य माहात्म्यमिति जल्पन् सविस्मयः ।
 स चान्यस्वजनः प्रायो जिनधर्ममशिश्रियत् ॥
 तं द्रष्टुं कोतुकाह्लोको भूयानागमदन्यतः ।
 कुत्र यासि कृतो वाऽगा इति पृष्टः स चावदत् ॥
 एलकाक्षोऽस्ति यत्रेति तद्दशार्णपुरे ततः ।
 एलकाक्षमिति प्रोक्तमेलकाक्षस्य योगतः ॥
 आसीन्वृपस्तत्र दशार्णभद्रो यस्य प्रतापेन यशोयुतेन ।
 विसर्धिणाऽकारि दिग्गङ्गानानां मौक्तिकस्वर्णविभूषणश्रीः ॥
 तस्य पञ्चशतान्यासन् पत्नीनां पद्मचक्षुषाम् ।
 चन्द्रसोदरवक्राणां चामीकरसमत्विषाम् ॥
 स निजैश्वर्यसौन्दर्ययौवनान्तपुरादिभिः ।
 उन्मदिष्णुमना मेने न तृणाय जगत्त्रयम् ॥
 अथ तत्र महावीरश्चैलोक्यालोकभास्करः ।
 दशार्णस्य गिरैः कूटे भगवान् समवासरत् ॥
 श्रुत्वा दशार्णभद्रस्तमिति हृष्टो व्यचिन्तयत् ।
 तं वन्दिष्ये तथा प्रातर्यथाऽवन्दत् नापरः ॥
 ततोऽसौ तुङ्गमातङ्गतुरङ्गरथपत्तिभिः ।
 शुद्धान्तेन च सर्व्वर्द्ध्या निर्गतो वन्दितुं जिनम् ॥
 विज्ञाय तदभिप्रायं वृत्रशत्रुरचिन्तयत् ।
 अहो ! ऋजुरयं राजा यदेवं विदधे मदम् ॥
 तस्यावलेपलोपाय सर्व्वदिव्यद्विंसंयुतः ।
 अगादैरावणारूढो महावीरं विवन्दिषुः ॥
 दन्तानैरावणस्याष्टौ वैक्रियान्मघवाऽकरोत् ।
 तेषु प्रत्येकमष्टाष्टवापीः शक्रो विनिर्ममे ॥
 अष्टावष्टौ सरोजानि वापीषु विदधे हरिः ।
 पत्राण्यष्टाष्टपद्मानां रचयामास वासवः ॥
 पत्रे पत्रे सहस्राक्षः कृतलोककुतूहलैः ।
 दिव्यैर्द्वात्रिंशता पत्रैर्निबद्धं नाटकं व्यधात् ॥
 एवमैरावणारूढस्तिस्त्रः कृत्वा प्रदक्षिणाः ।
 भगवन्तं महावीरं नमश्चक्रे पुरन्दरः ॥

गजस्य नमतो मग्ने तस्मिन्नग्रपदे यतः ।
 गजाग्रपदकः ख्यातः स दशार्णगिरिस्ततः ॥
 दृष्ट्वा दशार्णभद्रस्तं स्वःपते ऋद्धिमद्भुताम् ।
 दध्यौ हा ! ऋद्धिरिन्द्रार्द्धलक्षांशेनापि नास्ति मे ॥
 तत्कूपभेकतुल्योहसृद्धिगर्वं मुघा व्यधाम् ।
 ह्यं हि मत्तवामाक्षी लोचना बत चंचला ॥
 अनेकक्लेशसाध्यासौ मुखमात्रसुखावहा ।
 खलमानुषमैत्रीव परिणामेऽतिदारुणा ॥
 धिगृद्धिं गृद्धिमन्तीऽस्यां यज्जीवा यान्ति दुर्गतिम् ।
 यत्कर्णत्रोटनायालं सुवर्णेनापि तेन किम् ॥
 इत्यालोच्य परित्यज्य राज्यं तृणमिव क्षणात् ।
 दीक्षा दशार्णभद्रेण जगृहे जिनसन्निधौ ॥
 नत्वा शकस्तमाचष्टे धन्योऽसि ध्रु वचो कृथाः ।
 अहं हि महतीमृद्धिं त्वां जिगीषुरदर्शयम् ॥
 त्वं तु सर्वं परित्यज्य श्रीवीरं वन्दसे यथा ।
 सा व्रतर्द्धिः कृतो मेऽस्ति ततो मां जितवानसि ॥
 इति विषयविरक्तचित्तवृत्ति-
 विरचितवीरजिनोपदिष्टकृत्यः ।
 दशविधयतिधर्मकर्मवान् स-
 न्नभजत धन्यदशां दशार्णभद्रः ॥
 इति दशार्णभद्रकथा ।

एवं कुर्वन्नहोरात्रकृत्यानि परमार्हतः ।
 कुमारपालदेवोऽयं राज्यं पालयति क्षितौ ॥
 नृपस्य जीवाभयदानडिण्डिमै-
 र्महीतले नृत्यति कीर्तिनर्तकी ।

 ॥

द्यूतासवादीनि नृणां निषेधा-
 दिहैव ससव्यसनानि भूपः ।
 दुष्कर्मतो दुर्गतिसंभवानि

परत्र तेषां, त्वमितानि तानि ॥
 पदे पदे भूमिशुजा निवेशितै-
 जिनालयैः काञ्चनदण्डमण्डितैः ।
 निवारिता वेत्रधरीरिवोद्धतैः
 स्फुरन्ति कुत्रापि न केऽप्युपद्रवाः ॥
 स्तुमस्त्रिसन्ध्यं प्रभुहेमसूरे-
 रनन्यतुल्यामुपदेशशक्तिम् ।
 अतीन्द्रियज्ञानविवर्जितोऽपि
 यः क्षोणिभर्तुर्बर्धित प्रबोधम् ॥
 सन्वानुकम्पा न महीशुजां स्या-
 दित्येष क्लृप्तो वितथः प्रवादः ।
 जिनेन्द्रधर्मं प्रतिपद्य येन
 श्लाघ्यः स केषां न कुमारपालः ॥
 विचित्रवृत्तान्तसमेतमेतयो-
 श्ररिन्नशुत्कीर्तयितुं क्षमेत कः ।
 तथापि तस्येव.....तार्थिना
 समुद्धृतो बिन्दुरिवाम्बुधेर्मया ॥
 इति सोमप्रभकथिते कुमारनृपहेमचन्द्रसम्बद्धे ।
 जिनधर्मप्रतिबोधे प्रस्तावः पञ्चमः प्रोक्तः ॥

इत्याचार्य श्रीसोमप्रभविरचिते कुमारपालप्रतिबोधे
 पञ्चमः प्रस्तावः ।

अथ प्रशस्तिः ।

सूर्याचन्द्रमसौ कृतकृतमसः कर्णावतंसौ क्षिते-
र्धुयौ धर्मरथस्य सर्वजगतस्तत्त्वावलोके दृशौ ।
निर्वाणावसथस्य तोरणमहास्तम्भावभृतामुभा-
वेकः श्रीमुनिचन्द्रसूरिरपरः श्रीमानदेवप्रभुः ॥
तयोर्बभूवाजितदेवसूरिः शिष्यो बृहद्गच्छनमःशशाङ्कः ।
जिनेन्द्रधर्माम्बुनिधिः प्रपेदे घनोदकः स्फूर्तिमतीव यस्मात् ॥
श्रीदेवसूरिप्रमुखा बभूवुरन्येऽपि तत्पादपयोजहंसाः ।
येषामबाधारचितस्थितानां नालीकमैत्रीमुदमाततान ॥
विशारदशिरोमणेरजितदेवसूरेरमू-
त्क्रमाम्बुजमधुव्रतो विजयसिंहसूरिःप्रभुः ।
मितोपकरणक्रियारुचिरनित्यवासी च य-
श्चिरन्तनमुनिव्रतः व्यधित दुःषमायामपि ॥
तत्पट्टवाद्रिसहस्ररश्मिः सोमप्रभाचार्य इति प्रसिद्धः ।
श्रीहेमसूरेश्च कुमारपालदेवस्य चेदं न्यगदञ्चरित्रम् ॥
सुकविरिति न कीर्तिं नार्थलाभं न पूजा-
महमभिलषमाणः प्रावृत्तं वक्तुमेतत् ।
किमुत कृतमुभाभ्यां दुष्करं दुःषमार्या
जिनमतमतुलं तत्कीर्तनापुण्यमिच्छुः ॥
धर्मे निर्मलतामवासुमतुलां श्रीहेमचन्द्रप्रभौ
भक्तिं व्यञ्जितुमद्भुतां भणितिषु द्रष्टुं परामौचितिम् ।
श्रोतुं चित्रकथाश्चमत्कृतिकृतः काव्यं च लोकोत्तरं
कर्तुं कामयसे यदि स्फुटशुणं तद्गन्धमेतं शृणु ॥
प्राग्वाटान्वयसागरेन्दुरसमप्रज्ञः कृतज्ञः क्षमी
वाग्मी सूक्तिमुधानिधानमजनि श्रीपालनामा पुमान् ।
यं लोकोत्तरकाव्यरञ्जितमतिः साहित्यविचारतिः
श्रीसिद्धाधिपतिः कवीन्द्र इति च आतेति च व्याहरत् ॥
पुञ्जस्तस्य कुमारपालनृपतिप्रीतेः पदं धीमता-

मुत्तंसः कविचक्रमस्तकमणिः श्रीसिद्धपालोऽभवत् ।
 क्लृप्तं तद्वसताविदं किमपि यच्चायुक्तमुक्तं मया
 तद्युष्माभिरिहोच्यतामिति बुधा वः प्राञ्जलिः प्रार्थये ॥
 हेमसूरिपदपङ्कजहंसैः श्रीमहेन्द्रमुनिपैः श्रुतमेतत् ।
 वर्द्धमान-गुणचन्द्र-गणिभ्यां साकमाकलितशास्त्ररहस्यैः ॥
 यावन्निहताखिलसन्तमसौ नभसि चकास्तो रविचन्द्रमसौ ।
 तावत्-हेमकुमारचरित्रं साधुजनो वाचयतु पवित्रम् ॥

विमलमतिमुघाचिर्नेमिनागाङ्गजन्मा

ऽभवदभयकुमारः श्रावकः श्रेष्ठिमुख्यः ।

अथ निजकरपद्मप्रासघर्मार्थपद्मा

विजितपदकपद्मा तस्य पद्मीति पत्नी ॥

तत्पुत्रा गुणिनोऽभवन् भुवि हरिश्चन्द्रादयो विश्रुताः

श्रीदेवीप्रसुत्ताश्च घर्मधिषणापात्राणि तत्पुत्रिकाः ।

तत्प्रीत्यर्थमिदं व्यधायि तदुपद्वारागच्छात्मभि(?)—

श्रूयिष्ठानि च पुस्तकानि.....सोऽलेखयत् ॥

शशिजलधिसूर्यवर्षे शुचिमासे रविदिने सिताष्टम्याम् ।

जिनघर्मः प्रतिबोधः क्लृप्तोऽयं गूर्जरेन्द्रपुरे ॥

प्रस्तावपञ्चकेऽप्यत्राष्टौ सहस्राण्यनुष्टुभाम् ।

एकैकाक्षरसंख्यातान्यधिकान्यष्टभिः शतैः ॥



संवत् १४५८ वर्षे द्वितीयभाद्रपदशुदि ४ त्रिंशौ शुक्रदिने श्रीस्तंभतीर्थे

वृहद्ध (वृद्ध) पौषशालायां मट्टा० श्रीजयतिलकसूरीणां उपदेशेन

श्री कुमारपालप्रतिबोधपुस्तकं लिखितमिदं ॥ कायस्य

ज्ञातीय महं महलिकस्युत पेशालिखितं ॥ चिरं नंदतु ॥छ॥

उ० श्रीजयप्रभगणिसष्य (शिष्य)उ०

श्रीजयमंदिरगणि सष्य (शिष्य)

मट्टा० श्रीकल्याणरत्नसूरिगुरु-

भ्यो नमः पं० व (वि)

धारत्नगणि ।

शुद्धिपत्रम् ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
१	१९	लद्धिउं
२	२०-२१	चुज्ज-
६	२६	तम्मि
१०	२६	निव
१०	२७	सुरयम्मि
११	६	गहियाओ
११	९	वज्जरह
११	२२	होहिंति
१३	२९	वेत्तूण
१४	२६	-कूलं
१७	२	जग्गवियविसम०
१७	२८	खगु
१९	९	उज्जितो
१९	२४	-सूरी
१९	२५	वाणा
२०	५	पुरवरं
२१	२	मुहाई
२१	११	सुत्तुं
२१	३०	सहाजउ
२१	३०	च्चिय समग्ग-
२१	३०	लोओवियारकय०
२२	८	-मई वि
२२	९	जयसिहो
२२	३०	हिसा
२३	२०	हृदायद्धिय०
२३	२२	पाउब्भूओ
२३	२३	तिव्वग्ग
२३	३१	-वच्चएणं
२४	२७	वहाओ
२४	२८	सुणिणा

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
२४	२८	कुमार !
२५	२६	सम्मत्तं पुरिसो ।
२६	७	देवयाइपूर्यं
२६	१४	ठंमए
२७	११	मवियव्वया०
२७	३१	विद्धविज्जंतं
२८	२७	मम्मखण०
२९	२०	दिसिवहु०
२९	३०	सागरो
३०	५	सत्तुणो
३०	२६	हणावेइ
३१	३	-जीविउ व्व
३१	१९	वच्चइ
३१	२४	कुणमाणीए सविग्गह्य०
३२	५	उट्टिऊण
३२	२०	जम्वाइउ
३२	२५	पूएउं
३२	२६	वासरेसरे
३२	३१	विन्नायलुत्तंतेण
३५	८	मठप्पा
३५	२९	वसणुत्तिरिभिडिं
३६	८	एत्तो
३६	१०	एवंविई
३७	९-१०	कालक्खेवाऽसहत्तणेण
३७	१५	सेसो
३७	२१	सुरो वि
३८	८	निग्गहेयव्वो
३८	२२	अदिस्सीहोउं
४०	१३	-वग्गं
४०	३०	जओ-मत्तंति

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
४१	८	संपओच्छेयं
४१	२२	विवेक्षणी
४२	२६	पुत्रं
४४	२	रेवईहिं
४४	११	ओ एव०
४४	२९	चूअसाहा०
४४	२९-३०	सुवती
४६	३	पारद्धे उण
४८	२०	निव्युह०
४८	२२	वमहाह०
५२	८	दोळं दोळण०
५३	११	दूअ !
५४	१४	देव !
५४	२९	महा-सई
५५	२०	उक्खाओ
५५	२०	च
५५	२९	सिचंत०
५६	२	वग्ध
५६	९	हरोहिं गुंजतेहिं
५८	२७	तंठवियकरं
५८	२८	-आलो लिहिय०
५९	१३	कयंतीए
६०	२३	-खीरपाणा कंजियं
६१	१२	दहूण
६३	९	मछिनाहे
६३	९	पठळिहिय०
६४	२९	पविडो
६५	२१	-पट्ट
६५	३१	एवविहुओओ
६६	२२	-कठ
६७	२३	सुयग०
६७	२९	उग्वाडिज
६८	१४	वाहियो
६९	२२	वणि

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
७२	५	दहिव०
७२	१२	परिकखा
७३	५	हवठ
७३	९	पुवं व
७६	२०	गुरुहिं
७६	२८	गुवणा पुत्रं
७६	३०	निवारिजठ
७७	२	निर्वधणं
८०	२३	हत्थी वि
८१	१५	-वेसेणं
८२	३	उजेणीए
८२	८	इंदु
८२	१४	जाया पुरीह संती, देइ चउत्थं वरं निवो वत्स ।
		चित्तइ अमयकुमारो चिद्धित्स केधिरं इत्थ ॥
८२	१८	हत्थिहिंमि
८२	२१	आणिओ
८२	२५	विवि-
८३	८	वूइ
८३	१८	आसरहेहिं
८३	२१	कीरह
८४	८	वमिय
८६	७	कुट्टिण०
८७	२	-कुडीओ
८७	२७	अत्ता
८८	३१	-अणया०
९०	३	अग्गी साहियव्वो
९०	९	अकंदिअं
९१	१७	सयंताई
९१	२३	सुयंत०
९२	२०	वारसई
९२	२६	संव
९२	२८	सुंजइ
९३	९	संवाइ०

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
९३	१५	जणद्वय०
९४	५	सुद
९४	१७	सुरासु रंजिय०
९४	१९	आलिगंति
९६	१२	अदिनादाण
९६	१७	छिद्दणेसी
९६	२८	हाहारव
९७	८	विद्वयं
९७	१७	गमिस्वामि
९७	१९	नेमिपासे
९७	२८	ढब्बांति
९८	८	करिहिंति
९८	१९	सच्चविल्लह
९९	१२	सुसह
९९	२०	पलंबकुच्चो
१००	४	नारस
१००	९	नाहा०
१००	२७	—मेसिं
१०१	२२	सुवउ
१०५	२७	कहिजमाणं
१०७	१३	पिव जा दीसह दिसा-पुरंवीणं
१०७	१६	आयसियं
१०७	२९	पडिवज्जिवि
१०७	३०	विरहवि
१०८	८	अहसओ
१०८	१८	नाह०
११२	२४	सुचेसु
११२	३१	परित्थीपरम्महो
११३	२६	जाजीव
११४	२३	जो
११६	१७	दीवे
११६	२४	जसत्तणो
११७	९	—सारमो

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
११८	८	पूएह
११८	१४	—वमाह मणुयत्तं
११९	१९	जावजीवं
११९	२७	ताहँ
१२०	२९	एत्तो
१२१	११	सत्थीह्या
१२१	१३	अज वि सा य अवत्थ
१२१	२०	—वयणाए
१२२	२२	—वाहो
१२३	६	जम्हा
१२३	१६	अवलाहिं व
१२३	२३	जुव्वणत्था
१२४	९	माहवीए
१२५	२०	सुयणु !
१२६	१५	—रुजओ
१२६	२४	वीअं
१२६	२९	रुयंती
१२७	१९	चित्ताहिं
१२८	१४	पत्थणाह
१२९	५	दिट्ठो
१२९	२३	जिणपडिमा
१३१	२	कज्जगाओ
१३१	५	निसवम०
१३१	२८	अत्थाणमंडवे
१३२	२२	विळ्मलो
१३३	३	—निवो
१३५	६	नाहिं
१३५	१९	अंगाई
१३६	२६	पिच्छिरीओ
१३७	१५	सुविणयमिम
१३८	१४	चित्तिवं
१४०	३०	—जाला
१४१	२०	इत्थीरयणा—
१४१	२८	कह्हाणागिहँ

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्	पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
१४२	१५	आमलाजो	१७७	३०	-वाह०
१४३	२१	चउज्वीसं	१७८	७	सो
१४५	२४	रयणज्कारणं	१७८	१५	-बहुद्
१४७	८	चिह्नंति	१८०	५	जिज्ञाहितः
१४७	२६	अभ्यर्णीभूया०	१८१	६	कर्मकवडिया
१४९	१०	अग्नी	१८२	८	पदंताणं
१४९	२०	चिह्ना	१८३	९	वाणो
१५०	२२	जमवत्स०	१८३	९	-महिगिच
१५०	२८	तयविवक्षाए	१८५	२५	तस्सेव
१५०	२९	वितर्हं	१८६	१२	मधु
१५२	२८	चय	१८६	२४	पिब
१५३	८	जस्सेरिसा	१८६	३०	अहोमुह्री
१५४	१६	जंपियं	१८७	३१	तम्मंत-चिता
१५५	२१	नारे	१८७	३७	वीय०
१५५	२९	पियंकरेण	१८७	३१	दुपति
१५५	२२	दुष्टेण	१८८	११	सत्था हव
१५६	४	ता ओसर दिडि०	१८८	२९	देहलि
१५७	१२	विरमित्सह	१८९	७	अभिगाहो
१५७	१९	सिज्जिहिह	१९०	४	गिण्हउ
१५८	२	असोयचंदो	१९०	२१	निवेसिओ
१५९	१३	अवरण्हे	१९४	२६	विहंवेति
१६०	२०	गयवरा०	१९४	२९	सोमसिरी
१६१	६-१५	गुरुसु	१९४	१८	खयं गओ
१६३	१०	जाह	१९५	१७	निक्खमिउमणो
१६४	२६	पगुणीकुण्ह	१९७	८	अट्ठमीचंदमहे र्ख
१६४	२	पज्जतं	१९९	२५	-सब्बास०
१६५	९-१२	-ति	१९९	६	-गंडी
१६७	२५	-जत्ता	२००	८	-गंडि
१६७	२६	-रु०	२००	२५-२५	गुरुहिं
१६७	१८	सति	२००	२९	मत्थउ ज्व
१६९	३	अह	२००	१५	सख०
१७०	१३	-पयाराह	२०१	२९	तप्पभिह
१७१	५	वहुओ	२०३	३०	तमदहुं
१७४	२	अवणयोरोषासु०	२०३	२४	नियसो०
१७६			२०४		

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्	पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
२०७	२८	परिहविज्जउ	२३४	८	कुणह
२०८	३	पयल०	२३८	२५	सिद्धिणो
२०९	२	कप्पसंतुत्ती	२४१	२५	हडेण
२१०	५	सुरूगामे	२४५	२४	सूसह
२१२	१७	चउ०	२४६	३०	विद्धउ
२१३	२९	दुल्लह०	२४७	२९	जमेवविहं
२१५	११	विमइउ	२४८	१७	बाहिं
२१५	१४	करिहामो	२५१	८	सिरीए
२१८	२१	निवा-अगारि०	२५१	२२	बीयजामे
२१८	३१	कुणह	२५१	२७	रितीकाकण
२१९	५	मा हण मा हण	२५३	२	कीरउ
२१९	७	मा हणिहं	२५३	२३	तुट्ठति
२१९	१२	ल्लेह	२५६	११	पहम्मि
२२०	९	कुहुंभ०	२६०	२८	वाह-
२२१	२१	पउमराएहिं	२६१	५	जीवती
२२२	२१	बहुया	२६३	९	कओ
२२२	२५	उवाहणाओ	२६३	१०	-सामिणो
२२३	३-१८-२०	बहुए	२६३	१२	-भुरकुंडियंगो
२२३	२७	सवं	२६४	२६	गरएहिं
२२४	२-६	बहुए	२६५	१२	निय-पुत्तं
२२४	१२	सुद्धीए गहिकण	२६७	२५	वंछसे
२२४	१९	वोलेह	२६८	१२	जंभवईए
२२५	१०	गिणहसु	२७०	२९	अपच्छासिणो
२२५	१८	-कंठम्मि	२७१	२६	विच्छेण
२२६	४	गिण्हह	२७२	३	कोडीसहियं
२२६	२२	उच्छिहं	२७३	३-४-	-हेजा
२२६	२४	मिणिह	२७६	१९	मुत्तं
२२७	२	-मंतिणो	२७७	१२	सुवीव
२२७	२	न थाणीयह	२७८	२२	बीओ
२२७	२३	सिद्धी	२८४	९	माहण्यं
२२७	२३	खड्डा०	२८४	१५	क्षण च
२२८	२१	घरे	२८७	२१	वाहिज्जंति
२३०	२३	अच्छउ	२८९	३०	वाह०
२३२	१०	विक्रमाअसज्जं	२९२	१४	-पडिकंतो

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
२९२	१६	वीरजिणे
२९३	२९	अढावयं
२९४	३	मेहलाप
२९८	१२	उत्राकड०
२९९	१४	-तामरस०
२९९	१७	सच्छ
२९९	१८	सच्छो
३००	४	व्व रोमंचो
३००	८	आगयाण
३००	१८	वाह०
३०१	८	जि वियनखणु
३०१	८	सो जि
३०२	२	मुवरिवची
३०७	१०	सिच्छिहिंति
३०८	२	मुत्तु
३११	१३	धम्मह
३११	२६	अत्राणु
३१२	२	-सुप०
३१२	४	बच्चसु
३१५	२३	पुल्लइउं
३१५	२५	वण्हि०
३१६	२२	दिठ
३२१	३०	समुदलसद्
३२२	८	-कारिण्यः
३२२	२८	व्यजिसपन्न
३२६	८	विभ्रद
३२९	२५	-मत्थियसनेहो
३३१	९	कु वि
३३४	२६	समसीसिं
३३४	२७	पररमणि०
३३६	२७	मुच्यन्ता
३३७	१९	-विस्सुर्जांत०
३३८	३	प्रत्यगाद् भुतम्
३४०	२२	वामना०

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
३४५	२६	महु०
३४६	२८	सत्थीहुओ
३५१	२५	बहुय-विहवो
३५६	९	महु०
३५६	१७	दण्डवच्छे०
३५७	८	-दन्वाच
३५७	१५	चाऽप्राक्षम्
३५७	२९	तत्थ सोऽन्नवीत्
३६१	१७	तहिं
३६२	२९	समारपयत्
३६७	२	एत्थंतरे
३६८	२६	नरिद०
३६९	१७	वच्चिहिइ
३७३	२०	वाह०
३७३	२३	परिणेत्सं
३७४	१३	-पसईओ
३७७	१	देवावकाशिक०
३८१	१२	पवणंजएणेवं
३८१	१८	मणोरमा ।
३८२	२०	सिद्धिणा
३८३	२९	अच्छत्तु
३८४	५	चित्तं गएहिं
३८४	१३	गहिउं
३८६	५	ग्धि
३८७	१९	नवेत्ति
३८९	१४	पयावणो द्विय
३९०	१०	संकडिय
३९०	१३	कुहुवं
३९१	१०	इत्तिएणा०
३९१	२८	निवो
३९२	१०	पच्चक्खीभूया
३९२	११	दंससु
३९२	१३	सत्तु
३९३	२९	सरिउं

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धम्
३९३	३०	निच्छिभं
३९९	४	निमित्त
४०३	१०	पयुदेहि
४०५	६	वियङ्गिमा
४०७	३०	-वहू०
४०८	२	निवहत्त०
४१०	८	-ससुरेसु
४११	१७	सजीकृणसु
४११	२८	किंचि
४१६	२५	कीरते
४२१	५	वहूत्
४२१	१७	खियिस्सं
४२२	१०	वहि०
४२३	१७	ठाडं
४२३	२८	निवेशितो०
४२४	२	चहुद्दह
४२५	१०	मण ! निह्वस्वण !
४२९	२७	वहु
४३०	२३	शुक्लसु
४३१	३	मकत्त
४३७	१०	सो जि
४३८	२४	मतीहि
४३८	२६	वहुयं
४३९	२७	चहुयस्स
४४१	२४	-माणिही
४४३	२१	-दलण-
४४३	२५	-चक्खुसुखो
४४३	३०	विहज्जत्त
४४८	३१	सो चि वि
४४९	१२	-छिद्दाहं
४५१	१२	निउगि कहिह व्व
४५२	५	महुर चएवि
३५६	११	नियंवि

पृष्ठ	प.	शुद्धम्
४५७	२७	का समसीसि
४६१	१५	सुटिवि
४६१	२३	प्राकारः
४६३	१४	कर्त्तव्या अवतिष्ठति
४६४	३	वाञ्छत्ये०
४६४	५	क्षोभं
४६४	२६	-घोभवना०
४६४	२६	-हिरण्यवैः
४६६	१०	निष्पन्दा०
४६७	२४	यकैः
४६९	२८	मुक्तावलीं
४७०	३	नमन्त्सा०
४७०	२०	नरपतिनि
४७१	३	माहात्म्य
४७१	१७	गुरु०
४७१	२९	सयाउल्ल
४७२	१०	-दिट्ठि०
४७२	१७	पज्जलत्तु
४७३	१४	-त्याख्यामि
४७३	१४	-शासनम्
४७४	४	कौत्तु०
४७६	५	वेत्तधरै०
४७७	१४	-पूर्वादि०
४७८	१८	-धर्मप्रतिबोधः

कियता व्रुटितपाठाना कल्पनयाऽनुसंधानमेवम्-

४४३	८	महल्लिय-मह-सेट्ठि- पसुहाण
४६५	१०	द्राग् निषीद प्रसीद मे ।
४६६	१७	प्रकृष्टतर-वारिभिः ॥
४६९	१५	केचिद्बुद्धतकुन्वाप्राः
४७०	२६	स्थगिताम्बरम् ॥

